

आ ग्रंथ तथा अमारा तरफथी प्रथम वहार केलो  
 श्री सुमतिविलास ग्रंथ तत्वग्राहक पुरुषोने एक एकग्रंथ  
 बदल फक्त पोस्टेजना रु. ०-५-० तथा ठ कर्म ग्रंथ ल  
 बदल फक्त पोस्टेजना रु. ०-०-६ पाई प्रथमथी मो  
 द्यथी अमूढ्य जेट तरीके मोकलवामां आवशे. अमार  
 तरफथी थोडा दिवसमां एक नविन ग्रंथ वहार पकवानो ठे.

जे महाशय ग्रंथ प्रगट थवामां मदद तरीके जे कंइ  
 रकम शुज परिणाम युक्त जेट मोकलशे ते बीजा ग्रंथ  
 प्रगट करवामां उपयोगी थशे अने जव्य जीवोने उपका-  
 रनुं निमित्त थशे.

ली० कोदर उगनदाल गांधी.

मुकाम-वेजलपुर.

जिल्हा-पंचमहाल.

स्टेशन-खरसालीआ.

मलवानुं ठेकाणुं.

गांधी. कोदरलाल उगनदाल.

मुकाम-वेजलपुर.

जिल्हा-पंचमहाल. स्टेशन-खरसालीआ.

## प्रस्तावना.

ज्यो ! आ नरतखंरुमां ईस्वीसनथी आशरे सवा पांचसो वरस पूर्वे त्रिलोकपूज्य, धर्मधुरंधर, धर्मतीर्थकर, मोक्षमार्ग प्रकाशक, केवलज्ञान सूर्य, सर्वे द्रव्येना त्रिकालवर्ती पर्यार्यनो प्रत्यक्ष ( हस्ता-मलकवत् ) ज्ञाता द्रष्टा, आत्मीक अव्याबाध अने अनंत सुख वीर्यना स्वामी, अंतिम तीर्थकर श्री वर्द्धमानस्वामी सर्वे दोषथी रहित, अनंत गुण युक्त, आ संसार रूप दुःख समुद्रथी उद्गारी सर्व क्लेशथी रहित अने अनंत परमानंदमय शिव स्थानके दोरनार, स्याद्वादमय अबाध्य सिद्धांत युक्त सातिशय दिव्य ध्वनि वक्ते अज्ञान अंधकारथी आवृत्त अएला ज्यो जीवोना हृदय कमलने विकश्वर करता अनेक कुमति जन्य अनंत दुष्ट कदाग्रहरूप पर्वतने दंजोलीनी पेठे चूरी मोक्षमार्ग शुद्ध करता जैननो विजय वावटो फरकावता गंध हस्तिनी पेठे विचरता हता.

ते समये निकटवर्ती अनेक ऋषिओमां शिरोमणि श्री गणधर देवे जगवत् ज्ञापित संपूर्ण अर्थ धारण करी ज्यो जीवोना हितार्थे द्वादशांग रूप श्रुत रचना करी. तेओश्रीना उत्तरोत्तरे स्याद्वाद द्रव्यानुयोक्त्वा ज्ञाता शुद्धात्म अनुजवी ज्ञान निधान परोपकारी अनेक विद्वान पुरुषोए स्वपर हितार्थे अद्भूत बुद्धिवडे अनेक ग्रंथरत्नो संस्कृत तथा मागधी जाषामां प्रगट कर्या.

ते ग्रंथो अमूढ्य अति उपकारी ज्ञानसमुद्र अने अतिगहन विषयक होवाथी आधुनिक वर्गने मंद बुद्धिवडे तेनो यथार्थ मूल रहस्य अति दुःप्राप्य ठे. एम जाणी तेज जगवद्ज्ञापित वचनो पोताना चित्तमां सन्मानी तेनुं यथार्थ रहस्य पामी न्याय पूर्वक निर्धारी अनुजव गोचर करी तेज सूत्रोने अनुसारे तेमांथी मुख्य उपयोगी मोक्षमार्ग निमित्त नूत शुद्ध व्यवहार प्रदर्शक तथा अध्यात्मिक केटलाक विषयो संदोहन करी सरल गुजराती पद्यमां ज्यो जीवोना परम हितार्थे

अत्यंत करुणावुद्धि ए धर्म प्रज्ञावक तत्त्ववेत्ता “श्री मनसुखद  
रचेखा. तेनो संग्रह करी आ पुस्तक प्रसिद्ध करवामां आवे  
वहोळो विषय शुद्ध व्यवहारनो होवार्थी ते गुण प्रमाणेज साथे  
“ सुमतिव्यवहार ” नाम राखवामां आवेल ठे. आ ग्रंथमां जे  
जे विषयो ठे ते अनुक्रमणिका अवलोकन करवार्थी सहज जणाय  
तेम होवार्थी आ स्थले वर्णन करवा विरसुं बुं.

अवत्रमणना असह्य तापोथी उद्धिअ, अनंत स्वाधिन सुख रूप  
पोतानुं शुद्धात्म स्वरूप ( मोक्ष ) साधवाने तेनो ( मोक्षनो ) साध्य  
सापेक्ष व्यवहार जाणवा आदरवा माटे उत्सुक, न्यायद्रष्टि विनयी  
पुरूषो आ ग्रंथना अधिकारी ठे. सद्गुरूनी गुरूगम वने संसार तापथी  
उद्धिअ थई विषय विकारोथी विराम पामी शुद्धात्म स्वरूपना ग्राहक  
साध्य सापेक्ष शुद्ध व्यवहार जाणी आदरी अनादि अविद्या वने  
ज्ञानावरणादि कर्मथी मलिन थएला सत्तागत सिद्ध समान आत्म  
धर्मने सम्यक् पराक्रम वने प्रगट करी स्वतंत्र अविनाशी परमानंद  
मय अचूतपूर्व ( आगल कोई काले नहि पामेला ) एवंचूत नये  
आत्म सिद्धि पामी सादि अनंतकाल सुधी निःशंकपणे विलास करशे.

आ ग्रंथ मूदायंत्र द्वारा प्रगट करवामां वेजलपुर निवासी  
गांधी कोदरलाल ठगनलाल तथा दाहोद निवासी संतोकचंद माणे-  
कचंदे ग्रहस्थ कार्यमां व्यग्र होवा ठतां लखवा तपासवा सुधारवा  
विगेरेनो वहोळो प्रयास लेई जैन वर्गमां पोतानी प्रवचन चक्ति  
प्रख्यात करी ठे. ए तेउना स्तुति पात्र गुणने मारा तरफथी कोटीशः  
धन्यवाद घटे ठे. वली जे जे चाईउंए आ चव्य जीवोने हितकारक  
ग्रंथ प्रगट करवामां तन मन अने धन वने मदद करी ठे तेउं पण  
धन्यवादाने योग्यज ठे.

आ ग्रंथ ठपावतां प्रसिद्ध कर्ताए सुधारवा विगेरेमां जो के  
पुष्कळ कालजी राखेली ठे ठतां ठग्रस्थ अवस्थाने लीधे प्रमाद वशे

हि गण्डी तेने माटे शुद्धि पत्र आपवामां आवेल ठे ते हे गरी वांचवा माटे वाचकोने नम्र जलामण करवामां आवे उ. ते शुद्धि पत्रमां दर्शाव्या शिवायनी रहेली चूळो जे विद्वान महा- शय न्याय पूर्वक सूत्र अनुसारे प्रसिद्ध कर्ताने लखी जणावशे तेउंनो अंतःकरण पूर्वक आजार मानवामां आवशे अने पुनरावृत्तिमां सुधारी लेवा उपयोगी थशे. वली अल्प मति वने आ ग्रंथमां जे कांइ सूत्र विरुद्ध छेख होय तेनी उपेक्षा करी तत्त्व बुद्धि पुरूषो हंसनी पेठे दूध रूप सत्य अर्थ ग्रहण करशे एज विनंती ठे.

दोहरा—सिद्धि होय जिन आण्थी, वली शुद्ध व्यवहार;  
आण रहित साधन थकी, कोन लहे जव पार.

पण जेउं पोताना मति अजिमानने लीधे श्री केवलज्ञानी रूप सूर्यना वचन रूप किरणनेनो प्रकाश नहि खमी शकता घुवनी पेठे अवज्ञा करी श्री जिनेश्वरना पवित्र वचनोना फेलावमां सूत्र विरुद्ध खोटी युक्तिउं साधी अंतराय करशे तेउं निविड ज्ञानावरण तथा दर्शनावरणनो बंध करशे. उक्तंचः—प्रथम कर्म ग्रंथे.

गाथा—पणिणीअत्तण निन्हव, उवघाय पउंस अंतरणणं ॥  
अच्चासायणयाए, आवरणं दुगं जिअो जयई ॥

अर्थः—(१) मति श्रुत प्रमुख पांच ज्ञाननी तथा ज्ञानवंतनी तथा ज्ञानोपकरण पुस्तकादिकनी प्रत्यनिकता एटले अनीष्टपणुं प्रतिकूलपणुं करवुं जेम ज्ञान ज्ञानवंतने माहुं थाय तेम करे.

(२) तथा निन्हव एटले जेनी पासेथी जण्यो होय ते गुरुने ओलवतां तथा जाण्थाने अजाण्थुं कहेतां.

(३) तथा ज्ञानवंत तथा ज्ञानोपकरणनो उपघात एटले अग्नि शस्त्रादिके करी विनाश करतां.

- ( ४ ) तथा ज्ञानवंत उपर तथा ज्ञानोपकरण उपर प्रद्वेष करतां अंतरंग अरुची, मत्सर धरतां.
- ( ५ ) जणताने अंतराय एटले अन्न, पाणी, वस्त्र, वस्ती निषेधतां, कार्यांतरे जोडतां, वात्तांतरे लगावतां, पठन विष्टेद करतां.
- ( ६ ) ज्ञानवतंनी अति आशातना करतां, ए हीण जाती ठे इत्यादिक मर्म ठेदवे करी, आल देवे करी, प्राणांत कष्ट देवे करी तथा आचार्य उपाध्यायने अविनये मत्सर करतां, अकालें सप्राय करतां, योगोपधान हीण जणतां, असप्राये सप्राय करतां, ज्ञानोपकरण पासे ठेते त्यां लघुनीति, वडीनीति, मैथुन करतां, पग लगाडतां, थूंक लगाडतां, ज्ञान ड्रव्य विनाशतां, विणशतो उवेखतां ज्ञानावरण कर्म वंधाय. तेमज दर्शनावरण पण दर्शन प्रत्यनीकतादिक दोपे करी वंधाय. पण एटलुं विशेष जे दर्शन एटले चहु, अचहु प्रमुख दर्शनी साधु तेनी पांचे ईद्रियो उपर विरुओ चिंतवतां तथा सम्मति, तत्त्वार्थ, नयचक्रवालादिक दर्शन प्रजावक शास्त्र तेनां पुस्तक ते उपर प्रत्यनीकतादिक समाचरतां थकां दर्शनावरण कर्म वंधाय एम आवरण वंध हेतु वेना कह्या.

सर्वे जव्य जीवने पोतानी शुद्धात्म शक्ति प्रगट करवामां आ ग्रंथ पूर्ण निमित्तचूत निवकी अनंतकाल सुधी स्थिर रहो.

ली० जिन चरणांबुज सेवक,

गांधी नाथजी मोरारजी

मुकाम वेजलपुर, पंचमहाल.



## अनुक्रमणिका.

विषय.	पान.
उत्तराध्ययनना अष्टावीशमा मोक्षमार्ग नामना ध्यअ- यनना सारनी ढालो.	१-८.
मंगलाचरण दोहरा.	१.
ज्ञान दर्शन चारित्र अने तपनी शुद्धि ए मोक्ष मार्ग तथा ज्ञान अधिकारनी ढाल १ ली.	२.
दर्शन अधिकारनी ढाल २ जी.	३.
चारित्र अधिकारनी ढाल ३ जी.	५.
तप अधिकारनी ढाल ४ थी.	७.
उत्तराध्ययनना सम्यक्पराक्रम नामना श्रोगणत्रीशमा अध्ययनना सारनी ढालो. संवेगादि तोत्तेर बोले पराक्रम बजावी सुगम रीते मोक्षमार्ग साधी शकाय ते विषे.	ए-३१.
मंगलाचरण दोहरा.	ए.
संवेगादि तोत्तेर बोलेना नाम ढाल १ ली.	ए.
संवेग, निर्वेद अने धर्मश्रद्धा विषे ढाल २ जी.	१२.
गुरुसाधमीसुश्रुषा, दोषश्लाघेचना तथा निजदूषण निंदा विषे ढाल ३ जी.	१३.
गर्हा, सामायिक, चोवीशजिनस्तुति, द्वादशावर्त्त गुरु वंदन तथा प्रतिक्रमण विषे ढाल ४ थी.	१५.
कायोत्सर्ग, प्रत्याख्यान, थोयस्तुति, कालप्रतिलेखना, प्रायश्चित्त तथा क्षमाक्षमावना विषे ढाल ५ मी.	१६.
स्वाध्याय, वाचना, पृष्ठना, पर्यट्टना, अनुप्रेक्षा, धर्म- कथा, सूत्रआराधना तथा एकाग्रतत्त्वविचार विषे ढाल ६ ठी.	१७.

विषय	पान
संयम, तप, वोदाण, गुरुसुखशाता संज्ञाल, अप्रतिबंध- विहार, विविक्तशय्यासनसेवन, विषयविनिवर्त्तना, संज्ञोगप्रत्याख्यान तथा उपधिप्रत्याख्यान विषे ढाल ७ मी तथा दोहरा.	१७.
आहारप्रत्याख्यान, कषायप्रत्याख्यान, योगप्रत्या- ख्यान, शरीर प्रत्याख्यान, सहायप्रत्याख्यान, नक्तप्रत्याख्यान अने सज्ञावप्रत्याख्यान विषे ढाल ७ मी.	२०.
प्रतिरूपना, वैयावृत्य, सर्व गुणसंपन्नता अने वीतरा- गता विषे ढाल ए मी.	२१.
क्षांति, मुक्ति, महव, अज्ञाव अने ज्ञावसत्य विषे ढाल १० मी.	२३.
करणसत्य, योगसत्य, मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, काय- गुप्ति, मनसमाहारणा, वयणसमाहारणा, अने कायसमाहारणा, विषे ढाल ११ मी.	२४.
ज्ञानसंपन्नता, दर्शनसंपन्नता अने चारित्रसंपन्नता विषे ढाल १२ मी.	२६.
श्रोत्रेन्द्रियनियग्रह, चक्षुरेन्द्रियनियग्रह, घ्राणैन्द्रिय- नियग्रह, जोव्हाईन्द्रियनियग्रह अने स्पर्शेन्द्रियनियग्रह विषे ढाल १३ मी.	२७.
क्रोधविजय, मानविजय, मायाविजय, लोचविजय, प्रीति, द्वेष, मिथ्यादर्शनविजय, शैलेशीज्ञाव अने अकर्मता विषे ढाल १४ मी.	२९.
कलश	३१.

श्री अनाथी मुनिनी सज्ञायनी ढालो. जेमां श्रेणीक  
राजाने परम पदनो उपदेश करेलो ठे. ३२-३७.

- अनाथी मुनि तथा श्रेणीक राजानो समागम अने  
अनाथपणानुं स्वरूप ढाल १ ली. ३२.
- आत्म स्वरूप उपदेश-कर्ता, अकर्ता, जोक्ता,  
अजोक्ता, सामायिक, प्रत्याख्यान, संयम, वैत-  
रणी, कूरुशामली, शत्रु, मित्र, अरिहंतादि  
नवपद तथा द्वांत्यादि दश धर्म विषे ढाल २ जी. ३४.
- सनाथपणानुं तथा सुगुरु कुगुरुनुं स्वरूप ढाल ३ जी. ३५.
- अनाथी मुनि प्रत्ये श्रेणीकनी वंदना तथा द्दमावना  
ढाल ४ थी. ३६.
- श्री केशीस्वामी, तथा श्री गौतमस्वामीनो प्रश्नोत्तर.  
जेमां प्रथम, चरम अने बावीश जिनना वारामां साधु लिंग  
आदिमां तफावत तथा केशीस्वामीए श्री गौतम प्रत्ये  
परमोत्तम प्रश्न पूह्या तेना उत्तर विषे अधिकार ३७-४७.  
विहार करतां श्री केशीस्वामी तथा गौतमस्वामीनो  
सावत्थी नगरीमां पोताना परिवार सहित तिंदूक  
उद्यानमां समागम विषे ढाल १ ली. ३७.
- प्रथम जिनने तथा चरम जिनने पांच महाव्रत  
अने बावीश तीर्थकरोना साधुउने चार महाव्रत  
तथा लिंगादिमां तफावतनुं कारण शुं? ढाल २ जी. ४०
- अनंत शत्रुओने एकदाए शी रीते जीत्या? तेनो  
उत्तर तथा जगत्वासी जीवो सर्वे कया पाशवडे  
बंधायेला ठे तथा ते पाशने ठेदी तमे कइ रीते  
सुखे विचरो ठे. तथा जेरी लता घणी फेदी ठे  
अने तेनां विषफल जोगवी जगजंतु बहु दुखी-  
या थाय ठे तो ते जेरी लता कइ? अने तेने  
मूलथी उखेदी तमे केवी रीते सुखी थया?



तेनो उत्तर. तथा आकरी प्रदित अग्नि कइ अने कई रीते वूजावी तमे सुखी थया ? तेनो उत्तर. तथा डुष्ट, उन्मत्त, साहसिक अश्वने उन्मार्गथी वाली वश करी ते उपर आरूढ अई तमे सुकामे आव्या तै अश्व कयो अने शी रीते वश कयो ? तेनो उत्तर ढाल ३ जी.

४२.

कुमति हठीलाओए चलावेला उन्मार्गथी बची तमे निर्णय मार्गे शी रीते आव्या ? तेनो उत्तर. तथा मोटा जलना वेगमां बहु जीवो वूढे ठे, तेथी बचवाने कयो छीप ठे ? अने ते निर्णय स्थानकमां शी रीते आव्या ? तेनो उत्तर. तथा सडिद्र नाव कयुं ? कै जेथी जीवो वूडे ठे ? अने ते डिद्र बंध करी, निर्णय नावमां वेशी, कई रीते स्थानके आव्या ? तेनो उत्तर. तथा घोर अंधकारमां घणा जीवो मुंजाई रखाठे तेने उद्योत आपनार कयो सूर्य ठे ? तेनो उत्तर ढाल ४ थी.

४४.

शारीरिक, मानसिक दुःखे बंधाएला पीडाता अनेक प्राणाओ ठे. पण ज्यां शारीरिक मानसिक आदि दुःख आवे नहि एवुं अव्यावाध स्थानक कयुं ठे ? तेनो उत्तर तथा ए प्रश्नोत्तर सांजली देव मनुष्यादि खुशी प्रशन्न थया अने गौतम तथा केशीनी विशाल स्तुति करी ते विषे ढाल ५ मी.

४६.

सर्वे प्रश्नो नो संक्षिप्तार्थ ढाल ६ छी.

४७.

तेर क्रियानी सप्रायनी ढालो.

४८-५८.

तेर क्रियानां सामान्य नाम तथा अर्थदंड तथा बीजी अनर्थदंरु क्रियानुं सविस्तर स्वरूप ढाल १ ली.

४९.

हिंसादंरु नामे त्रीजी क्रिया तथा अकस्मात्तदंड  
नामे चोथी क्रिया तथा द्रष्टिविपर्यास नामे  
पांचमी क्रियानुं सविस्तर स्वरूप ढाल २ जी.

५०.

ठठी मोसवत्ती क्रियासमादान तथा सातमी अदि-  
नादान क्रियासमादान तथा दुष्टअध्यवसाय  
नामनी आठमी तथा मान प्रत्ययनी क्रिया  
नवमीनुं सविस्तर स्वरूप ढाल ३ जी.

५१.

दशमी मित्रद्रोहवत्ती तथा अश्यारमी मायवत्ती  
क्रियानुं सविस्तर स्वरूप ढाल ४ थी.

५४.

लोचवत्ती नामनी बारमी क्रियानुं स्वरूप ढाल ५ मी.

५६.

तेरमी ईर्यापथ्यनि क्रियानुं सविस्तर स्वरूप ढाल ६ ठी.

५७.

गणधरो जे चोवीश बोल जाणी सूत्र रचे तेनी ढालो. ५९-६३.

चोवीश बोलनां सामान्य नाम ढाल १ ली.

५९.

उत्पाद्, व्यय, ध्रौव्य तथा हेय, ज्ञेय, उपादेय तथा  
निश्चय, व्यवहारनुं सविस्तर स्वरूप ढाल २ जी.

५९.

विधिवाद, चरितानुवाद, यथास्थितवाद तथा  
धर्मपद्द, अधर्मपद्द अने मिश्रपद्दनुं सविस्तर  
स्वरूप ढाल ३ जी.

६१.

द्रव्य, क्षेत्र, काल, चाव तथा उत्सर्ग, अपवाद तथा  
उत्सर्गापवाद तथा अपवादनुं स्थापन उथापन  
तथा उत्सर्गनुं उथापन स्थापन तथा उत्सर्गापवाद  
बंनेनुं उथापन स्थापननुं सविस्तर स्वरूप ढाल ४ थी.

६१.

जिनेश्वरे प्ररूपेलुं आगम वत्रीश दोष रहित होय ठे  
ते विषे ढालो. ६३-६५.

अलिकवचन दोष, जीवउपघात दोष, निरर्थक दोष,  
अनवस्था दोष, अश्रुत्ववचनदोष, दुहिल-

दोष, निस्सार दोष, अधिक उच्चार दोष, पद अने अर्थनी उणतादोष, पुनरुक्तिदोष, पूर्वापरविरोधदोष, अयुक्तवचनदोष, क्रमजिन्न दोष, वचन जिन्न दोष, लिंग जिन्न दोष तथा विनक्ति जिन्न दोष, ए शोल दोषोनुं स्वरूप ढाल १ ली.

६३.

तथा अणजिहित दोष, अपद दोष, स्वभावविहीण दोष, व्यवहित दोष, विपरितकालउच्चारण दोष, जति दोष, ल्यवी दोष, समयविरुद्ध दोष, वयणमित्त दोष, अर्थापत्ति दोष, अयुक्तसमास दोष, विपरित उपमा दोष, रूपक दोष, निर्देश दोष, पयत्थ दोष, पदसंधि विपरित दोष, ए प्रकारना शोल दोषोनुं स्वरूप ढाल ३ जी.

६४.

कलश—ढाल ३ जी.

६५.

क्रोधादि चौद स्थानके वर्त्ततो अविनयी जीव धर्म पामे नहि ते विषे सप्राय.

६६.

लघुतादि पंदर स्थानके वर्त्ततो विनयी जीव धर्म पामे ते विषे सप्राय.

६७.

गर्व, क्रोध, प्रमाद, रोग अने आलस ए पांच स्थानके वर्त्ततो जीव श्रुतलाज न पामे ते विषे सप्राय.

६८.

सहनशिल, इन्द्रियदमी, परना मर्म नहि खोलनार, कुशिल वर्जनार, गुरुआणा न चूकनार, विषयनो अलोलपी, क्रोध त्यागी अने सत्यवादी ए आठ स्थानके वर्त्ततो जीव, गुरुशिद्धानो लाज लई शके ते विषे सइज्ञाय.

७०.

आमोसही आदि अछावीश लब्धिनुं स्तवन.

७१.

सद्बोध दायक एकसो आठ दोहरा.

७२-७१.

गुणावली. (घहुंलीओ)	८१-९६-१३४-१३५.	
घहुंली १ ली. विनय विषे. ( रत्नत्रय आराधवा )		८१.
घहुंली २ जी. आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदिनी तथा निर्वेदिनी, ए चार प्रकारे कथा तथा उद्देश, समुद्देश, अनुज्ञा अने अनुयोगना स्वरूप विषे. ( श्रुतपद सेवो हे सुजनी )		८२.
घहुंली ३ जी. जिनवाणी वर्णन. ( विमल जिन वाणीरे )		८३.
घहुंली ४ थी. जिनवाणी वखाण. ( श्री देविंद्र ईंद्रगण )		८५.
घहुंली ५ मी. विनय विषे. ( विनय नित सेवोने )		८६.
घहुंली ६ ठी. जिनवाणी स्तवना साध्यसाधना विषे. ( दर्शन दीजे दर्शन दायक )		८७.
घहुंली ७ मी. आत्म दमन विषे. ( गुरु मुखकमले कमला वासो )		८९.
घहुंली ८ मी. द्रव्यस्वरूप विषे. ( लहि रुडोनरत्न सार )		८९.
घहुंली ९ मी. गुरु विनंती. ( संघ गुरुजीने वीनवेरे )		९०.
घहुंली १० मी. सुगुरु वखाण. ( प्यारा प्राणथकी मुनिराज )		९१.
घहुंली ११ मी. विनय स्वरूप. ( निज गुण कामी हो समजाषी गुरू )		९३.
ढाल १ ली. श्रुतज्ञान स्तवना. ( श्रुतपद सेवो ऋवि जना )		९५.
ढाल २ जी. श्रुतज्ञान स्तवना. ( श्रुतथी दायक सम- कीत पावे )		९६.
घहुंली १२ मी. सद्गुरू सामैयानी. ( जंगम सुरतरू मुनिवर आव्या )		१३४.
घहुंली १३ मी. सद्गुरू सामैयानी. ( जंगम सुरतरू आवीया प्रगट्या ठे पून्य पवित्ररे )		१३४.

घहुंदी १४ मी. स्याद्वादी सद्गुरु स्तवना. ( गुरु  
श्रुत ज्ञानीने स्याद्वाद वाणी )

१३५.

परचुरण स्तवेन तथा पद.

ए७-१४२.

सद्ज्ञाय. खामणां विषे. ( श्री अरिहंतने खामणां रे )

ए७.

सद्ज्ञाय. मनोरथ ज्ञावनाविषे. ( उत्तम अवसर एवो  
क्यारे आवशे )

ए८.

स्तवन १ लुं. पंच जिन स्तुति. ( जय प्रभु शांति जय  
जिन वाणी )

ए९.

स्तवन २ जुं. महावीर स्वामीनुं. ( वंडु त्रिशला  
नंदन देव )

१००.

स्तवन ३ जुं. मंगलिक स्तवन. ( जय बोदो आदि  
जिनेश्वरनी )

१०१.

स्तवन ४ थुं. अठार दोष रहित. जिनेश्वर विषे.  
( अरिहा पदकज पूजो )

१०१.

स्तवन ५ मुं. चंद्र प्रभुनुं अंतरंग सात व्यसन  
विषे. ( चंद्रप्रभु मुख चंद्र दिवाकर )

१०२.

„ ६ हुं. घहुंदी, सद्ज्ञाय अगर पद शुद्ध देशना  
वखाणनुं. ( साची अमृत मेघ समान )

१०३.

पद ७ मुं. पट सामान्य स्वज्ञावनुं. ( वागेश्वरी  
प्रणमी कहुं हो राज )

१०४.

„ ८ मुं. नवविध उपचारनुं ( चेतन पुद्गल वेहु मली रे )

१०४.

„ ९ मुं. शुद्ध उपयोगनुं ( शुद्ध उपयोगनी रे )

१०४.

„ १० मुं. सुमता चेतनरायनी महेरवानीने वखाणे  
ठे. ते नवरस सहित ( प्यारा प्राण जीवन

उजमाल )

१०६.

- पद ११ मुं. शुद्धात्म जावना विषे ( जावे जावोरे  
आत्म जावनारे ) १०७.
- ” १२ मुं. चेतन पतिने सुमता निज घरे तेरुवा  
आतुरता बतावे ठे ते विषे ( मन गमता  
माणीगर पीयुजी ) १०८.
- ” १३ मुं. आवश्यकतुं प्रजातीउं (द्रव्य जाव हिंसा तजी) १०९.
- ” १४ मुं. मोह निद्राथी जागी आत्मतत्व विचा-  
रतां सहजात्म संपदा प्रगटे ते विषे. राग-प्रजाती  
(जागीने जोउं त्यारे ) ११०.
- ” १५ मुं. जिन दर्शन अमृतरस लेवा सुमता  
आत्माने चेतावे ठे ते विषे ( राग-प्रजाती )  
( आवोने प्रितमजी प्यारा ) १११.
- ” १६ मुं. गूढार्थमां प्रजातीयुं. राग-चैरव (प्रजाती)  
( धनज्ञानी गुरु गुरुगम दाता ) ११२.
- ” १७ मुं. सद्गुरु रूप नाथना अमूढ्य बोलनी  
शिक्षा रूप (मेरे नाथको बोल अमोलहे) राग-सारंग. ११३.
- ” १८ मुं. (राग सारंग) (हम मगन जये सुधा पानमे) ११४.
- ” १९ मुं. पर द्रव्यनी आश ठोडवा विषे (ठोरी  
औरकी आश ) राग-सारंग. ११४.
- ” २० मुं. कोईना अवगुण बोलवा नहि तथा अ-  
लायकने सूत्रना गूढ रहस्य कहेवा नहि ते विषे.  
राग-सारंग (बोलन बोलन बोलन) ११५.
- ” २१ मुं. आत्म गुणनंदन वनमां खेलवा विषे  
(राग-सारंग फाग अने धमाल) (निज गुणनंदन  
वन विषे हो ) ११६.
- ” २२ मुं. गुरु मलवानी आतुरता विषे ( राग  
-सोरठ ) (गुरु गुण अगम अगाहरे) ११७.

- पद २३ मुं. आत्म दर्शन पाम्याना आनंद विषे  
(राग-सोरठ) (आत्म ज्ञानानंदरे) ११८.
- ” २४ मुं. शब्दनो मर्म जाण्याविना अनेक लोको  
मात्र शब्दने ध्याय ठे ते विषे (सब जन शब्दे ध्यावे) ११८.
- ” २५ मुं. शुरू ज्ञायकताना ध्यान विषे (राग-  
केरवो सोरठ) (रुं महारे ज्ञायकतानुं ध्यान) ११९.
- ” २६ मुं. हुं कुटील खल अने कामी हुं एम आत्म  
निंदा विषे (मो सम कोण कुटील खल कामी) ११९.
- ” २७ मुं. सुमती चेतन पतिने कहे ठे के पोतानी  
चाख सुधारो ते विषे (हे पीया अपनी रीत सुधारो) ११९.
- ” २८ मुं. चेतना चेतनने कहे ठे हुं अबला, पतिथी  
दूर केवी रीते रहूं? ते विषे (राग काफी) (पीया  
विन कैसे रहूं में) १२०.
- ” २९ मुं. चेतन पोतानेज कहे ठे के हजु सुधी  
तने विषय चीखनी टेव टली नहि ते विषे  
(टली न टेव अजहु चीखकी) १२०.
- ” ३० मुं. राग-काफी. परपरिणति जूठीज में माहरी  
मानी ते विषे (मेंही जूठी पर निज मानी) १२१.
- ” ३१ मुं. आशावरी-चेतन पोतानी नीधि स्वप्र-  
देशमांज निकट निहालो ते विषे (चेतन निज  
निधि निकट निहालो) १२१.
- ” ३२ मुं. चेतन चेतना वचमां अंतरखोलवा विषे  
(अंतर खोल दे मतवारे) १२२.
- ” ३३ मुं. ” (योगी क्या मन ऊधका मंमे) १२३.
- ” ३४ मुं. सारंग-अर्थी जननो के अर्थी गुरुनो

- जरूसो कोईने न आवे ते विषे (अरथी जनको  
न आवे ) १२४.
- पद ३५ मुं. गोमी-आत्म शाहुकारी राखवा विषे  
( रहे शाहुकारी हमारी ) १२४.
- ” ३६ मुं. ” (आरति ) ( अरति उतारो जिणंदा ) १२५.
- ” ३७ मुं. ” (मंगलिक दीवो)(कीजे मंगलिक दीवो) १२५.
- ” ३८ मुं. धीराना रागमां-गुरू वखाणनुं ( समय  
सुख जोगीरे ) १२६.
- ” ३९ मुं. ” विमल नाथनुं ( विमल तुज वाणीरे ) १२६.
- ” ४० मुं. गजल-चिद् ज्योतिना उद्योत विषे  
( चिद् ज्योतिको उद्योत होत ) १२७.
- ” ४१ मुं. ” प्रत्यक्ष रुहापण रूप ज्ञान चेतना  
जगी ( प्रत्यक्ष दक्ष ज्ञान लक्ष चेतना जगी ) १२७.
- ” ४२ मुं. दर्शन ज्ञान चारित्र रूप सहज स्वजा-  
वमां बंध नथी ते विषे ( द्रग ज्ञान चरण सहजमें ) १२८.
- ” ४३ मुं. ” सुबोधना उद्योत अवाथी डुरित  
रूप अंधकार नाठो ते विषे (सुबोध के उद्योत होत) १२८.
- ” ४४ मुं. ” जिनेश्वरनी वाणी रत्ननी खाण अने  
गुण निधान ध्यावा विषे ( जैन वाण रत्न खाण ) १२८.
- ” ४५ मुं. आत्महित चेतवा विषे( सुहेत चेत चेतना) १२९.
- ” ४६ मुं. ” परमात्मानी महेरबानीथी आत्म  
शक्ति उपर चालवा विषे ( प्रभु फजल् मजल्  
करूं में आत्म शक्ति पें ) १२९.
- ” ४७ मुं. ” सद्बोध दातार मोक्ष मार्गमां सहाय  
आपनार सद्गुरु प्राप्ति विषे ( सुबोध दाय  
शिव सहाय ) १३०.



- ॥ ४७ मुं. रेखतो—आत्म पतिनो दर्शन भवार्थी  
त्रमना तापनुं दुःख गयुं ते विषे (दिखा मुख आज) १३०.
- ॥ ४८ मुं. रागसिंधी—हमने आत्म अनुभव अमृत  
पान करावो ते विषे (हमे कराइ दो अनुभव पान) १३१.
- ॥ ४९ मुं. राग इशाइ—आज पजुसण पर्व आव्यां ठे  
ते विषे (आव्यां ठे पजुसण आज पर्व) १३१.
- ॥ ५० मुं. राग होरी—चैतन्य चित्तमां होरी खेववा  
विषे (चित्त चेतन होरी मचाई) १३२.
- ॥ ५१ मुं. निर्मल पूर्ण चेतनता लक्ष्मां लई आत्म  
शुद्धतानुं ध्यान करीश ते विषे (विमल सकल  
निज चेतनता लही) १३२.
- ॥ ५२ मुं. राग कनको—चेतन एक ताहरीज रिंऊ  
कामनी ठे अन्यनी रिंऊ कंई काम आवती नथी  
ते विषे (चेतन एकही तुं निज रिंजे) १३३.
- ॥ ५३ मुं. सजा उठती वखते जिन आणा धारीजने  
प्रणाम विषे (प्रणाम ठे जिन आणा धारी) १३३.
- सद्भाय—विषय विष त्यागवा विषे (विषय विष परिहरो  
प्राणीआ) १३६.
- शिखरणी ठंड—शिष्योने खमाववा विषे (१. नमो शांती देवा) १३७.
- ॥ शिष्ये गुरु प्रत्ये पोताना दोपो खमाववा विषे  
(नमो आदीनाथं) १३८.
- चैत्यवंदन १ लुं. श्री रूपजादि जिणंदोनुं (रूपज  
आदि जिणंद नमीजिए) १४०.
- ॥ २ जुं. श्री अजितनाथ जिननुं (सकल मोह  
विनाशन कारणं) १४०.

- ” ३ जुं. श्री संज्ञवजिननुं ( विमल संज्ञव वंदन कीजिए ) १४१  
 ” ४ थुं. श्री विमलनाथनुं ( विमल विमल वाणी ) १४१  
 ” ५ मुं. श्री शांतीनाथ जिननुं (पूरे पूण्ये नरज्ञव लही ) १४१  
 ” ६ हुं. श्री महावीर जिननुं (आत्मा सदा विमल पञ्जव) १४१  
 ” ७ मुं. श्री महावीर जिननुं (श्री जिन आणा सेविए ) १४२  
 ” ८ मुं. सकल जिणंदोनुं ( सयल जिन वरींदा ) १४२  
 ” ९ मुं. श्री परमगुरुनुं ( परमगुरुने प्रेमे वंदी ) १४२

सुबोध प्रकाशक ठंद--जेमां नवतत्त्वनुं स्वरूप अने क्रोधादि  
 कषायोना दुर्गुणो तथा तेमने जीतवाना उपायो विगरे  
 स्वरूप ठे. १४३-१८१

- कार्यसिद्ध करवाना कारको विषे. द्रुतविलंबित  
 ठंद. ( पुरण कामित दाइ जिनेश्वरं ) १४३  
 सवैया ५. ( जीव तत्त्व विषे ) १४४  
 सवैया ३. (अजीव तत्त्व तथा पुण्य पाप अधिकार) १४५  
 सवैया २६. ( शुद्ध न्याय अधिकार ) १४६  
 सवैया १२४. ( आश्रव संवर बंनेना जेगा ) १५१-१७४  
 सवैया ३६. ( आश्रव संवर अधिकारना ) १५१  
 सवैया १४. ( क्रोध अधिकारना ) क्रोधना दुर्गुणो  
 अने क्रोध जितवानी रीत विषे. १५८  
 सवैया २५. ( मान अधिकारना ) मानना दुर्गुणो  
 अने मान जीतवानी रीत विषे. १६०  
 सवैया १३. ( माया अधिकारना ) मायाना दुर्गुणो अने  
 माया जीतवानी रीत विषे. १६४  
 सवैया १३. ( लोचन अधिकारना ) लोचनना दुर्गुणो  
 अने लोचन जितवानी रीत विषे. १६७

- सवैयो १. ( हास्य अधिकार ) हास्यना डुर्गुणो अने  
हास्य जीतवानी रीत विषे. १६ए
- सवैयो १. ( रति अधिकार ) रतिना डुर्गुणो अने  
तेने जीतवानी रीत. १६ए
- सवैयो १. ( अरति अधिकार ) अरतिना डुर्गुणो  
अने तेने जीतवानी रीत. १६ए
- सवैया १०. ( जय अधिकार ) जय जीतवानी रीत. १६ए
- सवैयो १. ( शोक अधिकार ) शोक जीतवानी रीत. १७२
- सवैयो १. ( डुगंडा आश्रव अधिकार ) डुगंडा  
जीतवानी रीत. १७२
- सवैया ८. ( काम आश्रव अधिकार ) पांच इंद्रि-  
योना जोग आदिनी कामनाना दोषो अने  
तेने जीतवानी रीत. १७२

कुल सवैया. १२४

सवैया, दोहरा तथा चोपाई ३६. ( निर्जरा तत्त्व  
अधिकार ) कर्म रस बहेवाकवा अगर कर्म रज जाटकवा  
रूप कर्म निर्झरणानो उपाय दर्शाव्यो ठे. १७४

सवैयो १ ( बंध तत्त्व अधिकार ) पुद्गल ड्रव्यमां रिंज  
पामेलो आत्मा पुद्गल वर्गणा अने रागादिक अशुद्धता  
साथे बंधाय ठे ते विषे. १८०

सवैया ४ ( मोक्ष तत्त्व अधिकार ) पुद्गल वर्गणा अने  
पुद्गल परिणामथी बंधायला आत्माने तेथी मुक्त थवाना  
मार्गनुं स्वरूप. १८०

सुबोध प्रकाशक अध्याय पूर्ण कयों ठे. १८१

चोवीश जिनेश्वरनी स्तवना अर्थ सहित. १८३-३०ए

- पहेला रूपज्ञजिन स्तवन—जेमां उत्कृष्ट ज्ञान, राज्य-  
न्याय अने दया रूपे प्रचुने स्तव्या ठे. १७३
- बीजा श्री अजितनाथ जिन स्तवन—जेमां पूर्ण दया  
पूर्ण न्याय अने पूर्ण ज्ञान सहित द्वांत्यादिक  
दश धर्म आदरवाथी निर्वाण पद प्रगटे ठे  
ते स्वरूप दर्शाव्युं ठे. १९०
- त्रीजा श्री संचवनाथ जिन स्तवन—जेमां मुख्यपणे  
समजावनुं वखाण ठे. १९४
- चोथा श्री अन्निनंदन जिन स्तवन—जेमां शुद्ध  
ध्येयमां ध्यान थिर करवानो उपाय कर्ता,  
जोक्ता, ग्राहकता आदि स्वजाव दर्शाव्या ठे. २००
- पांचमा श्री सुमतिजिन स्तवन—जेमां प्रचु दर्शन  
पाम्या विना में मित्रोने हणया अने शत्रुने पोषतो  
अनंत संसार जम्यो ए आदि अधिकार ठे. २०५
- ठठा श्री पद्मप्रज्ञजिन स्तवन—जेमां पद्मप्रचु  
स्वामीनी वाणीनुं वखाण ठे एज वाणी जव  
समुद्रथी तारवावाली ठे. २०८
- सातमा श्री सुपार्श्वजिन स्तवन—जेमां सुपार्श्वजिन  
केवललक्ष्मी पामी अनंत शुद्ध स्वपर्यायमां  
आरामी ठे ते विषे वखाण ठे. २११
- आठमा श्री चंद्रप्रचुजिन स्तवन—जेमां चंद्रप्रचु  
स्वामीनुं दर्शन पामवाथी माहरे दिन घडी सफल  
थई ए आदि स्तुति. २१४
- नवमा श्री सुवधिनाथ जिन स्तवन—जेमां साची  
प्रीतनी रीत दर्शावी स्तुति करी ठे. २१६
- दशमा श्री शितलनाथ जिन स्तवन—जेमां व्यवहा-

- रिक चार निक्षेपा अने अनुपचरित शुद्ध चार  
निक्षेपा दर्शाव्या ठे. २२०
- अगीआरमा श्री भेयांसजिन स्तवन—जेमां प्रचुनो  
पूर्ण परमाणंद दर्शावी स्तुति करी ठे. २२८
- वारमा श्री वासुपूज्यजिन स्तवन—जेमां प्रचु शिव  
वासमां परमानंद जोगवे ठे ए आदि स्तुति करी ठे. २३४
- तेरमा श्री विमलनाथ जिन स्तवन—जेमां तेमनी  
निर्मल देशना सांजली माहरी अंतर नयणां  
खुली ए आदि स्तवना करी ठे. २३८
- चौदमा श्री अनंतनाथ जिन स्तवन—जेमां श्री  
अनंतनाथ स्वामीना शुद्ध रमणादिनी स्तवना  
करी ठे. २४२
- पंदरमा श्री धर्मनाथजिन स्तवन—जेमां श्री धर्म-  
नाथ स्वामीनो धर्म सेवनार मोहने मारी आत्म  
सत्ताचूमिनुं राज्य पामे ते रीत दर्शावी ठे. २४५
- सोलमा श्री शांतिनाथ जिन स्तवन—जेमां श्री शांति-  
जिननुं मुख देखवाथी परम शांती ठे. २५०
- ए विगेरे स्तवना करी ठे. २५०
- सत्तरमा श्री कुंथुनाथ जिन स्तवन—जेमां निर्मल  
दर्शन पामवा अजिद्वेष दर्शाव्यो ठे. २५४
- अठारमा श्री अरनाथ जिन स्तवन—जेमां आत्म  
अनुभवयोग वखाणनी स्तुति करी ठे. २६०
- उंगणीशमा श्री महिनाथजिन स्तवन—जेमां सात  
नयनुं संक्षेप स्वरूप दर्शाव्युं ठे. २६९
- वीशमा श्री मुनिसुवतजिन स्तवन—जेमां प्रचुनी  
विविध उत्तम उपमाए स्तवना करी ठे. २७४

एकवीशमा श्री नमिनाथ जिन स्तवन—जेमां विविध प्रकारनो आनंद दर्शावी स्तवना करी ठे.	२७८
बावीशमा श्री नेमनाथ जिन स्तवन—जेमां राजुद्ध उपर पूरण प्रीति करी एम दर्शाव्युं ठे.	२८९
त्रेवीशमा श्री पार्श्वनाथ जिन स्तवन—जेमां प्रति- माना दर्शनथी यतो लाभ दर्शाव्यो ठे.	२९४
चोवीशमा श्री महावीर जिन स्तवन—जेमां उर्धता तथा तिर्जक परिचय आदिनुं स्वरूप दर्शावतां स्तवना करी ठे.	२९८
चोवीश तीर्थकरोनी स्तवना पूर्ण करी तेनो कलश.	३०८
चोवीश जिनेश्वरनां चैत्यवंदन जुदा जुदा रागमां विविध गुण वखाण अर्थ सहित.	ठंडोना ३११-३५३
चोवीश जिनेश्वरनी चोवीश थोयो.	३५४-३५८
देव श्री अरिहंतादिक नव पदनी नव थोयो.	३५८-३६०
श्री महावीर जिन स्तवन अर्थ सहित	३६०-३६३

श्री संपूर्ण.



पान.	लीटी.	अशुद्ध.	शुद्ध.
ए	२४	अनातम	अनातम चात्र
१०	२७	निर्मल	निर्मल
२ए	७	वागे	फागे
३१	१७	सद्गुनी	सद्गुरुनी
४२	५	ईद्रचूति	ईद्रचूति
५६	२४	करे करे	करे करे
६०	२०	निश्चय	विनय
६२	२२	त्रि०	त्रवि०
६४	६	कसर	केसर
६ए	१ए	सिद्धि उमेदरे	सुतशुं नेहरे
७२	१	अध्यात्म	सद्बोध
७२	२०	अध्यात्म	सद्बोध
७५	७	को विरला रस लेय	विरला रस ले तेह
७५	२७	देह विदेह	त्रव वन तेह
७ए	११	तेने निज खपना करी	(पाठांतर) तेमां मानी कार्य निज
७६	२१	उद्धासो	उद्धासे
ए२	१७	क्लेश	क्लेश
ए३	५	करी मिथ्या रस पोषे	करत मान करी फोके
ए३	१४	वरु जहाज	जहाज
ए५	१६	किहा	किहां
११३	२६	सार जाणनार	सार
११६	१ए	विनाश	विदाय
११६	२०	विवास	सोहाय

पान.	लीटी.	अशुद्ध.	शुद्ध.
११७	३	चेतनका मीत	चेतन कामीत
११७	६	वीर्य	वीरज
११९	२२	चेतन आतममें	ज्ञायकता अपनो
१२२	२१	अंतर	अंतर
१२४	११	लखे	लवे
१२४	१६	निज चितमें	चितमें
१२७	२४	रीम	राम
१३४	२०	नशावे	मिटावे
१३६	९	शुद्ध	शुद्ध
१३६	१९	मंदह	मंदर
१४०	२१	सुचित्त	सुचित
१४२	२५	जावमां	व्याधिमां
१४२	२७	दणकमां	प्रतापमां
१५९	१७	खेदत न	खेद तन
१६०	९	दाम	दामि
१६०	२५	उपयोगज	उपयोगिज
१६१	४	निचकु काम	नीच कुकाम
१६४	९	मानकि	मानज
१७२	१४	बंध	गंध
१७२	१७	खंध	गंध
१७२	१७	बंध	खंध
१७२	२०	अश्राव	आश्रव
१७६	१३	व्यधि	द्रव्यधि
१७९	७	जोग	जोगि
१७३	१	प्रथन	प्रथम



पान.	लीटी.	अशुद्ध.	शुद्ध.
१८५	८	विरुद्धनो	विरुद्धतानो
१८६	२०	क०	के०
१९०	११	चेतना	चेतन
१९९	१	संज्ञ	संज्ञव
२०२	१९	ज्ञानावर्णादक	ज्ञानावरणादिक
२१२	१०	दुःखमा	दुःखमां
२१८	१२	दुर्जनननी	दुर्जननी
२२४	२६	अवश्यक	आवश्यक
२३०	१०	पाताना	पोताना
२३४	३	लक्ष्मीत्व	लक्ष्मी तो
२४१	१५	सम	सम
२५०	१५	उमारवातीए	उमास्वातीए
२५१	१९	हो	होय
२५२	१२	व्यक्ति	व्यक्ति
२८४	२	कामना	कामना, लोच, मूर्धा
२८४	१०	मेला	मेला थाय नहि ने
२९४	१७	द्रष्टि थिर करी	द्रष्टि थिर करी द्रव्य चाव हिंसा त्यागी
२९४	१९	हमारा	हमने पण
२९६	१८	पापी	कोईक
३०३	२२	अनंता	अनंतो
३०५	५	थाय	थयो
३०७	११	द्राष्टि	द्रष्टि
३३३	२	ते	तो

३३७	२५	पारणति	परिणति
३४०	ए	प्रन्नए	प्रनुए
३४०	१ए	विकारा	विकारो
३४ए	१३	आदरे अने	आदर सहित
३४ए	१६	अपयापगमना	अपायापगमन
३५५	ए	पुष्कलावृत	पुष्कलावर्त्त
३५६	२१	जोमी	जूमि





ॐ परमगुरुभ्यः नमः

उत्तराध्ययनना अष्टावीशमा मोक्षमार्गनामा  
अध्ययननी ढाढो लीख्यते.

॥ दोहरा ॥

चरण कमल कमला वसे, अमल कमल दल नयण;  
चरण नमुं जिन वीरना, हृदय धरी तस वयण. ॥ १ ॥  
विमल कमल वदने वसे, स्यात् पद युत जिन वाण;  
अमृतरस घन वरसती, नमी सरस्वती सुविधान; ॥ २ ॥  
कमल वदन कमला करी, नमो सारश्रुती माय;  
अचल सकल सुखदायनी, वसी मुज वदन सदाय. ॥ ३ ॥  
कुमत तिमिर सवि टालतो, वर्द्धमान जिन चाण;  
त्रविक कमल पद्मिबोहतो, जिन वंडु सुविहाण. ॥ ४ ॥  
मोक्ष मार्ग दर्शावीउं, उत्तराध्ययन मजार;  
अरुवीशमा अध्येनमां, कबुक लही तसु सार. ॥ ५ ॥  
दाखुं सुणी त्रवि सहहो, सफल करो अवतार;  
मन रंगे सहु आदरो, लहि शुच पुरुषाकार. ॥ ६ ॥  
अष्ट करमने जीतीने, पामो त्रवजल पार;  
परमातम पद संपजे, वली नावे संसार. ॥ ७ ॥  
चेतन चेतनता लहे, मंगल लील विलास;  
रोग शोग रौरव टले, सुणतां होय उद्व्लास. ॥ ८ ॥  
सात महात्रय उपशमे, रोग न आवे पास;  
श्रुत सागर सुख उद्वसे, लहे बहु ज्ञान विलास. ॥ ९ ॥  
शुद्ध मार्ग ए आदरी, सिध्ध्या मुनि अनंत;  
सिद्धे ठे वली सिद्धशे, एम चाखे त्रगवंत. ॥ १० ॥

## ढाल पहेली ( १ )

॥ गिरि वैताढ्यने उपरे, चक्रंका नयरी लो ॥ ए राह ॥  
 सोहम चापे जंबुने, सुणजो मनरंगेलो ॥ अहो सुणजो मनरंगेलो ॥  
 कारण चार ठे मुक्तिना, जिन दाख्या अंगे लो ॥ अहो जिन० ॥ १ ॥  
 दर्शन ज्ञान ए लक्षण, तप चरणनी शुद्धे लो ॥ अहो तप० ॥  
 ए मारग महा दर्शनी, वयो केवल बुद्धे लो ॥ अहो वयो० ॥ २ ॥  
 ए चउ पद आराधीने, बहु मुक्ति पाम्या लो ॥ अहो बहु० ॥  
 धन्य ए विधि जेणे आदरी, दुख दोहग वाम्या लो ॥ अहो दुख० ॥ ३ ॥  
 श्रुत मति अवधीने वली, मन केवल जाच्युं लो ॥ अहो मन० ॥  
 पंच प्रकार ए ज्ञानना, सुण जंबु सानुं लो ॥ अहो सुण० ॥ ४ ॥  
 द्रव्य गुण परजायथी, शुद्धा जे जाणे लो ॥ अहो शुद्धा० ॥  
 तेहने ज्ञानी सूत्रमां, महावीर वखाणे लो ॥ अहो महावीर० ॥ ५ ॥  
 निज गुणमय सहु द्रव्य ठे, द्रव्याश्रित गुण तो लो ॥ अहो द्रव्याण॥  
 पज्जव लक्षण जाणीए, अचेदे एकेलो लो ॥ अहो अचेदे० ॥ ६ ॥  
 धर्माधर्म आकाशने, काल पुद्गल जीवो लो ॥ अहो काल० ॥  
 लोक कह्यो ठे शाश्वतो, सद्भाव सदीवो लो ॥ अहो सद्भाव० ॥ ७ ॥  
 धर्माधर्म आकाशने, एक एक ते जाणो लो ॥ अहो एक० ॥  
 पुद्गल काल ने जीव ए, अनंत प्रमाणो लो ॥ अहो अनंत० ॥ ८ ॥  
 गति साह्य ते धर्म ठे, स्थिर साह्य अधर्मे लो ॥ अहो स्थिर० ॥  
 जाजन सर्वे द्रव्यनुं, तुं जाण ते नच ठे लो ॥ अहो तुं० ॥ ९ ॥  
 वर्तना लक्षण काल ठे, जीव चिद् उपयोगी लो ॥ अहो जीव० ॥  
 दर्शन ज्ञाने जीव ठे, अनुभव रस जोगी लो ॥ अहो अनुभव० ॥ १० ॥  
 दुःख सुख पूर्वापर तणो, जे होवे तेहनो लो ॥ अहो जे० ॥  
 शुद्धे शुद्ध स्वभावनो, अशुद्धे अशुद्धनो लो ॥ अहो अशुद्धे० ॥ ११ ॥  
 दर्शन ज्ञान ने चरण ए, तप वीर्योपयोगी लो ॥ अहो तप० ॥  
 ए खट लक्षण मुख्यथी, जीव जाणीए जोगी लो ॥ अहो जीव० ॥ १२ ॥

शब्द अंधार उद्योतने, प्रज्ञा ठाया तत्ती लो ॥ अहो प्रज्ञा० ॥  
 वर्ण गंध रस फरसनी, पुद्गल लक्षण व्यक्ति लो ॥ अहो पुद्ग० ॥१३॥  
 एकपणुं वली बहुपणुं, संख्या संठाणो लो ॥ अहो संख्या० ॥  
 संयोगे विज्ञागथी, पज्जव लक्षण जाणो लो ॥ अहो पज्जव० ॥ १४॥

दोहरा.

कह्यो ज्ञान अधिकार ए, हवे दर्शन अधिकार;  
 वर्द्धमान जिन उपदिश्यो, सुणजो वचन उदार. ॥ १ ॥  
 जिन दरिशाण दर्शन लही, आतम दर्शन पाय;  
 चरणादिक सिद्धे सकल, शिवसुख सहज उपाय. ॥ २ ॥

ढाल बीजी ( १ ) (राग उपरनो)

जीवाजीव पुण्य पापने, आसव संवर निज्जरणा लो ॥ अहो आसणा  
 बंध मोक्ष नव तत्त्वनी, श्री जिन वरणणना लो ॥ अहो श्री० ॥ १ ॥  
 चारे निक्षेपे सहहे, गुण पज्जव जाणे लो ॥ अहो गुण० ॥  
 ज्ञावे सहहे ने रुचे, समकित ते ठाणे लो ॥ अहो समकित० ॥ २ ॥  
 दश रुची दाखी तेहनी, जिनवर वर्द्धमानो लो ॥ अहो जिन० ॥  
 निसर्गुपदेश आणा रुची, सुत अजिगम जाणो लो ॥ अहो सुत० ॥३॥  
 बिज सुतने विस्तारथी, संखेपे धरमनी लो ॥ अहो संखेपे० ॥  
 जीव संवर आदि रुचे, मति नाठी चरमनी लो ॥ अहो मति० ॥४॥  
 ए निसर्ग रुची कही, बीजी अधिगम दाखुं लो ॥ अहो बीजी० ॥  
 एम जिन देशित ज्ञाव ते, मन सहही राख्युं लो ॥ अहो मन० ॥ ५ ॥  
 राग दोष मोह जेहने, अज्ञान ते नावुं लो ॥ अहो अज्ञान० ॥  
 आणा रुचे जस तेहनी, बल मोहनुं घाव्युं लो ॥ अहो बल० ॥ ६ ॥  
 सुत अवगाहे जे नरा, अंगने बहिरंगे लो ॥ अहो अंगने० ॥  
 चोथी ज्ञाणत ज्ञाणवतां, सुतमां मनरंगे लो ॥ अहो सुतमां० ॥ ७ ॥  
 एक ज्ञाव श्रुतनो लखी, बीज वृद्ध विस्तारे लो ॥ अहो बीज० ॥  
 तेल विंडु जल विस्तरे, बीज रुची पसारो लो ॥ अहो बीज० ॥ ८ ॥

अंग अने उपांगमां, जिन चाव जे दाख्या लो ॥ अहो जिन० ॥  
 ते सन्मुख थयो उद्यमी, निज गुण अजिलाख्या लो ॥ अहो निज० ॥९॥  
 सकल द्रव्य सहु चावने, बहु नय परमाणो लो ॥ अहो बहु० ॥  
 सातमे रुचि विस्तार ए, तुम मनमां जाणो लो ॥ अहो तुम० ॥ १० ॥  
 दर्शन ज्ञान चरण तपे, विनये समति गुत्ति लो ॥ अहो विनये० ॥  
 किरियामां उद्धासथी, जाणो आठमी युक्ति लो ॥ अहो जाणो० ॥ ११ ॥  
 वचन कुमतिनां नवि रुचे, जिननां सुखदाई लो ॥ अहो जिननां० ॥  
 नवमे जाणे संक्षेपथी, द्रष्टि अधिकार्ई लो ॥ अहो द्रष्टि० ॥ १२ ॥  
 जिन उपदेशित धर्म ठे, सुत चारित्र रूपे लो ॥ अहो सुत० ॥  
 पंचास्तिकायना धर्मने, दाख्या जिन रूपे लो ॥ अहो दाख्या० ॥ १३ ॥  
 जिनवर चाषित धर्मनी, श्रद्धा रुचि जेहने लो ॥ अहो श्रद्धा० ॥  
 पर मत वचन चहे नहीं, समकित मनसुखने लो ॥ अहो समकित० ॥ १४ ॥

### ॥ दोहरा ॥

परम अरथ द्रढ चित्त ग्रहे, स्वाद्वाद जिन वाण;  
 शुद्ध रुचीथी सहहे, समकितवंत सुजाण. ॥ १ ॥  
 परम धरम सेवे सदा, कुमती वचन अनर्थ;  
 तजे कुदर्शन संगने, शुद्ध सहहे अर्थ. ॥ २ ॥  
 चरण नहीं समकित विना, समकित चारित्र साथ;  
 पण समकित पहेलुं कह्युं, ए विण सकल उपाध. ॥ ३ ॥  
 ज्ञान नहीं दर्शन विना, ज्ञान विना न चरित्त;  
 चरण विना नहि मोक्ष ठे, तव निर्वाण वदित्त. ॥ ४ ॥  
 शंका नहीं जिन वचनमां, कुवचन बांठा नांहि;  
 संशय धर्मना फल तणो, रहे नहीं मनमांहि. ॥ ५ ॥  
 देव गुरु शुच शान्त्रने, परखे रुमी रीत;  
 मूढ द्रष्टि होवे नहीं, शुद्धे शुद्ध प्रतीत. ॥ ६ ॥

अवगुण न ग्रहे गुरु तणो, क्षय उपशमी गुरु जोय;  
 समन्नाषी गुरु जाणीने, गुण बहु ग्रहतो सोय ॥ ७ ॥  
 शुद्धातममां थिर करे, निज परने ड्रढ जाव;  
 थिरिकरण ते जाणीए, समकितवंत स्वजाव. ॥ ८ ॥  
 वात्सल्यता गुरु स्वामीनी, शिष्य तणी पण होय;  
 प्रजावक जिन वचननो, संघ बढावे सोय. ॥ ९ ॥  
 एम दरशन अधिकारण, एहीज प्रवचन सार;  
 जेथी चारित्र आदरी, पामे जवजल पार. ॥ १० ॥

ढाल त्रीजी ( ३ )

स्वामी सीमंधर वीनती ॥ ए राग ॥

चारित्र रूप हवे सांचढो, जे कह्यो जिनवर देवरे;  
 पंच ठे जेद जिन आगमे, आदरो ठंडी कुटेवरे ॥ रमण निज  
 रम्यमां नित करो ॥ १ ॥  
 जीव खटकायना प्राणने, ड्रव्य ने जाव विचार रे;  
 मन वचन कायथी नवि हणे, दुःखवे नांही लगाररे ॥ रमण ॥ २ ॥  
 नवि हणावे वली अन्यथी, नहीं अनुमोदना पोष रे;  
 तजी परड्रव्यना ममत्त्वने, नवि धरे रागने रोष रे ॥ रमण ॥ ३ ॥  
 एम सावधना त्यागथी, ज्ञान दर्शन चरण आय रे;  
 वली नय जेदथी बहु विधे, सामायक सूत्र सुणाय रे; ॥ रमण ॥ ४ ॥  
 पंच व्रत पंच आचारमां, लागता दोष अतिचार रे;  
 ठेदी ते दोषने शुद्ध करे, ठेदोपस्थापनीय धार रे ॥ रमण ॥ ५ ॥  
 चरण परजाय विशोधतां, होय परिहारविशुद्ध रे;  
 करत कषायने पातला, जव रह्यो सूक्ष्म लुद्ध रे ॥ रमण ॥ ६ ॥  
 एह सूक्ष्म संपराय ठे, दशम गुणगण सु विशुद्ध रे;  
 कलुष उपशम अगीआरमे, चरण यथाख्यात बुद्ध रे ॥ रमण ॥ ७ ॥



दाय हुवा पूर्ण कषायज्यां, खायक ते यथाख्यात रे;  
 गत विकल्प परम थिरता, मल रहित अचल आख्यात रे ॥ रमण० ७ ॥  
 एह चरण वारथी जाणीए, जाव चउदशम गुणठाण रे;  
 सामायक पंचमां अनुगते, चाखीओ जिन वर्द्धमान रे ॥ रमण० ॥ ए ॥  
 अग्नि कषायनी वृज्वो, सिंचि शुच श्रुत जलधार रे;  
 शीतलीचूत सर्वांगमां, समरस अमृत उदार रे ॥ रमण० ॥ १०  
 कुमतहठी मार्ग उवेखीने, चादीए सम शिव पंथ रे;  
 स्यात् पद श्री जिन वचनने, सेवीए सुगुरु नियंत्र रे ॥ रमण०  
 विषलता विष फल दायनी, विषय धन तृष्णा अति जेरि रे;  
 ज्ञान कुठारथी ठेदीए, मूल सहित जेम न होये फेरि रे  
 विषय पंचेंद्रिना जीतीए, जीतीए आतमा आप रे;  
 सकल विज्ञावना अंतथी, जेम वली न होय संताप  
 प्रेमनुं बंधन ठेदीए, कोई नहि केहना जाणी रे  
 पर प्रतिबंध निवारतां, नवि होवे निज गुण हाणी  
 थीर सत्ता ठरी मारीए, मोहने ज्ञाननां वाण  
 आतम ज्मि निरमल करी, ग्रहीगुण प्रगट रे  
 रमण निज शुद्ध स्वज्ञावनुं, समय अखंरु क  
 गुण सकल पुरण एम उद्वसे, परम आणंद  
 वरु तुरग मन उन्नतने, खेंची ग्रही ज्ञान  
 वाली जन्मार्गथी लावीए, सहज निज आतम  
 अथिर पुद्गल रस परिहरी, निज अनुभव रंगरोल  
 ज्ञान दर्शन चरण थिर करो, एम चारित्रंग चोल रे  
 एकादश वार ठढमस्थने, तेर चौदे केवल ज्ञाण रे;  
 शिव घर रमत मनसुख सदा, पामजो परम कट्याण रे

ढाल चोथी ( ४ )

तप उजमणुंरे एणीपेरे कीजीए ॥ ए राग ॥

डुविधे जाख्यो तप जिन आगमे, बाह्य अच्यंतर जेदेजी  
खटविध बाह्य अच्यंतर खटविधे, जमता जमथी उठेदेजी ॥ तप  
तलवारे रे कर्म विदारीए ॥ १ ॥

निज गुण तृप्तिरे दर्शन ज्ञानमां, चरणे परम आनंदो रे;  
करम तपावे ते तप जाणीए, आणे जव दुःख अंतो रे ॥तप०॥ २ ॥

तप ते पुद्गल इच्छा निरोधथी, परम मगन निज रूपे रे;  
करम रस फेफे रे निज्जरण करे, प्रगटे सहज स्वरूपे रे ॥तप०॥ ३ ॥

अणसण उणोदरी वितिसंखेवण, पुद्गल रसनो त्याग रे;  
कायकिलेश अने संलीनता, खटविधे बाह्यथी लाग रे ॥तप०॥ ४ ॥

कोइ एकांते बाह्य किरिया करे, अंतर जोग आवेश रे;  
ते तप दाख्यो रे वीर जिनेश्वरे, फोगट काय किलेश रे ॥तप०॥ ५ ॥

जेणे तनु ममता रे अंतर परिहरी, विषयनी तृष्णा निवारी रे;  
शुद्ध तप तपतां रे करम क्षय हुवे, होवे शिव अधिकारी रे ॥तप०॥ ६ ॥

एम खट बाहिर तप विधि आदरो, साध्य समिप द्रगधारी;  
हवे सुणो अंतर खटविध तप जलो, जिन आणा सुविचारी रे ॥तप०॥ ७ ॥

पंचाचार तथा सहु व्रतमां, लाग्या जे अतिचारो रे;  
नंदी गहीं ने वली प्रतिक्रमी, ले प्रायश्चित सुखकारो रे ॥तप०॥ ८ ॥

शक्य न राखे मनमां कोइ विधे, ते प्रायश्चित तप धारो रे;  
पंचाचार अने सहु व्रतने, ए तप थिर करनारो रे ॥ तप० ॥ ९ ॥

दशनो विनय करे मनरंगसुं, पंच विधे बहु मानो रे;  
दर्शन ज्ञान चरण फले तेहथी, बीय अंतर तप जाणो रे ॥तप०॥ १० ॥

गुरु शुश्रूषा तन मन साचवे, आलस नाहि लगार रे;  
विद्या साधक पेरे मन रंगथी, तीय तप अंतर सार रे ॥तप०॥ ११ ॥

दाय हुवा पूर्ण कषायज्यां, खायक ते यथाख्यात रे;  
 गत विकल्प परम थिरता, मल रहित अचल आख्यात रे ॥ रमण० ७ ॥  
 एह चरण वारथी जाणीए, जात्र चउदशम गुणठाण रे;  
 सामायक पंचमां अनुगते, चाखीओ जिन वर्द्धमान रे ॥ रमण० ॥ ८ ॥  
 अग्नि कषायनी वूजवो, सिंचि शुच श्रुत जलधार रे;  
 शीतलीचूत सर्वांगमां, समरस अमृत उदार रे ॥ रमण० ॥ ९ ॥  
 कुमतहठी मार्ग उवेखीने, चालीए सम शिव पंथ रे;  
 स्यात् पद श्री जिन वचनने, सेवीए सुगुरु नियंत्र रे ॥ रमण० ॥ १० ॥  
 विषलता विष फल दायनी, विषय धन तृष्णा अति जेरि रे;  
 ज्ञान कुठारथी ठेदीए, मूल सहित जेम न होये फेरि रे ॥ रमण० ॥ ११ ॥  
 विषय पंचेंद्रिना जीतीए, जीतीए आतमा आप रे;  
 सकल विज्ञावना अंतथी, जेम वली न होय संताप रे ॥ रमण० ॥ १२ ॥  
 प्रेमनुं बंधन ठेदीए, कोई नहि केहना जाणी रे;  
 पर प्रतिबंध निवारतां, नवि होवे निज गुण हाणी रे ॥ रमण० ॥ १३ ॥  
 थीर सत्ता ठरी मारीए, मोहनै ज्ञाननां बाण रे;  
 आतम चूमि निरमल करी, ग्रहीगुण प्रगट सूजाण रे ॥ रमण० ॥ १४ ॥  
 रमण निज शुद्ध स्वज्ञावनुं, समय अखंरु कट्टोल रे;  
 गुण सकल पुरण एम उद्धसे, परम आणंद जकजोल रे ॥ रमण० ॥ १५ ॥  
 वक्र तुरग मन उन्नतने, खेंची ग्रही ज्ञान लगाम रे;  
 वाली उन्मार्गथी लावीए, सहज निज आतम धाम रे ॥ रमण० ॥ १६ ॥  
 अथिर पुद्गल रस परिहरी, निज अनुभव रंगरोल रे;  
 ज्ञान दर्शन चरण थिर करो, एम चारित्रंग चोल रे ॥ रमण० ॥ १७ ॥  
 एकादश वार ठडमस्थने, तेर चौदे केवल जाण रे;  
 शिव घर रमत मनसुख सदा, पामजो परम कट्याण रे ॥ रमण० ॥ १८ ॥

ढाल चोथी ( ४ )

तप उजमणुरे एणीपेरे कीजीए ॥ ए राग ॥

डुविधे जाख्यो तप जिन आगमे, बाह्य अच्यंतर जेदेजी  
खटविध बाह्य अच्यंतर खटविधे, जमता जमथी उठेदेजी ॥ तप

तलवारे रे कर्म विदारीए ॥ १ ॥

निज गुण तृप्तिरे दर्शन ज्ञानमां, चरणे परम आनंदो रे;

करम तपावे ते तप जाणीए, आणे जव डुःख अंतो रे ॥तप॥ २ ॥

तप ते पुद्गल श्छा निरोधथी, परम मगन निज रूपे रे;

करम रस फेढे रे निज्जरण करे, प्रगटे सहज स्वरूपे रे ॥तप॥ ३ ॥

अणसण उणोदरी वितिसंखेवण, पुद्गल रसनो त्याग रे;

कायकिलेश अने संलीनता, खटविधे बाह्यथी लाग रे ॥तप॥ ४ ॥

कोइ एकांते बाह किरिया करे, अंतर जोग आवेश रे;

ते तप दाख्यो रे वीर जिनेश्वरे, फोगट काय किलेश रे ॥तप॥ ५ ॥

जेणे तनु ममता रे अंतर परिहरी, विषयनी तृष्णा निवारी रे;

शुद्ध तप तपतां रे करम द्यय हुवे, होवे शिव अधिकारी रे ॥तप॥ ६ ॥

एम खट बाहिर तप विधि आदरो, साध्य समिप ड्रगधारी;

हवे सुणो अंतर खटविध तप जलो, जिन आणा सुविचारी रे ॥तप॥ ७ ॥

पंचाचार तथा सहु व्रतमां, लाग्या जे अतिचारो रे;

नंदी गहीं ने वली प्रतिक्रमी, ले प्रायश्चित सुखकारो रे ॥तप॥ ८ ॥

शक्य न राखे मनमां कोइ विधे, ते प्रायश्चित तप धारो रे;

पंचाचार अने सहु व्रतने, ए तप थिर करनारो रे ॥ तप॥ ९ ॥

दर्शनो विनय करे मनरंगसुं, पंच विधे बहु मानो रे;

दर्शन ज्ञान चरण फले तेहथी, बीय अंतर तप जाणो रे ॥तप॥ १० ॥

गुरु शुश्रूषा तन मन साचवे, आलस नाहि लगार रे;

विद्या साधक पेरे मन रंगथी, तीय तप अंतर सार रे ॥तप॥ ११ ॥

वाचन पूढन ने परिअट्टना, ज्ञावना वारने चार रे;  
 वस्तु स्वधर्मकथा करे रंगथी, स्याद्वादादि विचार रे ॥ तपण ॥ १२ ॥  
 गुण पज्जव सहु ड्रव्ये ड्रव्यना, होय त्रिकाल अचेद रे;  
 निज गुण पज्जव निरमल धारीने, थिर रहो अजय अखेद रे तपण ॥ १३ ॥  
 देह संज्ञाल तजी काउसग करे, लखी आतम अंग अचंग रे;  
 ए खटविधि तप अंतर जाणीए, करजो तपसुं रंग रे ॥ तपण ॥ १४ ॥  
 नाणे जाणे सम्यक् सदहे, दर्शन होय निशंक रे;  
 दर्शन नाणेरे आत्म स्वज्ञावमां, राग रहित निकलंक रे ॥ तपण ॥ १५ ॥  
 तजी परज्ञाव रमे निज ज्ञावमां, चारित्र तेह अचंग रे;  
 एम त्रण गुण निरमल करी थिर रहे, आतम एकमां चंग रे ॥ तपण ॥ १६ ॥  
 दर्शन ज्ञान चरण गुण आत्मना, शुद्ध निज आत्म अचेद रे;  
 मारग दाख्यो रे एणि विधे मोक्षनो, निर्मल अखय अखेद रे ॥ तपण ॥ १७ ॥  
 क्षय करी पूर्वला आठे कर्मने, संजम तप करी शुद्ध रे;  
 सवि दुःख क्षय अर्थे ते महाक्षपी, प्राक्रम करी होय सिद्ध रे ॥ तपण ॥ १८ ॥  
 एम गुरु सोहमे जंबु आगले, मोक्ष मार्ग शुद्ध ज्ञाप्यो रे;  
 सुणी ज्ञविजन सहु दुःख क्षय कारणे, जिनवर मार्ग उद्धासो रे ॥ तपण ॥ १९ ॥  
 नरजव पामी एम सफल करो, ठंडी सकल उपाधी रे;  
 मनसुख सुरंगे रे शिव संगमां, विलसे परम समाधी रे ॥ तपण ॥ २० ॥



ॐ परमगुरुभ्यः नमः

उत्तराध्ययनना सम्यक्प्राक्रमनामा उगणत्रीशमा  
अध्ययनना सारनी ढालो लीख्यते.

दोहरा.

विमल कमल दल लोयणा, जगवती सरस्वती मात;	
हृदय धरी बहु मानथी, प्रणमुं श्री जगतात.	१
उत्तराध्ययन अध्येन ठे, उगणत्रीशमुं जेह;	
सम्यक्प्राक्रम नामनुं, जाख्युं जिन गुण गेह;	२
सोहम जंबुने कहे, वीर मुखे सुण्युं जेह;	
ते अवधारो चित विषे, सम्यक्प्राक्रम एह.	३
जे जिन देशित जावने, सुणी सदहे शुद्ध;	
प्रतित रुची दिलमां धरे, पाले करी थिर बुद्ध.	४
वली उपदेशे अन्यने, कीर्त्तन करे सप्राय;	
शोधे तत्त्व स्वरूपने, आण आराधक थाय.	५
फरसे आतम अंगमां, वली पाले शुद्ध बोध;	
जीव बहु सिद्धि वरे, करी निज आतम शोध.	६
बूटे आठे कर्मथी, परम निवृत्ति पाय;	
अंत करे सह दुःखनो, फरी संसार न आय.	७
अर्थ तेहनो जाखशुं, ते सुणजो धरी चित्त;	
मारग शुद्धो मोहनो, परम समाधि निमित्त.	८

ढाल पहेली ( १ )

॥ जीहो कुंवर बेठो गोखले ॥ ए राग ॥

चेतन जाव ते चेतना जीहो, शेष अनातम ॥

चेतनता शुद्धे ग्रहो जीहो, टाली रागादि विजाव ॥ चतुरनर  
सफल करो अवतार,

१० सम्यक्प्राक्रमनामा उगणत्रीशमा अध्ययनना सारनी ढालो.

निज शुद्ध शक्ति संज्ञाल ॥ चतुरनर धारो वस्तु स्वज्ञाव, पुद्गल  
ममता टाल चतुरनर सफल करो अवतार ॥ १ ॥

मुक्ति तणा अजिदाषथी जीहो, आवे सहज संवेग;<sup>१</sup>

लहि जव जोग विरक्तता जीहो, ताम लहे निर्वेद. चतुरनर ॥१॥<sup>२</sup>

रुची श्रद्धा लही धर्मनी जीहो, सेवे सद्गुरु पाय;<sup>३</sup>

गुरु शूश्रुषा साचवे जीहो, दोष आलोचे सदाय. चतुरनर ॥३॥<sup>४</sup>

निज दूषण निंदे तिहां जीहो, गर्हा सद्गुरु पास;<sup>५</sup>

सामायिक नित्य आदरे जीहो, चोवीश जिन स्तुति खास. चतुर ॥४॥<sup>६</sup>

द्वादशावर्त गुरु वंदतो जीहो, प्रतिक्रमण चित्त धार;<sup>७</sup>

दोषथकी पाठो वले जीहो, काजसग पञ्चख्वाण सार. चतुरनर ॥५॥<sup>१२</sup> <sup>१३</sup>

थोय स्तुति मंगल करे जीहो, प्रतिलेखन यथाकाल;<sup>१४</sup>

गुरुदत्त प्रायश्चित्त अनुसरे जीहो, खमीय खमावे उजमाल. चतुर ॥६॥<sup>१५</sup> <sup>१७</sup>

पंच विधे सप्रायनुं जीहो, जिन जिन फल शुद्ध;<sup>१८</sup>

वाचना वली पुढना जीहो, परियट्टणा करे बुद्ध. चतुरनर ॥ ७ ॥<sup>१९</sup> <sup>२०</sup> <sup>२१</sup>

अनुप्रेक्षा ने धरमकथा जीहो, ए पंचविध सप्राय;<sup>२२</sup> <sup>२३</sup>

थिर चित्ते करतां थकां जीहो, आतम निमर्ल थाय. चतुरनर ॥७॥<sup>२४</sup>

सूत्र आराधे शुज चित्ते जीहो, एकाग्र तत्त्व विचार;<sup>२५</sup>

संजम तप बोदाणथी जीहो, चेतन शुद्धि सुधार. चतुरनर ॥ ८ ॥<sup>२६</sup> <sup>२७</sup> <sup>२८</sup>

२८

सुख शाता संजावतो जीहो, गुरु तन मन लखी मर्म;

३०

परप्रतिबंध निवारीने जीहो, साधे श्री जिन धर्म. चतुरनर० ॥ १० ॥

३१

३२

विवित सय्यासन सेवतो जीहो, विषय निवृत्ति विशेष;

पंचे ईद्रि विजावधी जीहो, नहि धन कुटुंबावेश. चतुरनर० ॥ ११ ॥

३३

मुनि संजोगपञ्चस्काणने जीहो, करी टाले पर आश;

३४

रजोहरणादि राखीने जीहो, करे पञ्चस्काण निवास. चतुरनर० ॥१२॥

३५

३६

३७

आहार कषायने जोगनो जीहो, त्याग करे मन लाव;

३८

३९

शरीर सहाय श्छे नहीं जीहो, चाहे सहज निज दाव. चतुरनर० ॥१३॥

४०

४१

जक्त प्रत्याख्यान आदरे जीहो, धारे थिर सद्जाव;

एम विजावने त्यागतां जीहो, प्रगटे शुद्ध स्वजाव. चतुरनर० ॥१४॥

४२

४३

साधु प्रतिरुपे रहे जीहो, वैयावच्च श्रीकार;

४४

४५

पूरण गुण निर्मल करे जीहो, वीतराग अविकार. चतुरनर० ॥१५॥

४६

४७

४८

४९

खंति मुक्ति मृडुता धरे जीहो, आर्यव सरल स्वजाव;

५०

५१

जाव सत्यता आदरे जीहो, करण सत्यता दाव. चतुरनर० ॥१६॥

५२

५३

५४

५५

जोग प्रवर्ति सत्यता जीहो, मन वच कायनी गुप्ति;

५६

५७

५८

मन वच काय थिर थापतो जीहो, करतो पराक्रम युक्ति. चतुर० ॥१७॥

५९

६०

६१

ज्ञान दर्शन चरण गुणे जीहो, होवे आत्म संपन्न;

६२

६३

६४

६५

६६

श्रोत चक्षु घ्राण रसना तथा जीहो, फरस रस जीते धन्य. चतुर० ॥१८॥



६७ ६८ ६९ ७०

क्रोध मान माय लोचनो जीहो, विजय करे मुनिराय;

७१

राग द्वेष मिथ्यात्वने जीहो, जय करी पद्म वजाय, चतुरनर० ॥१९॥

७२

७३

करण सैलेशी आदरे जीहो, कर्म रहित होवे एक;

मनसुख पुरुषाकारथी जीहो, करे प्राक्रम सुविवेक. चतुरनर० ॥२०॥

ए तोत्तेर शुच चावनुं जीहो, चाख्युं फल जिनराज;

पंदर ढाले दाखशुं जीहो, सुणतां सीजे काज. चतुरनर० ॥२१॥

### ढाल बीजी ( ९ )

सुअप्पा आप विचारो रे, पर पख नेह निवार ॥ ए राह ॥ राग मारु ॥

सुप्राक्रम आप संचालो रे, लही निज पुरुषाकार. सुप्राक्रम० ॥

मुक्ति तणा अज्जिलाषने रे, कहे संवेग जिणंद;

धर्म अनुत्तर ते लहे प्यारे, निज गुण पर्माणंद. सुप्राक्रम० ॥ १ ॥

मुक्ति तणा अज्जिलाषथी रे, रुचे जिन देशित धर्म;

हायक समकित ते वरे प्यारे, शिघ्र लहे शिव शर्म. सुप्राक्रम० ॥ २ ॥

पुरण श्रद्धा धर्मथी रे, संवेग वधे नित जेम;

हय करे चार कषाय ते प्यारे, अनंतानुबंधीआ एम. सुप्राक्रम० ॥ ३ ॥

बंध टले ते प्रत्तीओ रे, पुनः न बंधे कर्म;

हायक दरिशाण ते लहे प्यारे, जाणे निज पर मर्म. सुप्राक्रम० ॥ ४ ॥

क्रोध मान माया नशे रे, चोथो नाशे लोचन;

मिथ्या ठेदे मूलथी प्यारे, समकित ड्रढ थिरथोच. सुप्राक्रम० ॥ ५ ॥

दरिशाण आराधक होवे रे, दरिशाण निर्मल होय;

कोष्क ते जवमां लहे प्यारे, मुक्ति कर्म अरु खोय. सुप्राक्रम० ॥ ६ ॥

कोष्क तिन जव ग्रहणमां रे, पावे जवजल पार;

अंत करे सह दुःखनो प्यारे, फरी नावे संसार. सुप्राक्रम० ॥ ७ ॥

देव मनुष्य तिर्यचना रे, रुचे नहीं जवजोग;  
 ते निर्वेदी जन लहे प्यारे, वीतरागता योग. सुप्राक्रम० ॥ ७ ॥  
 रमे न विषय विकारमां रे, त्रिकरण निवृत्ति पाय;  
 आरंज परिग्रह सहुतजी प्यारे, मग संसार ठेदाय. सुप्राक्रम० ॥ ८ ॥  
 प्राप्त होय शिवमार्गमां रे, शिघ्र वैराग्य उपाय;  
 धनघातीनो क्षय करी प्यारे, आत्म सिद्धि निपाय. सुप्राक्रम० ॥ ९ ॥  
 पंचास्ति नव तत्त्वनी रे, जे लहे धर्म प्रतित;  
 फल दाखो प्रभु तेहनं प्यारे, जंबु कहे सुविनित. सुप्राक्रम० ॥ १० ॥  
 ते तनु मन दुःख सुखमां रे, नवि रंजे निरधार;  
 ते तजी गृहस्थावासने प्यारे, आप होवे अणगार. सुप्राक्रम० ॥ ११ ॥  
 देहादि सुख दुःख रागने रे, द्वेष थकी जे बंध;  
 ते प्रतीओ बंधन टले प्यारे, लहे जिन धर्म संबंध. सुप्राक्रम० ॥ १२ ॥  
 परिसह ठेदन जेदने रे, मन नवि पामे क्षोन्न;  
 ममता माया डुर टले प्यारे, टले डुविध परलोन्न. सुप्राक्रम० ॥ १३ ॥  
 पामे अव्याबाध ते रे, मन तनु व्याधि विलाय;  
 अनुक्रमे ते निज पद लहे प्यारे, मनसुख शिवपद पाय. सुप्राक्रम० ॥ १४ ॥

ढाल त्रीजी ( ३ ) वारी रंग ढोलना ॥ ए राग ॥

लहि श्रद्धा जेणे धर्मनी रे हां, ते सेवे गुरु पाय ॥ चेतन चेतीए ॥  
 जक्ति यथोचित साचवे रे हां, वसे गुरु संग सदाय ॥ करमदल  
 जीतीए ॥ १ ॥

गुरु स्वामी शुश्रूषा तणी रे हां, जे नित्य करे संजाल ॥ चेतन० ॥  
 स्वामीवच्छल जेणे करी रे हां, ते लहे विनय विशाल ॥ करम० ॥ २ ॥  
 अण आशायण शिल धरु रे हां, निरय तिरी मनु सुर चार ॥ चेतन० ॥  
 कुगति ठेदी सुगति लहे रे हां, मन वंडित फल सार ॥ करम० ॥ ३ ॥  
 गुरु स्वामीनी जक्तिथी रे हां, विनय लहे बहु जेद ॥ चेतन० ॥  
 विनय प्राप्ति जेहने थई रे हां, पामे सुख अखेद ॥ करम० ॥ ४ ॥

नीच गोत्र बंधे नहीं रे हां, करी ऊंच गोत्रनो बंध ॥ चेतन० ॥  
 लहे सामग्री धर्मनी रे हां, शुद्ध गुरु आदि संबंध ॥ करम० ॥ ५ ॥  
 पग पग सिद्धि ते लहे रे हां, विघन टले मले रिद्धि ॥ चेतन० ॥  
 सेहेजे सुख संपति मले रे हां, लहे अष्ट महा सिद्धि ॥ करम० ॥ ६ ॥  
 विनय मूल सुप्रशस्तथी रे हां, निर्मल गुण गण पाय ॥ चेतन० ॥  
 विनय महा मंगल करे रे हां, सवि दुःख दोष विदाय ॥ करम० ॥ ७ ॥  
 विनयवंतने देखीने रे हां, बहु जन विनय लहंत ॥ चेतन० ॥  
 विनयवंत सहु काममां रे हां, पामे सिद्धि तुरंत ॥ करम० ॥ ८ ॥  
 जे गुरुने हीले नहीं रे हां, नवि बोले अपवाद ॥ चेतन० ॥  
 तजी निंदा स्तुति जे करे रे हां, ते लहे जग जशवाद ॥ करम० ॥ ९ ॥  
 अतिचार आलोचतो रे हां, कुण फल पावे तेह ॥ चेतन० ॥  
 शिष्य कहे प्रभु दाखवो रे हां, करी करुणा गुण गेह ॥ करम० ॥ १० ॥  
 मोक्ष मारगना घातकी रे हां, माया मिथ्या निदान ॥ चेतन० ॥  
 ठेदी ए त्रण शक्यने रे हां, निर्मल चित्त शुद्ध ध्यान ॥ करम० ॥ ११ ॥  
 शक्य संसार वधारणी रे हां, ठेदी मूलथी तेह ॥ चेतन० ॥  
 निर्मल रुजुता उपजे रे हां, शुद्ध धर्म लहे एह ॥ करम० ॥ १२ ॥  
 हा हा में अकृत कखुं रे हां, न करुं फेर कदाय ॥ चेतन० ॥  
 एम थिर चित्त करी मार्गमां रे हां, सावधान मुनि थाय ॥ करम० ॥ १३ ॥  
 नपुंसक वेद बंधे नहीं रे हां, नवि बंधे स्त्री वेद ॥ चेतन० ॥  
 पूर्व बंध पण निर्जरे रे हां, कपट रहित सु उमेद ॥ करम० ॥ १४ ॥  
 निज कृत दूषण निंदतो रे हां, करतो पश्चाताप ॥ चेतन० ॥  
 करण गुण सेठी आदरे रे हां, मिटे सकल संताप ॥ करम० ॥ १५ ॥  
 मारे मोहनि कर्मने रेहां, परम चरण लहे आप ॥ चेतन० ॥  
 अधिक विशुद्धि उपजे रेहां, मनसुख सहेज प्रताप ॥ करमदल  
 जीतीए ॥ १६ ॥

## ढाल चोथी (४)

॥ एक दिन गंगाके बीचे सुरसाथ बहोरा ॥ ए राग ॥

गर्हानुं फल गुरु कहे, सुणो शिष्य सुजाण ॥ हांहांरे सुणो शिष्यण ॥

वली ते दोषमां नवि पळे, निर्दोष विन्नाण ॥ हांहांरे निर्दोषण ॥ १ ॥

पापथकी बीहीतो रहे, जव जीऊ एह ॥ हांहांरे जवण ॥

गुरु सन्मुख गर्हा करी, वली न करे दोष तेह ॥ हांहांरे वलीण ॥ २ ॥

निज निज दोष धिक्कारतो, हीले आपही आप ॥ हांहांरे हीलेण ॥

द्रढ मन रहे निर्दोषमां, फेर न पश्चाताप ॥ हांहांरे फेरण ॥ ३ ॥

अप्रशस्त योग टले तिहां, वर्ते जोग प्रशस्त ॥ हांहांरे वर्तेण ॥

घाति अनंत प्रजायने, करि क्षय होवे स्वस्थ ॥ हांहांरे करिण ॥ ४ ॥

सामायिक फल जवि सुणो, सावद्य योग विरत्त ॥ हांहांरे सावद्यण ॥

दुविध प्राण हिंसा टले, विलसे आतम तत्त ॥ हांहांरे विलसे ॥ ५ ॥

स्तुति चोवीश जिणंदनी, दर्शन करे विशुद्ध ॥ हांहांरे दर्शनण ॥

गुरु सन्मुख वंदन करी, उत्तम फल लहे बुद्ध ॥ हांहांरे उत्तमण ॥ ६ ॥

नीच गोत्रनो क्षय करे, उंच गोत्रनो बंध ॥ हांहांरे उंचण ॥

बहु दाक्षिण्यता ते लहे, निर्मल वाणी संबंध ॥ हांहांरे निर्मलण ॥ ७ ॥

जिन आणा फल ते लहे, अति सुगम मग तेह ॥ हांहांरे अतिण ॥

अक्षर अर्थ सिद्धांतनो, मर्म लहे गुण गेह ॥ हांहांरे मर्मण ॥ ८ ॥

पामे ते सौजाग्यने, तन मन धन शुच योग ॥ हांहांरे तनण ॥

सुखे आराधे धर्म ते, पामे निज गुण जोग ॥ हांहांरे पामेण ॥ ९ ॥

प्रतिक्रमण करतो थको, पुरे व्रतना ठेद ॥ हांहांरे पुरेण ॥

आचार तथा व्रत द्रढ करी, निर्मल पूरे उमेद ॥ हांहांरे निर्मलण ॥ १० ॥

आश्रव कंधी संवरे, शुद्ध गुण परजाय ॥ हांहांरे शुद्धण ॥

आश्रव कारण त्यागतो, निर्मल संवर पाय ॥ हांहांरे निर्मलण ॥ ११ ॥

अडप्रवचन माता धरे, थिर उपयोग सुधार ॥ हांहांरे थिरण ॥

विचरे शीतल चित्त थई, करे निज पर उपगार ॥ हांहांरे करेण ॥ १२ ॥

दोष हणी पाठो वले, शुद्ध त्रण प्रणिधान ॥ हांहां रे शुद्ध ॥  
प्रतिक्रमण ते जाणीए, मनसुख सुविधान ॥ हांहां रे मनसुख ॥ १३ ॥

ढाल पांचमी ( ५ ) चंद्राननजिन ॥ ए राग ॥

काजसगनुं फल गुरु कहेरे, तनु मन ममतारे जाय;  
तनु रक्षण ईछे नहीं रे, निर्मल ध्यान सधाय रे. निज बल फोरवो ॥  
साधो शिव मग एह रे, आलस टुर करो. ॥ एदेशी ॥ १ ॥  
प्रतिक्रमणे प्रातिक टव्युं रे, शेष रहुं होय जेह;  
दहे हुताशन काष्टनें रे, दोष दहे तिम एहरे ॥ निज ॥ २ ॥  
चारवहो उतारतो रे, जेम माथेथीरे चार;  
तिम बहु पापना चारथी रे, हलवो होय अणगार रे ॥ निज बल ॥ ३ ॥  
परम प्रशस्त सुहित लही रे, विचरे मुनि महंत;  
लघु काले हणी कर्मने रे, पामे चवजल अंतरे ॥ निज बल ॥ ४ ॥  
पुद्गल विषयनो रस तजे रे, ते कहीए पचखाण;  
आश्रव चाव निरोधिने रे, प्रगट करे गुण खाण रे ॥ निज बल ॥ ५ ॥  
पुद्गल इछा परिहरे रे, धन परिजन सहु जोग;  
जोग तृष्णातुरता टले रे, सहेज समाधि संयोग रे ॥ निज बल ॥ ६ ॥  
गइ इछा परद्रव्यनी रे, सुलहो पामेरे बोध;  
शीतलीचूत थइ दिन दिने रे, करतो आतम शोध रे ॥ निज बल ॥ ७ ॥  
स्तुति करतो जिन मुनि तणी रे, वली करतो गुण गान;  
दरिशाण ज्ञान चरण लहे रे, लहे बोध शुद्ध ध्यान रे ॥ निज बल ॥ ८ ॥  
दरिशाण ज्ञान चरण लहुं रे, प्रगट्यो परम सुबोध;  
चरम क्रिया करी ते लहे रे, पद निर्वाण विनोद रे ॥ निज बल ॥ ९ ॥  
अथवा महर्द्धिक देवमां रे, उपजे राग प्रयोग;  
पण आराधक ते हुवो रे, आखर शिव सुख जोग रे ॥ निज ॥ १० ॥  
करे काल प्रतिवेखना रे, ज्ञानावरण द्य होय;  
गुरुदत्त प्रायश्चित आदरे रे, त्रिकरण निर्मल जोय रे ॥ निज ॥ ११ ॥

सकल दोष विशोधने रे, थाये निरतिचार;  
 सम्यक् प्रायश्चित्त शोधने रे, शोधे मार्गाचार रे ॥ निज० ॥ ११ ॥  
 जिन मग जिन मग फल लहेरे, चरतो पंचाचार;  
 फल लहे पंचाचारनुं रे, थिर पद सिद्धि उदार रे ॥ निज० ॥ १२ ॥  
 गुरु आदिकने खमावतो रे, खमावे सहु जीवजंत;  
 उपजे ज्ञाव प्राहुदता रे, मैत्रि ज्ञाव लहे संत रे ॥ निज० ॥ १४ ॥  
 प्राणीचूत सहु सत्त्वथी रे, उपज्यो मैत्रीरे ज्ञाव;  
 वैर विरोध करे नहीं रे, सहु जनथी समज्ञाव रे ॥ निज० ॥ १५ ॥  
 ज्ञाव विशुद्धि लहे थके रे, निर्जय रहे सदाय;  
 निज गुण निर्मल करी लहे रे, मनसुख सिद्धि सदाय रे ॥ निज० ॥ १६ ॥

ढाल ठठी (६) जिन सेवनथें पाइए हो ॥ ए राह ॥

श्री जिन आणा सेवतां हो, पाप ताप दुःख जाय लखना;  
 आतम आतमता लहे हो, शिव संपति सुखदाय लखना ॥ ए आंकणी ॥  
 ज्ञानावरणनी जरु दहे हो, जे नित्य करे सप्राय लखना;  
 पंच प्रकार ठे तेहना हो, जिन जिन सुखदाय लखना ॥ श्री जिन० ॥ १ ॥  
 देतां श्रुतनी वाचना हो, लहे जविक जिन धर्म लखना;  
 होय निर्जरा कर्मनी हो, जजे जन मन जर्म लखना ॥ श्री जिन० ॥ २ ॥  
 आशातना वर्जी सदा हो, वत्तें शुभ उपयोग लखना;  
 जवजलथी जवि तारता हो, प्रगटे केवल जोग लखना ॥ श्री जिन० ॥ ३ ॥  
 होये तीरथ धर्मनो हो, बहु जीवने आधार लखना;  
 परम निर्जरा ते लहे हो, अनंत प्रजाय उदार लखना ॥ श्री जिन० ॥ ४ ॥  
 तत्त्वारथ पूढे फले हो, सुत अर्थ उजयनी शुद्धि लखना;  
 दाय होवे कंखा मोहनी हो, होय समकित द्रढ बुद्धि लखना ॥ ५ ॥  
 सूत्र अर्थ संज्ञालतां हो, व्यंजन लब्धि होय लखना;  
 अर्थ अक्षर फल बहु फले हो, पद अनुसारीणी सोय लखना ॥ ६ ॥

द्वादश जावना जावतां हो, अंतर द्रष्टि लगाय लखना;  
 विण आयु साते कर्मनी हो, प्रकृति आदि नसाय लखना ॥ १ ॥  
 घन बंधन शीथील होवे हो, दीर्घ स्थिति लघु थाय लखना;  
 तिनानुज्ञाग मंदो पने हो, बहु दल कर्म खीराय लखना ॥ ७ ॥  
 सिय आयु बंधे कदा हो, सिय नवि बंधे कोय लखना;  
 बंधे तो शुच आयु ते हो, नर देव महर्द्धिक होय लखना ॥ श्री० ॥ ९ ॥  
 खपे अशाता वेदनी हो, अशुच बंध नवि होय लखना;  
 नामादिक शुच चारनो हो, बंध करे वली कोय लखना ॥ श्री० ॥ १० ॥  
 चाउरंत कंतार ठे हो, ए संसार असार लखना;  
 शीघ्र खपावे बंध ते हो, पामे जवजल पार लखना ॥ श्री० ॥ ११ ॥  
 आदि अंत ने मध्य न जेहनो, बहु दुःख पारावार लखना;  
 शुद्ध जावना जावतो हो, लहे शुद्धातम सार लखना ॥ श्री० ॥ १२ ॥  
 धर्म कथा करतो थको हो, पवयण प्रजावक थाय लखना;  
 प्रवचन प्रजावक थइ हो, जिन शासन दीपाय लखना ॥ श्री० ॥ १३ ॥  
 ए अति शुच परिणामथी हो, बंधे द्रढ शुच कर्म लखना  
 जडकताए उपजे हो, वर्त्तावे जिन धर्म लखना ॥ श्री जिन० ॥ १४ ॥  
 करतो सूत्राराधना हो, अज्ञान तिमिर करे नाश लखना;  
 लेश क्लेश तस नवि रहे हो, सहजानंद प्रकाश लखना ॥ श्री० ॥ १५ ॥  
 निज गुण लगे एकाग्रता हो, होवे चित्त निरोध लखना;  
 पूर्णातम गुण उद्धसे हो, प्रगटे केवल बोध लखना ॥ श्री० ॥ १६ ॥  
 वाखे चित्त उन्मार्गथी हो, तन वच मन द्रढ थाय लखना;  
 परम समाधि ते लहे हो, शिव मनसुख घर आय लखना. ॥ १७ ॥

ढाल सातमी ( ७ )

रामचंद्रके वाग चंपो मोरी रखोरी ॥ ए राह ॥

संजम थिर उपयोगथी, रुंधे आश्रव ठेद;

पर ममता त्यागी रहे, संवर लहे अखेद. ॥ १ ॥

- दरिणज्ञानचरणमयी, निज गुणमां तृप्त;  
 पुद्गल जोग इहा टले; तप जिनवर उक्त. ॥ २ ॥
- कर्म काष्ठ प्रजालतो, तप तपी मुनिराज;  
 रिक्त करे सहु कर्मने, पामे परम समाज. ॥ ३ ॥
- अडवीश लब्धी उपजे, होये रंकनो राय;  
 ते तपी वंडु नित प्रते, सहजानंदी सदाय. ॥ ४ ॥
- तपथी लहि व्यपदानने, बहु गुण शुद्धि होय;  
 धर्म शुक्ल वली ते लहे, तद्वज्र सिद्धे सोय. ॥ ५ ॥
- नाशे परपद कामना, टले परनी आश;  
 हीन दीनता सहु टले, प्रगटे गुण राश. ॥ ६ ॥
- कर्म क्षये व्यपदानथी, गुण शुद्धि थाय;  
 अनुक्रमे घनघाती हणि, खायक गुण पाय. ॥ ७ ॥
- अंतक्रिया करी ते मुनि, लहे पद निर्वाण;  
 परम निवृत्ति दुःखथी, पामे परम कल्याण. ॥ ८ ॥
- धर्माचार्यादिक तणी, सुख शाता संजार;  
 सुत फल पामे निर्मलुं, अनुकंपा उदार. ॥ ९ ॥
- रोग शोग जय उपशमे, चरण मोहनि जावे;  
 लहि गुणगणुं बारमुं, घनघाती खपावे. ॥ १० ॥
- पर प्रतिबंधन जे तजे, लहे जाव निसंग;  
 मिशदिन चित्त एकाग्रता, लागे ध्यान अजंग; ॥ ११ ॥
- विवित सय्यासन सेवतां, होय चरणनी गुप्ति;  
 धरी मुनि संजम निर्मलुं, साथे शिवमगयुक्ति. ॥ १२ ॥
- चरण गुप्ति मुनि दोषने, टाळी लीष आहार;  
 उढ चरण गुण उद्धसे, मोह मार्गाचार. ॥ १३ ॥
- मोह मार्ग प्रतिपन्नते, अरु कर्म विदारे;  
 सादि अनंतु सुख लहे, निजानंद सुधारे. ॥ १४ ॥



२० : सम्यक्प्राक्रमनामा उगणत्रीशमा अध्ययनना सारनी ढोलो.

विविध विज्ञावथी निवृत्ते. पाप क्रिया तजीने;  
उठ्यो मोह विदारवा, धीर वीर्य ग्रहीने. ॥ २५ ॥  
ठेदे पूरव बंधने, न बंधे नव कर्म;  
अंत करी संसारनो, मनसुख शिवशर्म. ॥ २६ ॥

### दोहरा.

मुनि संज्ञोग पञ्चखाण करी, खपे आलंबन चाव;  
प्रगटे निरावलंबता, सहजातम डढ चाव. ॥ १ ॥  
जोग शुद्धातम थिर हुवा, निज लात्रे संतोष;  
नहीं आशा परलात्रनी, लहे शांतरस पोष. ॥ २ ॥  
सुखशीलीआपणुं तजे, प्रगटे धैर्य अमाप;  
परम समाधी ते लहे, निर्मल डढ पद आप. ॥ ३ ॥  
उपधि तणा पञ्चखाणथी, मुनि निर्जय निःशंक;  
करे सप्राय सुध्यानथी, वर्जित क्लेश अरंक. ॥ ४ ॥  
उपधि घटावे जे मुनि, राखी संजम उपकर्ण.  
संयम यत्ना नित करे, टाले ज्ञानावर्ण. ॥ ५ ॥  
पर परियह ममता-तजी, वेस्त्रादिक नवी चाह्य;  
जेम संजममां मन ठरे, तिमं मुनि रहे सदाय. ॥ ६ ॥

### ढाल आठमी ( ८ )

नदी युमनाके तीर उमे दोय पंखीयां ॥ ए राह ॥  
आदर श्री. जिन वाण, नवी श्रवणे सुणी;  
करे आहार प्रत्याख्यान, मखे जो न एपणी;  
जाय जीवितआशंस, प्रयोग अकलुप ते;  
त्यागी कपायने शांत, रसे रहे मम जे. ॥ १ ॥  
उपजे चाव वीतराग तो, सम सुख दुःखमां;  
होय योग पञ्चखाण, गुणठाणे चउदमां;

नवि बांधे नव कर्म, पूरवलां निर्जेरे;  
होय शैलेसी करणने, शिव संपति वरे. ॥ १ ॥

करी शरीर पच्चख्खाणने, सिद्धे बुद्ध ते;  
कार्मण आदि त्यागि, रहे नित्य शुद्ध ते;  
लोकाये रहे तेह, समाधिमयी सदा;  
परम निवृत्ति पाय, प्रवृत्ति नहीं कदा. ॥ ३ ॥

करी सहाय पच्चख्खाण, लहे एकात्मने;  
सकल कलेशथी मुक्त, वरे परमात्मने;  
संजम बहोलता थाय, संवर पूरण वरे;  
ठंडी सहायनी आश, जवोदधिथी तरे. ॥ ४ ॥

निर्जय ने निकलंक, रहे महाणंदमां;  
सहज स्वरूप विलास, स्वतंत्र सुठंदमां;  
अंते जक्तपच्चख्खाण, करे मुनि ड्रढ थइ;  
ठेदे जव जंजाल, स्वगुणमां मगन थइ. ॥ ५ ॥

राखी निजास्ति जाव, तजे जे अन्यने;  
ठेदि अघाती अंश, वरे शिव शर्मने;  
संदेपे कद्यो अेह, लहो बहु सूत्रमां;  
मनसुख शिवघर वास, रहे आनंदमां. ॥ ६ ॥

ढाल नवमी ( ए )-राग जीलो.

अधिक उपधि तजतो मुनिरे, हलवो थइ निशंक; ॥ चितना सुधाण ॥

यथारूप प्रतिरूप तेरे, विचरे महियल संत; ॥ नर ते बुधाण ॥

चित चेती चतुर सुजाण वैय्यावच्च कीजे;

मुख मन चेष्टा लखी आपके अमृत पीजे ॥ आंकणी ॥ १ ॥

अप्रतिबंध विहारथीरे, रहे सदा अप्रमत्त ॥ चितनाण ॥

प्रशस्त विंग धारी मुनिरे, विलसे आतम तत्त; ॥ नरठ ॥ २ ॥

- द्रढ समकित समिति धरूरे, गुत्ती मुत्ती धार; ॥ चितना० ॥  
जितेंद्रिय जीतातमारे, करे तप उग्र विहार; ॥ नर० ॥ ३ ॥  
तन मन अधिक उमंगथीरे, वैयावच्च करे जेह्. ॥ चितना० ॥  
धर्माचार्यादिक लखीरे, दिन दिन अधिक सनेह्. ॥ नर० ॥ ४ ॥  
शासन प्रेरक मुनि प्रतेरे, देतो अधिक सहाय; ॥ चितना० ॥  
सुखशाता संजावतोरे, पासे रहे सदाय; ॥ नर० ॥ ५ ॥  
गुरु तन मन अजिप्रायनेरे, लह् लखी करे सार; ॥ चितना० ॥  
चित चिते गुरुराजनीरे, विविध आशायण टाल ॥ नर० ॥ ६ ॥  
आज्ञा इच्छाए चलेरे, चूके नांहि कदाय ॥ चितना० ॥  
तन विकसे मन उद्धसेरे, सेवे सदगुरु पाय ॥ नर० ॥ ७ ॥  
वैयावच्च नर जे करेरे, पूरण गुणगण पाय ॥ चितना० ॥  
गुरुगुणने अनुमोदतोरे, सकल कलेश नसाय ॥ नर० ॥ ८ ॥  
जग जस कीर्ति अति लहेरे, अशुभ न आवे पास ॥ चितना० ॥  
मन वंठित आवी मक्षेरे, जय नवि उपजे तास ॥ नर० ॥ ९ ॥  
वैयावच्च करवा तणोरे, जस मन लाग्यो रंग ॥ चितना० ॥  
विविध तरंगे उमगेरे, द्रढ चित्त अचल अजंग ॥ नर० ॥ १० ॥  
सकल अशाता फेरतोरे, दीश्रे शाता जरपूर ॥ चितना० ॥  
आलस तजी आनंदथीरे, रहे गुरु चरण हजूर ॥ नर० ॥ ११ ॥  
तीर्थंकर पदवी तणुं रे, नाम गोत्र करे बंध ॥ चितना० ॥  
वैयावच्च फल जाणियेरे, उत्तम अहे संबंध ॥ नर० ॥ १२ ॥  
वैयावच्चथी जीवनेरे, होय सहु गुण संपन्न ॥ चितना० ॥  
सहु गुण संपन्न जे हुवोरे, जगमां ते नर धन्य ॥ नर० ॥ १३ ॥  
पद निर्वाण महा लहीरे, नवी आवे जवमांस ॥ चितना० ॥  
तनु मन व्याधि बिलय गरूरे, परमानंद पद मांस ॥ नर० ॥ १४ ॥  
सादि अनंत विलास ठेरे, ते शाश्वत शिववास ॥ चितना० ॥  
ते माटे उद्धासथीरे, प्रगट करो गुण खास ॥ नर० ॥ १५ ॥

वीतरागता जेणे लहीरे, तोडे स्नेहनो पास ॥ चितना० ॥  
 शब्दादिक मनोझुमांरे, चाह दाह नहीं जास ॥ नर० ॥ १६ ॥  
 धन कुटुंबादि वस्तुमांरे, राग द्वेष नवि होय ॥ चितना० ॥  
 मारी मोह महा थरीरे, ममता टाळे सोय ॥ नर० ॥ १७ ॥  
 तूष्णा तरुणी त्रासतीरे, कबहु न आवे पास ॥ चितना० ॥  
 दीन दुःखीयो दुमणो नहींरे, मनसुख शक्ति विलास ॥ नर० ॥ १८ ॥

### ढाल दशमी ( १० )

रसीया तुज मुरति मोहनगारी ॥ अरे राह ॥

राग तजी समजाव लह्यो तस, कांत्यादिक गुण आवे;  
 परम कृमा लही परिसह जीते, निज पर प्राण बचावे ॥ चेतनजी शुद्ध-  
 कृमा थिर धारो. निजपर आतम तारो चेतनजी शुद्ध० ॥ अत्रांकणी ॥ १ ॥  
 दर्शन ज्ञान चरण आतमना, वीर्यादिक थिर राखे  
 अव्यप्राण पण न हणे कोशना, परम अमृत रस चाखे ॥ चेत० ॥ २ ॥  
 अपराधीशुं पण नवि कोपे, विरुद्ध न चिंते केनुं  
 साचो धर्म लहे नर तेहिज, मोह वशे न मन जेनुं ॥ चेत० ॥ ३ ॥  
 निश्चे शत्रु न मित्र न बीजो, अप्पा शत्रु मित्तो;  
 आत्म विरुद्ध ते शत्रु जाणो, निज अविरुद्धथी मित्तो ॥ चेत० ॥ ४ ॥  
 मुक्ति गुण पण तेहने आवे, जाय स्पृहा पुद्गलनी ॥  
 तेथी अकिंचन जाव लहीने, प्रगटे व्यक्ति अकलनी ॥ चेतन० ॥ ५ ॥  
 अकिंचनता जे नर पाम्यो, अव्य लोचन नहीं तेणे;  
 चोरादिक जय तास न होवे, निज धन जाण्यो जेणे ॥ चेतन० ॥ ६ ॥  
 लोचन गये माया पण जावे, सहज सरलता आवे;  
 रुजुता प्रगटी वक्रता विघटी, वरते शुद्ध स्वजावे ॥ चेत० ॥ ७ ॥  
 अविस्वादन जाव लह्यो जेणे, शुद्ध धरमधर होवे;  
 प्रगटी थिरता निर्मल चितनी, अकल सकल निज जोवे ॥ चेतना० ॥ ८ ॥

शुद्ध धर्म पण जविने जासे, आतम शक्ति उद्धासे;  
 वचन नयण मन तन नही वांकां, वरते सकल समवासे ॥ चेत० ॥९॥  
 कारण कार्य ग्रहे ते शुद्धां, कारक शुद्ध विदासे;  
 वंचे नांही कदापी कोईने, जिनवर वचन प्रकाशे ॥ चेत० ॥१०॥  
 आर्यवथी मारदव वली आवे, अरु मद पर्वत जंजे;  
 परम विनय निर्मल लही ते नर, आठ करम दल गंजे ॥ चेत० ॥११॥  
 साचो समय लहे विनयेथी, ज्ञानादिक फल पावे;  
 पग पग सिद्धि लही नर तेहीज, पुरण परमपद ध्यावे ॥ चेत० ॥१२॥  
 मधुर वचन मन करी उपदेशे, जिन शासन दीपावे;  
 परम समाधि लहे नर ते तो, वंचे आप स्वजावे ॥ चेत० ॥१३॥  
 द्रव्य क्षेत्र ने काल जाव ए, सकल द्रव्यना जाणे;  
 कोईना कोईमां नवि माने, निज द्रव्यादिक ध्याने ॥ चेत० ॥१४॥  
 सत्य जाव लहि सत्य उच्चारे, सत्य धरम ते पामे;  
 अरिहंतधर्म लहीने पूरण, जव जय व्याधि वामे ॥ चेत० ॥१५॥  
 सिद्धि धरम आराधक होवे, अंतर आतम जोवे;  
 अध्यवसाय मलिन होय उज्वल, निंद अनादिनी खोवे ॥ चेत० ॥१६॥  
 उद्यो शत्रु विदारण कारण, सकल करमदल कापे;  
 लब्धिवीर्य थीर धीरज धारी, मनसुख सहज प्रतापे ॥ चेत० ॥१७॥

ढाल अग्नीआरमी ( ११ ) ॥ स्वामी श्री मंदीरा ॥ ए राह ॥

जाव सत्ये लहे करणनी सत्यता, चरण करणे लहे निज गुण व्यक्तता  
 मन वचन इंद्रि पण चरण क्रिया करे, सहज शुद्ध परिणति

आत्म जावे धरे ॥ १ ॥

करत प्रतिवेखणा जंतु रक्षा जणी, दाऊ राखे सदा स्वपर आतम तणी  
 बोले तेम चालतां किरिया शक्ति वरे, आत्म सुप्रशस्तता चरण

गुण आदरे ॥ २ ॥

नाषी जिन आगमे शुद्ध विचारीने, वरते मुनि तेह विधे संयमहित धारीने  
वरते उत्सर्ग अपवाद शुद्ध जोईने, आत्मगुण थिर करे करममल  
खोईने ॥ ३ ॥

सत्य किरियावढे योगनी सत्यता, मन वचन काय त्रण होय निर्मल तदा  
वारि निज योगनी चपलता थिर करे, बंधना फंदथी बूटे उतावले ॥४॥  
थंजि नहीं चपलता योगनी ज्यां लगे, जोग आरंजनी परिणति त्यां जगे  
चपलता वारिए योगनी जवि जना, थिर करी योगने शिव  
लहो शुद्ध मना ॥ ५ ॥

मन वचन कायनी गुप्ति तव नीपजे, मननी गुप्तीथी एकाग्रता संपजे  
होय आराधक संजम पालतो, आत्म निरमल शक्ति नीहालतो ॥ ६ ॥  
वचन गुप्तीवडे जडप निवारतो, वचन विकारना दोष सहु टालतो  
वचन गुप्ते होवे दर्शन निर्मलो, साथे शिव पंथ वर धीर ते एकलो ॥७॥  
आत्म गुण विना विकथा अन्यडे, आत्मगुण राखवा सकल विकथा तजे  
आत्म हृद्ये रहे तेह अध्यातमी, रमत निज रम्यमां अशुद्ध  
परिणति वमी ॥ ८ ॥

वचननो योग शुद्ध चरणमां थापीए, जविकजन तारवा देशना आपीए  
ज्ञान दरशन चरण जविकजन जेम लहे, शुद्ध ए वचन विण  
अवर कंई नवि कंहे ॥ ९ ॥

काय गुप्ति धरे तेह संवर वरे, आश्रव पापनिरोध ते मुनि करे;  
गुप्ति त्रणधारी मुनि जोग सम धारतो, ज्ञान दरशण चरण  
दोष सवि वारतो ॥ १० ॥

मन समाधारणे होय एकाग्रता, ज्ञानपज्जव लहे दर्शन शुद्धता;  
तेह मिथ्यातनां दल घणां दाय करे, ज्ञान दर्शन बिहुं  
अतीय निर्मल करे ॥ ११ ॥

वच समाधारणे दरशन शुद्ध करे, दरशपरजाय विमल ड्रढ थिर ठरे;  
दूर्धज बोधनो दोष सवि निर्जरे, बोध सुद्धज लहे स्वायक पद वरे ॥१२॥

२६ सम्यक्प्राक्रमनामा उगणत्रीशमा अध्ययनना सारनी ढालो.

शुद्ध सिद्धांतना चाव समबोद्धतां, ड्रव्य अनुयोगना मर्म सहु खोद्धतां  
समकित निर्मलुं आतमा ते लहे, ईहजव परजवे बोध तस गुरु कहे ॥१३॥  
काय समाधारणे चरणनी शुद्धता, चरण परजाय सहु थाय विशुद्धता;  
स्वायक चरण पण तेह मुनिवर लहे, आत्मगुण रम्यमां  
रमण करी थिर रहे ॥ १४ ॥

वेदि अधातिआ कर्मनां अंशने, करत निकंदन कर्म अरु वंशने  
सिद्धि बुद्धि रहे परम समाधिमां, मनसुख सहज घर  
शिवरस अंगमां ॥ १५ ॥

ढाल बारमी ( १७ )

हे सुखकारी, आ संसार थकी जो मुजने उद्धरो ॥ ए राह ॥

हो चेतनजी, श्री जिन वचन हृदयमां नित संजालो;  
तजी आलसने, विषय रसे मची साची शिख न विसारो  
ज्ञान संपन्न जे नर होवे, सहु चाव अजिगम ते जोवे;  
संसार कंतारनुं दुःख खोवे, निजमय निज पज्जव जर  
जोवे ॥ हो चेतनजी ॥ १ ॥

सुत पोई सुई जेम नवि जावे, श्रुतज्ञानी शक्ति निज न गमावे;  
संसार त्रमण तस नवि थावे, वली पूर्णानंद पदवी पावे ॥ हो चेतनजी ॥ २ ॥  
स्वपर समय बहु विधि जाणे, नय निक्षेप वली बहु परमाणे;  
प्रमेय आदि बहु विज्ञाने, जे जेहना ते तेहना माने ॥ हो चेतनजी ॥ ३ ॥  
बहु विनय तपे जेणे नाण लह्युं, थिर चरण रमण निज शुद्ध ग्रह्युं  
गति चार त्रमण तस दूर गयुं, शुद्ध परमात्म पद प्राप्त थयुं ॥ चे ॥ ४ ॥  
द्वयउपशम समकित जे पावे, नवहेतु मिथ्यामती जावे;  
वली द्वायक दर्शन पण पावे, ते नव कंतारे नवि थावे ॥ चेतनजी ॥ ५ ॥  
अनुक्रमथी ज्ञान चरित्त लहे, आखर केवल ज्ञानादि लहे;  
दुःख दावानल बहु दोष दहे, सहजानंदे थिर थोज रहे ॥ चेतनजी ॥ ६ ॥

चरण संपन्न मुनि गुण पावे, सैलेशी करणे ते जावे;  
 अघाति चार तस द्यय थावे, लहि परमानंद फरी जव नावे॥चेतणा७॥  
 पहेलुं द्ययउपशम चरण लहे, शुच परिणामे यथाख्यात ग्रहे  
 शैलेसी करी दुःख दोष दहे, शिव सुंदरी संगे रंगे रहे॥चेतनजीणा७॥  
 कषायनी अग्नि बूजी गई, सर्वांगे शीतल शांती जई;  
 दुःख आपत थड जकथी न रही, करो उद्यम पुरुषाकार लहि॥चेतणा८॥  
 पंचेंद्रिय निग्रह जेह करे, निन्न फल तेहनं सुगुरु कहे;  
 गमता अणगमता शब्द सुणी, लुब्धे नहि लहन तेह जणी॥चेतणा१०॥  
 ते प्रतीओ कर्म ते नवि बंधे, नहीं राग ने द्वेष चहे धंधे;  
 निज आतम रमण नवि ठंमे, तन वच संजममां मन मंमे॥चेतनणा११॥  
 शब्द प्रतीओ बंधन द्यय थावे, शुद्धातममां थिरता पावे;  
 सुणी शब्दथी साचुं ध्यान चले, मनसुख उपयोगे रिद्धि  
 मले ॥ हो चेतनजीणा १२ ॥

### ढाल तेरमी ( १३ )

जीवना विषम विषयनी हेवा तुज कांइ लागे ॥ ए राह ॥

जीवडा विषम विषयनी लालच तुज कांइ लागे, सद्गुरु वचन  
 अमृत सम सुणी पण अजहु न निद्रा त्यागे ॥जीवडाणा ए आंकणी॥  
 शब्द सुणीने रूपादिक पण, विषयातुरता जागे;  
 सन्निपात पेरे विज्रम उपजे, उठि उठि घर घर जागे ॥ जीव० ॥ १ ॥  
 चौदराज लोके फिरि फिरिने, हीन दीन जनजन आगे;  
 दर्शन ज्ञान चरण निज रिद्धि, विण लखी जिद्धा मागे ॥जीवणा २ ॥  
 टुकमो टुकमो जेम जेम पावे, तेम तेम तृष्णा जागे;  
 सद्गुरु हित शिक्षामृत वचनो, कटुक बाणस्यां लागे ॥ जीवणा३ ॥  
 रूप देखी स्त्री पुरुषादिकनां, तन मन मनमथ जागे;  
 कूड कपट मद मान धरी बहु, डुराचार रस पागे ॥ जीव० ॥४ ॥



२८ सम्यक्प्राक्रमनामा उगणत्रीशमा अध्ययनना सारनी ढालो.

विषय वशे खट्कायानुं बहु, विरुद्ध करे अतिरागे;  
कामवशे पंचेंद्रिय घाते, मनमां कांश्च न लागे ॥ जीव० ॥ ५ ॥  
घोर अंधारे नरक पके त्यां, परमाधामी आगे;  
ताडन तर्जन त्रीम जयंकर, दुःखथी करी डरी जागे ॥ जीव० ॥ ६ ॥  
परवश पत्नीओ जाय कीहां ते, नवि आवे कांय लागे;  
सद्गुरु वचन सुधारस चाखी, गुण गण रसीओ जागे ॥ जीव० ॥ ७ ॥  
उत्तम नरजव धर्म सामग्री, लहि किम समज न जागे;  
स्याद्वाद अमृत रस घटने, ब्रूयो विषया कागे ॥ जीव० ॥ ८ ॥  
महा जेर विषयविष लाग्यो, डंस्यो काले नागे;  
वार वार द्रष्टे दुःख देखे, तोपण विषय न त्यागे; ॥ जीव० ॥ ९ ॥  
वैर विरोध करी बहु जनथी, काल अनंतो आगे;  
लघु कर्मीं ते वेगो चेतें, सुणी जिन वचन विरागे ॥ जीव० ॥ १० ॥  
ब्राह्मण विषयना दोषो बहोला, अणगमता गमता लागे;  
द्वेष राग तेथी बहु उपजे, लहे न जवजल थागे ॥ जीव० ॥ ११ ॥  
रसना रस लेतो बहु चूले, नावे शुद्धे मागे,  
फरस विषय बहोला पण तेथी, तन मन व्याधि जागे ॥ जीव० ॥ १२ ॥  
विनय विवेक न पामे ते नर, जस मन विषये जागे;  
लटपट ऊटपट चटपट मंडे, नवि वेसे गुरु आगे ॥ जीव० ॥ १३ ॥  
चित्त चपलता अग्नि जागे, नसी खसी अलगो जागे;  
इत उत फिरतां विषय जीख लहि, अमृत सम मन लागे ॥ जीव० ॥ १४ ॥  
विषय अजिलापी दास जगतनो, जगजन एंठे पागे  
सद्गुरु वचन लग्यां जस मीठां, गयो विषयथी आघे ॥ जीव० ॥ १५ ॥  
निजगुण वृज्यो मारग सूज्यो, मुनि रमे आतम वागे;  
आतम गुण गण पुष्प परागे, दुःख दोहग डुर जागे ॥ जीव० ॥ १६ ॥  
निजपर हित जाणे जे सुमति, ते सौ विषयो त्यागे;  
संजम सम दम अमृत जागे, आतम अनुभव लागे ॥ जीव० ॥ १७ ॥

इंद्रि पंचना शब्दादिक पण, जूडा रुमा न लागे;  
 पूर्व बंध निर्ऊरणा करीने, फरी नवि बंधे आगे ॥ जीवडाण ॥ १७ ॥  
 फल किंपाक समो विषयरस, रम्य विषयीने लागे;  
 चखत चखत विष वेग वधे तव, वैद्य कोण तस आगे ॥ जीवडाण ॥ १८ ॥  
 क्रोधादिक ठे दोष अनंता, विषय विकारने रागे;  
 आतम हित जाणी नर शूरा, खेले निज गुण बागे ॥ जीवडाण ॥ १९ ॥  
 मिथ्या अटवी पाहारु ओळंघी, आव्यो तुं जिनमागे;  
 ठोकी प्रमाद करे तुं प्राक्रम, कर्म शत्रु सहु जागे ॥ जीवडाण ॥ २० ॥  
 चरण प्रधान रायनी नंदनी, प्रशमरति रुडी लागे;  
 ते मन मानी ममता ज्ञानी, जडता दूरे जागे ॥ जीवडाण ॥ २१ ॥  
 विनवे गुरुने प्रशम मेलावो, गुरु पण प्रेरण लागे;  
 कृपा लही चेत्यो चित चतुरो, लीयो अश्व घर आगे ॥ जीवडाण ॥ २२ ॥  
 वर घोड आरुढ अईने, वश करी ज्ञाननी वागे;  
 शिर कसुंबी पाघां पहेरी, शिव वीवाहमां जागे ॥ जीवडाण ॥ २३ ॥  
 अमला कमला विमला शिववर, सादि अनंते जागे;  
 घरणी नव तरुणी वर परणी, मनसुख केशरीए वाधे ॥ जीवडाण ॥ २४ ॥

### ढाल चौदमी ( १४ )

ध्रुवपद रामी हो स्वामी माहरा ॥ ए राह ॥

विषय विजयी हो मुनिवर जे हुवा, कषाय विजयी ते होय ॥ धन्यज्ञानी ॥  
 परम रुमा होवे तस निर्मली, वैर न राखे हो कोय ॥ धन्यज्ञानी ॥ १ ॥  
 पूरवबंध हो ततखिण निर्ऊरे, ते प्रत्तिओ नहि बंध ॥ धन्य ॥  
 निज धन अखय अखंमित जेणे लह्युं, ते किम होवे रे अंध ॥ धन्य ॥ २ ॥  
 नवि बांधे ते क्रोधनी वेदनी, मोहनी क्रोधनी जाय ॥ धन्य ॥  
 मान जीतीने हो वरमृडुता लहे, नमन शील मन थाय ॥ धन्य ॥ ३ ॥  
 विनय लहे नर अतिशय परवरो, धन्य विनयी मही मांछ ॥ धन्य ॥  
 ज्ञानादिक गुण अतिशय संपजे, समदर्शी सहु मांछ ॥ धन्य ॥ ४ ॥

३० सम्यक्प्राक्रमनामा उगणत्रीशमा अध्ययनना सारनी ढालो.

सत्ता सहु जीवनी सरखी लखे, लघु गुरु कोइ न होय ॥धन्य०॥  
जीव सहु सिद्ध समान विचारतां, तेहने मान न कोय ॥धन्य ॥ ५ ॥  
माया विजयीने रुजुता संपजे, निर्जरे वक्र विज्ञाव ॥ धन्य० ॥  
माया प्रतीउ कर्म बंधे नहीं, प्रगटे सम सुप्रज्ञाव ॥ धन्य० ॥ ६ ॥  
लोच विजयी निस्पृहता पामीने, पामे परम संतोष ॥ धन्य० ॥  
टले पुद्गल परिणतिनी कामना, निज ज्ञानादिक पोष ॥धन्य०॥ ७ ॥  
लोचनी वेदनी ते सहु निर्जरे, लोच प्रत्तिओ नहीं बंध ॥धन्य०॥  
निज धन अखय अखूट विचारतो, त्यां नहि लोचनो धंध ॥धन्य०॥ ८ ॥  
जीत कषायनी जे मुनिवर लहे, जीते प्रीतिने छेष ॥ धन्य० ॥  
वली मिथ्यातनां दल सहु क्षय करे, न रहे लेश कलेश ॥ धन्य ॥९॥  
दर्शन ज्ञान चरणे साधवा, द्रढ शुध धारो उमेद ॥ धन्य० ॥  
निज शुद्ध पंक्ति वीर्य संज्ञालीने, करे गुण आत्म अचेद ॥धन्य०॥१०॥  
ठेदे आठे कर्मनी गंठीने, द्रढ धरी संजम वेष ॥ धन्य० ॥  
जाये पयडि अष्टावीश मोहनी, क्षायकचरण अशेष ॥धन्य० ॥११॥  
पंच प्रकृति ज्ञानावरणनी, नव ठे दर्शनावर्ण ॥ धन्य० ॥  
पंच अंतरायनी ए सहु साथमां, क्षय करी होय निरावर्ण ॥धन्य०॥१२॥  
चारे घातीकर्मने घातीने, केवल दर्शन नाण ॥ धन्य० ॥  
अक्षय लब्धि हो पंच प्रगट करे, जलहल केवल ज्ञाण ॥धन्य०॥१३॥  
लोकालोक प्रकाशे पूरणो, लहुं तेरमुं गुणठाण ॥ धन्य० ॥  
परम समाधि पूर्णाणंदमां, सादि अनंत अमान ॥ धन्य० ॥ १४ ॥  
इरियापथ्यनी किरिया तिहां रहि, पढम समये करे बंध ॥धन्य०॥  
बीजे वेदे हो त्रीजे निर्जरे, नहि संपरायनो धंध ॥ धन्य० ॥ १५ ॥  
यथा आयु पालीने हो ते मुनि, अंतमुद्धूत रहे जाम ॥ धन्य० ॥  
करे शैलेसी करण हो धिर थई, सिद्धि लहे अजिराम ॥धन्य०॥१६॥  
अप्रतिपाती क्रिया शुक्ल ध्याननुं, आव्युं निर्मल ध्यान ॥ धन्य० ॥  
पढम समय मन जोगने रुंधिने, बीजे वचन सुजाण ॥ धन्य० ॥१७॥

तीजे काय जोग रंधी मुनिवरु, रंधे आणापाण ॥ धन्य० ॥  
ह्रस्वाहार पंच स्थिती जव रहे, समुष्ठिन्न निवृत्तिध्यान ॥ धन्य० ॥१७॥  
ध्यातो क्षय करे वेदनी आयुने, नाम गोत्र समकाल ॥ धन्य० ॥  
त्यागी उदारिक तैजस कार्मण, शिव पोते देई फाल ॥ धन्य० ॥ १८ ॥  
एक समय समश्रेणी विग्रह विना, प्रदेश अप्फुसमान ॥ धन्य० ॥  
लोकाये रहे धिर शाश्वतो, सुखजर अखय अमान ॥ धन्य० ॥ १९ ॥  
परम निवृत्ति हो परमानंदमां, अक्षय सादि अनंत ॥ धन्य० ॥  
एम जंबु आगे हो सोहम प्रजु, जाख्यो ए विरतंत ॥ धन्य० ॥ २० ॥  
प्राक्रम सम्यक् जे एम आदरे, अतिशय वीरजवंत ॥ धन्य० ॥  
मनसुख शिव सहजे हो रंगे रमे, विलसे सुख स्वतंत ॥ धन्य० ॥ २१ ॥

### कलश.

गायो गायोरे सम्यक् प्राक्रम एम गायो.  
सूत्रे अति विस्तार ठे एहनो, ईहां संक्षेप देखायो  
स्याद्वाद जिन वचन सुणीने, मुज मन मगन सवायोरे ॥सम्यक्०॥१॥  
तनुमतिथी कांई जूल अई होय, ते बुध लेजो सुधारी;  
सद्गुनी गुरुगम लेई जविजन, अक्षर अर्थ संजारीरे ॥ सम्यक्० ॥ २ ॥  
काचे जरोसे कोई न रहेशो, लेजो तत्त्व तपासी;  
सार सिद्धांतनो अर्थ लहिने, होजो शिवपुर वासीरे ॥ सम्यक्० ॥ ३ ॥  
दाहोद ओगणीश त्रेशठ फागण, शुक्ल पूनम गुरु साचो;  
श्रीगुरु वदन वचनरस पामी, मुज मन हरखे माच्यो रे॥सम्यक्०॥४॥  
मनसुख शिव घर शिव संगे रही, सहजानंद उपावे;  
सादि अनंत स्वतंत आनंदे, विलसे आप स्वजावेरे ॥ सम्यक्० ॥५॥

## अनाथी मुनिनी सप्राय.

ढाल पहेली ( १ ) ॥ सहजानंदीरे आतमा ॥ एराह ॥ (वेलावल )

श्रेणीक वन क्रीमा समे, तरु हेठे मुनि एक;  
देखी मोह्योरे रूपथी, पूठे प्रश्न विवेक ॥ ईण विध संयम आदरो,  
धैर्य धरी वरुवीर, ईह विध कर्म शत्रु हणो, हवे मत थाओ अधीर  
॥ ईण ० ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥

त्रण प्रदक्षिणा देईने, करपुट शीश चढाय  
गुरु चरणे वंदि वदे, उत्तर द्यो मुनिराय ॥ ईण ० ॥ २ ॥  
ए यौवन एह रूपने, अवगणी किम हुश्रो साध;  
दुर्लभ जोग मनुष्यना, विलसी लहो समाध ॥ ईण ० ॥ ३ ॥  
कहे मुनि नाथ न मुजशिरे, तेणे तज्या सहु जोग;  
नाथ विना दुःख बहु सह्यां, तेणे ग्रह्यो संयम योग ॥ ईण ० ॥ ४ ॥  
राय कहे तुज नाथ हुं, विलसो जोग अपार;  
धन कण कंचन तरुणीथी, साचां सुख उदार ॥ ईण ० ॥ ५ ॥  
मुनि कहे मगधेशरु, तुज शिरको नहि नाथ;  
तो परने केम राखशो, फोकट जीरुवी वाथ ॥ ईण ० ॥ ६ ॥  
राय कहे प्रभु जूठ ए, केम दाखो मुज एम;  
मुनि कहे सुणजे वात तुं, अर्थ अनाथनो जेम ॥ ईण ० ॥ ७ ॥  
कौशंबी नगरी जली, परिगल रिद्धिवंत;  
मुज पिता व्यवहारीश्रो, परिकर जास अत्यंत ॥ ईण ० ॥ ८ ॥  
नारी सुकुलनी गुणवती, दावण्य रूप रसाळ;  
शब्दादिक पण विषयना, विलसुं जोग विशाल ॥ ईण ० ॥ ९ ॥  
एक दिन मुजने वेदना, अंगे अग्नि समान;  
उपनी ते नवि सहि शक्यो, जाणे कोईरे जाण ॥ ईण ० ॥ १० ॥

शत्रु तिदण शस्त्रथी, जेम जीव ठेदेरे अंग;	॥ इण० ॥ ११ ॥
तिम मुज आंखेरे वेदना, उपजी अति उतंग.	॥ इण० ॥ १२ ॥
कटी मस्तकमां शूलनी, इंद्र वज्र सम घोर;	॥ इण० ॥ १३ ॥
टलवलतो एम दुःखमां, कोण त्राता तिहां थोर	॥ इण० ॥ १४ ॥
औषध जेसज बहु कर्या, मंत्र जंत्र मणी तंत;	॥ इण० ॥ १५ ॥
पण ते वेदना नवि समी, कर्या प्रयोग अत्यंत	॥ इण० ॥ १६ ॥
मात पिता कूरी रक्षां, जगनी बंधव मित्र;	॥ इण० ॥ १७ ॥
चपल चित्त उद्वेगता, अइ सौने विचित्र	॥ इण० ॥ १८ ॥
नारी नयणां वारीथी, जीज्युं माहकं गात्र;	॥ इण० ॥ १९ ॥
एम में जाण्युं अनाथ हुं, थयो संजम पात्र	॥ इण० ॥ २० ॥
त्राण शरण जगको नहि, नहि कोइ पण केनो;	॥ इण० ॥ २१ ॥
वस्तु गुण पज्जवमयी, जेहनो होय ते तेहनो	॥ इण० ॥ २२ ॥
जो ए वेदना उपशमे, तो लेउ संयम जार;	॥ इण० ॥ २३ ॥
दमी हामी अणगार हुं, साधु पंच आचार	॥ इण० ॥ २४ ॥
परप्रतिबंधन त्यागीने, घर तजी रहि वनवास;	॥ इण० ॥ २५ ॥
इम चिंतवतां उपशमी, जे बहु देतीरे त्रास	॥ इण० ॥ २६ ॥
रजनी वेदना मीट गइ, जलहल उग्योरे सूर;	॥ इण० ॥ २७ ॥
अनुज्ञा लेइ कुटुंबनी, हुओ साधु सनूर	॥ इण० ॥ २८ ॥
जोग देमंकर हुं थयो, हुओ स्वपरनो नाथ;	॥ इण० ॥ २९ ॥
खट्काय रक्षा करुं, तेथी जाण सनाथ	॥ इण० ॥ ३० ॥
शुरू स्वरूप शुद्धात्मनुं, दाखी जविजन तारुं	॥ इण० ॥ ३१ ॥
नाथपणुं तेथी खरुं, पद मनसुख प्यारुं	



## ढाल वीजी ( ९ )

मारो नाहलीओ डुचाशे, अरुशो माजी ॥ ए राह ॥

अप्पा नंदनवन मेरु सम, आतम करता अकरता;

जोगी अजोगी ठे स्याहादे, निज गुण पज्जवत्तरता ॥ जूलोमाजी—

माजी माजी माजी हो चेतन जूलोमाजी, नरत्तव सफल

करोने, जूलोमाजी,

जिन वच अमृत पीजे जूलोमाजी ॥ माजी माजी माजी हो

चेतन जूलोमाजी ॥ १ ॥

सम जावे आतम सामायिक, पर त्यागे पञ्चरूपाण

शुरू उपयोग धरे जो निर्मल, आतम संजम जाण. ॥ जूलो ॥ २ ॥

डुष्ट कषाय वशे वैतरणी, कूरु सामली तरु ठाण;

उन्मार्गे शत्रु ए साचो, शुच मग मैत्री प्रधान. ॥ जूलो ॥ ३ ॥

कामगवी ए कामित पूरण, चिंतामणी सम एह;

आतम परमातमनिज जोगे, परमातम गुण गेह ॥ जूलो ॥ ४ ॥

राग हणे अरिहंत ठे एह, सिद्ध परम पद जोगे;

पंचाचारथी ए आचारज, वाचक श्रुत उपयोगे ॥ जूलो ॥ ५ ॥

समपद सेवे तेहिज साधु, ज्ञान स्वपरनो जाण;

दर्शन देखे आतम दर्शन, चरण रमण सुखठाण ॥ जूलो ॥ ६ ॥

दर्शनज्ञानचरणमय चेतन, तृप्त सुधारस रीजे;

पुद्गल विषय न ईहे कबहु, आतम तप एम कीजे. ॥ जूलो ॥ ७ ॥

तजी विकल्प निज गुण थिर राखे, आतम क्हांति स्वरूप;

कोई जीव पण जे न उवेखे, ते आतम मृष्टु रूप ॥ जूलो ॥ ८ ॥

सरल स्वजाव सदा शिव रूपे, अज्ञाव आतम कहीए;

जे निस्पृही रहे सहु जगथी, आतम मुक्ति लहीए ॥ जूलो ॥ ९ ॥

द्रव्य क्षेत्र ने काल जाव निज, धारे सत्य स्वजाव;

रागादिक विण शौच रहेजे, शौच ते विना विजाव ॥ जूलो ॥ १० ॥

द्रव्य जाव खदकायनो रक्षक, परम दयामय एह;  
 शुद्ध स्वरूप रमे जे अखंफित, शुद्ध ब्रह्म गुणगेह ॥ चूलो ॥ ११ ॥  
 कंचन तृण पण आत्म न राखे, एम अकिंचन कहीए;  
 पुद्गल परिणति ममता धरतां, कहो किण विध सुख लहीए ॥ १२ ॥  
 रागादिक विषधर विषहारक, मणि सम आतम जाणो;  
 मनसुख आतम अनुभव योगे, रहे शिवसंग सुजाणो ॥ चूलो ॥ १३ ॥  
 ठाल त्रीजी ( ३ ) ॥ सिद्ध चक्र पद बंदो ॥ ए राह ॥  
 नहि ममता नहि पुद्गल संगत, नहि पर परिचय जोग;  
 ग्राहक व्यापक नहि पुद्गलनो, न ईहे परजोग रे ॥ जविका संयम ॥  
 शुद्ध आराधो, जेम शिव संपति साधोरे ॥ जविका ॥ १ ॥  
 पुद्गल आश विलास तजी मुनि, मारग शुद्ध आराधे;  
 केवल दर्शन नाण लही तस, शिव सुख संपति लाधेरे ॥ जविका ॥ २ ॥  
 कातर नर प्रवर्ज्या ग्रहीने, रहे प्रमाद आचारे;  
 इंद्रिय विषय धनादि लंपट, नाथपणो नवि धारे रे ॥ जविका ॥ ३ ॥  
 आदरी पंच महाव्रत मोटां, समकीत शुद्ध न स्पर्शे;  
 समिति गुप्ति पण ते नवि धारे. धैर्य विना केम तरशेरे ॥ जविका ॥ ४ ॥  
 महाजन धीर वीर पुरुषारथ, प्राक्रमथी जव तरिया;  
 सिंह परे जे कर्म विदारे, ते मुनि अनुभव दरियारे ॥ जविका ॥ ५ ॥  
 धीर पुरुष सेवित जे मारग, तनु मति ते न संजारे;  
 दीन हीन थई जववन जटके, तेह स्वपर केम तारे रे ॥ जविका ॥ ६ ॥  
 रोग अनंत निदान एह तन, बहु दुःख दोहग खाणी;  
 तास ममत्व तजीने नरपति, पीओ अमृत जिन वाणीरे ॥ जविका ॥ ७ ॥  
 मूढ कुमति त्यागे नहि किणविध, बहु प्रेयो पण शठ;  
 जिन मारग तजी बलेश लहे बहु, जो नवि ठंडे दृष्ट रे ॥ जविका ॥ ८ ॥  
 पोली मूठी खोटुं नाणुं, मणि काचनी असार;  
 तत्त्वज्ञान सम्यक् दर्शन विण, चारित्र तास निसाररे. ॥ जविका ॥ ९ ॥



पासथ्या कुशिल ओसन्नां, अहिठंदा जेख धारी;  
 कहें हम साधुपण नहि साधु; नरक तणा अधिकारीरे ॥ जविका० ॥१०॥  
 ज्योतिष वैदक ने सामुद्रिक, स्वप्न शास्त्र बली जाणे;  
 ए आदि आजीविका करतो, रह्यो प्रथम गुणठाणेरे. ॥ जविका० ॥११॥  
 धारी मिथ्यात अने धन राखे, काम कुतुहल करतो;  
 शरण तेहने कही कोण होवे, जव दरिये दुःख जरतोरे ॥ जविका० ॥१२॥  
 अग्नि परे सहु जही होवे, पिरु अनेषणी देवे;  
 आधाकर्मादिक बहु दोषे, शुद्धाचरण न सेवेरे. ॥ जविका० ॥ १३ ॥  
 नरजव त्यागी डुरगति जावे, बहु कडवां फल पावे;  
 कंठ ठेदक शत्रु परे मूरख, डुराचार उपावे रे ॥ जविका० ॥ १४ ॥  
 शत्रु पण जे दुःख नवि देवे, असंयम तेथी अधिको;  
 त्राण शरण अपनो जो चाहो, सद्गुरू शरणे हरखोरे ॥ जविका० ॥१५॥  
 जिनोदित जे मार्ग विराधी, जागी विषय गृह्य होवे;  
 जव कंतारे जमतां डुरमती, आपही आप विगोवे रे ॥ जविका० ॥१६॥  
 रे मतिवंत ए मार्ग सुणीने, रत्नत्रय आराधो;  
 हीणाचार तजीने मनसुख, समपद शिव सुख साधोरे ॥ जविका० ॥१७॥

ढाल चौथी ( ४ )

॥ अलगी रहेने, रहेने रहेने रहेने अलगी रहेने ॥ ए राह ॥  
 एम अनुत्तर मारग सेवी, आठे कर्म विदारी;  
 विपुल उत्तम मुक्ति सुखशाश्वत, शिव कमला लहे प्यारी ॥ होचेतन शिख  
 धरो ए सारी, सारी सारी सारी हो चेतन ॥ शिख० ॥ जिनवाणी  
 हितकारी ॥ हो चेतन शिख० १ ॥ ए आंकणी ॥  
 दमी दमी तपोधन मुनिवर, महा प्राज्ञ जशवंत;  
 बहुश्रुत एम श्रेणीकने बोधे, करुणा धारी अनंत ॥ हो चेतन शिख० ॥१॥  
 एम सुणी नरपति मन हरख्यो, करपुट शिश चढावी;  
 चरण कमल बली वंदे मुनिना, उलट अंगे लावी ॥ हो चेतन शिख० ॥३॥

एह अनाथपणुं तुमे दाख्युं, रुच्युं मुज मनमांही;  
 सहहुं ईष्टुं ने परिईष्टुं, तुम सम तारक नांही ॥ हो चेतन शिखण ॥४॥  
 धन्य जन्म प्रचुजी तुं पाम्यो, मुज सम दीन उगायों;  
 जव दवथी मुज दूरे कीधो, जवदधि पार उतायों॥हो चेतन शिखण॥५॥  
 तुं बंधव त्राताने त्राता, तुंहीज नाथ हमारे;  
 साचो तीर्थपतिनो मारग, तुं जग जनने तारे ॥ हो चेतन शिख ॥ ६ ॥  
 तुज ध्याने जे विघन क्युं में, क्षेमंकर मुनि खमीए;  
 वली में जोगादिक निमंत्र्या, खमजो ते उपशमीए॥हो चेतन शिखण॥७॥  
 अंतेउर परिवार सहित नृप, जिन दरिशाण रस लीना;  
 निर्मल स्फटिक समोचित्त जेहनो, साते धाते जीना॥हो चेतन शिखण॥८॥  
 हुवा विकस्वर रोम कूप सहु, तीन प्रदक्षिणा देतां;  
 शिरनामी करी स्तुति गुणगाई, हरखे निजघर पोहोता ॥ हो चेतन  
 शिखण ॥ ९ ॥

अपक्रिबंध अनाथि मुनिवर, समिति गुति धरतो;  
 सकल ममत्व रहित पंखी परे, त्यागी मोह विचरतो ॥ हो चेतन  
 शिखण ॥ १० ॥

एहवा मुनिना वचन सुणीने, जे जवि तत्त्व विचारे;  
 शुद्धातम संयम अच्युसी, ते मुनि निज पर तारे ॥ हो चेतन  
 शिखण ॥ ११ ॥

संदेहे अनाथि मुनिनो, ईहां अधिकार ए दाख्यो;  
 आगममां विस्तार घणो ठे, श्री सोहम गुरु आख्यो ॥ हो चेतन  
 शिखण ॥ १२ ॥

कस्तुरांबाई आग्रहथी, अनाथी मुनि गायो;  
 चारे ढाले अखंड प्रबंधे, शुद्ध उपयोग रमायो ॥ हो चेतन ॥ १३ ॥  
 दोहद पोष शुकल दशमी बुध, मनसुख चित्त उद्धासे;  
 केवल कमला अमला पामी, शिव घर वास विद्वासे ॥ हो चेतन ॥१४॥

ॐ परमगुरुभ्यो नमः

गणधर केशीस्वामी अने गौतमस्वामीना प्रश्नोत्तर.

दोहरा.

अमृत वचन गणधर तणां, स्यात्पद सम शुचि बोध;

सुणतां ऋविजन रुदयमां, प्रगटे परम प्रमोद. १

गुरु गौतम केशी तणो, सुणतां वचन सुवाद;

आतम आतमता लहे, नाशे दुष्ट विषाद. २

ढाल पहेली ( १ ) देश मनोहर मालवो ॥ ए राह ॥

पुरुष प्रधान श्री पासजी, त्रिजग पूज्य जगवंत ललना

केवल दर्शन ज्ञाननो, जलहल ज्योति दिणंद ललना वचन सुणो

गणधर तणां, पामोसुख अनंत ललना जिन वाणी हृदये धरो

॥ ए आंकणी ॥ १ ॥

अरि जीपी तीरथ थापीने, तार्या ऋव्य अनेक ललना;

तास चरण प्रणमी कहुं, हृदये परम विवेक ललना. ॥ वचन० ॥ २ ॥

पास शिष्य केशी मुनि, निर्मल दीपक ज्योति ललना;

विद्या चरणे पूरणो, करतो धर्म उद्योत ललना. ॥ वचन० ॥ ३ ॥

मति श्रुति ओहि नाण ठे, नहि प्रतिबंध लगार ललना;

जशवंतो अवनितले, करतो उग्र विहार ललना ॥ वचन० ॥ ४ ॥

सावन्धीपुरी आवीआ, शिष्य समाकुल तेह ललना;

तिंडुक नाम उद्यानमां, नयर मंडल गुण गेह ललना. ॥ वचन० ॥ ५ ॥

फासु सय्या संथारके, तिहां मुनि कीध निवास ललना;

प्रतिबोधे ऋवि जीवने, स्याद्वाद सुविदास ललना. ॥ वचन० ॥ ६ ॥

तिण काले तिण अवसरे, धर्म तीरथ अरिहंत ललना;

केवलदर्शनज्ञानमय, वर्द्धमान जगवंत ललना. ॥ वचन० ॥ ७ ॥

तासशिष्य दीपक समो, विद्या चरण महंत ललना;  
 शिष्य समाकुल विचरतो, गुरु गोयम गुणवंत ललना. ॥ वचन० ॥ ७ ॥  
 पूरण द्वादश अंगनो, जाव दधि चउनाणी ललना;  
 तिणे नयरे ते आवीआ, जसधर बहु विज्ञान ललना. ॥ वचन० ॥ ८ ॥  
 सावथी पुर मंडले, कोष्टक नाम उद्यान ललना;  
 फासुसय्या संथारके, सहित मुनि बुद्धि निधान ललना ॥ वचन० ॥ ९ ॥  
 केशी गोयम बेहु तिहां, विचरे महाजशवंत ललना;  
 समिति गुप्तिधर बेहु, सहज समाधि महंत ललना ॥ वचन० ॥ १० ॥  
 बेहु शिष्य समुदायमां, उपनी शंका ताम ललना;  
 पंच महाव्रत वीरना, पास प्रभु चउ जाम ललना. ॥ वचन० ॥ ११ ॥  
 किण विध धर्म श्री वीरनो, पास विधि व्रत केम ललना;  
 एकज शिवसुख साधने, डुविधा दीसे एम ललना ॥ वचन० ॥ १२ ॥  
 वस्त्र धरे मुनि पासना, बहु विधि वर्ण समेत ललना;  
 अपवादे मुनि वीरना, धारे मानोपेत ललना. ॥ वचन० ॥ १३ ॥  
 एह विकल्पने टालवा, गोयम करी सुविचार ललना;  
 जेष्ट कुल प्रभु पासनुं, लही साथे परिवार ललना ॥ वचन० ॥ १४ ॥  
 आव्या तिंडुक उद्यानमां, ज्यां मुनि केशी कुमार; ललना  
 केशीए देखी आवता, श्री गोयम गणधर ललना ॥ वचन० ॥ १५ ॥  
 विनय यथा विधि साचवे, मुनि संजम उजमाल; ललना  
 मनसुख बीजी ढालमां, सुणजो वचन रसाल ललना ॥ वचन० ॥ १६ ॥

॥ दोहरा ॥

शिष्योने आज्ञा करी, शालादिक चार पलाल  
 दर्ज सहित ए पंचनो, करी आसन सुविशाल ॥ १ ॥  
 यथोचित सहु संग युत, विनय करे गणधर  
 प्रणमे गौतमने मुनि, हरखे केशी कुमार ॥ २ ॥

चंद्र सूरज सम शोभता, विहु गणी महा प्रजाव  
पाखंती बहु गामीया, गृहस्थ धरी बहु जाव ॥ ३ ॥

ईम बहु दिशीथी आवीआ, धारी चित्त उमंग  
परम पुरुषनो मेल ईम, जोवा सुणवा रंग ॥ ४ ॥

देव दानव गंधर्व तिम, जख राक्षस किन्नर जूत  
आकाशे अदृश्य रही, वचन सुणे रुची युक्त ॥ ५ ॥

ढाल बीजी ( ९ ) सहजानंदीरे आतमा ॥ ए राह ॥

केशी विनय सहित वदे, द्यो आज्ञा महाजाग  
तुम ईशाएरे प्रश्न हुं, करवा चाहुं हुं लाग ॥ हितकर वचन ए  
सांजलो ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥

जे ईशो तेह पूठीए, गोयम बोलेरे एम;  
तव केशी आज्ञा लही, प्रश्न करे धरी प्रेम. ॥ हितकरण ॥ २ ॥

पंच महाव्रत वीरने, पास प्रज्ञू व्रत चार;  
कारज एक मुक्ति तणो, ए किम जिन विचार. ॥ हितकरण ॥ ३ ॥

ए दुविधानो मनविषे, किम शंसय नहि तुज;  
ते माटे रे उत्तर करी, शंका टालो ए मुज. ॥ हितकरण ॥ ४ ॥

वलतुं ईद्रजूति कहे, प्रज्ञाए रहे धर्म;  
आतम वस्तु स्वजावनो, निश्चय जाणो ए मर्म. ॥ हितकरण ॥ ५ ॥

दर्शन ज्ञान चरणमयी, निज आतम गुण शुरू;  
करवा कारण बहु विधे, दाख्या केवली बुरू. ॥ हितकरण ॥ ६ ॥

क्षेत्र काल आदिक बहु, कल्प विकल्प अनेक;  
निर्मल गुण प्रगटी रहे, धरीए तेह विवेक. ॥ हितकरण ॥ ७ ॥

निर्मल स्फटिक मणी समो, पर विण शुरू स्वजाव;  
प्रगटे शुद्धविधि साधतां, माटे तजीए विजाव. ॥ हितकरण ॥ ८ ॥

शुजु जरु प्रथम जिणंदना, समय तणा तो ठे साध;  
साधु वक्र जरु वीरने, वारे कक्षा विख्यात. ॥ हितकरण ॥ ९ ॥

- अजितादिक बावीशना, सरल अने पंडित;  
जावत पास प्रजु लगे, तेणे ईम कल्प विदित. ॥ हितकर० ॥ १० ॥
- गोयम तुज प्रज्ञा जळी, ठेद्यो संशय एम;  
वली शंसय ठे मुजने, कहो यथावत जेम. ॥ हितकर० ॥ ११ ॥
- कल्प अचेलक वीरने, पंच वर्ण बावीस;  
डुविध लिंग ए किम कह्या, दाखो एह मुनीश ॥ हितकर० ॥ १२ ॥
- केवलज्ञान विज्ञानथी, लिंग कह्यो जिन एम;  
कहे गौतम जिम जेहने, संयम हित होय तेम ॥ हितकर० ॥ १३ ॥
- लिंग प्रयोजन लोकनो, लोके लिंग प्रतित;  
लिंग देखी मुनिवर लखी, दिले आहारादि विनित ॥ हितकर० ॥ १४ ॥
- दर्शन ज्ञान चारित्रने; कारण आतम धर्म;  
नहितर लिंग विरुंबना, केशी ठंडो ए जर्म ॥ हितकर० ॥ १५ ॥
- मिथ्याती पण आचरे, पासत्यादिक एम;  
आजीविका पूजादिके, धरे लिंग बहु एम ॥ हितकर० ॥ १६ ॥
- संयम राखे लिंगते, लिंगथी रहे सचेत;  
लोचादिक बहु कल्पना, स्वपर दयाने हेत ॥ हितकर० ॥ १७ ॥
- जे जे साधन धर्मना, रुजु प्राज्ञने योग;  
वर्षा कल्प आदिक कह्यां, मुनि उपकरणे प्रयोग ॥ हितकर० ॥ १८ ॥
- उपकरण चौद वली कह्या, लिंग विकल्प अनेक;  
एकांते मिथ्यात ठे, हठ बिन धरो विवेक ॥ हितकर० ॥ १९ ॥
- जन मन रंजन लिंग ठे, निश्चय आतम धर्म;  
रत्नत्रयी निर्मल करो, जिम नाशे वसु कर्म ॥ हितकर० ॥ २० ॥
- शोचन प्रज्ञा ताहरी, केशी कहे विवेक;  
शंका ठे वली मुजने, दाखो उत्तर ठेक ॥ हितकर० ॥ २१ ॥
- सुणजो आगल ढालमां, मनसुख ज्ञान विखास;  
प्रश्नोत्तर मुनि केशीनो, गौतम वचन प्रकाश ॥ हितकर० ॥ २२ ॥

### ढाल त्रीजी (३)

पद्म प्रचु जिन तुज मुज अंतरूरे ॥ ए राहण ॥

शत्रु अनंतने एकखेरे, तें केम जीत्या संत  
कहे केशी उत्तर करोरे, इंद्रजूत सुमहंत ॥ गणधर वचन  
सुहामणारे, रढ लागी मुज एम मारग देशक मुनिवरूरे ॥ १ ॥

॥ ए आंकणी ॥

जगवासी बहु जीवनेरे, पूठे शत्रु अनंत;  
धार्ष्टने बहु विध विधेरे, देता डुख अनंत ॥ गणधर ॥ २ ॥

एक जीत्ये जीत्या पंचने रे, पण जीत्ये पचवीश;  
पणवीशे अनंतने रे, जीती लही सुजगीश ॥ गणधर ॥ ३ ॥  
शत्रु कोण कीण शस्त्रथी रे, तें जीत्या मुनि धीर;  
आत्म शत्रु जीतीयो रे, ज्ञान खरुग धरी धीर ॥ गणधर ॥ ४ ॥

विषय पंच इम जीतिआ रे, तिम पचवीश कषाय;  
अध्यवसाय असंख्यना रे, जीत्या अनंत प्रजाय ॥ गणधर ॥ ५ ॥  
शत्रु जीती सुखे रहं रे, निज निधी सहित सदाय;  
इम जीते केशी शत्रुने रे, जग जय पडह वजाय ॥ गणधर ॥ ६ ॥  
तुज प्रज्ञा रुमी अति रे, ठेव्यो शंसय एम;

ब्रवी शंसय ठे मुजने रे. दीजे उत्तर तेम ॥ गणधर ॥ ७ ॥  
पास बंध दीसे घणा रे, जगमां जीव अनंत;

ठेदी पास लघु थई रे, तुं कीम विचरे संत ॥ गणधर ॥ ८ ॥

कापी बंधन युक्तिथी रे, लघु थई विचरं एक;

सहज स्वतंत्र समाधिमां रे, विचरं ग्रही विवेक ॥ गणधर ॥ ९ ॥

कोण पास कोण शस्त्रथी रे, ठेव्यो तें वडवीर

कहे केशी उत्तर करो रे, मुनि गोयम गंजीर ॥ गणधर ॥ १० ॥

तीव्र स्नेह पुद्गल तणो रे, राग द्वेषमय पास

ठेव्यो प्रज्ञा ठेणीए रे, यथा न्याय सुविलास ॥ गणधर ॥ ११ ॥

प्रज्ञा निर्मल ताहरी रे, ठेवो शंसय एह  
 वली शंसय मुज मनविषे रे, दीजे उत्तर तेह ॥ गणधर० ॥ १२ ॥  
 जेरी लता फेली घणो रे, उपज्या विषफल तास,  
 बेदी लता तें उद्धरी रे, केस पाम्यो सहज विलास ॥ गणधर० ॥ १३ ॥  
 लता उखेडी मूलथी रे, तजी विष ज्ञान तेह;  
 जीवुं निज जीवन लही रे, सुण केशी गुण गेह ॥ गणधर० ॥ १४ ॥  
 कोण लता कोण शस्त्रथी रे, बेदी थयो निशंक;  
 कृपा करी उत्तर दिओ रे, जिम जांजे मुज शंक ॥ गणधर० ॥ १५ ॥  
 जव तृष्णा जेरी लता रे, फल उदय जयकार;  
 निस्पृह असिए बेदीने रे, रहुं हुं नित अविकार ॥ गणधर० ॥ १६ ॥  
 शोजन प्रज्ञा ताहरी रे, वली शंसय ठे मुज;  
 केशी कहे उत्तर करो रे, पूवुं गोयम तुज ॥ गणधर० ॥ १७ ॥  
 प्रजलित अग्नि आकरी रे, दाजे ठे जग जीव;  
 केम बुजावी तेहने रे, विलसो शांति सदीव ॥ गणधर० ॥ १८ ॥  
 महा मेघ वरस्यो सही रे, में ग्रहं उत्तम नीर;  
 निज अंगे सिंचुं सदा रे, रहुं जिनो वरवीर ॥ गणधर० ॥ १९ ॥  
 ते कोण अग्नि आकरी रे, ते कोण अमृत मेह;  
 इंद्रचूति मुज दाखवो रे, मटे केशी संदेह ॥ गणधर० ॥ २० ॥  
 कषाय अग्नि आकरी रे, तीर्थपति महामेह;  
 श्रुत शील तप जल वडे रे, अग्नि बूजावी तेह ॥ गणधर० ॥ २१ ॥  
 रुमी प्रज्ञाए करी रे, ठेवो शंसय एह;  
 वली शंसय मुज टाळीए रे, कहे केशी गुण गेह ॥ गणधर० ॥ २२ ॥  
 दुष्ट अश्व साहसिक घणो रे, उन्मत्त अति जयकार;  
 ते उपर आकळीने रे, किम आव्यो घर द्वार ॥ गणधर० ॥ २३ ॥  
 सूत्र रसी करमें ग्रही रे, केववी करी स्वाधीन  
 उत्तमग बोमी मग चढ्यो रे, में कीधो गुणलीन ॥ गणधर० ॥ २४ ॥



कोण अश्व ते जाणीए रे, ते दाखो मुनिराय  
 गोयम कहे मन अश्व ते रे, ते दमतां सुख थाय ॥ गणधर० ॥ १५ ॥  
 धर्म शीखामण शीखव्यो रे, कर ग्रही ज्ञान लगाम  
 अति केलवणी आदरी रे, आव्यो वंठित ठाम ॥ गणधर० ॥ १६ ॥  
 गोयम प्रज्ञा श्वकी रे, टाढ्यो शंसय सव  
 वली मुजने उत्तर करो रे, शंसय एक अवद्य ॥ गणधर ॥ १७ ॥  
 मनसुख जिन वच धारजो रे, आगल अति रसाळ;  
 चेतन चेतनता वरे रे, शिवकमळा जयकार ॥ गणधर० ॥ १८ ॥

ढाल चोथी ( ४ ) ॥ धनरा ढोळा ॥ एराह ॥

उन्मारग बहु लोकमां रे, कुमती हठी कथित ॥ हे मुनिराया ॥  
 जेथी जीव शुद्ध मार्गमां रे, पग न धरे अविनित ॥ हे मुनिराया ॥ १ ॥  
 किम शुद्ध मारग तें लह्यो रे, नागो सकल कलेश " ॥ २ ॥  
 कोई विधि नाश जीहां नही रे, दाखो तेह गणेश " ॥ २ ॥  
 उन्मारग जाणी तजी रे, विचरुं शुद्ध सुपंथ ॥ सुण मुनिराया ॥  
 तेणे हूं अति सुखीओ थयो रे, सुण केशी निग्रंथ ॥ " ॥ ३ ॥  
 शुद्ध पंथ ते कोण ठे रे, वली ते कयो कुपंथ ॥ हे मुनिराया ॥  
 केशी कहे मुज दाखवो रे, करुणा करी जगवंत ॥ " ॥ ४ ॥  
 कुप्रावचनिक जाणिये रे, सांख्यादि उन्मार्ग ॥ सुण मुनिराया ॥  
 स्याद्वाद जिन देशीओ रे, उत्तम ते सन्मार्ग ॥ " ॥ ५ ॥  
 तुज प्रज्ञाए मुजने रे, शंसय रह्यो न लेश ॥ हे मुनिराया ॥  
 वीजा शंसय मुजने रे, ठेदो तेह अशेष ॥ " ॥ ६ ॥  
 महा उदकना वेगमां रे, ब्रूंतता बहु जीव ॥ " ॥ ७ ॥  
 नव जीऊ ते दीनने रे, शरण थाय कोण दीव ॥ " ॥ ७ ॥  
 तिहां एक महा द्वीप ठे रे, सहु नवीने आधार ॥ सुण मुनिराया ॥  
 जिहां पाणी लागे नही रे, सुखकर अति विस्तार ॥ " ॥ ८ ॥

- द्वीप कहो ते कोण ठे रे, कोण ठे उदक प्रवाह ॥ हे मुनिराया ॥  
 एम केशी पूढे थके रे, कहे गोयम गणनाह ॥ सुण मुनिराया ॥ १० ॥  
 जरामरण जल वेग ठे रे, धर्म द्वीप सुखकार ॥ ”  
 तेम शरण वली सद्गुरु रे, द्वीपे छावणहार ॥ ” ॥१०॥  
 रुमी प्रज्ञाए करी रे, ठेयो शंसय एह ॥ हे मुनिराया ॥  
 कहे केशी वली टाळीए रे, गौतम शंसय जेह ॥ ” ॥११॥  
 सठिद्र नाव चढी जे चले रे, कीम लहे जवजल पार ॥ ”  
 ठिद्र रहित कोण नाव तेरे, उत्तर द्यो गणधार ॥ ” ॥१२॥  
 नाव भाविणि दोरुती रे, अति जल वेग प्रवाह ॥ सुण मुनिराया ॥  
 तेह मध्ये बूढे सही रे, केम दधि पार निवाह ॥ ” ॥१३॥  
 नाव कहो ते कोण ठे रे, ठिद्र विहूणी सार ॥ हे मुनिराया ॥  
 जे उपर आरुढीने रे, पामीजे दधि पार ॥ ” ॥१४॥  
 देह नाव मोटुं कहुं रे, नाविक कहिए जीव ॥ सुण मुनिराया ॥  
 आश्रव ठिद्र मुदी चले रे, महारुषी लहे शिव ॥ ” ॥१५॥  
 गौतम प्रज्ञा निर्मली रे, केशी कहे वली एम ॥ हे मुनिराया ॥  
 शंसय एक मुज टाळीए रे, इंद्रचूति धरी प्रेम ॥ ” ॥१६॥  
 अंधकार तम घोरमां रे, मूंजि रह्या बहु जीव ॥ हे मुनिराया ॥  
 तेहने कोण उद्योत दे रे, जेम लहे सुख सदीव ॥ ” ॥१७॥  
 उग्यो ज्ञानु निर्मलो रे, जलहल जागृत ज्योत ॥ सुण मुनिराया ॥  
 लोकालोक प्रजाकरु रे, आपे तेह उद्योत ॥ ” ॥१८॥  
 कोण ते रविकर निर्मलो रे, कोण घोर अंधार ॥ हे मुनिराया ॥  
 केशी कहे उत्तर करो रे, गोयम मुनि गणधार ॥ ” ॥१९॥  
 तीर्थकर रवि उगियो रे, केवलज्ञान उद्योत ॥ सुण मुनिराया ॥  
 कुमत घोर तम फेडतो रे, निर्मल थिर जस ज्योत ॥ ” ॥२०॥  
 महा प्रज्ञा गोयम मुनि रे, केशी शंसय जाय ॥ हे मुनिराया ॥  
 वली शंका उत्तर करो रे, मनसुख जिम सुख थाय ॥ ” ॥२१॥

ढाल पांचमी ( ५ ) चंद्रानन जिन ॥ ए राह ॥

दुःख शरीरी मानसी रे, बंध्या प्राणी अनेक  
 अणावाह शिव केममई रे, थानक कहो कोण एक रे॥ मुनि अवधारीए,  
 आपी उत्तर एह रे, नविजन तारीए ॥ आंकणी ॥ १ ॥  
 ठे स्थानक ध्रुव एकलुं रे, पण अति दुर्लभ तेह  
 जिहां नहीं व्याधि वेदना रे, मरण जरा नहीं रेह रे ॥ मुनि० ॥ २ ॥  
 अचल शिव सुखमय किस्यो रे, स्थानक दर्शो रे तुज,  
 ते दाखो गोयम मुनि रे, नवि रहे शंसय मुज रे ॥ मुनि० ॥ ३ ॥  
 निराबाध निरवाण ठे रे, लोकाये स्थिति नित्य  
 अणावाह शिव केममां रे, विलसे सिद्ध अजित रे, ॥ मुनि० ॥ ४ ॥  
 शाश्वत वास वसे तिहां रे, सकल कर्म करी नाश  
 सादि अनंते पूरणो रे, निज निधि अखय विदास रे ॥ मुनि० ॥ ५ ॥  
 शोचन प्रज्ञा ताहरी रे, ठेवो शंसय धरी हित  
 सकल सूत्र महोदधि रे, हुं थयो शंक रहित रे ॥ मुनि० ॥ ६ ॥  
 बहु विनय सन्मानथी रे, निज परिवार समेत  
 केशी गोयम चरणे रे, शिर नामे धरी हेत रे ॥ मुनि० ॥ ७ ॥  
 करपुट शीष चढावीने रे, मुनि गणी बंध्या रे बुद्ध  
 फटिक रयण सम केशीनुं रे, चित्त थयुं अति शुद्ध रे ॥ मुनि० ॥ ८ ॥  
 पंच महाव्रत आदर्या रे, जाणी ससमय सार  
 पढम चरम जिन शासने रे, शोत्रे एह उदार रे ॥ मुनि० ॥ ९ ॥  
 गोयम केशीनो हवे रे, नित्य समागम थाय  
 चरचे सूक्ष्म तत्त्वने रे, ज्ञान चरण चित्त लाय रे ॥ मुनि० ॥ १० ॥  
 सुत शील तप आचारनो रे, द्रढ निश्चय होय जेम  
 नव नव प्रश्नोत्तर करे रे, केशी गोयम एम रे ॥ मुनि० ॥ ११ ॥  
 तुष्ट हुई प्रजा सवे रे, थई सम्यक् उजमाळ  
 केशी गोयमनी करी रे, गुण थुति अति सुविशाळ रे ॥ मुनि० ॥ १२ ॥

एवा मुनिना वयण जे रे, सुणी सद्वही आचरे जेह  
पाळे मनसुख ते लहे रे, शिव संपति निज गेह रे ॥ मुनि० ॥ १३ ॥

ढाल ठठी ( ६ ) ॥ जवजव ठरीएजी ॥ ए राहण ॥

प्रजाबोध हित कारणे रे, वली गोयम सन्मान रे;  
निजद्रढ बोध विस्तारवा रे, केशी प्रश्न विधान रे॥हीयडे धरीएजी०  
सुणि गणधर वचन विसाल दीलने ठरीएजी, जेम नावे जव जय  
सोग अमृत जरीएजी ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥  
पढम चरम जिनना कह्या रे, जरु सरल जरु वक्र रे;  
वच्चे बावीस जिन तणा रे, शिष्य सरलने दक्ष रे ॥ हीयडे० ॥ २ ॥  
तेथी पढम चरम जिनवारे, पंच महाव्रत होय रे;  
मध्य बावीसना समे रे, चार महाव्रत जोय रे ॥ हीयडे० ॥ ३ ॥  
जेम जेहने संयम रहे रे, तेम प्रज्ञा सुविचारो रे;  
कालादिक कारण लखी रे, अचेत सचेतक धारो रे ॥ हीयडे० ॥४॥  
एकज आतम जीततां रे, शत्रु अनंत जीताय रे;  
तेणे जीतो निज आतमा रे, सहजे सिद्धि सुहाय रे ॥ हीयडे० ॥५॥  
ठेदे प्रज्ञा ठेणीए रे, स्नेहबंध महापास रे;  
लघु थई विचरे ते सदा रे, पामे सहज विलास रे ॥ हीयडे० ॥ ६ ॥  
जवतृष्णा जेरी लता रे, निस्पृहता करवाले रे;  
जरुथी उपाडी सुखी रहे रे, उदय जेर फल टाले रे ॥ हीयडे० ॥७॥  
प्रजलित दावानलसमो रे, दुस्तर विषम कषाय रे;  
तीर्थपति महा मेघनी रे, श्रुती जलधारे बुजाय रे ॥ हीयडे० ॥ ८ ॥  
मन उन्मत वक्र तुरंगने रे, शिक्षा धर्म शिखाय रे;  
कर ग्रही ज्ञान लगामथी रे. वंछित थानक पाय रे ॥ हीयडे० ॥ ९ ॥  
कुमतीकृत मारग घणा रे, उन्मग जाणी तेह रे;  
स्याद्वाद जिनपथ चले रे, सिद्धि पामे तेह रे ॥ हीयडे० ॥ १० ॥

जरा मरण जल वेग महा रे. शुद्ध धरम महा द्वीप रे;  
 सद्गुरु चरण शरण रहे रे, लावे द्वीप समीप रे, ॥ हीयडे० ॥ ११ ॥  
 देह जहाज महा मोटकुं रे, नाविक जाणो जीव रे;  
 आश्रव ठिद्र मृदी करी रे. संवरी पामे शीव रे ॥ हीयडे० ॥ १२ ॥  
 महा मिथ्यातम घोर ठे रे, जय जारी अज्ञान रे;  
 केवलज्ञान उद्योत ठे रे, तीर्थपति ठे जाण रे ॥ हीयडे० ॥ १३ ॥  
 तनु मन दुःखने बंधने रे, बंध्या जीव अत्यंत रे;  
 खेम कुशल शिव स्थान ठे रे, शाश्वत सादि अनंत रे ॥ हीयडे० १४  
 उत्तर द्वादश प्रश्नो रे, श्रीगोयममुनि दाख्यो रे;  
 सकल प्रजा हरखित थई रे, गोयम जय जश नाख्यो रे, ॥ हीयडे० १५  
 एम नित्य तत्त्व विचारतां रे, द्रढतर बोध उद्घासे रे;  
 विमलातम सिद्धि लही रे, मनसुख शिवघर वासे रे. ॥ हीयडे० ॥ १६ ॥

॥ संपूर्ण ॥



श्री तेर क्रियानी सप्रायनी ढालो प्रारज्यते.

दोहरा.

वंडु वीर जिणंदने, शासन नायक देव;  
 चार निकायना देवता, सारे चरणनी सेव. १  
 सारश्रुती प्रणमी कहुं, तेर क्रिया अधिकार;  
 जे जविजन एहने तजे, ते लहे सुख अपार. २  
 खट् ढाले करी वर्णवुं, संक्षेपे विस्तार;  
 जाणी विशेषे सूत्रथी, तरजो ए संसार. ३  
 अंतातीत गुणे जया, सिद्ध अनंतानंत;  
 जिन आचारज वाचक, मुनि गण वंडु महंत. ४

ढाल पहेली ( १ ) दान सुपात्रे दीजे हो जवीया-ए राह.

सेवो श्री जिन वाण जवीया, सेवो श्री जिन वाण,  
 तेर क्रिया सूगनांगे दाखी, कर्म बंधनां ठाण,  
 आतम हित कारण ते तजीए, निज गुण लहीय सुजाण ॥जवीयाण॥१॥  
 अर्थदंड अनर्थदंड तिम, हिंसादंरु अयाण;  
 अकस्मात्दंड वली चोथो, द्रष्टिवक्र पंचम ठाण ॥ जवीयाण ॥ २ ॥  
 दंड समादान पंच ए तजीए, हृदये स्वपर हित आण;  
 निज गुण निज उपयोग रमावे, ते लहे पद निर्वाण; ॥ जवीयाण ॥ ३ ॥  
 मोसवत्तिए ठठी सप्तमी, जाखी अदिनादान  
 दुष्ट अध्यवसाये अष्टम, मानवत्ति नव मान ॥ जवीयाण ॥ ४ ॥  
 मित्तदोहवत्ति मायवत्ति एम, लोचवत्ति तेम जाण;  
 तेरमे ईरियापथ्यनी दाखी, जिनवर केवल जाण ॥ जवीयाण ॥ ५ ॥

मांस श्रोणित वली चर्मने अर्थे, नख दंत दाढ विशाण;  
 केश पुंठ पित्तादिक कारण, विणसावे बहु प्राण ॥ ञवीया० ॥ ६ ॥  
 निज अर्थे कुटुंबने अर्थे, यज्ञ चूतादिक ठाण;  
 विविध शस्त्र धरी त्रस थावरने, हणे अनार्य अयाण ॥ ञवीया० ॥ ७ ॥  
 आप हणे वीजार्थी हणावे; हणतानो सन्मान;  
 अतीत अनागत वर्तमानमां, चूंकुं हिंसाध्यान ॥ ञवीया० ॥ ८ ॥  
 दंरु समादान तजीए पहेलो, दुःखहेतु दुःखखाण;  
 काल अनंत जमे ञवचक्रे, जिनवर बाण अजाण ॥ ञवीया० ॥ ९ ॥

आप अरथ नहि सज्जननो पण, नहि मांसादिक काज;  
 थावर जंगम ठेदे जेदे, देतो त्रास अकाज ॥ ञवीया० ॥ १० ॥  
 मुंगर अटवी ड्रह दरियामां, जीव सकल खट्काय;  
 दावानल दे वणसई तोमे, विणसावे जलकाय ॥ ञवीया० ॥ ११ ॥  
 पुढवी पवन पण व्यसन विलासे, हाणी करत अन्याय;  
 बाण खरूग करी विविध प्रकारे, त्रस हणि दूरगति जाय ॥ ञवीया० ॥ १२ ॥  
 दंरु समादान बीजो एहने, चाख्यो श्री जिनराय;  
 ड्रव्य जाव शुद्ध करुणा धारी, मनसुख शिवसुख पाय ॥ ञवीया० ॥ १३ ॥  
 ढाल बीजी ( ७ ) ञवी तुमे वंदोरे, संखेश्वर जिनराया ॥ ए देशी ॥

वाणी मीठीरे, साची श्री जिनवरनी; हिंसा न रुडीरे,  
 अति वूरी निज परनी,

मुज माराने एणे हणीआ, अजहु हणे ठे एह;  
 हुं नहि हणुंतो ए वली हणशे, आणी एम संदेह. ॥ वाणी० ॥ १ ॥  
 साप सिंह श्वानादिकने जे, हणे हणावे अनुमोदे;  
 हिंसा समादान जिन आगममां, वोढ्या वचन विनोदे. ॥ वाणी० ॥ २ ॥

कंसे देवकी पुत्र हणया जेम, आप मरण कर धरतो;  
स्थावर त्रस हणे तेम जगमां, पापे पिंड नर चरतो. ॥ वाणी० ॥ ३ ॥

आजीविका कारण मृग आदिक, मारे नर जे कोई;  
वन हुंगर जल स्थानक जंतु, हाणी करे बहु सोई. ॥ वाणी० ॥ ४ ॥  
बाण अने खड्गादि प्रहारे, नाश त्रास बहु करतो;  
त्रीम जयंकर भव वन जमशे, जन्म मरण दुःख चरतो. ॥ वाणी० ॥ ५ ॥

मृगादिक धारीने मूके, बाणादिक आकर्षे;  
वचमां नचचर आदि हणाये, अकस्मात् जिन दर्शे. ॥ वाणी० ॥ ६ ॥

एक थावरने हणवो ईहे, संगे अन्य हणाय;  
जिम अग्नि बूजवतां बीजा, काय पंच विणसाय. ॥ वाणी० ॥ ७ ॥

वनस्पतिनुं ठेदन करतां, पंचकाय पण विणसे;  
एम एकेकी काय विणसे, अन्य प्राण पण निकसे. ॥ वाणी० ॥ ८ ॥

अकम्म आदान ए चोथो, गुरु मुख आगम दाख्यो;  
दुःखदाई एम हिंसा त्यागी, मुनि करुणा रस राख्यो. ॥ वाणी० ॥ ९ ॥

मात पिता मित्रादिकने जे, शत्रु बुद्धे मारे;  
द्रष्टिविपर्यास नाम ए पंचम, जिनशासन अधिकारे. ॥ वाणी० ॥ १० ॥

दर्शन ज्ञान चरणना दायक, सुगति सुगति सुखदाता;  
विविध कषायथी जेह ठोरुवे, जग बंधव जग त्राता. ॥ वाणी० ॥ ११ ॥

बीजा पण उपगारी जगमां, तेहने शत्रु जाणी;  
हाणी करे करावे परथी, अनुमोदे अज्ञानी. ॥ वाणी० ॥ १२ ॥

गाम नगर खेडु ने कव्वरु, द्रोण मुख पत्तनने;  
आश्रम सन्निवेश निगम तिम, राजधानी बहु जनने. ॥ वाणी० ॥ १३ ॥

अहित बुद्धि धरी वाले विनासे, मूरख वक्रपणाए;  
ए दुःखदाई किरिआ बूटे, मनसुख शिव सुख थाए. ॥ वाणी० ॥ १४ ॥



## ॥ दोहरो ॥

वेहुं ढाले करी जाखीया, दंरु समादान पंच;  
क्रिया स्थान अड दाखशुं, तेमां नहि खलखंच;

## ढाल त्रीजी ( ३ )

॥ मोरा प्रीतमजी, तुं सुण एक मोरी शीख वालमजी ॥ ए देशी ॥

निज निज सज्जन कारणे, अलीक वचन कहे कोई; ॥ चेतनजी ॥  
अलीक बोलावे अवरने, अनुमोदे तिम सोई ॥ चेतनजी, अलीक  
तजो तुमे मूलथी ॥ मोरा प्रीतमजी मोरा वालमजी, जेम लहीए  
नवपार चेतनजी अलीक तजो तुमे मूलथी, मोरा प्रीतमजी, वली

वली हुं तुज वीनवुं ॥ १ ॥

एम त्रिकाल मृषातणो, जे अशुद्ध परिणाम; ॥ चेतनजी ॥  
मृषावाद प्रत्ययनी, ठठी किरिया ताम ॥ चेतनजी ॥ अलीक ॥ २ ॥  
घर धन विषयने कारणे, मान आदि बहु जेद ॥ चेतनजी ॥  
अलीक तजी निज पद वरो, शाश्वत अखय अखेद. ॥ चेतनजी  
॥ अलीक ॥ ३ ॥

निज पर आतम हित लहे, जिम रहे जिनवर आण ॥ चेतनजी ॥  
स्याद्वाद वचने सही, दाखो वस्तु विधान ॥ चेतनजी ॥ अलीक ॥ ४ ॥

अणआपी वस्तु लीए, लेवरावे वली जेह ॥ चेतनजी ॥  
तेम अनुमोदे चोरीने, अदत्तदानी तेह ॥ चेतनजी ॥ अदत्त तजो  
तुमे मूलथी. ॥ मोरा प्री ॥ मोरा वा ॥ जेम लहीए ॥ ५ ॥  
अरिहंत गुरुने जीवुं, तिम वली स्वामी अदत्त ॥ चेतनजी ॥  
द्रव्यादिक चलविधि तजो, सत्तमी किरिया मत्त ॥ चेतनजी

॥ अदत्त ॥ ६ ॥

आतम आतम संपदा, निज दाता निज पात्र ॥ चेतनजी ॥  
सहज लहे सुख संपदा, दर्शन ज्ञान विख्यात ॥चेतनजी ॥अहदत्त० ॥१॥

अशुद्ध अध्यवसायनो, अष्टम किरिया ठाण ॥ चेतनजी ॥  
विण कारण जे चिंतवे, अतिशय मातुं ध्यान ॥ चेतनजी ॥ अहदृ दुहदृ  
निवारीए ॥ मोरा प्री० ॥ मोरा वा० ॥ जेम लहीए० ॥ ७ ॥  
हीण दीन डुमणो होवे, करे संकट्य अनेक; ॥ चेतनजी ॥  
चिंता शोक सागर पड्यो, नोगे दुःख विशेष. ॥ चेतनजी ॥  
अहदृ दुहदृ ॥ ए ॥

निज कर तल मस्तक धरी, गाल हथेली लगाय ॥ चेतनजी ॥  
निसासा आरत धरे, धरणी द्रष्टी ठराय ॥ चेतनजी ॥ अहदृ० ॥१०॥  
रौद्रमन विना विवेकथी, धरी अशुद्ध अध्यवसाय ॥ चेतनजी ॥  
क्रोधादिक चउ उपजे, एह क्रिया दुःखदाय ॥चेतनजी ॥अहदृ०॥११॥  
ते माटे दुर्घ्यान तजी, लही आतम अधिकार ॥ चेतनजी ॥  
धर्म शुक्ल धारी सदा, निज पर आतम तार ॥चेतनजी॥अहदृ० ॥१२॥

मान प्रत्यनी नवमी क्रिया, जाति कुल बल रूप ॥ चेतनजी ॥  
तप श्रुत लाज ऐश्वर्यता, प्रज्ञादि विविध सरूप ॥ चेतनजी ॥ मान  
तजो तुमे मूलथी ॥ मोरा प्री० ॥ मोरा वा० ॥ जेम लहीए०॥ १३ ॥  
पथर थंन समो रहे, नमे न चित्त लगार ॥ चेतनजी ॥  
विनय विवेक लहे नहीं, अंधो मोह अंधार. ॥ चेतनजी ॥ मान० ॥१४॥  
मदमातो गुणी गण हीले, निंदे गर्हे सदाय; ॥ चेतनजी ॥  
खिंसा करी अपमानतो, निज उत्कर्ष जमाय ॥ चेतनजी ॥ मान० ॥१५॥  
पराजव गुणीने करे, बूडे ते जवओघ ॥ चेतनजी ॥  
आ जव बहु निंदा लहे, परजव दुष्ट संयोग ॥ चेतनजी ॥ मान० ॥१६॥  
गर्जथकी गर्जांतरे, उपजे वारंवार ॥ चेतनजी ॥  
मरणथकी मरणांतरे, पामे दुःख अपार ॥ चेतनजी ॥ मान० ॥ १७ ॥

वली वली रुज बहु उपजे, वारवार दुःख शोग ॥ चेतनजी ॥  
 अति कहुवां फल माननां, लहे न ईष्ट संयोग ॥ चेतनजी ॥ मान० ॥ १० ॥  
 नरक लही मत्स्यादिके, उपजी नरके जाय ॥ चेतनजी० ॥  
 महाचंद्र परिणामथी, चपलचित्त बहु थाय ॥ चेतनजी० ॥ मान० ॥ ११ ॥  
 नीच कुले ए उपजे, जाति नीच कुरुप ॥ चेतनजी० ॥  
 निर्वल श्रुत पामे नहीं, लहे न लाज अनुप ॥ चेतनजी० ॥ मान० ॥ १२ ॥  
 तप अधिकार लहे नहीं, एम हीन दीन थाय ॥ चेतनजी० ॥  
 माटे तजीए मानने, समसुख एह उपाय ॥ चेतनजी० ॥ मा० ॥ १३ ॥  
 मृडुताए पामे घणो, वंठीत इष्ट संयोग ॥ चेतनजी० ॥  
 दर्शन ज्ञान चारित्रनो, पामे निज गुण जोग ॥ चेतनजी० ॥ १४ ॥  
 स्तब्ध ज्ञाव प्रत्यनी कही, नवमी क्रिया एह ॥ चेतनजी ॥  
 मनसुख ठंके मान जे, शिव संपत्ति लहे तेह ॥ चेतनजी ॥ मान० ॥ १५ ॥

### ढाल चौथी ( ४ ).

ते वार पठी हवे रायजी रे, राणी उपर रेख ॥ ए देशी ॥

मित्रद्रोह दशमी कहीजी, श्रीजिन शासन सार;  
 मात पिता गुरु मित्रनेजी, हीले विविध प्रकारे जीवना आ  
 संसार असार ॥

मित्रद्रोह परिहार विवेकी, आत्म तत्त्व विचार, लही नर वर अवतार  
 विवेकी, उपशम अमृत धार ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥

नार्ई जगनीने सुताजी, नारी सुत सुतनार;  
 ईए संगे वसतो थकोजी, न सहे दोष लगाररे जीवडा ॥ आ संसार ॥ २ ॥

अणानोगे पण तेहथीजी, तन मन वचननो दोष;  
 जाणे तो तस उपरेजी, अग्नि समो करे रोपरे जीवना ॥ आ संसार ॥ ३ ॥

शीत काले शीतजल विपेजी, ते बोले तसु गात्र;  
 जनाले तनु तापवेजी, तावी तेद कुपात्रे जीवडा ॥ आ संसार ॥ ४ ॥

लाठी खेळु आदिकेजी, ताडे तास शरीर;  
वेदन जेदन बहु विधेजी, करतो तेह अधीररे जीवना॥आ संसार॥५॥  
अष्टीमुठी कपालथीजी, बहु विध मारे मार;  
मुखथी तसु जीम तिम लवेजी, चिंते मातुं गमाररे जीवडा ॥

आ संसार० ॥ ६ ॥

जेम श्रेणीकने कोणीकेजी, कीधो बहु उपघात;  
मित्रद्रोहनी ए क्रियाजी, तजी लहो सुख विख्यातरे जीवना

आ संसार॥ ७ ॥

विनयकरो गुरु मित्रनोजी, जे निज हेतु त्रिकाल;  
तस तन मन मत दुःखवोजी, हेतु मैत्री संचाल रे जीवडा ॥

आ संसार० ॥ ८ ॥

११

मायाप्रत्य अगीआरमीजी, करे नर गूढाचार;  
वंचे जे जग जंतुनेजी, ए तसु दुष्ट विचाररे॥जीवना॥आ संसार॥९॥

मधुर वचन जनने कहीजी, अपहरतो धन माल;  
गंठी ठोमादिक घणाजी, करे ठगोरी विशाल रे जीवडा॥आ संसार०१०

हलको उलुकपंखथीजी, मोटो माने आप;  
बोली लीपी फेरवीजी, दे जनने संतापरे जीवडा॥आ संसार० ॥ ११ ॥

रुप वेश सहु पालटेजी, कपट क्रियाना ढंग;  
जिन शासन रस केम लहेजी, लाग्यो माया रंगरे जीवडा॥आ संसार० ॥१२

माया शक्य सदा धरेजी, गुरुथी लुपावे दोष;  
आलोचे निंदे नहींजी, करे पापनो पोषरे जीवडा॥आ संसार० ॥ १३ ॥

सुन्नटने संग्राममांजी, लाग्यो अंतरबाण;  
नवि निकसावे ते कदाजी, वेदे दुःख अयाणरे जीवडा॥आ संसार ०१४

तेम मायी निज दोषनेजी, न प्रकाशे गुरु पास;  
पडिक्कमे निंदे नहींजी, गर्हे न कपट विकासरे जीवडा॥आ संसार०॥१५

प्रायश्चित्त पडिवज्जे नहींजी, न तजे दोष सदाय;  
वार वार नरके पडेजी, अरहट घटिका न्यायरे जीवडा॥आ संसार० १६

वली वली रुज बहु उपजे, वारवार दुःख शोग ॥ चेतनजी ॥  
 अति कसुवां फल माननां, लहे न ईष्ट संयोग ॥ चेतनजी ॥ मान० ॥ १७ ॥  
 नरक लही मत्स्यादिके, उपजी नरके जाय ॥ चेतनजी० ॥  
 महाचर्म पण्डितमथी, चपलचित्त बहु थाय ॥ चेतनजी० ॥ मान० ॥ १८ ॥  
 उपजे, जाति नीच कुरूप ॥ चेतनजी० ॥

यहीं, लहे न लाज अनुप ॥ चेतनजी० ॥ मान० ॥ १९ ॥  
 यहीं, एम हीन दीन थाय ॥ चेतनजी० ॥

निमसुख एह उपाय ॥ चेतनजी० ॥ मा० ॥ ११ ॥  
 त इष्ट संयोग ॥ चेतनजी० ॥

निज गुण भोग ॥ चेतनजी० ॥ १२ ॥  
 श्री क्रिया एह ॥ चेतनजी ॥

न लहे तेह ॥ चेतनजी ॥ मान० ॥ १३ ॥  
 ( ४ ).

उपर रेख ॥ ए देशी ॥

समार;  
 जीवना आ  
 संसार असार ॥

ही नर वर अवतार

पा संसार ॥ ११ ॥

सार ॥ ३ ॥

॥ ४ ॥

लाठी लेखु आदिकेजी, ताडे ता<sup>गा</sup> होय तास;  
 ठेदन जेदन बहु विधेजी, करतो दासनो दास. ॥ लोचण ॥ ११ ॥  
 अछीमुठी कपालथीजी, बहुता वींहुं रे खाय;  
 मुखथी तसु जीम तिम लवे<sup>गुर</sup> दरिये रे जाय. ॥ लोचण ॥ १२ ॥  
 जेम श्रेणीकने कोणीके<sup>पण</sup> ते तत्त्व अजाण;  
 मित्रद्रोहनी ए क्रिया<sup>मां</sup>, उपजे तेह अनाण. ॥ लोचण ॥ १३ ॥  
 इन जमे, मनुष्यादिक पण पाय;  
 विनयकरो गुरु मित्राबला, टुंटा सुंगारे थाय. ॥ लोचण ॥ १४ ॥  
 तस तन मन मत; ए, दाख्यो संक्षेपे एह;  
 नथी लहो, जिन मुख आख्यो ठे तेह. ॥ लोचण ॥ १५ ॥  
 मायाप्रत्य अर्गजे जीवना, ठंडो किरिया ए बार;  
 वंचे जे जग जंण अनुमिते, मन वच काय विचार. ॥ लोचण ॥ १६ ॥  
 मधुर वचन जपरिणाममां, निज उपयोग रमाय;  
 गंठी बोनादिक<sup>मुचव</sup> ज्ञानथी, शिव कमला सुख पाय ॥ लोचण ॥ १७ ॥  
 हलको उलुक  
 बोली लीपी ठठी ( ६ ) नरतनी पाटे नूपति रे ॥ ॥ ए राह ॥  
 रूप वेश सत्स्थानक तेरमुं रे, ईरियापथिक सार सलुणा;  
 जिनशासन ते आदरे रे, संयम काज उदार सलुणा;  
 माया शत्रुम समपद सेविये रे, तेम तेम प्रगटे ज्ञान सलुणा;  
 आलोचे/धे ज्ञान विना जम्योरे बहु पाम्यो अपमान सलुणा ॥ जेमण ॥ १ ॥  
 सुनटने/गने एकली रे, एहीज कीरीया होय सलुणा;  
 नवि ज्ञा पण संचालीने रे, एणी पेरे वत्ते कोय सलुणा ॥ जेमण ॥ २ ॥  
 तेम ण तस ठे संपरायनी रे, दश गुणठाण पर्यंत सलुणा;  
 पद्वार तेर एकादशे रे, ईरियावही जगवंत सलुणा ॥ जेमण ॥ ३ ॥  
 प्रासमिति गुप्ति सदा धरे रे, ब्रह्मचारी गत क्लेश सलुणा;  
 दमी आतम ईद्रिप्रते रे, नहि पर दर्वावेश सलुणा ॥ जेमण ॥ ४ ॥

सकल कषाय निवारतो रे, करतो ज्ञान विदास सलुणा;  
 त्यागी ममता देहनी रे, निस्पृही आत्म वास सलुणा ॥ जेम० ॥५॥  
 सत्तर जेदे संयमी रे, निर्मल स्थिर उपयोग सलुणा;  
 ईहा पुद्गलनी नहि रे, विलसे निज गुण जोग सलुणा ॥ जेम० ॥६॥  
 द्रव्य जाव हिंसा तजी रे, दांत्यादिक दश शुद्ध सलुणा;  
 दर्शन ज्ञान चरण विषे रे, तृप्त रहे नित्य बुद्ध सलुणा ॥जेम०॥ ७ ॥  
 पर प्रतिबंध सकल तज्यो रे, संयम कारण एह सलुणा;  
 विचरे चूमी शोधतां रे, ईरिया पंथे तेह सलुणा ॥ जेम० ॥ ८ ॥  
 प्राणी प्राण न दुःखवे रे, न ह्णै आत्म धर्म सलुणा;  
 वेसे उठे उपयोगथी रे, नहि परमां निज जर्म सलुणा ॥ जेम० ॥९॥  
 आहार निहार विहारमां रे, रहे सदा सावधान सलुणा;  
 कृण नवि रहे प्रमादमां रे, न तजे आत्म ध्यान सलुणा ॥जेम०॥१०॥  
 ईरियावही सूक्ष्म अति रे, पण ठे विविध प्रकार सलुणा;  
 जोगप्रत्ययी ए क्रिया रे, नहि संपराय लगार सलुणा ॥ जेम० ॥११॥  
 वंधे पहेला समयमां रे, बीजे वेदे तेह सलुणा;  
 त्रीजे समये निर्जरे रे, स्थिति विण जाणो एह सलुणा ॥जेम० ॥१२॥  
 राग विना स्थिति नवि कही रे, कर्मबंध जगवंत सलुणा;  
 क्रिया राग विण एह ठे रे, जाणो आगम तंत सलुणा ॥ जेम०॥१३॥  
 वंधे स्पर्श उदरे रे, वेदी निर्जरे तेह सलुणा;  
 अकर्मा त्रीजे समे रे, निश्चय जाणो एह सलुणा ॥ जेम० ॥ १४ ॥  
 बहु अधिकार ठे सूत्रमां रे, ईहां संक्षेप विचार सलुणा;  
 गुग्गमथी तुमे धारजो रे, तो होशे हितकार सलुणा ॥ जेम०॥१५॥  
 रुपजादिक तीर्थकरे रे, जाखी किरिया एम सलुणा;  
 मनसुख निजगुण जोगथी रे, शिवपद पामे हेम सलुणा ॥जेम०॥१६॥

॥ चोवीश बोलने जाणी गणधरो सूत्र रचे तेनी ढाळो ॥

ढाळ पहेली ( १ )

जे चोवीश बोलने जाणी, रचे गणधर सुत जिन वाणी;

चवी यामे शिव सहनाणी, ते लीपी नमुं ब्रह्माणी रे-रंगीला० ॥ १ ॥

उपजे विगमे ध्रुवनित्य, हेय ज्ञेय उपादेय चित्त;

निश्चय लहे तेह विनीत, बहु विधि व्यवहार प्रसिद्ध रे-रंगीला ॥ २ ॥

विधिवाँद चरित्तानुवाद, वली जाणे यथास्थितवाद;

तेम धर्म अधर्मपद्द, मुनि मिश्रपद्द लहे दद्द रे-रंगीला० ॥ ३ ॥

द्रव्य क्षेत्र कालने जात्र, मुणंता पूर्ण स्वजाव;

उत्सर्ग लहे जे पूरो, अपवादे पण न अधूरो रे-रंगीला० ॥ ४ ॥

उत्सर्गपवाद सनूरो, जिन शासन मारग शूरो;

अपवाद थापी उथापे, उत्सर्ग उथापी थापे रे-रंगीला० ॥ ५ ॥

एम उन्नये थापी उथापे, शिव कारण सुत ते थापे;

एम चोवीश बोल सहहीए, श्रुत रचवा मन गहगहीए रे-रंगीला० ६

सद्गुरू आणा शिर धरीए, बहुमान विनय आदरीए;

शिव अमला कमला लहीए, मनसुख शिव मंदिर रहीए रे-रंगी० ॥ ७

ढाळ बीजी ( २ ) ॥ राग रेखतो ॥

सुणो जिन वाणी चित्तधारी, दीए शिवसुख चव तारी ॥ ए आकणी०

विविध उत्पाद सामान्ये, विश्रसा प्रयोगसा जाणे;

ठती पर्याय अनंता, मीली एक काज करंता ॥ सुणो० ॥ १ ॥



चेतन सवि ज्ञेयने जाणे, दरस सामान्य परमाणे;  
 पुद्गल वरणादि उपजावे, परमाणु छयणूकादिक थावे ॥ सुणो० ॥१॥  
 पञ्च मीली गुणतो उपजे, परमाणु खंधपणे नीपजे;  
 विज्ञावे जीव परसंगे, थयो अज्ञानी रस रंगे ॥ सुणो० ॥ ३ ॥  
 मोहादिक एम अनंता, विज्ञावुत्पाद् लहे संता;  
 अंतातीत जीव संसारे, बहु विध जीव जेद धारे ॥ सुणो० ॥ ४ ॥  
 अंतविण पुद्गल खंध बहु, लखो उत्पाद तेह सह;  
 पंचास्ति अगुरुलघु उपजे, पुद्गले गुरु लघु निपजे ॥ सुणो० ॥ ५ ॥  
 मीली बहु एक उपजावे, विगमतां विनाश ते पावे;  
 उत्पत्तिथी विनाश ते उलटो, लहि जिन वाणि नवि सुलटो ॥ सुणो० ॥ ६ ॥  
 निश्चय नवि उपजे विणसे ते, सदा ध्रुव वस्तु वस्तुगते;  
 अनंता जेद ईम जाणी, शक्ति निज ध्रुव पहिचाणी. ॥ सुणो० ॥ ७ ॥  
 त्रिपदी एम सर्व द्रव्ये लखो, सुधारस अनुभव शुद्ध चखो;  
 ज्ञेय खट द्रव्य पंचास्ति, वली नवतत्त्व लखो अस्ति. ॥ सुणो० ॥ ८ ॥  
 ज्ञेय एह चाख्यो जगवंत, हेय परजाव करो अंत;  
 उपादेय निज आतम शुद्धि, वीरज थीर थापतो बुद्धि. ॥ सुणो० ॥ ९ ॥  
 निश्चय ठे केवली गम्य, अजेदे एकलो रम्य;  
 तेहना जेद व्यवहारे, शुद्ध अशुद्ध उपचारे, ॥ सुणो० ॥ १० ॥  
 वली तप संजमने ध्यानो, निश्चय मुद्रादिके जाणो;  
 अने गुणगणनो जेह, कारक शुद्ध कार्यनो गेह. ॥ सुणो० ॥ ११ ॥  
 तथा बहु लोक उपचारे, आवस्यक आदि संचारे;  
 शील शुच मार्गनो तेह, वहेचतां जेदनो जेह. ॥ सुणो० ॥ १२ ॥  
 अनंता जेद व्यवहारीए, नय प्रमाणे अनुसरीए;  
 शुद्ध नय जेह सदा सेवे, शिवघर मनसुखनित रहेवे. ॥ सुणो० ॥ १३ ॥

ढाल त्रीजी ( ३ ) सुणजो श्री मंदिर स्वामी ॥ ए राहण ॥

- कह्यो स्याद्वाद जिनराजे, सुणतां मिथ्यातम जाजे;  
विधिवाद शुद्धात्म प्रशस्ते, ढंडीजे तसु अप्रशस्ते. ॥ १ ॥
- दृग ज्ञान चरण प्रगटावे, तेहीज विधि शुद्ध कहावे;  
तप संयम विनय ते जाख्यो, आत्म हित कारण दाख्यो. ॥ २ ॥
- आवस्यक आदिक किरिया, विधिं मुनि गोचरी फिरिया;  
पंच महाव्रत प्रवचन माता, पंचाचारे मुनि राता. ॥ ३ ॥
- ढाली अतिचारना दोष, सप्राय ध्यान रस पोष;  
अविधि आशातना ढाले, सहुने समजावे निहाले. ॥ ४ ॥
- खट्काय तणी द्रव्य जावे, दया उपयोग शुद्ध जमावे;  
कोई जीवथी नाहि विरुद्ध, उपयोगे थिर रहे बुद्ध ॥ ५ ॥
- ढालि पापस्थान अढार, शीलांग अढार हजार;  
विधि आत्म पद अविरुद्ध, तजे रागादि दोष विरुद्ध ॥ ६ ॥
- विधिवाद संक्षेपे एम, जेम चेतनता रहे क्षेम;  
तीर्थकर गणधर जेह, चक्रि आदि चरित्र ठे तेह ॥ ७ ॥
- मोह नाश करी शिव वरिया, निसुणी बहु जवि जव तरिया;  
सुणी जवी निज वीर्य उद्धासे, चरितानुवाद विलासे ॥ ८ ॥
- ढोकस्थिति पंचास्ति स्वजाव, वली विविध कालना जाव;  
लहे तेह यथास्थित जेम, स्याद्वाद वस्तुनो एम ॥ ९ ॥
- पंचे समवायने जाणे, यथातथ्य वस्तु प्रमाणे;  
शुद्धात्मजाव ठे धर्म, रागादि विजाव अधर्म ॥ १० ॥
- परजावनी क्रिया अधर्म, चूकी ज्ञानानंद करे कर्म;  
जाणो मिश्र सराग चरित्र, मनसुख सुण आगल मित्र; ॥ ११ ॥

ढाल चोथी ( ४ )

- अजितवीर्य जिन विचरतारे मन मोहनारे ढाल ॥ ए देशी ॥  
द्रव्य ढखो तुम तेहने ॥ जग सोहनारे ढाल ॥ बहु गुण पज्जव पिंडरे  
॥ जवि बोहनारे ढाल ॥

बहु प्रदेश बहु लक्षणो ॥ जग० ॥ अस्ति त्रिकाल अखंरु रे ॥ जवि॥१॥  
 वस्तुता जेहमां रही ॥ जग० ॥ दर्वे पूर्ण प्रजाय रे; ॥ जवि० ॥  
 गुण परिणामे परिणामे ॥ जग० ॥ अगुरुलघुत्व सदाय रे ॥ जवि०॥२॥  
 परावर्तन वर्तन धरे ॥ जग० ॥ समय समय परजाय रे ॥ „  
 सत्त्व सदा शाश्वत रहे ॥ जग० ॥ जे पर रूप न थाय रे ॥ जवि०॥३॥  
 कारण जे बहु कार्यनुं ॥ जग० ॥ नित्य एक निरुपाधि रे ॥ „  
 द्रव्य रूप लखी आपणुं ॥ जग० ॥ साधो परम समाधि रे ॥ जवि०॥४॥  
 सहज विशेष अनंतनो ॥ जग० ॥ जे एकत्वाधार रे ॥ „  
 मूल द्रव्यनुं रूप ए ॥ जग० ॥ उपचार अनेक प्रकार रे ॥ जवि० ॥५॥  
 अगुरुलघुनी चिन्नता ॥ जग० ॥ करवा सूक्ष्म जाग रे ॥ „  
 ठती परजाय अनंत युत ॥ जग० ॥ चिन्न चिन्न अविज्ञाग रे ॥ जवि०॥६॥  
 निज निज क्षेत्रे सदा रहे ॥ जग० ॥ धर्म अनंतानंत रे ॥ „  
 लोक प्रदेशे जिम रह्या ॥ जग० ॥ पुद्गल जीव अत्यंत रे ॥ जवि०॥७॥  
 अगुरुलघु पर्यायनो ॥ जग० ॥ परावर्तन जे धर्म रे ॥ „  
 पूर्वापर पर्यायते ॥ जग० ॥ लखो कालनो मर्म रे ॥ जवि० ॥ ८ ॥  
 नव नव परिणानि वर्तना ॥ जग० ॥ वर्ते द्रव्य त्रिकाल रे ॥ „  
 बाह्य काल तेम जाणीए ॥ जग० ॥ रवि आदि ग्रह चाल रे ॥ ए ॥  
 स्वयं सिद्ध शाश्वत रहे ॥ जग० ॥ द्रव्ये विशेष स्वभाव रे ॥ „  
 जीव पुद्गलमां जाणीए ॥ जग० ॥ मिलतां होय विज्ञाव रे ॥ १० ॥  
 मूल पदे उत्सर्ग ठे ॥ जग० ॥ त अपवाद ॥ „  
 समकाले वेहु साधीए ॥ जग० ॥ ० ॥ ११ ॥  
 कारण वश अपवादने ॥ जग० ॥  
 विष्णु कारण वली उथपे ॥ जग० ॥ मारग  
 उत्सर्ग उथा ॥ जग० ॥ १  
 तेम वेहु था ॥ जग० ॥  
 पूरण जाव ॥ जग० ॥  
 सद्गुरुधी ॥ ० ॥

ओगणीश त्रेशठ कार्तिके ॥ जग० ॥ दोहद रहि उह्वास रे ॥ ॥  
वद चउदश गुरु महेरथी ॥ जग० ॥ मनसुख शिवधर वास रे ॥ १५ ॥

जीनेश्वरनुं वचन बत्रीश दोष रहित होय ठे. ते  
बत्रीश दोषनी ढालो

ढाल पहेली ( १ ) स्वामि श्रीमंधरा तुं नले ध्याश्ये ॥ ए देशी ॥  
प्रवचन अंगमां दोष बत्रीश कह्या, दोष विण आगम अर्थ जेणे ग्रह्या,  
तेह नर समयनो सार शिव पामशे, नव दव ताप निवारी शांति रसे ॥ १ ॥  
आत्म अनुभव करी सहज शिवधर वसे, सादिअनंत शुद्धात्म  
रस विलससे;

बत्रीश दोष अनुक्रम करी जाणीए, ठेदि अहिबंदता नवि  
हठे ताणीए ॥ २ ॥

वचन अलीक ते दोष पहेलो कह्यो, ठति अठति अठति ठति  
बोलतां ते लह्यो;

जीव उपघात जे वचनथी नीपजे, ड्रव्यने जाव छीविधथी  
हिंसा नजे ॥ ३ ॥

निरर्थक वचन ए दोष त्रीजो लह्यो, अनवस्थापणे दोष चोथो कह्यो;  
जे थले बोलवुं जेह घटित नहीं, अथथल वचन उच्चार पंचम सही ॥ ४ ॥

हेलना दुःख उपजे जिहां जीवने, दोषठठम डुहिल जाणिए शुभ मनै;  
वचन निस्सार ए दोष ठे सातमो, अधिक उच्चार ते जाणिए

आठमो ॥ ५ ॥

नवम पद अर्थनी उणताथी लखो, दोष दशम जाणीए पुनरुक्ति थको;  
पूर्व अपर विरुद्ध अगीआरमे दाखतां, अयुक्त वचन एम बारमें

जाखतां ॥ ६ ॥

क्रम वचन लिंग विज्ञक्ति ए जिन्नथी, तेर चौद पनरने सोल अनुक्रमथी;  
दोष वली सोल ते आगली ढालथी, दोष विण जिनवचन  
जाणो शुद्ध चालथी ॥ ७ ॥

### ढाल बीजी ( १ )

॥ शांति जिणेसर कसर अर्चित जगधणी रे अ० ॥ ए देशी ॥

श्री जिन आगम दोष रहित सदा लखो रे, शुद्धनये श्रुत जाणी  
तत्त्वने पारखो रे ( अनुभव रस चखो रे; )  
अणनिहित ते दोष सतरमो जाणीये रे, आतमहित विणु पर  
सुतवास वखाणीये रे;  
पद विपरित उचरतां अपद अढारमें रे, वदत नाव विपरित स्वजाव  
विहिणते रे ॥ १ ॥

अर्थ प्रारंजित मूकी अन्य वखाणिये रे, वीशमो व्यवहित दोष ते ए  
मन आणिये रे;

विपरित काल उचारण दोष एकवीशमो रे, अनुचित थल विश्राम  
जति वावीशमो रे ॥ २ ॥

अलंकार रस हीण तेवीशमो ते त्थवि रे, चोवीशमो ते समय विरुद्ध  
पणे चवि रे

हेतु अघांत ने न्यायविना जे उच्चरे रे, वचन मात्र ते वयण मित्त  
दूषण धरे रे ॥ ३ ॥

अर्थापत्ति दोष ठवीशमो धारिये रे, घर कुक्कुट नवि हणवो  
एम उचारिये रे;

सत्तावीशमो दोष अयुक्त समासथी रे, दोष अष्टावीशमो उपमा  
विपरितथी रे ॥ ४ ॥

पर्वतने अधिकारे उदधि अवयवोरे, कहेतां रुपक दोष ठे  
ओगणत्रीशमो रे;

निर्देय दोष ए त्रीशमो वाक्य अपूर्णथी रे, वस्तु अनंत प्रजायना  
पिरुपणे ठतिरे ॥ ५ ॥

जिन्न जिन्न एकांतिक वैशेषिकपरे रे, द्रव्य गुण वली कर्मादिक  
जूदा कहे रे

सामान्य विशेष अज्ञाव अने समवायना रे, सप्त पदारथ बोले  
वस्तु एकना रे ॥ ६ ॥

वस्तुगते परजाय रहे स्वद्रव्यना रे, जिन्न जिन्न तस चाखे  
कोईमां कोईना रे

उपादान अरूपी ईश्वर जगतनो रे, ईश्वर ईहाए जग सुख  
दुःख उपन्यो रे ॥ ७ ॥

वली अठति वस्तु ते ब्रह्माए करी रे, ठती वस्तुने नाश करे  
शंकर वली रे

निश्चय नयथी कर्ता नहि कोई अन्यनो रे, विष्णु जगधिति  
राखे एम मूढे चण्यो रे ॥ ८ ॥

ईत्यादिक बहु जेदे दोष पयत्थ ठे रे, द्रव्यादिक शुध ज्ञाने  
होय न दोष ते रे

पद संधि विपरित ते दोष बत्तीशमो रे, दोष विना लहि अर्थ  
रहो सुजगीशमां रे ॥ ९ ॥

ढाल त्रीजी ( ३ ) प्रचु पार्श्वनुं मुखडुं जोवा ॥ ए राह ॥

ढाली दोष लहो श्रुत साचो, जीम अनुभव नवि रहे काचो;  
दोष प्रतेकना जेद अनेक, लहि पूर्ण प्रजाय विशेष.

श्रीगुरु चरण हजूर रहीने, आणा ईहा तास लहीने; ॥ १ ॥

नरभव सफल करो श्रुत साधी, लहो अक्षय सुख निरुपाधि.  
वेजलपुर संघ उमंगे, श्रुत अन्यासी अति उठरंगे; ॥ २ ॥

अनुयोगद्वारथी दोष बत्तीश, जाणी सहीए श्रुत सुजगीश.  
मनसुख सहज संतोषे गायो, दिनदिन श्रुत रस लहो सवायो; ॥ ३ ॥

संवत ओगणीश बासठ साले, कृष्ण चाद्र त्रीज बुध रसाले.  
शुद्ध सूत्र अन्यासी तरजो, विमल अचल शिव सुंदरी वरजो; ॥ ४ ॥

६६ चौद स्थानके वरततो जीव अविनयी कहेवाय तेनी सप्राय.

चौद स्थानके वरततो जीव अविनयी कहेवाय तेनी सप्राय

॥ सहीयर सुणियेरे, जगवति सूत्रनी वाणी ॥ ए देशी ॥

चौदे स्थानकमां वरतंतो, असंजयी अविनयी कहीए

ते निर्वाण लहे नहि मूरख, उत्तराध्ययने लहीए ॥ जवि तुमे ठंमो रे

ए डुरमति डुखदाई, गुण गण प्रगटे ए, सेवो विनय सदाई ॥ १ ॥

द्विण द्विण क्रोध करे जग जे जन, जाणो पहेलो दोष;

क्रोध प्रबंध रहे चीरलौं जस, बीजो दोषनो पोष ॥ जवितुमे० ॥ २ ॥

परम मित्र गुरु सम नहि जगमां, तसु उपकार न जाणे

मैत्री जाव वमंतां त्रीजो, दोष धरे अनिमाने ॥ जवितुमे० ॥ ३ ॥

श्रुत पामी मद मनमां आणे, चोथो जाणो दोष

गुरु आदिकनां ठिड्र गवेखे, पंचम पापनो पोष ॥ जवितुमे० ॥ ४ ॥

सद्गुरु मित्रने जे कोपावे, दोष ते ठठो एह

मुख मीठुं ने पूठे चूंमुं, बोले सातमो तेह ॥ जवितुमे० ॥ ५ ॥

परम प्रीत करता गुरु आदिक, तेहना मर्म जे खोले

अविचार्यु बोली प्रत्यनीक ते, आठमो दोष ए बोले ॥ जवि० ॥ ६ ॥

परम उपगारी गुरु उपर, डोह धरे मन कूमो

डुर्गतिआदिथी अणडरतो, नवमो दोष ए चूंडो ॥ जवि० ॥ ७ ॥

अहंकार गुरु संगे करतां, विनय न आवे दशमे

लोच दोष अगीआरमो दाख्यो, जसतां सूर्वा (तृष्णा) वशमे ॥ ८ ॥

जेह इंद्रिय विषय वश होवे, बारमो दस गुण नाहि

संविज्ञाग न देतो गुरुने, तनमन शक्ति उठांही ॥ जवि० ॥ ९ ॥

एह तेरमो अवगुण तजीए, चौदमे अप्रीती जाणो

पूरण प्रीति नहीं गुरु उपर, नवि लहे ते शिव ठाणो ॥ जवि०॥१० ॥

डुखदाई ए चउदश स्थानक, ठंमी विनय नित्य सेवे

दर्शन ज्ञान चरण लहि मनसुख, शिव सुंदरी घर रहेवे ॥ जवि०॥११ ॥

पंदर स्थानके जीव विनयी कहेवाय तेनी सप्राय.

६७

पंदर स्थानके वरततो जीव विनयी कहेवाय तेनी सप्राय

आंखलनीए रे आज शेत्रुंजो दीठो रे ॥ ए देशो ॥

वरतत पंदर थानक नवि जे, विनयी कह्यो वीतरागे रे;  
संयम लहि निर्वाण ते पामे, अनुन्नव अमृत जागे रे ॥ विनय रंग  
लागे रे—मिथ्यामोह अज्ञान तिमिर नय जागे रे—साचा सदगुरु  
संग—विनयरंग लागे रे ॥ १ ॥

जे निशदिन निज लघुता जावे, गुणी गुणमां चित्त पागे रे  
चित्त मृडुता करी नीचे आसन, रागे सदगुरु आगे रे ॥ विनय० ॥ २ ॥  
निज उत्कर्ष करे नहि कबहुं, दुर्गुणथी दूर जागे रे;  
शुद्धमति ध्यान अखंरित लागे, तजी परमादने जागे रे ॥ विनय० ॥ ३ ॥

मन वच आसन चपल नहि जस, बीजो गुण ए लागे रे  
अहट दुहट दुर्ध्यान निवारी, थिर योगी शिव मागेरे ॥ विन० ॥ ४ ॥

सरल स्वजावे शक्य न राखे, नहि जूठो गुरु आगेरे  
त्याग ग्रहण गुरु जे जे दाखे, अर्थ ग्रही नवि त्यागेरे ॥ विनय० ॥ ५ ॥

रहित कुतुहल कामनी चेष्टा, चोथे नगल न रागेरे

वचन कठोर अप्रीतिकारी, नवि जाखे मुनि आगेरे ॥ विनय० ॥ ६ ॥

क्रोध प्रबंध करे न वधारे, ठठो ए गुण जागेरे

सकल जीव मित्र सम जाणे, सदगुरु मैत्री सरागेरे ॥ विनय० ॥ ७ ॥

सूत्र तणो मद नाहि आठमें, रमतो ससमय बागेरे

आचारज आदिकने न निंदे, मर्म न खोले कोई आगेरे ॥ विनय० ॥ ८ ॥



सद्गुरु मित्रने नवि कोपावे, नवि कोपे गुरु आगेरे  
अहितकारी उपर पण जेहने, मित्र जाव चित्त जागे रे ॥ विनय० ॥ १० ॥

पुठे सदा कल्याणी वाणी, बोले धर्म सरागेरे  
वचन कलेशने मुष्टि चपेटा, अणकरतो डुर जागेरे ॥ विनय० ॥ ११ ॥

बुद्धिवंत अवसरनो ज्ञाता, गुरुकुलवास न त्यागेरे  
लज्जा साची जस चित्त लागे, दुष्टाचारथी जागेरे ॥ विनय० ॥ १२ ॥

आत्म इंद्रि दमन स्वजावी, ग्रहि प्रतिज्ञा न जागेरे  
ए पंद्र शुभ गुण अवधारी, संजम रसीओ जागेरे ॥ विनय० ॥ १३ ॥  
योग अने उपध्यान वहीजस, हृदय सुतरस लागेरे  
मनसुख शिव घरवास करे नित, श्री जिन शासन रागेरे ॥ विनय० ॥ १४ ॥

जीव पांच स्थानके वरततो श्रुतना लाजने न पामे  
तेनी सप्रायः

वच वीचारजो ॥ ए राग ॥

थानक पंचने सेवतां रे, नवि होय श्रुत शीख लाज  
ते कारण एह पंचने रे, तजी पामो श्रुत लाजरे, नवि चित्त धारीए,  
डुलहो धर्म संजोग रे, लहि निज तारीए; दुःख दरिया संसारथी  
आप उगारीए ॥ १ ॥

गर्व क्रोध प्रमादने रे, रोग आलस्य एम पंच,  
जाणी ठमो वेगथी रे, शिव कारण श्रुत संचरे ॥ नवि० ॥ २ ॥  
जाती लाज कुल रूपनो रे, बल विद्या अधिकार  
तप मद ए धाठे करी रे, विनय न आवे साररे ॥ नवि० ॥ ३ ॥

- रिद्धि रस सातादिके रे, गर्व अनेक प्रकार,  
गुरु वचन आदर विना रे, केम लहीए श्रुत पाररे ॥ जवि० ॥ ४ ॥
- गुरु शिक्षा देतां हुवे रे, जेहने क्रोध विशेष  
निज दूषण देखे नहि रे, पामे न बोध अशेषरे ॥ जवि० ॥ ५ ॥
- निद्रा विकथा विषय रसे रे, मद कषाय प्रमाद,  
तो शिक्षा केम ते लहे रे, माटे तजो उन्मादरे ॥ जवि० ॥ ६ ॥
- कोठ ताप आदि बहु रे, पिडित रोग अनेक  
अरति वश ते जीवमो रे, केम लहे श्रुत सुविवेक रे ॥ जवि० ॥ ७ ॥
- आलस निरुद्यमपणे रे, नहि श्रुत लाज उमंग  
सेवत जीव अनादिनो रे, नहि गुरु वचने रंगरे ॥ जवि० ॥ ८ ॥
- पंचस्थानक ए सेवतो रे, जमतो जववन मांह्य  
जो चाहे सुख संपदा रे, सेवो श्रुत सुरतक ठांहेरे ॥ जवि० ॥ ९ ॥
- श्रुत लाज नहि पंचथी रे, उत्तराध्ययने ए जाल  
डुलहो नरजव पामीने रे, आतम गुण अजवावरे ॥ जवि० ॥ १० ॥
- मानथी रण संग्राममां रे, खमतो बाण प्रहार  
सुजट जग जश ते वरे रे, न हठे पाठो लगाररे ॥ जवि० ॥ ११ ॥
- मोक्ष अर्थी तेम जीवने रे, आवे न चित्त मांहे एह  
मोहादिक हणी जय वरे रे, जेहने सिद्धि उमेदरे ॥ जवि० ॥ १२ ॥
- नरनारी विषय वशे रे, गणे न प्राणथी प्रीत  
उंध आलस दुःख वीसरे रे, रंग लाग्यो जस चित्तरे ॥ जवि० ॥ १३ ॥
- धन अर्थी लोचे सहे रे, तनमन विविध कलेश  
जाणे तृणसम प्राणने रे, तेम जस धर्मावेशरे ॥ जवि० ॥ १४ ॥
- गुरु शिक्षा उमेदथी रे, मनसुख तजशेरे दोष  
ते लहेशे सुख संपदारे, ज्ञान ध्यान रस पोषरे ॥ जवि० ॥ १५ ॥

जीव आठ स्थानके वरतलो गुरु शिक्षाने पामे तेनी सजाय.

( राग उपरनो )

गुरु वचने शिक्षा तणो रे, लाज लहे जवी जेम,  
तेहना थानक आठ ठे रे, तेहशुं धरीए प्रेम; चतुर चित्त आदरो  
उत्तम अवसर आव्यो रे, ते केम वीसरो,  
लहि निर्मल श्रुतबोधने, शिव कमला वरो ॥ १ ॥

<sup>१</sup> सहनशिल हांसी तजे रे, <sup>२</sup> ईन्द्रियदमन स्वभाव;  
<sup>३</sup> मर्म न खोले अन्यना रे, <sup>४</sup> वर्जे कुशिल कुभाव ॥ चतुरण ॥ २ ॥

<sup>५</sup> गुरु आणा चूके नहि रे, <sup>६</sup> लोलुप विषय न कोय;  
<sup>७</sup> क्रोध तजे सत्य उचरे रे, ए अड थानक होय ॥ चतुरण ॥ ३ ॥

कम्वा तीखा बोलथी रे, वली दंडादि प्रहार  
गुरु शिक्षा सुखे सहे रे, तजतो हास्य विकार ॥ चतुरण ॥ ४ ॥

मन जाणे हुं धन्यहुं रे, प्रेरक मलीशो रे आज  
काल अनादि अनंतनो रे, गुरु विण न सर्युं काज ॥ चतुरण ॥ ५ ॥

शब्दादिक विषय वशे रे, नवी चूके गुरु शीख;  
ईन्द्रिय आतम वश करे रे, दम गुण जाणो ठीक ॥ चतुरण ॥ ६ ॥

मर्म ना खोले अन्यनो रे, जेथी दुर्गुण होय  
ठंडे कुशिल स्वभावने रे, चोथुं थानक सोय ॥ चतुरण ॥ ७ ॥

प्रभु आणा चूके नहि रे, जाणी आतम हित;  
खद् रस आदि छोलता रे, नवि वरते जस चित्त ॥ चतुरण ॥ ८ ॥

गुरु शिक्षा दिये आकरी रे, पेरे वारंवार;  
हित जाणी सन्मानता रे, पण नहि क्रोध सगार ॥ चतुरण ॥ ९ ॥

गुरु आगल जूतुं तजे रे, बोले साचां रे वेण;  
 शक्य न राखे चित्तमां रे, गुरु सम अवर न सेण\* ॥ चतुरण ॥ १० ॥  
 एम अरुथानक जाणीने रे, आदरीए निरधार;  
 तो श्रुत शिक्षा लाजथी रे, लहीए ऋवजळ पार ॥ चतुरण ॥ ११ ॥  
 ऋमतां आ संसारमां रे, ना आव्यो दुःखनो अंत  
 दुर्लज अवसर पामीने रे, सेवो श्रुत गुणवंत ॥ चतुरण ॥ १२ ॥  
 सहज सदागम आदरी रे, सिद्धे जीव सदाय;  
 ठंडी दुष्ट प्रमादने रे, मनसुख शिवपद पाय ॥ चतुरण ॥ १३ ॥

स्तवन ॥ राग प्रज्ञाती ॥

वंदो गोयम मुनि गणधारी, अरुवीश लब्धिधारीजी  
 अष्ट महासिद्धि रिद्धि अनंती, ऋवि जन मंगलकारीजी ॥ वंदोण ॥ १ ॥  
 आमोसही लब्धि ठे पहेली, औषधी सम जस आमोजी  
 विष्णोसही लघुनीत औषधीसम, रुज नासे होय आरामोजी ॥ २ ॥  
 खेदोसही ते श्लेषम औषधी, सर्वे रोग नसावेजी  
 मलोसही चोथी ते जाणो, मलथी व्याधि गमावेजी ॥ वंदोण ॥ ३ ॥  
 सव्वोसही सर्वांग औषधीसम, तन होय कंचन वानेजी  
 संज्ञिन्नश्रोतलब्धि ते जाणो, प्रत्येक विषय पण जाणेजी ॥ वंदोण ॥ ४ ॥  
 स्पर्शथकी पंच विषय ते जाणे, रसनाए पण एमजी  
 घ्राण चक्षु श्रोत्रे पण पांचे, विषय लहे सहु जेसजी ॥ वंदोण ॥ ५ ॥  
 सप्तमी ओहीलब्धि रुडी, अवधिज्ञान प्रकाशेजी  
 सहितलब्धि अष्टमी स्पर्शे, रोगारतता नाशेजी ॥ वंदोण ॥ ६ ॥  
 मनपञ्जवलब्धि ठे नवमी, ऋजुमति विपुलमतिनीजी  
 दशमी चारणलब्धि कहीए, विद्या जंघाचरणीजी ॥ वंदोण ॥ ७ ॥  
 आसीवीष निग्रह अनुग्रहथी, एकादशमी प्रकाशेजी  
 वारमी केवललब्धि मोटी, लोकालोक विकाशेजी ॥ वंदोण ॥ ८ ॥

तेरमी गणधरलब्धिथी प्रभु, राखे गण संजारीजी  
 चौदमी पूरवलब्धिथी गुरु, चउदश पूरवधारीजी ॥ वंदो ॥ ए ॥  
 अरिहंतनी रिद्धि प्रगटावे, सयल जीव हितकारीजी  
 सोलमे चक्रीरिद्धि विकुर्वे, तेस वलदेवनी धारीजी ॥ वंदो ॥ १० ॥  
 रिद्धि विकुर्वे वासुदेवनी, खीरासव ओगणीसमीजी  
 पयथी वाणी मीठी जेहनी, सप्पिआसव वीशमीजी ॥ वंदो ॥ ११ ॥  
 घृतथकी पण वाणी मधुरी, एकवीशे कोष्टागारीजी  
 कोठामां जेम धान्य रहे थिर, हृदये सुत अविकारीजी ॥ वंदो ॥ १२ ॥  
 पदानुसारिणीलब्धि कहीए, पद एकथी सवि सुत आवेजी  
 ए बावीशमी लब्धि सुणतां, मुजमन अधिक सोहावेजी ॥ वंदो ॥ १३ ॥  
 बीजलब्धि तेवीशमी रुमी, बीजथी रुख उद्भवतोजी  
 बीज अक्षर लहि तेम मुनि सुतने, फेली अर्थ अनुभवतोजी ॥ वंदो ॥ १४ ॥  
 चोवीशमी ठे आहारकलब्धि, तेजोलेख्या पच्चीसमीजी;  
 ब्वीसमी पूलाक ते धारे, वैक्रिय सत्तावीशमीजी ॥ वंदो ॥ १५ ॥  
 अक्षिणमहाणसी अष्टावीसमे, वस्तु क्षिण नवि आवेजी  
 थोडी खीरे पंदरसें मुनिने, पालणो जेम करावेजी ॥ वंदो ॥ १६ ॥  
 एम अष्टावीश लब्धि वरीओ, दरियो ज्ञान अगाधोजी  
 प्रह उठी गोयम गुरु प्रणमी, मनसुख शिव सुख साधोजी ॥ वंदो ॥ १७ ॥

॥ अथश्री ॥ अध्यात्म अष्टोत्तरी लिख्यते ॥

धर्माचारज परम गुरु, नमि जिन वाणी सार;  
 नय गम जंग प्रमाण युत, स्यादवाद जयकार ॥ १ ॥  
 स्वपर सुहितकर बोधमय, रचना ज्ञान विलास;  
 दिनकर किरण परे करे, जविजन हृदय प्रकाश ॥ २ ॥  
 चेतन अस्ति स्वज्ञाव निज, ध्यावो शिवसुख कंद;  
 परसत्ता परज्ञावने, ध्यातां नहि जव अंत ॥ ३ ॥

- द्रव्यादिक चहुं परतणा, तुजमें सदा असतु;  
 क्रमथी ममता तेहनी, करी न लहे निज तत्त ॥ ४ ॥
- अतित अनागत तुज तथा, पर त्रिकाल पर्याय;  
 वर्त्तमान समये रह्या, नास्तिपणे तुज मांह्य ॥ ५ ॥
- अणठत्तुं ध्यातां थकां, ठते ठतुं न पमाय;  
 अधर पधर जग ते रहे, रोतां राज न पाय ॥ ६ ॥
- वर्त्तमान निज देखिये, सत्ता धर्म अनंत;  
 अजर अमर निर्द्वंद नित, तिम सब समय ठरंत ॥ ७ ॥
- शुरू अखंरु स्वतंत्र तुं, जेदाभेद स्वरूप;  
 अवर संबंध न ताहरे, (तुं) सहज एक चिद्रूप ॥ ८ ॥
- परज्ञावे परपदु ग्रहे, तुजमांही तुज राज;  
 समय निरंतर ध्यावतां, पूर्णानंद समाज. ॥ ९ ॥
- कर्त्ता जोक्ता आपही, तुं चेतन स्वयमेव;  
 पर अनुयायीथी थई, पर कर्त्तादिक टेव. ॥ १० ॥
- सुख अर्थे दुःख जोगवे, करी चित्त चपल तुरंग;  
 सुखको रूप समाधिहै, वृत्ति शांत सुखकंद. ॥ ११ ॥
- सहज रूप निज अनुजवे, दुष्ट वृत्ति लय होय;  
 आशाधारी जटकतें, रहे कर्म घर सोय. ॥ १२ ॥
- आशा दासी संतकी, जगजन आशा दास;  
 नाम संत आशा सहित, ते दासोंके दास. ॥ १३ ॥
- धर्म न योग क्रियात्रिषे, जिहां क्रिया त्यां कर्म;  
 धर्म शुरू उपयोगमें, ए जिनशासन मर्म. ॥ १४ ॥
- अकृत्रिम तुं चेतना, सहज अनंत स्वज्ञाव;  
 आतम ध्याने पामिये, परमानंद जमाव. ॥ १५ ॥
- वेद तीर्थ तप आदि ले; बहु विधि जग तुज ध्याय;  
 तुं ध्यावे कबु औरकों, यह किस घरको न्याय. ॥ १६ ॥

- सुखसागर तुं साहिवो, सुखनामी सुखरूप;  
निर्मल सुख स्वभाव तुं, अमृत ज्ञान अनूप; ॥ १७ ॥
- जिहां निज त्यां सुख संपदा, निज विन सुख नहि और;  
लखे जिसो जिहां आपको, तिस अनुभव तिह और. ॥ १८ ॥
- सिद्ध रूप निज जो लखे, सिद्ध रूप सो होय;  
प्रभु सुख स्वाधिन ताहरे, चहें जबें तव सोय. ॥ १९ ॥
- पूर्व कर्मके वेगको, अनुभव विन नहि अंत;  
जो सुलटे कारक दशा, सिद्धि होय तुरंत. ॥ २० ॥
- परमात्म पद चूलथी, क्रिया चपलता आय;  
आत्म मानत देहकों, नरकादिक दुख पाय. ॥ २१ ॥
- तबलग स्वर्गादिक चहे, (जबलग) चख्यो न अनुभव मूल;  
आतुरता नहि चातुरी, सहजात्म प्रतिकूल. ॥ २२ ॥
- धर्म धर्म करतो फिरे, कर्म न ठंके लेश;  
आत्म अनुभव विन सबे, किरिया विविध कलेश ॥ २३ ॥
- केवल ज्ञानादिक तणी; किण विध होय प्रतित;  
दौर दौर थाकी रहे, कर्म जर्म नयनीत. ॥ २४ ॥
- निर्मल मारग मुक्तिको, अनुभव विन नहि और;  
जबलग जोग चपल रहै, कर्म बंधको जौर. ॥ २५ ॥
- आत्म चावे थिर रहो, एम कह्यो जिनराज;  
सो प्रभु आणा सेवते, सिद्धे सेवक काज. ॥ २६ ॥
- कहे प्रभु जक्ति आदरुं, विविध क्रिया करी सार;  
पण जिनआणा जंग ते, सेवक नाहि लगार. ॥ २७ ॥
- चहे प्रीत वीतरागसुं, राग द्वेष मल युक्त;  
निर्मलसुं प्रीति सधे, निर्मल जाव संयुक्त. ॥ २८ ॥
- प्रीत रीत जे विष जरी, पुद्गल संग अनाद;  
ते रीती तजतां सधे, निर्विष प्रीति साध्य. ॥ २९ ॥

और ठौर मुक्ति गिने, और ठौर कहु धर्म;	
और ठौर प्रचुकुं लखे, मूढ न जाणे मर्म.	॥ ३० ॥
धर्म मुक्ति प्रचु तिन ए, आत्म ज्ञाव अज्ञेद;	
स्याद्वाद विधि जो लखे, सो वेदे निर्वेद.	॥ ३१ ॥
उपगारी गुरु देवको, वचनामृत रस मेह;	
ठौर ठौर वरसी रह्यो, को विरला रस लेय.	॥ ३२ ॥
तरणे डुंगर ढांकीयो, कोय न देखे बाल;	
सहज ज्ञाव निज द्रष्टीशुं, देखे सुगुण विशाल	॥ ३३ ॥
वीतराग परिणति जजे, जे समता रस जूप	
पुद्गलकी तृष्णा तजे, प्रगटे शुद्ध स्वरूप	॥ ३४ ॥
ज्ञानादिक गुण जे हणे, हणि तेणे निज जात;	
पुद्गलको आपा कहे, सो जूठा साक्षात्	॥ ३५ ॥
परगुण पज्जव द्रव्यको, चहे ग्रहे निज हेत	
कर्म केदमें सो सहै, बंधन दंरु अनेक	॥ ३६ ॥
पर तिय पुद्गल परिणति, कुमति याको नाम;	
उतसें विलसे कुशलजन, विना विवेक हराम	॥ ३७ ॥
कर्मज्ञाव संग्रह करे, सो लोची सिरदार	
सुख गणिके दुख जोगवे, आपही आप गमार;	॥ ३८ ॥
बाहिर द्रष्टि देखते, बाहिरहि मन ध्याय;	
अंतर द्रष्टि देखते, कर्म जर्म मटि जाय.	॥ ३९ ॥
मेटि चूल अनादिकी, करो प्रीत निर्विख;	
प्रसन्न थई परमात्मा, टाले पुद्गल चीख.	॥ ४० ॥
एक कुटिल परपरिणति, पीठे लगे अनंत;	
कोण पावे आराम त्यां, ठांमी चाले संत	॥ ४१ ॥
एकांतिक आत्यंतिको, अकृत्रीम सुख गेह;	
रमता राम न जानते, जटके देह विदेह,	॥ ४२ ॥



- देह रहित आनंदमय, जाणे जे निजरूप;  
सात महाजय नसी हुवे, बिन प्रयास शिव रूप. ॥ ४३ ॥
- निरुपचरित निर्द्वंद सुख, ध्यातां आतम ध्यान;  
मिथ्या निशितम फेरिके, प्रगटे केवल ज्ञान. ॥ ४४ ॥
- जे कारक जे कार्यना, तेथी तेहज थाय;  
पलटे एक कदापि जो, तो सौ निष्फल जाय. ॥ ४५ ॥
- कर्ता कारण कर्म बिन, कारण कर्ता बिन कर्म;  
कारण कर्ता कर्म बिन, होय न जाणो मर्म. ॥ ४६ ॥
- उपादान बिन निमित्तको, चले न काहु दाव;  
अशुद्ध निमित्त प्रगटे नहि, उपादानको जाव. ॥ ४७ ॥
- निमित्त पुष्ट जिवि जो ग्रहे, प्रगटे समुच्चय शक्ति;  
बहे स्वरूप अज्ञेदता, गुण अनंतनी व्यक्ति. ॥ ४८ ॥
- जूठी आशा ठोरके, सावधान हो मित्त;  
कुमत जरोसे मत रहो, न्याय बहो शुभ चित्त. ॥ ४९ ॥
- निज निज अर्थ चहे सवे, नहि कीनको विश्वास;  
जावो अशरण जावना, ठोडी परनी आश. ॥ ५० ॥
- आशा जबलग उणता, और कामना तेम;  
पूरणकुं आशा टली, सिद्ध कामना एम. ॥ ५१ ॥
- पुद्गल परिणति देखिये, प्रणम्य धर्म अनंत;  
कोण अचंबा पाईये, वस्तु प्रमेय वसंत ॥ ५२ ॥
- परिचय तिर्यक उर्धता, देश कालके जेद  
बखे यथार्थ स्वरूप तो, रहे न दुष्ट उमेद ॥ ५३ ॥
- राजा राज विवेक तजि, ग्रहे अनीति लेश  
तो खोवे निज राजकुं, त्यां परजाव कलेश ॥ ५४ ॥
- व्यवहारी साचो वही, जीनको तिनकुं देय;  
अपनो जेत संचारीके, शाहुकार बट एह ॥ ५५ ॥

- अहंपणे परपद ग्रहे, सो तो चोर कहाय;  
 जेदज्ञान विनुं रंकते, घरकी गांठ गमाय ॥ ५६ ॥
- कष्ट करे केई बापडा, अंधो अंध पिलाय  
 आतम लक्षण विनु लखे, गुणठाणे न चढाय ॥ ५७ ॥
- में कर्त्ता परजावको, ज्युं जाणे मति हीन  
 त्यौं वाधे अज्ञानता, कर्मजाव आधीन ॥ ५८ ॥
- खट दरशनके पक्षमें, पडि चूके पंक्ति;  
 दरशन शक्ति आत्मनी, लहे न ते अविनीत ॥ ५९ ॥
- ले गुरुगम गुरुदेवतें, जो चाहे सुखरूप;  
 धन्य जीव ते जगतमें, होशे त्रिभुवन चूप ॥ ६० ॥
- स्वसंवेदन ज्ञानथी, अनुभव रस लयलीन;  
 अप्रतिपाति जिन कह्यो; आतम संपत्ति पीन ॥ ६१ ॥
- परिसहादिक तापमें, व्यापक चित्त न होय;  
 त्युं विषयादि रागमें, चले न आप समोय ॥ ६२ ॥
- ग्राहक व्यापक जाव ए, अपनेहीमें आप;  
 दानादिक निज लब्धिको, प्रगटे पूर्ण प्रताप ॥ ६३ ॥
- सुख स्वाधिन तजके करे, परभव मुदत उधार;  
 स्वर्गादिक सो मुग्धकुं, नहि रोकड व्यवहार ॥ ६४ ॥
- जो शुभ उदये तद्भवे, तो पण पर आधीन;  
 एंठवाड जड चल तणो, समय समयमां खीण ॥ ६५ ॥
- अनुभव आतम द्रव्यको, ज्युं दिनकर उद्योत;  
 उदे ज्यो तम मिट गयो, प्रगटी निर्मल ज्योत ॥ ६६ ॥
- तकतकता तारा तणो, तिहां न काहुं तेज;  
 त्युं डुरनय वीनुं एकको, प्रगट ज्यो सुख स्हेज ॥ ६७ ॥
- वस्तु निक्षेप सहितसो, लहे जथावत् जेह;  
 नयगमं जंग प्रमाणशुं, ग्रहे तथा विधि तेह ॥ ६८ ॥

करी अनुभव परत्यागके, जो रहे आप स्वरूप;	
पावे आत्म संपदा, सो चेतन चिद्रूप.	॥ ६९ ॥
केते खग पद गगनमें, जलपद केते मीन;	
सो तो काज न ताहरे, निज अनुभव रस चीन	॥ ७० ॥
अनुभव विन अनुजोग ज्युं, चावे पशु चरवीत;	
लेश न पावे स्वाद सो, फिरत सदा उत्तेशत.	॥ ७१ ॥
जेदज्ञान अपवाद हे, अनुभव हे उत्सर्ग	
कीजे चित्त उजमालता, प्रगटे पद अपवर्ग.	॥ ७२ ॥
उद्यम विनु गुरुगम विना, कौ पावे जग सिद्ध	
विनय करो शुभगुरु तणो, जिम प्रगटे निज रिद्ध	॥ ७३ ॥
सव गुण मांही प्रधान हे, विनय भहा बलवंत	
पण कीजे शुद्ध तत्त्वनो, प्रगटे ज्ञान अनंत	॥ ७४ ॥
बहुमान नहि तत्त्वनो, सो अजिमांनी मूढ;	
निजमत हठ पकमी रहे, लहे रवि किरण न घूढ	॥ ७५ ॥
विविध स्वाद लहे कीटीका, कुंजर चखतही घास;	
तजी मद मृष्टता आदरी, सेवो विनय विलास	॥ ७६ ॥
ज्ञानी ज्ञान भगन रहे, ज्ञेय ममत्व निवार;	
पूर्णानंद स्वतंत्र सुख, दर्पण जिम अविकार	॥ ७७ ॥
एक चेतनावंत हुं, मुजने सकल जणाय;	
में जाणुं निजपर सकल, माहुरं अवर न थाय	॥ ७८ ॥
मुजथी ज्ञानक्रिया सधे, बोध शक्ति मुज मांध्य;	
माहरे माटे नित्य रहे, ज्ञान गगन शिव ठाय.	॥ ७९ ॥
कर्ता आत्म ड्रव्य निज, आत्म सिद्धिठे काम;	
उपादान परिणाम युत, कारण ए अजिराम.	॥ ८० ॥
आत्म आत्मने निज दिये, आत्म संपत्त दान;	
राग रोप तजतां हुए, सहेजे अपादान.	॥ ८१ ॥

स्वक्षेत्रे स्वकालमां, क्रिया प्रवृत्ति जेह;	
अधिकरण ते जाणिये, खट्कारक विधि एह.	॥ ७२ ॥
अनंतकाल लहे समयमां, स्वकाले समय अनंत;	
परतजी वेदे आपकों, करी कर्मको अंत.	॥ ७३ ॥
परमें निज कारज लखी, व्याप्यो मिथ्या द्रष्टि;	
निज लक्षण निजमें लखे, ज्ञान उदय तम नष्ट.	॥ ७४ ॥
ज्ञान कहीजे तेहने, राग रहे नहि रंच;	
रवि सन्मुख कहो किम रहे, अंधकार परपंच.	॥ ७५ ॥
जासे ज्ञायकता विषे, सकल ज्ञेय पररूप;	
तेने निज खपना करी, मूढ परे जव कूप.	॥ ७६ ॥
निज ज्ञाने संतुष्ट थिर, तिहां न राग प्रचार;	
निर्विकल्प अनुभव लहे, निर्मल ज्ञान उदार.	॥ ७७ ॥
कोपानल ज्वाला शमे, वरसे करुणा मेह;	
मान मणिधर विष मिटे, प्रगटे शांति अबेह	॥ ७८ ॥
माया वेद उखेडी चित्त, निर्मल स्फटिक समान;	
गई परपदनी कामना, पास्यो तृप्ति अमान	॥ ७९ ॥
सहजानंद स्वरूप निज, जबलग लख्यो न जाय;	
मन कल्लोख व्यापार दुःख, क्रियाथी केम मिटाय	॥ ८० ॥
ठती परिणति गुण वर्तना, जोतां मन थिर थाय;	
सकल जंतु चित्त सम गणे, लहे सिद्धि निरुपाय	॥ ८१ ॥
सहजानंद विलास तजी, शुं करूं विषयनी वस्त;	
विषय विष उतर्यो सवे, अनुभव अमृत तृप्ति	॥ ८२ ॥
स्पृहावंत विखयी विकल, जग जन जननो दास;	
शक्रादिक चरणे नमे, धन्य निस्पृही मुनिराज	॥ ८३ ॥
चाहे मनमां मग्नता, विषय रोग लखी जोग;	
सहत्त लपेटि असि चटत, संचय दुःख वियोग	॥ ८४ ॥

- सुख निदान निजपद तजी, सुख शोधे परपद मांहि;  
समल चपल जड एंठमां, दुःख ताप बिना कहु नांहि ॥ ९५ ॥
- जूठी मणि साची गणी, कहे मुज मणिनुं ज्ञान  
मणि फल सुख किम ते लहे, (तेम) असत्य बोध अप्रमाण ॥ ९६ ॥
- जे ज्ञाने निःशंकथी, निज चरणे थिर थाय;  
ते ज्ञाने जवतापना, दोष दुःख मिट जाय. ॥ ९७ ॥
- देव धर्म गुरु तत्त्वथी, जग जन जेह अजाण;  
मिथ्यावल फौरी करे, अरि पोषण निज हाण. ॥ ९८ ॥
- जे श्रम परने बूजववा, ते श्रम ग्रहवा बोध;  
करे सुजन जो आपमां, लहे सिद्धि अविरोध. ॥ ९९ ॥
- जे जाणे पर बूजवुं, ते नूढ्यो निजरूप;  
योग क्रिया अजिमानथी, लह्यो न निज चिद्रूप. ॥ १०० ॥
- रागी संग मुमुक्षुने, बाधकता दातार;  
तजी संग संसारीनो, निजमां निजपद धार. ॥ १०१ ॥
- तीन तत्त्व अणजाण जे, मिथ्या नूज बल फौरी;  
अरि पोषत शोपन मित्रकों, शके न शिवपद जौरि ॥ १०२ ॥
- आतम वीर्य अनंत निज, पुद्गल अन्य अनंत;  
प्रेरे तेहमां ते रहे, निज धन रीतो\* तंत. ॥ १०३ ॥
- पूरण वीर्य समेटी निज, गुणमां करी थिर थोत्त;  
पूरण सुख संपत्ति लहे, पामे कवहुं न दोत्त. ॥ १०४ ॥
- आत्म महा मंगल सदा, आतम दर्शन ज्ञान;  
आत्म रमण चारित्र ठे, आत्म परम कल्याण. ॥ १०५ ॥
- आतम सुख संपत्ति सदा, आतम सिद्ध स्वरूप;  
आतम परमानंदमय, आतम त्रिजुवन नूप ॥ १०६ ॥
- परगुण द्रव्य प्रजायसें, चले न वीरज जास;  
केवल ज्ञानादिक सवे, पूरण प्रगटे तास ॥ १०७ ॥

मनसुख निर्मल आत्मा, रहे अचल धिर रूप  
 अमला शिव कमला वरे, जग जय लही अनूप ॥ १०० ॥  
 द्रुग दर्शन नक्ति शशि, जेष्ठ शुक्ल रविवार;  
 एकादशि वेजलपुरे, ज्ञानानंद उदार ॥ १०१ ॥

॥ समाप्त ॥

॥ घहुंली ॥ पहेली.

प्रथम जीनेसर पूजवा, सहीयर मोरी अंग उलट धरी आवी हो  
 ॥ ए देशी ॥ हाररो हीरो ॥ ए देशी ॥

रत्नत्रय आराधवा सहीयर मोरी, विनय जजो महामंत्र हो; जैन  
 धर्मनुं मूल ए सहीयर मोरी, नाशे डुरगुण तंत्र हो; सहज सलुणी मारी;  
 श्रुतरस जिनी मारी, समसुख लीनी मारी, चेतना सहीयर मोरी;  
 विनय करो सुखकंद हो ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥ अरिहंत सिद्ध ने कुल  
 वली सहीयर मोरी, नाग चंद्रादि उदार हो; गण कोटिकादिक सही  
 सहीयर मोरी, परम धरम दातार हो ॥ सहज ॥ २ ॥ गणधराचार  
 वाचक मुनी सहीयर मोरी, संघे चतुर्विध एहहो; अस्तिवाद रूपे  
 क्रिया सहीयर मोरी, एहमां धरीए सनेहहो ॥ सहज ॥ ३ ॥ धर्म  
 द्दमादिक दश विधे सहीयर मोरी, शुद्धातमथी अनेद हो; पंच  
 ज्ञाननो तिमवली सहीयर मोरी, ज्ञानीनो कीजे अखेद हो ॥ सहज ॥  
 ॥ ४ ॥ आचारज आचारना सहीयर मोरी, दायक नायक जेह हो;  
 धारक द्वादश अंगना सहीयर मोरी, उवर्णीय गुण गेहहो ॥ सहज ॥  
 ॥ ५ ॥ जणे जणावे शिष्यने सहीयर मोरी, तेहशुं अधीक उमंग हो;  
 समजावे वरते मुनी सहीयर मोरी अखय आचार सुरंग हो ॥ सहज ॥  
 ॥ ६ ॥ ज्ञान दर्शन चर्ण वयथकी सहीयर मोरी, वृद्ध होय तेह थीवीर

हो; मोहादिक अरि जीतवा सहीयर मोरी, मोटा ते वरवीर हो  
 ॥ सहज० ॥ ७ ॥ विनय ए तेरनो नित्य करो सहोयर मोरी, हृदय  
 प्रेम बहु दाय हो; बाह्यनक्ति पेरे पेरे करे सहीयर मोरी, तन मन  
 प्रशस्त अमाय हो सहज० ॥ ८ ॥ सर्व आशातना वर्जिए सहीयर  
 मोरी, गुणधुंति सहज सुजाण हो; चारे जेद ए तेरनो सहीयर मोरी,  
 वावन होय प्रमाणहो ॥सहज०॥१॥ वली सूत्रे बहु विध कह्यो सहीयर  
 मोरी, धारो विनय शुच ध्यानहो; आत्म द्रव्यादिक बाजोठे सहीयर  
 मोरी, समकित स्वस्तिक जाणहो ॥ सहज० ॥१०॥ द्रव्य जाव दया-  
 तणुं सहीयर मोरी, द्वारे तोरण बंधावो हो; बुद्धि अष्ट मंगल ठवी  
 सहीयर मोरी, गुरु गुण मंगल गावो हो ॥ सहज० ॥ ११ ॥ शिवफल  
 श्रीफल कर ग्रही सहीयर मोरी, ललीलली गुरुमुख जोती हो; गुरु  
 गुणमाल कंठे ठवी सहीयर मोरी, वधावो निजगुण मोतीहो ॥ सह०  
 ॥ १२ ॥ जवदव दावानल समे सहीयर मोरी, विनयथी सिद्धि सदाय  
 हो; आतम परमातम लहे सहीयर मोरी, मनसुख सुमति मनाय हो  
 ॥ सहज० ॥ ॥१३॥

॥ घहुंदी बीजी ॥ महासन वनमां हे सुजनी ॥ ए राह ॥

श्रुतपद सेवो हे सुजनी, मिथ्या मोहनी नाशे रजनी ॥ श्रुतपद०॥  
 आतम धर्म सिद्धता कारण, श्रुत अच्युस विविध दुःख वारण; चार  
 प्रकार कथा श्रुत दाखी, निज पर हितकर बुध मन राखी ॥श्रु० ॥१॥  
 आक्षेपणी कथा कही जनने, शुद्धातम रिंज करावे मनने; शरीरादिथी  
 ममत्व उठावे, ते विक्षेपणी दुतिय कहावे ॥ श्रुत० ॥ २ ॥ सिद्ध समो  
 निज रूप लखावी, सहजानंदी करे सज्जावी; ते संवेदिनी तृतीय  
 सुणावी, चित्त उलसे शिव साधन जावी ॥श्रुत०॥ ३ ॥ पुद्गल अधिर  
 असार देखावे, परद्रव्ये रागादि मिटावे; निर्वेदिनी चोथी मन लावे,  
 श्रुत रुचिधर सुणी समसुख पावे ॥ श्रुत० ॥ ४ ॥ उद्देश अने समुद्देश  
 कहीजे, अनुज्ञा ने अनुयोग लहीजे; जेथी श्रुत अनुभव रस आवे,

निर्मल ज्ञान महोदय पावे ॥ श्रुत० ॥५॥ सामान्ये जे तत्त्व उपदेशे,  
ते उदेश कह्यो श्री जीणेशे; तत्त्व अर्थ सिद्ध करी समजावे, जंगांतर  
बहु पज्ञाव जावे ॥ श्रुत० ॥६॥ नय निक्षेप अधिक निश्चयथी, समुद्देश  
कहीए बहु नयथी; संयम अर्थ अनुज्ञा आपे, चरण करण अनुमिति  
थिर थापे ॥ श्रु० ॥ ७ ॥ ते अनुमिति कहिए हितकारी, द्रव्य जाव  
संजम सुविचारी; तत्त्व अर्थ ग्रहण गुरु पासे, प्रश्न करे बहु विनय  
उद्व्लासे ॥ श्रु० ॥ ८ ॥ ते अनुयोग लहे शुद्ध अर्थ, शिव साधन ते  
होय समर्थ; गुरुमुख अमृत घन जीम वरसे, वदन कमल शारद  
शशि दरशे ॥ श्रुत० ॥ ९ ॥ समकित स्वस्तिक शुद्ध ठविजे, गुरुगुण  
माल घटुंअली कीजे; धी गुण अडमंगल तिहां थापो, अष्ट करमदल  
बंधन कापो ॥ श्रुत० ॥ १० ॥ हित करी वाचना गुरु नित आपे, जवि  
आतम परमातम थापे; जीम जवार्णव सहजे तरीए, मनसुख शिव  
संपति निज वरीए ॥ श्रुत० ॥ ११ ॥

॥ घटुंदी त्रीजी ॥ जीनवाणी वरणमाला लिख्यते ॥

विमल जिन वाणीरे, अचल सहु शांतिकरी;

जवोदधि तरवा रे, महाद्रढ नाव खरी ॥ ए आंकणी ॥

काल अनंते पूरव पुण्ये, जिन वदन कमलथी रे, गीरा ए शुद्ध गीरी

सव जगजंतु विरोध निवारण, महावीरनी करुणारे, पाम्यो हुं धन्य घरी

गुण अनंत श्री जिनवाणीना, जाणी जव्य प्राणीरे, मुज मन थिर ठरी

त्रण कालमां ए हित कारण, जवजयथी तारणरे, धारण ध्यान धरी

॥ विमल० ॥ १ ॥ अमृत मेघ घटा घन वरसे, जवी जीवने तारे रे,

वसुधाए विचरी; आठ कर्मदल बंध विदाररे, जवफंद निकंदे रे, ति-

क्षण एह बुरी ॥ विमल० ॥ २ ॥ श्री जिन देशि गणपति गुंथी,

विषय विष हरवा रे, जाची एह जरी; जवि निज आतम धर्म रमावे,

डुख छंद नशावे रे, पूष्कलावर्त्त करी ॥ विमल० ॥ ३ ॥ ममता माया

मिथ्यामति नाशे, शुद्ध समकित जासेरे, अज्ञान जाय टरी; पंच महा



अंतराय निवारे, पंच लब्धि प्रकाशे रे, अखलित वीर्ये ठरी ॥ विमल०  
 ॥ ४ ॥ नित्यात्म संपति प्रगटावे, सहु पीना नसावे रे, जमता जाय  
 डरी; सात महाजय दूर निवारे, नव पार उतारे रे, महा विष जाय ठरी  
 ॥ विमल० ॥ ५ ॥ मुनिजन माहण जाव प्रकाशे, दुख पार उतरवा रे,  
 अखलित एह तरी; ए जग जननी प्रवचन माता, एणे देखी नाठी रे,  
 मीथ्या मति थथरी ॥ विमल० ॥ ६ ॥ प्रशमरति सर्वांग उमंगे, रहे  
 समता संगेरे, रंगे शिव सुंदरी; निज आत्म गुण श्रेणी उद्व्लासे,  
 धर्म शुक्ल अज्यासे रे, मुनि धृति द्रढ धरी ॥ विमल० ॥ ७ ॥ जेह सुणी  
 जिन आगे नाचे, अतिरंगे माचे रे, सुर वधु सहु किनरी; पंचास्ति  
 नव पद प्रकाशे, निजमय निज जासे रे, माया जाय परी ॥ विमल०  
 ॥ ८ ॥ अष्ट करम जोती जय पावे, शिव सहज सुहावे रे, संसार न  
 आवे फरी बहु नयजंग प्रमाण एकांगे, वस्तु मनरंगे रे, सिद्ध करे  
 जवरी ॥ वि० ॥ ९ ॥ अष्ट गुणात्म आत्म विलासे, निर्वाण नीवासे  
 रे, परमानंद नरी; समवसरण शोजा जस सुंदर, अति रंग पुरंदर रे,  
 बहु माने अमरी ॥ वि० ॥ १० ॥ जे कुमति मद मानने जंजे, नवि  
 तत्त्वमां रंजेरे, नाशे सहु वयरी; चार निखेपे शुद्ध नये वली, द्वादश  
 अंगनी रे, वाणी जिनेशररी ॥ वि० ॥ ११ ॥ परखदा बारना शंसय जाजे,  
 अनुजवी मुनिराजे रे, सरिता ए नदरी; चरण कमल कमला धिर वासे,  
 आनंद विलासे रे, मुनि शिव सुख वरी ॥ वि० ॥ १२ ॥ ए ब्रह्माणी ए  
 सुख खाणी, आदरीए प्राणीरे, साची सुख सरी; महा मंत्र ए महा  
 औषधी, दुःख दाखिद्र नाशे रे, मन तनु रोग हरी ॥ वि० ॥ ॥ १३ ॥  
 अष्ट महा रिद्धि सिद्धि दायक, बहु लब्धि लायक रे, सदाए महा बळरी;  
 त्रिकाल त्रिचुवन जाव जणावे, न्यायो दर्शावे रे, वाणी ए सर्वज्ञरी  
 ॥ वि० ॥ ॥ १४ ॥ सहु अपणी जाषामां समजे, बहु देश विदेशी रे,  
 वाणी अति अक्षरी; एथी संजम एथी किरिया, एहथी बहु तरिया रे,  
 मनसुख शीवकरी ॥ विमल० ॥ १५ ॥

जिनवाणीना वखाणीनी ॥ घहुंली चोथी ॥

॥ सहीयर सुणीएरे जगवती सूत्रनीवाणी ॥ ए राग ॥

श्री देवींद्र ईंद्र गण वंदित, तसु मुख पद्म निवासी;  
हृदये कमले विमला कमला, केवल बोध प्रकाशी ॥ सहीतुमे सेवोरे,  
गुरुमुख अमृत वाणी, अनुभव मेवो ए आत्मने हित जाणी ॥ १ ॥  
साध्य सापेक्ष सहित आचरणा, लोकालोक प्रकाशी;  
नयगम जंग प्रमाण लहंतां, मिथ्या तिमिर विनाशी ॥ सहीतुमे ॥ २ ॥  
कारण कारज कारक एके, चिन्ने चिन्न प्रकाशी;  
पर प्रवृत्ति निवृत्तिनी दाता, चिदानंद अविनाशी ॥ सहीतुमे ॥ ३ ॥  
त्रणे रत्न तणी ए माता, ए विण जूठी किरिया;  
अकरण वीर्य अनंत एहथी, लहि नवि शिवपद वरीया ॥ सही ॥ ४ ॥  
मन वचनने औदारिक तनु, तिम कार्मण आदिकनी;  
चिन्ने चिन्न किरिया ते लहीए, चिन्न डव्य गुण गुणी ॥ सहीतुमे ॥ ५ ॥  
वली प्रयोगसा विश्रसा कहिए, श्री सिद्धांते दाखी;  
गुरु बहुमान विनयथी लहीए, केवलज्ञानी जाखी ॥ सहीतुमे ॥ ६ ॥  
हेय उपादेय अस्ति नास्ति, अनर्पीत अर्पीत अर्पे;  
केवल जलहल ज्योति जगावे, मोहादिक रिपु डपे ॥ सहीतुमे ॥ ७ ॥  
श्रद्धा स्वस्तिक समकित दीपक, निज गुण मंगल माला;  
पूर्ण प्रेम श्रुत सिंधु हृदये, सहजानंद विशाला ॥ सहीतुमे ॥ ८ ॥  
स्थान अगोचरनी प्रनु दीठे, गुंज प्रीत सवि विकशी;  
लोकोत्तर जई गई लौकीकनी, एंठ जूठथी निकशी ॥ सहीतुमे ॥ ९ ॥  
पुलक पुलक पुलके अघट घटमें, ब्रह्माणी श्रुत देवी;  
जिणंद प्रकाशी गणधर गुंथी, सुरी मुनि वृंदे सेवी ॥ सहीतुमे ॥ १० ॥  
पर समयी जमशे संसारे, पामे स्वसमयी ज्ञान;  
समय सेवे ते शीव पावे, मनसुख परम कल्याण ॥ सही ॥ ११ ॥

## ॥ घटुंदी पांचमी ॥

विनय नित सेवोने, जिन शासननुं मूल, विनय नित सेवोने, गुरु  
तन मन अनुकूल, विनय नित सेवोने, तजी सर्वे प्रतिकूल विनय नित  
सेवोने ॥ ए आंकणी ॥

सवि गुण मांहि प्रधान विनय ठे, महामंत्र सुखदाईजी;  
दर्शन ज्ञान विनयथी लहिए, तप संयम अधिकार्ई ॥ विनय० ॥ १ ॥

सफल फले सवि विद्या सिद्धि, शुद्धातम सुखदायजी;  
नयण वयण तन चिन्ह निहाली, परखी गुरु अज्ञिप्राय ॥ विनय० ॥ २ ॥

आलस निंद प्रमाद तजीने, ततठीन करी बहु मानोजी;  
आज्ञा ईष्ठाए वर्तीजे, दिल धरी हर्ष अमानो ॥ विनय० ॥ ३ ॥

वार वार गुरुने पूठीजे, प्रभु मुज शो आदेशजी;  
जे आज्ञा फरमावे गुरु ते, करीए हर्ष विशेषे ॥ विनय० ॥ ४ ॥

पुष्पचुला गुरु विनय सेवती, अनंत चतुष्टय पामीजी;  
गुरु पण केवलज्ञान लहीने, जव जय व्याधि वामी ॥ विनय० ॥ ५ ॥

विनय स्वरूप न जाणे जे जन, आपणी शोचा राखेजी;  
मान कपट वश बाह विनय करी, हुं विनयी एम दाखे ॥ विनय० ॥ ६ ॥

राज वेठ सम जाणी गुरुनी, सेवा जे आदरशेजी;  
फोकट कष्ट करे जन ते तो, जवजलथी केम तरशे ॥ विनय० ॥ ७ ॥

अरिहंतादिक दशनो विनय, श्री सिद्धांत प्रकाशेजी  
मूख्यपणे धर्माचारजनो, कीजे चित्त उद्दासो ॥ विनय० ॥ ८ ॥

शुद्धातम सुखदायक सद्गुरु, ए सम कोण उपकारीजी  
बद्मस्थपणाथी दोष होय ते, चित्तमां नवि संजारी ॥ विनय० ॥ ९ ॥

चंक्रुद्ध आचारज शिष्ये, कांति विनय आदरियोजी  
परमगुरु गुण ग्रहतो ततठीन, जवदधि तरी शिव वरियो ॥ विनय० ॥ १० ॥

उत्तराध्ययन पढम अग्रयणे, जिनवर विनय प्रकाशेजी  
जे जवि चित्त उद्दासे एहमां, तस दुःख दोहग नाशे ॥ विनय० ॥ ११ ॥

तीर्थपति सम धर्माचारज, सम्यक् जिन मग देशेजी  
आज्ञा उलंघि जे चाले, ठंमो संग विशेषे ॥ विनय० ॥१२॥

मत हठ धन विषयनो अर्थी, मूरख जाणी तजियेजी  
पासत्थादिक परिचय ठोनी, रंगे सद्गुरु जजिये ॥ विनय० ॥१३॥

श्रीगुरु चरण निकट नित रहीये, सफल क्रिया शुभ सारीजी  
हामी हामी वंदन कीजे, सुख समाधि संजारी ॥ विनय० ॥१४॥

इत्यादिक बहु जेद विनयना, प्रवचन वीवरी प्रकाशेजी  
मोक्ष अर्थी जवि जव जरीरु निज, चित्तमां विनय उद्धासे ॥ विनय० ॥१५॥

वैयावच्छें प्रातिक तूटे, श्री जिन आज्ञा संजारीजी  
एक वचन पण नवि अवगणिए, मोटो गणो उपकारो ॥ विनय० ॥१६॥

क्रोध मान ठल लोच हास्य जय, अलिक विना हित वयणेजी  
सुप्रसन कीजे गुरुने निरंतर, कोमल तन मननयणे ॥ विनय० ॥१७॥

महा मंगल शुभ विनय धारी, मनसुख वरे शिव नारीजी  
प्रगटे आतम सत्ता जारी, शिव कमला अधिकारी ॥ विनय० ॥१८॥

जिनवाणीनुं स्तवन.अगर ॥ घहुंदी ठठी ॥

आघा आम पधारो पूज्य, अमघर वहेरण वेला ॥ ए राह ॥

दरशन दीजे दर्शन दायक, आणाए मन लीनो रे

तुज शासन विणु जुला जमतां, सठ निज काज न कीनो ॥

चतुरा चेतो चेतनराय, अपनी आप विचारो ॥ साचुं समज्यां शिव  
सुख थाय, खोटी हठ किम धारो ॥ चतुरा० ॥ आंकणी ॥ १ ॥

चेतन पुद्गल ठे दो न्यारा, सत्ता न्यारी न्यारी रे;

द्रव्यादि चउ जेद द्रव्यनी, सप्तजंगी जुओ धारी ॥ चतुरा० ॥ २ ॥

विण निक्षेपे वस्तु न कोइ, ते स्ववस्तु प्रजाय रे;

तेहमां चार निक्षेप लह्या विण, जिन दरिशाण किम थाय ॥ चतुरा० ॥ ३ ॥

नाम द्रव्य ने ठवण जाव ए, वस्तुना वस्तुमां रे;

विण उपचारे निज निज ठामे, जूठ कटपना परमां ॥ चतुरा० ॥ ४ ॥

खट कारक विण काज न होवे, मूढ तेह नवि जाणें रे.  
 किम पावे निज कारज सिद्धि, मिथ्या मत अजिमाने ॥चतुराण ॥५॥  
 उत्सर्गे अपवादे कारज, किरीआ करतां शुद्ध रे  
 तेह प्रवृत्ति लह्या विण उन्मत, सेवे धर्म विरुद्ध ॥ चतुराण ॥६॥  
 कारण काज अजेद एकमां, जेदे जिन्न लहीजे रे  
 वर विण जान लेइने जातां, किण विध कन्या लीजे ॥ चतुराण ॥७॥  
 उपादान निमित्त अणलहतो, अशुद्ध निमित्त एकांते रे  
 जिन दरिशाण विण मिथ्या दर्शन, जटके जग बहु जांते ॥चतुराण॥८॥  
 द्रव्यनी शक्ति ने वली व्यक्ति, न लहे मिथ्या ज्ञानी रे  
 कार्य तणा परजाय चुवन व्यय, कारज सनमुख नाणी ॥ चतुराण॥९॥  
 न जाणें घट रूप ठे केवो, नामे कोइ कुंजार रे  
 किम करी शकशे घट कारजने, वहे खर चंदन जार ॥ चतुराण ॥१०॥  
 सद्गुरु संग विनय बहुमाने, लहि ध्यावे निज रूप रे  
 पारस स्पर्शन योगे होवे, लोहा कंचन रूप ॥ चतुराण ॥११॥  
 द्रष्टिरागने समकित समजी, जोलाने जरमावे रे  
 चिंतामणि सम धर्म रयणी, सामग्री विणसावे ॥ चतुराण ॥१२॥  
 द्रव्यार्थक परजायारथथी, सत्ता शुद्ध पिठाणी रे  
 तजि बहिरातम अंतर आतममां, जावो सिद्ध समानी ॥चतुराण॥१३॥  
 अशुद्ध नये विज्ञावता वलगे, शुद्धे शुद्ध स्वज्ञावो रे  
 शुद्ध नये सत्ता एकत्वे, परमानंद जमावो ॥ चतुराण ॥१४॥  
 स्वरूप रमणनो रसीज जाणी, साचो मुनि परखीजे रे  
 किंग प्रयोजन जन मन रंजन, उत्तराध्ययने लहीजे ॥ चतुराण ॥१५॥  
 पर ममत्वे पर अनुयाइ, आतम लब्धि न पाइ रे  
 योग सकंपे वीर्य सकंपीत, न लही निज थीरताइ ॥ चतुराण ॥१६॥  
 चखइ फंदइ जगवइ अंगे, जांखे श्री जिनचंदो रे  
 शुद्ध नये निज अचस अफंदी, अनुभव आनंद कंदो ॥ चतुराण॥१७॥

सकल सूत्रनो सार शुद्ध नय, लहीए अनुभव योग रे  
 सर्वाचारमय श्रीजिन दाख्यो, ए शिव साधन योग ॥ चतुराणां १७॥  
 चरमावर्त्ते वचन प्रचूनो, सुणतां चित्त सुहावे रे  
 अंतर द्रष्टे ग्रंथी मोहनी, जेदी दरिशाण पावे ॥ चतुराण ॥ १८॥  
 वाणी वीस्तरजो श्रीजिननी, बडशाखा विस्तारे रे  
 तरणी किरण पेरे पसरंती, जवि हृदये अजुआवे ॥ चतुराण ॥ १९॥  
 निज परिणती पर वर्णादिकनी, लेस्याए लेसाणी रे  
 करशे निर्मल मनसुख सहजे, ब्रह्माणी ए जाणी ॥ चतुराण ॥ २०॥

पद अंगर घहुंली सातमी ॥ राग-गरबानो ॥

गुरु मुख कमले कमला वासो, वचने होय लील विलासो लाल ॥  
 आतम गुण रंगे रमीए, दुख दोहग विपति वमिये लाल ॥ आतमण ॥  
 जे परने वश करवा चाहे, जलटो तेहने वश थाये लाल ॥ आतमण ॥  
 कोइ वस्तु परने वश नावे, निश्चय रहे आप स्वजावे लाल ॥ आतमण ॥  
 त्रमथी मूरख मन एम जाणे, परने वश कीधुं माने लाल ॥ आतमण ॥  
 करी कर्मबंध ते नवि बूटे, आतम वश बंधन तूटे लाल ॥ आतमण ॥  
 आतम दमवो जिनवर जाखे, श्री उत्तराध्ययननी शाखे लाल ॥ आण ॥  
 परवश अर्थे दुख नवि सहिये, सुमता सेजे रमी रहिये लाल ॥ आण ॥  
 पुरुषाक्रम वीरज थीर राखे, अमृत रस मनसुख चाखे लाल ॥ आण ॥

॥ घहुंली आठमा ॥ सोयला कोयलडीने वीनवेरे ॥ ए राह ॥

लहि रुमो नरभव सार, जवोदधि पाल, मूकीने सैयर क्यां ग्यांतारे  
 वेजलपुरने उपाश्रयेरे, अव्यानुयोग वंचाय, सुणवाने अमे त्यां ग्यांतारे  
 गुण परजाय स्वद्रव्यनारे, निज निज अव्ये समाय ॥ सुणण लहीण ॥ २१॥  
 उपजे विगमे शिर रहेरे, अव्ये अजेद प्रजाय ॥ सुणवानेण ॥  
 सामान्य विशेष स्वजाव ठेरे, वस्तुथी जिन न थाय ॥ सुणण लहीण ॥ २२॥

द्रव्य प्रजायनी देशनारे, अमृत घन वरसाय ॥ सुणवाने० ॥  
 सामान्ये द्रव्यारथ कद्योरे, पञ्जवठ विशेष सुणाय ॥ सुण०॥लही०॥३॥  
 व्यवहार ने निश्चय तणोरे, जेद अजेद सुवाद ॥ सुणवाने० ॥  
 वस्तु उत्सर्गे पामवारे, साधवो तसु अपवाद ॥ सुण० ॥ लही० ॥४॥  
 नय अनंत एक द्रव्यमारे, सात मुख्य अविरुद्ध ॥ सुणवाने० ॥  
 जिन नहीं एक द्रव्यथीरे, चार निक्षेपा शुद्ध ॥ सुण० ॥ लही० ॥५॥  
 वस्तु अनंत स्वभाव ठेरे, परम स्वभावथी एक ॥ सुणवाने० ॥  
 सप्तजंगादि अनेकनारे, जंगांतर सुविवेक ॥ सुण० ॥ लही० ॥६॥  
 एम शुद्ध नय देशना सुणारे, होय विशेष विज्ञान ॥ सुणवाने० ॥  
 श्ल्यादिक बहु जेदथी रे, सुणि लहिये शुद्ध ध्यान ॥ सुण०॥लही० ॥७॥  
 समन्नाथी गुरुराय ठेरे, निस्पृहि करुणा निधान ॥ सुणवाने० ॥  
 समकित स्वस्तिक में रच्योरे, दीपक ज्योति सुज्ञान ॥ सुण०॥लही०॥८॥  
 अष्टबुद्धि मंगल ठव्यारे, शुध दया तोरण द्वार ॥ सुणवाने० ॥  
 विनय अने बहुमानथी रे, दिल धर्या वचन उदार ॥ सुण०॥लही०॥९॥  
 जिन लख्या ज्ञेय ज्ञानथीरे, हुं चेतन थिर एक ॥ सुणवाने० ॥  
 नरजव एम सफलो करोरे, मनसुख लहि सुविवेक ॥ सुण०॥लही०॥१०॥  
 कर्ता गांधी दलसुख नाथजी ॥ घहुंदी नवमी ॥ राग उपरनो ॥  
 संघ गुरुजीने वीनवे रे, करशुंजी विनय सदाय, हृदय उलसाय,  
 स्वामिजी (गुरुजी) वहेला आवजो रे ॥ ए आंकणी ॥  
 मिथ्या महातम फेडीयो रे, दीधुं रुहु समकीत दान ॥ स्वामिजी० ॥  
 मन हुलस्यां नरनारीनां रे, सुणतां श्रीजिनवाण ॥ स्वा० ॥ संघ० ॥१॥  
 काल अनंते अमें लह्यो रे, स्यादवाद शुचि बोध ॥ स्वा० ॥  
 आतम करशुं निरमलो रे, टाली राग विरोध ॥ स्वा० ॥ संघ० ॥२॥  
 कुवादी मद मरदीयो रे, आवे नहीं अम पास ॥ स्वा० ॥  
 तच्चामृतनी देशना रे, सुणवा अधिक उद्वास ॥ स्वा० ॥ संघ० ॥३॥

काल अनंत अमें सह्यो रे, सुमतानो जेह वियोग ॥ स्वा० ॥  
 तुम वचने चेतन लह्यो रे, सुमति सहित शुद्ध जोग ॥स्वा०॥संघ० ॥४॥  
 क्रोधादिक तस्कर नसे रे, लहीशुं ज्ञान विदास ॥ स्वा० ॥  
 आणा रुडीपरे पालशुं रे, करीशुं चरण निवास ॥ स्वा० ॥ संघ० ॥५॥  
 सात महात्रय डुर टले रे, सप्त नये लखी शुद्ध ॥ स्वा० ॥  
 कुमत कदाग्रह डुर करीरे, करशुं निरमल बुद्ध ॥ स्वा० ॥ संघ० ॥६॥  
 बहु जवि समकित व्रत लह्यां रे, वधशे शासन एम ॥ स्वा० ॥  
 शासन बाग संचालवारे, तुमने होजो कैम ॥ स्वा० ॥ संघ० ॥७॥  
 धर्म अंकूर प्रगट थयो रे, अमृत जल सींचाय ॥ स्वा० ॥  
 जावना प्रशस्त वायुथीरे, बाग फले सुखदाय ॥ स्वा० ॥ संघ० ॥८॥  
 गोयम गणने संचालतारे, तेम करजो गण सार ॥ स्वा० ॥  
 दरशन ज्ञान चरण सधेरे, जीव लहे जयकार ॥ स्वा० ॥ संघ० ॥९॥  
 सार सिद्धांतना रहस्यनोरे, देशक प्रजुजी दयाल ॥ स्वा० ॥  
 अमने शिवमग प्रेरवारे, रहेजो सदा उजमाल ॥ स्वा० ॥ संघ० ॥१०॥  
 अमे परमाद वशे करीरे, अविधि आशातना जेह ॥ स्वा० ॥  
 कैमंकर खमजो सहुरे, आणी धर्म सनेह ॥ स्वा० ॥ संघ० ॥११॥  
 जयवंता वंदण सदारे, होजो अमारी त्रिकाल ॥ स्वा० ॥  
 वली वली विनयथी विनवुं रे, करजो अमारी संचाल ॥स्वा०॥संघ०॥१२॥  
 प्रतिपालक खटकायनारे, ड्रव्य जावथी उमंग ॥ स्वा० ॥  
 शुद्धातमता साधवारे, संघने ड्रढतर रंग ॥ स्वा० ॥ संघ० ॥१३॥  
 दूर रह्या दिलमां वसोरे, दलसुख आत्म आधार ॥ स्वा० ॥  
 जिनवर अतिशयथी लहोरे, पद पद सिद्धि उदार ॥स्वा०॥ संघ०॥१४॥  
 ॥ स्तवन अंगर घहुंली दशमी ॥  
 आघा आम पधारो पूज्य अमघर वहोरणवेला ॥ ए राह ॥  
 प्यारा प्राणथकी मुनिराज, साचा सद्गुरु मुजने  
 निर्मल शिवसुखना दातार, व्हाला लागे मनने ॥ ए आंकणी ॥



चेत्यो चैतावे चेतनने, चूढ्यो तेह चूढावेरे;  
 कुगुरु वचन रस जे हठ लीना, तेहशुं जोर न फावे ॥ प्यारा० ॥ १ ॥  
 वचन उथापकने गुरु मानी, पद्म जे तेहनो ताणेरें  
 अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंज्ञव, ए गुण दोष न जाणें ॥ प्यारा० ॥ २ ॥  
 सकल समयने सर्व जीवमां, चेतनता निर्दोषेरें;  
 रागादिक एम आत्ममां कहेतां, होय अव्याप्ति दोष ॥ प्यारा० ॥ ३ ॥  
 अरूपी जो जीवज कहीए, धर्मादि जेला आवेरें;  
 स्वपर द्रव्यमां ए गुण व्याप्यो, ते अतिव्याप्ति कहावे ॥ प्यारा० ॥ ४ ॥  
 वर्णादिक चेतनमां कहीए, एह असंज्ञव दोषेरें;  
 दोष रहित जिन आगम परखी, लहीए श्रुत रस पोष ॥ प्यारा० ॥ ५ ॥  
 बहु नय जंग प्रमाण आसनी, बाणी ठे अविशुद्धेरें;  
 बत्रीश दोष रहित ते दाखी, अनुयोग द्वारे विशुद्ध ॥ प्यारा० ॥ ६ ॥  
 बिन पडठे विणुं परखे तत्त्वने, एकांते जे धारे रे;  
 सद्गुरु करी उपदेश तेहने, दुर्गतिथी केम वारे ॥ प्यारा० ॥ ७ ॥  
 खंरु खंरु पंडित जे होवे, नहि निज अनुज्ञव लेशेरें;  
 मूरख ते मूरखने पद्मे, पामे बहु विध कलेश ॥ प्यारा० ॥ ८ ॥  
 उंट विवाहमां बहु खर आव्या, रूपने राग वखाणें रे;  
 रूप रागनो मर्म लह्या विणुं, राची रह्या अजिमाने ॥ प्यारा० ॥ ९ ॥  
 ज्मीम जयंकर जवदधि तरवा, कुगुरु निश्राए चाले रे;  
 काल द्रहे जन ते बूडंतो, कर तस को कीम जाले ॥ प्यारा० ॥ १० ॥  
 आप दया नहीं जेहने ते नर, अन्यने केम उगारे रे;  
 शठ मतमां माता रहि निशदिन, मिथ्या मोह अंधारे ॥ प्यारा० ॥ ११ ॥  
 जाव परंपराए प्रजु आणा, त्यागीने हठ लीनारें;  
 दीन दुःखियाने अशरण एहवा, थापे बोल नवीना ॥ प्यारा० ॥ १२ ॥  
 कुगुरु मुख काकण जस नवि लागी, सहजे ते प्रतिवूजे रे;  
 एहिज काकण जेहने वदगी, तस दरशन नवि सूजे ॥ प्यारा० ॥ १३ ॥

अति कठिण ने निज मति कदपित, मारग जेह दिखावे रे;  
 क्षेत्र काल ने जाव लहा विण, मारग मूल नसावे. ॥ प्याराण ॥१४॥  
 अणठत्ता दोषण आरोपी, सत्य मारगने रोके रे;  
 धूर्त विग्राहित चित्त लोकनां, करी मिथ्या रस पोषे ॥ प्याराण ॥१५॥  
 अनेक जीवने साथे लेश, जवजल निधीमां पेसेरे;  
 एहवानुं मुख जे जन जोवे, तो तेहने लेश बेसे. ॥ प्याराण ॥१६॥  
 मन उलसे तन विकसे गुरुथी, सार समाधि लहीए रे;  
 अनंत कालमां जे नवि मलीउं, कहो ते विण किम रहीए. ॥ प्याराण ॥१७॥  
 परमानंद प्राप्ति जो च्हावो, तो परखो शुद्ध आण रे;  
 जेदज्ञान लही शिवसुख साधो, मनसुख सहजे सुजाण ॥ प्याराण ॥१८॥

## ॥ घहुंली अगीआरमी ॥

ध्रुवपद रामीहो स्वामी माहरा ॥ ए राह ॥

निजगुण कामीहो समचाषी गुरु, तारण तरण वड जहाज ॥ सुज्ञानी ॥  
 गुरु चरणे नमी शिष्य विनय करी, पूठे प्रश्न उदार ॥ सुज्ञानी ॥  
 विनयनुं फल सूत्रे मोटुं कहुं, दर्शन ज्ञान आधार ॥ सुज्ञानी ॥१॥  
 वैयावच्च करे धर्माचार्यनी, तीरथपति पद पाय ॥ सुज्ञानी ॥  
 विनय तो जग करता दीसे घणा, वैयावच्च पण थाय ॥ सुज्ञानी ॥२॥  
 पूरुं फल में तो दीतुं नहीं, जेद कहो मुनिसार ॥ सुज्ञानी ॥  
 सद्गुरु जाखे सुगुण हृदय धरो, प्रवचन विनय प्रकारा ॥ सुज्ञानी ॥३॥  
 ठठ अठमादिक करवा सोहिला, सोहिलो परिसह तापा ॥ सुज्ञानी ॥  
 ब्राह्म क्रिया बहु विधि अति सोहिलि, दुर्लभ विनय अमापा ॥ सुज्ञानी ॥४॥  
 मन सोंपे हरखे गुरुराजने, तन गुरु चरण हजूर ॥ सुज्ञानी ॥  
 गुरु श्छाए वचन वदे सदा, गुरु अर्थे मति सूर ॥ सुज्ञानी ॥५॥  
 गुरु देखीने मन अति उल्लसे, मधुर सुवचन विलास ॥ सुज्ञानी ॥  
 गुरु शुश्रूषा निज मन चिंतवे, हजूर रहे गुरु पास ॥ सुज्ञानी ॥६॥

वचन नयण मुख लक्षणथी लखे, गुरु मननो अजिप्राय॥सुज्ञानी॥  
 काम करे विद्या साधक परे, खेद आलस नविथाय ॥ सुज्ञानी ॥७॥  
 बाह्य विनय पण ठे बहु जेदथी, अंतरथी सुखदाय ॥ सुज्ञानी ॥  
 एवा विनयथी ज्ञानादिक फले, पग पग सिद्धि सदाय॥ सुज्ञानी ॥७॥  
 सुत आदि बहु लब्धि संपजे, जय अंतराय न होय ॥ सुज्ञानी ॥  
 आसायण वरजी गुरु सेवतां, वेगे शिव लहे सोय ॥ सुज्ञानी ॥८॥  
 पुत्र पति प्रिय उपर प्रेम ठे, देखत सुणतां आनंद ॥ सुज्ञानी ॥  
 तन मन खेदने दुःख सहु विसरे, तेहशुं होय सुबंद ॥ सुज्ञानी॥१०॥  
 रोष निवारे ततक्षण रींजवे, क्षण न वियोग सहाय ॥ सुज्ञानी ॥  
 कारज मान्युं जेणरे जेहमां, प्रेम प्रतित सदाय ॥ सुज्ञानी॥११॥  
 मानी रींजे बहु सन्मानथी, लोचनी मन धन ध्यान ॥ सुज्ञानी ॥  
 कामी मन तलपे नित्य काममां. होय व्यसनी समान ॥ सुज्ञानी॥१२॥  
 मन चोरे गुरुथी रहे वेगलो, गुरुथी क्रोध ने मान ॥ सुज्ञानी ॥  
 ठल कपट युत जूवुं उचरे, जय शोक ने दुर्ध्यान ॥ सुज्ञानी॥१३॥  
 इत्यादिक गुरु आगल आचरे, जेम जग अर्थनी प्रीत ॥ सुज्ञानी ॥  
 नहि गुरु वचनतणुं सन्मान ठे, मोहपणानी हो रीत ॥ सुज्ञानी॥१४॥  
 दोष बुपावे गुण देखाकीने, अंतर माया साद ॥ सुज्ञानी ॥  
 मिथ्याशब्द न बोडे मूलथी, एहवी दुर्गुण चाद ॥ सुज्ञानी॥१५॥  
 आपज आपे मनमां चितवे, माहरो दोष न कोय ॥ सुज्ञानी ॥  
 पण अंतर द्रष्टि करी देखशे, दोष निहालशे सोय ॥ सुज्ञानी॥१६॥  
 गुरु तो कोश्नो दोष दाखे नहीं, गुरु करुणारस वृष्टि ॥ सुज्ञानी ॥  
 जे जेम जवि संसारथी उरूरे, एह विवेकनी द्रष्टि ॥ सुज्ञानी॥१७॥  
 विनय लह्यो जग ते नर धन्य ठे, होशे तास कल्याण ॥ सुज्ञानी ॥  
 जूगे विनयी माने आपने, होवे जेह अजाण ॥ सुज्ञानी॥१७॥  
 जे गुण पाम्या ते सहु विनयथी, पामशे आगे अनंत ॥ सुज्ञानी ॥  
 इम जाणी शुच विनय आदरो, प्रगटे पद सुमहंत ॥ सुज्ञानी॥१८॥

पूरण हेतुथी जे अखगो रहे, तेहने हित किम होय ॥ सुज्ञानी ॥  
 जो पण आप मति अजिमान ठे, आपहि आप विगोय ॥ सुज्ञानी ॥१०॥  
 गुरु निस्पृहि समजाषी गुण निधि, न्यायी लहे गुरु रूपा ॥ सुज्ञानी ॥  
 धन्य हुं पूण्यें में सद्गुरु पामियो, में लह्युं आत्म स्वरूपा ॥ सुज्ञानी ॥११॥  
 आंच सहे पण वर्ण रुडो वधे, ते तो जाचुं रे हेम ॥ सुज्ञानी ॥  
 तेम गुरु शिक्षा ताप सहे सुधी, शिवपद पामे हो हेम ॥ सुज्ञानी ॥१२॥  
 मुखथी मीतुं जे नर बोखतो, जाणे विनयी हुं ठेक ॥ सुज्ञानी ॥  
 आप मते उगतो नित्य आपने, नहीं तस विनय विवेक ॥ सुज्ञानी ॥१३॥  
 गुरुने विनयनी गरज नवि कदा, प्रेम प्रतित लखाय ॥ सुज्ञानी ॥  
 दाम प्रमाणे रे काम होवे सही, ए जग जाणजो न्याय ॥ सुज्ञानी ॥१४॥  
 जाव प्रमाणे हो जक्ति उद्धसे, फलशे जाव प्रमाण ॥ सुज्ञानी ॥  
 सुखदाता जगगुरु सम को नहीं, परखे कोइ सुजाण ॥ सुज्ञानी ॥१५॥  
 जोरे प्रीत न होवे जगतमां, अर्थे प्रेम अमीत ॥ सुज्ञानी ॥  
 काणाने मूखथी काणो कहे, दुख माने एह रीत ॥ सुज्ञानी ॥१६॥  
 आपहि परखे आपणा मनविषे, किहा मुज केवो प्रेम ॥ सुज्ञानी ॥  
 सुख कारण जेवुं जेणे जिहां लख्युं, वरते ते नित तेम ॥ सुज्ञानी ॥१७॥  
 इच्छे विनय वैयावच्च आपणो, गुरुपद नहि तेहमांहि ॥ सुज्ञानी ॥  
 पण जविने बहु गुण होय विनयथी, एह इच्छा मनमांहि ॥ सुज्ञानी ॥१८॥  
 सद्गुरु परखीने विनय साचो करे, रहि गुरुचरण हजूर ॥ सुज्ञानी ॥  
 चित चकोर न चूके आपणने, ते लहे सुख जरपूर ॥ सुज्ञानी ॥१९॥  
 शोक खेदने निंद तजी करो, सद्गुरु विनय विशाल ॥ सुज्ञानी ॥  
 हरखे विनय करे गुरुदेवनो, मनसुख सुख श्रीकार ॥ सुज्ञानी ॥२०॥

॥ श्रुतज्ञाननी स्तवना. ॥ ढाल पहेली ॥

॥ एक दिन गंगाके बीचें सुर साथ बहोरा ॥

श्रुतपद सेवो जविजना, शिवकारण एह, हांहांरे आत्मगुण गेह,  
 निजपर उपगारी कह्यो, सहु समये साचो; हांहांरे सहु समये साचो.  
 मोह अज्ञान नशाववां, रविकर ए जाचो, हांहांरे रविकर ए जाचो ॥२॥

- ऊर्पगारी पंच ज्ञानमां, सदागम शुद्ध; हांहांरे सदा०  
 धर्म शुक्ल श्रुतथी लहे, जाख्यो केवली बुद्ध, हांहांरे जाख्यो० ॥१॥
- स्वपर सत्ता लखे सूत्रथी, नय ज्ञाने सार, हांहांरे नय०  
 परपरिणति ममता तजे, लहे निज अधिकार; हांहांरे लहे० ॥२॥
- अप्रतिपाती गुण कह्यो, महानिशिथ मजार, हांहांरे महा०  
 खजुआ सम किरीया कही, श्रुत जानु ऊदार; हांहांरे श्रुत० ॥४॥
- सर्व आराधक ज्ञान ठे, देश आराधक किरिया, हांहांरे देश०  
 शुधनय श्रुत आराधीने, जवि जवदधि तरीया; हांहांरे जवि० ॥५॥
- श्रीजिनशासन बागने, पूष्कलावर्त्त मेह, हांहांरे पूष्कलावर्त्त०  
 कुमति सर्पना दर्पने, हरवा मणि एह; हांहांरे हरवा० ॥६॥
- दर्शन ज्ञान चारित्रने, श्रुत ठे आधार, हांहांरे श्रुत०  
 मनसुख श्रुतपद सेवतां, शिव संपत्ति सार; हांहांरे शिव० ॥७॥

॥ ढाल बीजी ॥

॥ हो सुखकारी आ संसार थकी जो मुजने उद्धरो ॥ ए राह ॥  
 श्रुतथी दायक समकीत पावे, वली चरण रमण तस शुद्ध आवे,  
 तस दुर्धर मोहनी दाय जावे, धरी शुक्ल ध्यान केवल पावे,  
 हो चेतनजी अवसर लही श्रुत अनुभव अमृत पीजे;  
 नय शुद्ध लही, उपयोगीमां निज उपयोग ठवीजे; हो० अ० ल० ॥ १ ॥  
 आत्म लब्धि श्रुतथी प्रगटे, दुर्गति जव त्रमणनुं दुःख मटे,  
 वेगे मिथ्यात अज्ञान कटे, झट आवे जविजव सिंधु तटे ॥ होचे० ॥२॥  
 अतिचार आशायण दूर टाळी, विषयारसथी मनने वारी,  
 येये शुद्धात्म अधिकारी, पुद्गल परिणति ममता टारी ॥ होचे० ॥३॥  
 आत्म गुण पक्कव थीर कीजे, समता रसमां चेतन जीजे,  
 नरजव दाहो एणि पेरे लीजे, श्रुत अच्यासे कारज सीजे ॥ होचे० ॥४॥  
 कुमति जे श्रुतथी दूर रह्या, मोहादिक कुग्रहे तेह ग्रह्या,  
 निज संपत विण दुःख तेह रह्या, जिनशासन बाहिर तेह कह्या ॥ हो० ॥५॥  
 धर्म शुक्ल ध्यान श्रुतथी आवे, शुद्धात्ममां थिरता पावे,  
 जव त्रमण तणो जय तस नावे, मनसुख निज शिव संपत्ति पावे ॥ हो० ॥६॥

खामणांनी सज्जाय.

श्री अरिहंतने खामणां रे, घातीकरम कर्यां नाश ॥ करो जवि खा-  
मणां रे ॥ बार गुणे करी शोभता रे, प्रगट अनंत चतुष्ट ॥ करो ॥  
॥ १ ॥ चोत्रीश अतिशय दीपता रे, प्रातीहारज आठ ॥ करो ॥  
स्याद्वादशुद्ध देशना रे, करे नवतत्त्व प्रकाश ॥ करो ॥ २ ॥ बत्रीश  
दोष रहित जलुं रे, जस आगम अविशुद्ध ॥ करो ॥ अष्ट गुणातम  
व्यक्तनो रे, सकल समय सुविलास ॥ करो ॥ ३ ॥ सिद्ध अनंत  
आनंदमां रे, निजपद लील विलास ॥ करो ॥ आचारज आचारना  
रे, दायक नायक जेह ॥ करो ॥ ४ ॥ सारण वारण चोयणा रे,  
पडिचोयण पटधार ॥ करो ॥ श्री जिनशासन साचवे रे, जुगप्रधान  
मुनिराय ॥ करो ॥ ५ ॥ पंचाचारज पालता रे, देशक पंचाचार ॥ करो ॥  
करुणाना जंकार ठे रे, आपणा धर्माचार्य ॥ करो ॥ ६ ॥ गुण ठत्रीशे  
विराजता रे, शासन मंदिर थंज ॥ करो ॥ नित्ये द्वादश अंगना  
रे, करे करावे अप्रयन ॥ करो ॥ ७ ॥ गणी पेटी गुणरत्ननी रे,  
जेहने हाथ सदाय ॥ करो ॥ अप्रमत्त सदा रहे रे, सम सुख दुःख  
चित्त जास ॥ करो ॥ ८ ॥ श्रमण सकलने खामणां रे, सम दम  
धीर अकंप ॥ करो ॥ समजावे नित्ये रहे रे, देखी मान अपमान  
॥ करो ॥ ९ ॥ संवर सरवर जीलता रे, उपशम रंग अजंग ॥ करो ॥  
ज्ञानी ज्ञानने खामणां रे, दरशन समकितवंत ॥ करो ॥ १० ॥  
चारित्रवंतने खामणां रे, चरण रमण सुखकंद ॥ करो ॥ तप तपस्तीने  
खामणां रे, वखी जे लब्धिवंत ॥ करो ॥ ११ ॥ श्रावक श्रावीका प्रते  
रे, श्रमणोपासक जेह ॥ करो ॥ संवेग पद्दीने खामणां रे, शुद्ध  
संवेग उद्धास ॥ करो ॥ १२ ॥ शिष्य साधर्मीने खामणां रे, खमो  
खमावो श्रमाय ॥ करो ॥ चोराशी लह योनीना रे, जीव सकल  
खटकाय ॥ करो ॥ १३ ॥ निज निज धर्म स्वजावमां रे, यापी स्थिर  
उपयोग ॥ करो ॥ जेणे न खाम्यां खामणां रे, डुरगती दुःख निवास

॥ करो० ॥ १४ ॥ जेणे खाम्यां खामणां रे, आतम अनुभव वास ॥  
 करो० ॥ दुःप्रणिधान निवारीने रे, करि थीर मन वच काय ॥ क० ॥  
 १५ ॥ वैर विरोध न जावीए रे, हामीए तस अपराध ॥करो०॥ मित्र  
 जाव सहु जीवथी रे, करुणाचर करी चित्त ॥ करो० ॥ १६ ॥ गुणीशुं  
 अमित प्रमोदथी रे, दुष्टथी जाव मध्यस्थ ॥ क० ॥ एम सवि जीव  
 खमावीने रे, मनसुख शिवघर वास ॥ करो० ॥ १७ ॥

॥ सञ्जाय ॥

॥ राग गरवीनो ॥ अपूरव अवसर एवो क्यारे आवशे ॥ ए राह ॥

अवसर एवो उत्तम क्यारे आवशे, शुद्ध रूपे उपयोगे रहुं अमो-  
 लजो; ममता नाशे सुमता निज पासे रहे, विवेक मित्रथी कारज  
 सिद्धि अमोलजो. ॥ अवसर० ॥ १ ॥ जग जन संग तजी रंगे रहु  
 सर्वदा, दर्शनज्ञानचरणमय एक सुरंगजो; पुद्गल परिणति एंठ  
 जूठ स्पर्शु नहीं, करुं गुण केली उदासिन्नता संगजो. ॥अवसर०॥१॥  
 हांत्यादिक दश धर्म धरी द्रढ धारणा, शुद्ध सदागम संग सदा मन  
 गाणजो; समकित मित्रनी साहे राज संजालशुं, मारी मोहने जेदज्ञा-  
 ननां बाणजो. ॥ अवसर० ॥ ३ ॥ इण विधि कापी अष्ट करमना  
 बंधने, संवर नीरे अंग करी निज शुद्धजो; सेवी जिनपद पूज्य  
 परमपद पामशुं, नरभव सार सफल करवा होय बुद्धजो. ॥ अवसर०  
 ॥ ४ ॥ सहजातम अधिकारे रहिशुं राजमां, राज काज सवि निर्मल  
 बोधाधारजो; अप्रमत्त थइ संयम श्रेणी आरोहीने, यथाख्यात चरणे  
 लहि सुख अपारजो. ॥ अवसर० ॥ ५ ॥ करता कारण कारज निज  
 निजमां लहि, कारक परिणति वर्ते विना सहायजो; आशा दासी  
 नाशे सत्त्व निहालतां, केवल कमला प्रगटे शिवसुख थाय जो. ॥  
 अवसर० ॥ ६ ॥ पुद्गल कर्म प्रदेश प्रसंग निवारीने, पंच प्रमादे  
 कबहु न पामुं झोजजो; सम गणुं तृष मणि मान तथा अपमानने,

मद कंदर्प ने नाशे परपद लोज जो. ॥ अवसर० ॥ ७ ॥ विषय परी-  
सह जीतुं पूरण सत्त्वधी, द्रव्यादि चउविध नहि परप्रतिबंध जो;  
इह परलोकादिक सवि आशंशा टले, जीवित मरणने काम तणो नहीं  
धंधजो. ॥ अवसर० ॥७॥ करुणा कोमलता तिक्कणता जावधी, अन्नय  
अद्वेष अखेद अचल सुचंग जो; एह मनोरथ जाणी सुमता विनवे,  
प्रनु तुज पासे सर्वे शक्ति अन्नंग जो. ॥ अवसर० ॥ ८ ॥ पण मुजने  
विसारी काल अनादनी, निज घर कारज सुंयुं दुश्मन हाथजो;  
हवे मुज संगे प्रनु तुजने चिंता किसी, प्यारा माहरा प्राण जीवन  
शिवसाथ जो. ॥ अवसर० ॥९॥ कहे चेतन साचुं तें प्राणप्रिया कहुं,  
तुज विण चववनमां पाम्यो बहु क्लेश जो; हवे एकांगे रंगे रहि  
एकांतमां; ज्यां नहि कुमता दुष्टनो लेश प्रवेश जो. ॥ अवसर० ॥ १० ॥  
रात अंधारी विते जोर न चोरनुं, प्रगटे जलहल सम्यकदर्शन चोरजो;  
ज्ञानादिक सघला निज निज कारज करे, नाठो काल अपार वियो-  
गनो शोरजो. ॥ अवसर० ॥११॥ द्वायकदर्शनज्ञानचरण गुण उद्वसे  
निर्विकल्प शुची शुक्लध्यान जब पायजो; श्री जिन आणा अमृत  
मनसुख सेवतां, पुरुष पराक्रम फोरे सिद्धिसदाय जो. ॥ अवसर० ॥१३॥

स्तवन. ( १ )

जय प्रनु शांती जय जिन वाणी, जय प्रनु जय जयकारी;  
अग्रकोडाकोडि अठार आदिजिन, तोड्यो विरह चारी;  
हार गयो मिथ्यात मोहमल, पायो लाज अपारी ॥ जय प्रनु० ॥ १ ॥  
शांति जिनेश्वर शांति करणवर, सात महाअय वारी;  
मिथ्या मोह महातम जैदी, ज्ञानावरण विदारी. ॥ जय प्रनु० ॥ २ ॥  
अशरण शरण चरण जिनवरनो, अद्दय दान दातारी;  
वीर्यावरण निवारण कारण, ध्येय ध्यान मनधारी. ॥ जय प्रनु० ॥ ३ ॥  
नेमिजिनेश्वर परम प्रेमकर, राजेमती निज तारी;  
अमृत द्रष्टे तारजो चविने, अपनो बिरुद विचारी. ॥ जय प्रनु० ॥ ४ ॥



विकट कमठ मद मलन पासजिन, जुगल नाग उगारी;  
 दीनीहे धरणेंद्रकी पदवी, मुज शिव आश तिहारी ॥ जय प्रचुण ॥ ५ ॥  
 वीर धीर गंजीर सदागम, साधक हृदये धारी;  
 तरजो वरजो अमला कमला, जूल अनादि निवारी ॥ जय प्रचुण ॥ ६ ॥  
 गोयम गणधर सकल विघन हर, हितकर लब्धि तिहारी;  
 “ॐ असिआजसापद” नमीए, ठंकी परकी यारी ॥ जय प्रचुण ॥ ७ ॥

॥ महावीर स्वामीनुं स्तवन ॥ ( ९ )

त्रीशला नंदन चंदन शीत ॥ ए राह ॥

वंडु त्रीशला नंदन देव, सुरनर किन्नर सारे सेव ॥ नवि सेविए ॥  
 तुज दरशनथी दर्शन पाय, आतम दर्शन मोह नसाय ॥ नविण ॥ १ ॥  
 पूर्णातम गुण प्रगटे एम, सहज परम पद लहीए हेम ॥ नविण ॥  
 निज दरशन बिन काल अनंत, नमियो लहि दुःख अति परतंत्र ॥ नविण ॥  
 चेतन कर्म कर्मफल ज्ञान, एम नवि जाणयो शुद्ध विधान ॥ नविण ॥  
 पुद्गल क्रियामां लखी सुख, करी प्रवृत्ति लह्युं बहु दुःख ॥ नविण ॥ ३ ॥  
 पुद्गल किरिया जाणी सार, तब लग नाव्यो नवदुःख पार ॥ नविण ॥  
 सुख दुःख पूर्वकर्म अनुसार, करि शुच अशुच संकल्प अपार ॥ नविण ॥ ४ ॥  
 रोग जोग लखी पुद्गल मांहि, चाह दाह व्यापी तेमांही ॥ नविण ॥  
 एम न लह्युं निजज्ञान स्वरूप, सहजानंद आनंद अनुप ॥ नविण ॥ ५ ॥  
 सत्तर नयो ज्ञायकता अंग, प्रगट्यो जाणी रंग अत्रंग ॥ नविण ॥  
 शणविध ज्ञानचेतना पाय, परथी पलटी आप समाय ॥ नविण ॥ ६ ॥  
 जबलग कर्म कर्मफल मांह्य, वीर्य प्रवर्ते सहित उठांहि ॥ नविण ॥  
 तो किम ज्ञानचेतना पाय, एम केम आतम सिद्धि कराया ॥ नविण ॥ ७ ॥  
 वीर्य अचल राखे थिरथोत्त, तो परथी नवि पामे दोत्त ॥ नविण ॥  
 ध्यान शुक्ल गुण शुक्ल निधान, पामी लहे मनसुख शिवथान ॥ नविण ॥ ८ ॥

॥ स्तवन ॥ ( ३ )

मंगलीक कार्ये जतां आवतां कहेवानुं गीत ॥ गीत चौवीशी ॥  
 जय बोलो आदि जिनेश्वरनी जय बोलो-  
 आदे सम्यक्दर्शन दीनो, अजित जीती जगजश लीनो ॥ जय० ॥  
 संजव समजावे नित वंदो, अजिनंदन शिवसुखकंदो ॥ जय० ॥  
 जय बोलो आदि जिनेश्वरनी ॥ जय बोलो ॥ १ ॥  
 वर सुमति दायक सुमति दे, पद्मप्रभु अनुभव जीजे ॥ जय बोलो ॥  
 थिर सुख जोगी सुपासजिनेश्वर, चंद्र प्रभु शिव अलवेश्वर ॥ जय० २ ॥  
 सुविधि शीतल श्रेयांस जिणंदा, जस वंदे चोसठ इंदा ॥ जय बोलो ॥  
 वासुपूज्य निज सत्ताथलमां, सुमती रंग रहे घरमां ॥ जय० ॥ ३ ॥  
 वंडु अनंतजिणं चउ पाम्या, सकल मोहमल जे वाम्या ॥ जय बोलो ॥  
 परमधरमधर धरम जिणंदा, जय हर्ता शांति जिनचंदा ॥ जय० ॥ ४ ॥  
 कुंथु अर महिजिन वंदो, मुनिसुव्रत नमिजिन आणंदो ॥ जय बोलो ॥  
 परम प्रेमकर नेमजिनेश्वर, पूजो पास रसे केसर ॥ जय बोलो ॥ ५ ॥  
 वर्द्धमान जिन शासन वत्ते, वीर वचन नित अनुसरते ॥ जय बोलो ॥  
 धर्म दायक आचारज वंदो, मनसुख शिव सहजानंदो ॥ जय० ॥ ६ ॥

॥ अठार दोष रहित जिनेश्वरनुं स्तवन ॥ ( ४ )

अरिहा पदकज पूजो हो जवीयां, अरिहा पदकज पूजो,  
 ए सम देव न दूजो हो जवीयां, अरिहा पदकज पूजो;  
 दान लाजने जोग अनंतो, उपजोग वीरज अनंतो,  
 अंतराय पंच हणी जस लहीठ, परिणति धर्म स्वतंतो ॥ हो जवी० ॥ १ ॥  
 हास्य रति अरति जय नवि होवे, शोक दुगंठा नाही;  
 अचल अखंरु विमल निज रूपमां, खट खय करी रह्यो स्यांश ॥ हो ज० २ ॥  
 निजानंद निजमांहि जोतां, काम कंदर्प सवि नाठो;  
 शुरू नये निज रूप निहाळे, मिथ्यामत गयो माठो ॥ हो जवी० ॥ ३ ॥  
 विमल नाण निज ज्योत प्रकाशी, अज्ञान तिमिर गयो जागी;

गइ निंदा चइ तुरिय अवस्था, ज्ञानचेतना जागी ॥ हो चवी० ॥ ४ ॥  
 पर प्रवृत्ति थकी प्रचुजी तुमे, पाय्या परम विराम;  
 अवरिती नाठी ते देखीने, राग ठोडी चढ्यो ठाम ॥ हो चवी० ॥ ५ ॥  
 तुज संपति सधली तुज ताबे, थइ परथी नवि विघटे;  
 द्वेष कहो कुण कारण रहेवे, हुं प्रणमं तस उलटे ॥ हो चवी० ॥ ६ ॥  
 एम अठदश दूषण नहीं जेहने, शासन नायक स्वामी;  
 परिणति वृत्ति एकत्वे रमतां, शिव सन्मुख शिवनामी ॥ हो चवी० ॥ ७ ॥  
 योगस्थाननी वीरज शक्ति, ते व्यक्ते स्वतंती;  
 कीधी सिद्धि नीधि धवली, मुगता मुज मन सुक्ती ॥ हो चवी० ॥ ८ ॥  
 ॥ चंद्रप्रचुनुं स्तवन ॥ ( ५ )

चंद्रप्रचु मुख चंद्र दिवाकर, त्रिजग प्रकाशी,  
 केवल आतम बोध करी, चवि हृदय विकाशी;  
 नाठो मोह अंधार, बहु दल कर्म विनाशी,  
 प्रगट्यो अव्याबाध, वीरज श्रीर अखय अनाशी;  
 विलसो रिद्धि अनंत, सहज शिवसंग निवासी,  
 शरण ग्रह्युं में तूज थयो, चव जोग उदासी ॥ १ ॥

तुज दर्शन विण चव चम्यो रे लोल, शुभ अशुभ जुगटुं रम्यो रे लोल,  
 मोह महामद ठाकीठ रे लोल, तनु बंधन आमिष चाखीठ रे लोल;  
 कुमति रति गणिका रम्यो रे लोल, दुविधहिंसाए प्राणीगण दम्यो रे लोल  
 निज नीधि अखय विसारी, करी पर परिणति चोरी,  
 संगत करी परदार, मोह नट चांडनी ठोरी;  
 सात व्यसन एम सेवी सह्यो, दुःख रह्यो अनाथ,  
 तुंहि मिट्यो जिनराज, आज मुज ग्रहिए हाथ;  
 तुज विण न सयों काज, राखो प्रचु सेवक लाज,  
 जीतुं अडविधि कर्म, कृपानिधि जो तुज साज ॥ ३ ॥  
 शुरू उपयोग विना सहीरे लोल, जगमां माहरुं को नहींरे लोल,

डुविध दया हृदये प्रहीरे लोल, सुमता संग सदा रहीरे लोल;  
पर प्रतिबंध निवारशुं रे लोल, मनसुख निजपर तारशुं रे लोल ॥४॥

॥ स्तवन, घहुंली, सप्राय अग्र पद ॥ ( ६ )

साची अमृत मेघ समान प्रचुनी देशनारे,  
वरसे शुद्ध अखंफित धार गुरुमुख देशनारे;  
अस्ति वस्तु ने द्रव्य प्रमेय, अगुरुलघु तेम सत्त्वरे,  
इत्यादिक सामान्य स्वत्तावे, वलीय विशेष प्रचुत्व ॥ प्रचुनी देशनारे ॥  
सुणतां आतम निर्मल थाय, प्रचुनी देशनारे ॥ साची० वरसे० ॥१॥  
उपजे विगमे ध्रुव रहे नित्य, दर्वे गुण पर्यायरे;  
द्रव्य क्षेत्र ने काल जाव तिम, अस्ति नास्ति सदाय ॥ प्रचु० ॥ साची० ॥२॥  
चार निक्षेपा वस्तु वस्तुमां, नय अनंतना धर्मरे;  
निश्चय ज्ञाने निरखी जे जन, ठंडे सघलो जर्म ॥ प्रचु० ॥ साची० ॥३॥  
स्याद्वाद परिणामी वस्तु, निज निज जावे वरतेरे;  
चेतन चेतनतामय जोतो, केवलपद अनुसरते ॥ प्रचु० ॥ साची० ॥४॥  
परिणामी परिणाम न चूके, सकल समय शिव रूपरे;  
सादि अनंत समाधि पामे, जाणी सिद्ध स्वरूप ॥ प्रचु० ॥ साची० ॥५॥  
परमधरम हांत्यादिक ते निज, थीर उपयोगे आवेरे;  
खट्कोयानी करुणा पूरण, द्रव्य जाव चित लावे ॥ प्रचु० ॥ साची० ॥६॥  
सकल समयमां द्रव्य सकल ते, निज निज जाव न ठंके रे;  
एम निज सिद्ध समो समजावे, अष्टे कर्म विहंके ॥ प्रचु० ॥ साची० ॥७॥  
जबलग सत्ता स्थल नवि नीरखे, बाहिर दृग आवेश रे;  
तबलग संसारे संसरतो, पामे विविध कलेश ॥ प्रचु० ॥ साची० ॥ ८ ॥  
नरजव लहि एम शुक्ल ध्यान जवि, कीजे थइ उजमाल रे;  
मनसुख शिवसुंदरी घर आवे, कंठ ठवी वरमाल ॥ प्रचु० ॥ साची० ॥९॥

॥ सामान्य स्वज्ञाव वर्णननुं पद ॥ ( ९ )

॥ तोरणथी रथ फेरीउं रेहां ॥ ए राह ॥

वागेश्वरी प्रणमी कहुं रेहां, खट् सामान्य स्वज्ञाव ॥ जवि दिख धारीए ॥

द्रव्यपणाने जाणवा रेहां, शाश्वत जे सदज्ञाव ॥ जवि० ॥ १ ॥

सामान्य अने विशेषनो रेहां, आधारजुत जे धर्म; ॥ जवि० ॥

अस्ति स्वज्ञाव पहेलो कह्यो रेहां, जाणो प्रवचन मर्म ॥ जवि० ॥ २ ॥

गुण पज्ञाव आधार जे रेहां, वस्तुत्व स्वज्ञावज बीय; ॥ जवि० ॥

अर्थक्रियाकारीपणुं रेहां, द्रव्यत्व स्वज्ञाव त्रतीय ॥ जवि० ॥ ३ ॥

उत्पात् व्यय पर्यायनी रेहां, प्रसव शक्ति जेह; ॥ जवि० ॥

आवीरज्ञाव तीरोज्ञावनो रेहां, आधार धर्म वली एह ॥ जवि० ॥ ४ ॥

द्रव्यादिक जे शाश्वता रेहां, रहे जथावत जेम; ॥ जवि० ॥

ज्ञानथकी प्रमाण ठे रेहां, होय तथाविधि तेम ॥ जवि० ॥ ५ ॥

मर्यादा मूके नहीं रेहां, तेह प्रमेय स्वज्ञाव; ॥ जवि० ॥

आप रहे निज रूपमें रेहां, चोथो ए चित्त लाव्य ॥ जवि० ॥ ६ ॥

व्यय उत्पत्ति ध्रौव्य युत रेहां, सत्य रहे जे धर्म; ॥ जवि० ॥

तेह सतत्व स्वज्ञाव ठे रेहां, पंचमो जाणो मर्म ॥ जवि० ॥ ७ ॥

द्रव्यतणा पर्यायनो रेहां, परावर्तन जे धर्म; ॥ जवि० ॥

ठठम अगुरुलघुत्व ए रेहां, धारो ठंकी जर्म ॥ जवि० ॥ ८ ॥

विशेष विना सामान्य नहि रेहां, सामान्य विना न विशेष ॥ जवि० ॥

जाणे आत्म अनुजवी रेहां, प्रगटे शक्ति अशेष ॥ जवि० ॥ ९ ॥

॥ नव विधोपचारनुं पद ॥ ( १० )

॥ विमल जिन दीग लोयण आज ॥ ए राह ॥

चेतन पुद्गल बेहु मलीरे, खीर नीर परे जोय;

द्रव्ये द्रव्य उपचारथीरे, प्रथम नेद ते होय रे ॥ प्राणी सुण उपचार स्वज्ञाव

कनक रजत मांही जलेरे, रजत कहावे तेह;

चेतन पुद्गलमां जल्योरे, पुद्गल कहिये एहरे ॥ प्राणी० ॥ १ ॥

- वर्णादिकथी जीवने रे, कृपादिक उपचारः  
 आतम द्रव्यमां ए हुवोरे, पुद्गल गुण उपचाररे ॥ प्राणी० ॥ ३ ॥  
 आतम द्रव्यमांही हुवेरे, पुरुषादिक उपचारः  
 नर पुद्गल परजायनो रे, चेतन द्रव्ये धाररे ॥ प्राणी० ॥ ४ ॥  
 पुद्गल वर्णादिक लखीरे, चेतन द्रव्य कहायः  
 गुणमांहे एम द्रव्यनोरे, चोथो जेद ए थायरे ॥ प्राणी० ॥ ५ ॥  
 कालो गुण पुद्गलतणोरे, कृष्णलेश्या परिणामः  
 ते गुण जीवनो जाणियेरे, गुणे गुण ए ठामरे ॥ प्राणी० ॥ ६ ॥  
 मतिज्ञान गुण जीवनोरे, तनु पुद्गल परजायः  
 एम गुणे परजायनोरे, ठठो जेद सुहायरे ॥ प्राणी० ॥ ७ ॥  
 हय गय आदि प्रजायनेरे, जीव द्रव्य कहेवायः  
 परजाये एम द्रव्यनोरे, ए उपचार जणायरे ॥ प्राणी० ॥ ८ ॥  
 तनु मन तेहिज जाणीएरे, पुद्गलनो परजायः  
 मतिज्ञान गुण आत्मनोरे, तनु मनमय कहेवायरे ॥ प्राणी० ॥ ९ ॥  
 पुद्गलना वली जाणियेरे, देवादिक परजायः  
 गति परजाय ते जीवनोरे, एम उपचार गणायरे ॥ प्राणी० ॥ १० ॥  
 दीकूपट मत अनुसारथीरे, इम जाणो उपचारः  
 समय वचन एम परखीनेरे, मनसुख नय मन धाररे ॥ प्राणी० ॥ ११ ॥

॥ पद ॥ ( ए )

॥ दर्शन दीवसोरे, लोकालोक प्रमाण ॥ ए देशी ॥

- शुध उपयोगनीरे, जलहल निर्मल पूरण जोत,  
 मिथ्या ज्ञावनीरे, तिहांतो किमहि न लागे ठोत;  
 ह्यउपशम गुण ज्ञान अनादि, वीरज ह्यउपशमथीरे;  
 काललब्धि लहि समकित्त पामे, निसर्ग ने अधिगमथी ॥ शुध० ॥ १ ॥  
 पर परिणतिनी ममता त्यागी, लहि निजगुण अधिकारोरे;  
 शिव सत्ता अधिकारी चेतन, परम विवेक उदारो ॥ शुध० ॥ २ ॥

आरत रुद्र कुड्यान तजीने, धर्म शुक्ल शुभ ध्यानेरे;  
 निर्मल अनुभव रस आस्वादे, पामे पद निर्वाणे ॥ शुध० ॥ ३ ॥  
 त्यागी विषय विकार विरागी, ज्ञानचेतना जागीरे;  
 कर्म कर्मफल अरति चागी, निजपदमां मति लागी ॥ शुध० ॥ ४ ॥  
 परमात्म निज सिद्ध समो वरु, निर्मल स्थिर उपयोगेरे;  
 समता संगे रंगे रमतां, एकांतिक सुख जोगे ॥ शुध० ॥ ५ ॥  
 परम गुरुनी लोहेरे महेरे, शुद्ध नये निज जाणीरे;  
 मोहनां स्थान असंख्य हणीने, कर्म स्थिति रस ज्ञानी ॥ शुध० ॥ ६ ॥  
 शुभाशुभ सवि विकल्प नाशे, केवलज्ञान प्रकाशेरे;  
 आत्म शक्ति पूर्ण विकासे, मनसुख शिवघर वासे ॥ शुध० ॥ ७ ॥  
 ॥ नवरसनं पद ॥ ( १० )

प्यारा प्राण जीवन उजमाल, महेंरां कीधी महारा लाल, मेढ्युं शोक  
 रुलीनुं साल, महेंरां कीधी महारा लाल; द्वाण एक अलगी रहु जो  
 पीयुथी, तो शोकड चरमावे रे, करकंठे करी अब केम ठोसुं, दाव न  
 एनो फावे ॥ प्यारा० ॥ पीयुजी नवरस मुक्ताहार, पीयुजी मणि  
 माणिक शणगार ॥ महेंरां० ॥ १ ॥ जलहल दर्शन ज्ञाने दीपे, अवरनी  
 शोभा खोटीरे; मोह सुजट पानी निज धरणी, तावे कीनी मोटी ॥  
 प्यारा० ॥ तुम वीण सूनो सौ संसार, महारां सुखनांना आधार ॥ महेंरां०  
 ॥ २ ॥ खटकायानी करुणाधारी, ड्रव्य जाव सुविचारीरे; निज  
 उपयोगे निज घर रहिने, कोमलता संजारी ॥ प्यारा० ॥ महारी  
 शेळीना सरदार, प्रचुठो त्रिभुवनमां एक सार ॥ महेंरां० ॥ ३ ॥  
 डुरमति पुद्गल परिणति नाठी, चौदराज घर जटकेरे; मूरख तेहनो  
 रस लेवाने, कर्मबंध करी अटके ॥ प्यारा० ॥ एना रसीआ घेला  
 थाय, एने संगे बहु अन्याय ॥ महेंरां० ॥ ४ ॥ सप्त धातुने साते  
 मलथी, डुगंठित बहु रोगोरे; शुष्क हाड जेम कुकर चावे, कामअंध  
 कहे जोगो ॥ प्यारा० ॥ महारा पतीनो अंग उदार, शक्ति अनंतीनो

करतार ॥ महेंरां० ॥ ५ ॥ आश्रव सेवि कर्मबंध करी, परवशता दुःख  
 पाम्योरे; सुमति प्रियानो हाथ ग्रह्यो तव, करम नरम नय वाम्यो ॥  
 प्यारा० ॥ साहेब ताहरी शक्ति अनंत, साचो नयनंजन नगवंत ॥  
 महेंरां० ॥ ६ ॥ जगमां रिद्धि सिद्धि बहोली, चल पुद्गल परजायरे,  
 महारा नाथनी रिद्धि आगल, ते तूण मात्र गणाय ॥ प्यारा० ॥  
 जाची साची सुमता नार, अनुभव रस दे अगम अपार ॥ महेंरां० ॥  
 ॥ ७ ॥ गुण गुण करणे निज निज कारज, होवे सहज सदायरे;  
 चेतन सुमता रम्य रूपमां, चरण रमण सुख पाय ॥ प्यारा० ॥ साचो  
 संजम स्त्रीनो कंत, दीठां प्रगटे परमानंद ॥ महेंरां० ॥ ८ ॥ पीयुजी  
 प्यारो मुज नवि ठोमे, हुं पण किम रहुं अलगीरे; माहरे वंडित  
 कारज सीधुं, सकल समय रहुं वलगी ॥ प्यारा० ॥ माहरे विरहनो  
 आव्यो अंत, जोतां ज्योती रूप अनंत ॥ महेंरां० ॥ ९ ॥ शुद्धातम  
 अधिकारे विलसे, सुमता रंग सुअंगेरे; समय अज्यास उमंगे उलसे,  
 मनसुख शिव त्रिय संगे ॥ प्यारा० ॥ माहरी सेजाना शणगार,  
 लब्धि थारी सारी राज ॥ महेंरां कीधी महारा लाल० ॥ १० ॥

॥ पद ॥ ( ११ )

जावे जावोरे आतम जावनारे, तजी अनांतम जाव ॥ ए आंकणी ॥  
 जुजुआ डव्यने डव्यादिक तणारे, वली तसु गुण पर्याय; नयथी  
 निक्षेपोरे जेहना तेहमांरे, पर क्षेपो परमांह्य ॥ जावे० ॥ १ ॥ सकल  
 प्रमाणेरे मापी प्रमेयनेरे, जेदविज्ञाने जेदि; स्यात्पद राखीरे  
 दाख्युं जिनेश्वरेरे, जाणी जेद अजेद ॥ जावे० ॥ २ ॥ ज्ञेय उपादेय  
 हेय विधि आचरोरे, आतम पद अविरुद्ध; प्रतिकुल त्यागी अनुकुल  
 आदरोरे, राखो निज पद शुद्ध ॥ जावे० ॥ ३ ॥ जोग कळोले न  
 व्यापो थिर रहोरे, देखो ज्ञानानंद; धर्मे मग्न रही सद्जावमांरे,  
 उवेखो पर फंद ॥ जावे० ॥ ४ ॥ रत्नत्रयमयी रम्य स्वरूप ठे रे,  
 आपणुं रमीए त्यांय; रमण निवारो समल चपल विषेरे, रम्यपणुं



नहीं ज्यांय ॥ ज्ञावेण ॥ ५ ॥ रागने त्यागी जागीने जुळरे, सुख  
 दुःख काज अकाज; संसर्ग बोडी अष्टावीशनोरे, शिवपदमां करो  
 राज ॥ ज्ञावेण ॥ ६ ॥ निज कामी थइ तजी परकामनारे, आतुर काम  
 विकार; पर वारी धारी निज धारणारे, लहो जिन आगम सार ज्ञावेण  
 ॥ ७ ॥ आराम कीजे आरामी विषेरे, धारो स्वजाति धर्म; ध्यावो  
 ध्यानीने निज ध्यानमांरे, करो ज्ञानीनुं कर्म ॥ ज्ञावेण ॥ ८ ॥ धर्मी  
 धर्मनी धारो धारणारे, ज्ञानीनुं करो ज्ञान; रस द्यो रसीआनो रंगे  
 रहो रे, सुखीयाने द्यो सुख दान ॥ ज्ञावेण ॥ ९ ॥ जोग उपजोगे  
 जोगीने जोगवोरे, करतानुं करो काज; जीव जीवावो मारो राग विरो  
 धनेरे, राखो रक्षक धाम ॥ ज्ञावेण ॥ १० ॥ इणीपरे ध्याइ ध्येय शुद्ध  
 तमारे, स्वगुण ड्रव्य पर्याय; रिद्धि सिद्धि पावे मनसुख तेहथीरे,  
 टखे दोष निरुपाय ॥ ज्ञावेण ॥ ११ ॥

॥ पद ॥ ( १२ ) ॥ राग रेंटीओ ॥

मन गमता माणीगर पीउजी, घेरे आवो राज; ममता संगे काल  
 अनंतो, जमतां न रहि लाज ॥ मारा प्राणारा आधार, वेगा घेरे आवो  
 राज ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ हुंतो वाटकी अहनिश देखुं, तुजने नावी  
 लाज; दुर्मति रांने आपण बेनो, सकल बगाड्यो काज ॥ माराण ॥ २ ॥  
 हुं तो जर जोबन वय पामी, तन मन थाये चोरु; तें तो सार न कीधी  
 माहरी, किम चाळे विण जोरु ॥ माराण ॥ ३ ॥ माहरे अंगे निर्मल ज्योति,  
 त्यां पूरुं अंधेर; सहज स्वतंत्र विलास माहरे घर, त्यां परतंत्रे घेर  
 ॥ माराण ॥ ४ ॥ खांति मृडुता रुजुता खेले, सखीयां माहरी पास;  
 त्यां तो आशा दासी फांसे, करे जगतनो दास ॥ माराण ॥ ५ ॥ मुत्ति  
 गुत्ति समिति रमती, मुज आगे रहे नित्य; कूड कपट अनीति करी  
 त्यां, मागवी पडशे नीख ॥ माराण ॥ ६ ॥ लोकालोक वसे मुज घरमां,  
 त्यां बहु चीडाचीड; याधि व्याधि उपाधी वहोली, केम सहीए ए  
 पीरु ॥ माराण ॥ ७ ॥ रोग वियोग दावानल त्यांठे, मुज घर अनुभव

योग; पण तुज केम ए मीठी लागे, उपजावे ठे शोक ॥ माराण ॥ ७ ॥  
 तुं प्रभु चतुर सुजाण कहावे, लोक सकलनो नाथ; प्यारा पीउ मुज  
 वीनती मानो, जोमी कहुं बे हाथ ॥ माराण ॥ ८ ॥ लोकालोक प्रका-  
 शक ठैयुं, होशे मारी संग; सेज हमारी आप पधारो, जो मन लागे  
 रंग ॥ माराण ॥ १० ॥ विर्य आपनो एना काममां, केम वापरिये फोक;  
 निज घर रिद्धि अनंतीनो मुज, संगे विलसो जोग ॥ माराण ॥ ११ ॥  
 अमर अजर अकलंक ईहां तुम, तिहां बहु मरण कलंक; मुज सहवासे  
 पूरण स्थिरता, तिहां चल मल बुरो ढंग ॥ माराण ॥ १२ ॥ परम शांति  
 अमृतरस वरसे, मुज घर त्यां बहु क्लेश; तुं कामित पूरण मुज संगे,  
 तिहां बहु त्रास आवेश ॥ माराण ॥ १३ ॥ पूर्णानंद विलास करो ईहां,  
 तिहां पूरणता नांहि; परम मगनता आप अज्यासो, उद्वेग तजी रहो  
 यांहि ॥ माराण ॥ १४ ॥ चेत्यो चतुर पिउ ओलंजे, घर आव्यो परजात;  
 आनंद मंगळ जीत नगारो, मनसुखलालनी साथ ॥ माराण ॥ १५ ॥

॥ पद ( १३ ) राग वेलावल ॥ आवश्यकनुं प्रजातीउ.

द्रव्य चाव हिंसा तजी, करि थिर मन वच काय; दर्शन ज्ञान  
 चरणमयी, निज आतम लय लाय ॥ आवश्यक एम आदरो, थई अति  
 उजमाल, आतम आतम अनुभवो, मीटे जवजंजाळ ॥ आवश्यकण ॥ ए  
 आंकणी ॥ १ ॥ समता सामायिक करो, प्रह जागी थई शुद्ध; पुद्गल  
 ममता परिहरि, तजी परआश विरुद्ध ॥ आवश्यकण ॥ २ ॥ तारे  
 तीरथ थापी जे, वंडु जिन चोवीश; अतीत अनागत वर्त्तता, तीर्थपति  
 जगदीश ॥ आवश्यकण ॥ ३ ॥ केवलज्ञान दिवाकरु, करी घनघाती घात;  
 त्रिभुवन कीर्ती विस्तरि, ते जिन वंडु प्रजात ॥ आण ॥ ४ ॥ सारण  
 वारण चोयणा, पडिचोयण पटधार; आचारज वाचक मुनि, गुरु वंडु  
 गणधार ॥ आण ॥ ५ ॥ द्वादशावर्त्त वंदन करी, विनय बहु सन्मान  
 आसायण वर्जी नमुं, जे मुनि युगपरधान ॥ आण ॥ ६ ॥ पंचाचारा-  
 चरणमां, वली व्रतना दोष; आलोची नंदि गहीं; प्रतिक्रमी करी

गुण पोष ॥ आ० ॥ ७ ॥ सवि अपराध खमावीए, गण कुल स्वामी  
 शिष्य; जीव चोराशी लाखना, ठंढी सौथी रीस ॥ आ० ॥ ८ ॥ खमी  
 खमावी सम रही, दर्शन ज्ञान स्वरूप; वली अपराध न कीजीए, एम  
 मूंदो नवकूप ॥ आ० ॥ ९ ॥ ममता ठांडी देहनी, कीजे काउसग  
 ध्यान; कर्म द्यै ईण विधि हुवे, निज ज्ञाने बहु मान ॥ आ० ॥ १० ॥  
 दर्शन ज्ञानमय आतमा, आपही एक अन्नित्त; एविण लोकालोकमां  
 नहि कोई आपणुं अन्य ॥ आ० ॥ ११ ॥ प्रत्याख्यान करी तेहनो,  
 पर परिणति रस टाळी; प्रतिबंध संग तजी अन्यनो, थिर निज रूप  
 नीहाळी ॥ आ० ॥ १२ ॥ पूरण करुणा जंतुनी, सहुथी मैत्री जाव;  
 आतम आतम हित लहे, कीजे तेह बनाव ॥ आ० ॥ १३ ॥ ज्ञाना-  
 दिक गुणवंतशुं, दिन दिन अधिक प्रमोद; दुर्जनथी मध्यस्थता, केवल  
 आतम शोध ॥ आ० ॥ १४ ॥ सुरनर कीन्नर पूजीत, निरखो शांति  
 जीणंद; सोवन चंपा वरण जे, केवलज्ञान दिणंद ॥ आ० ॥ १५ ॥  
 सद्गुरु विनय न चूकीए, गुरु कुल वास सदाय; मनसुख शिव घर  
 वासमां, मंगल कमला पाय ॥ आ० ॥ १६ ॥

॥ पद ( १४ ) ॥ राग प्रजाती ॥

जागीने जोळं त्यारे अन्य नहीं आपमां, रिद्धि सिद्धि सकल  
 आप पासे; डुरित दोहग टले, सुमति स्वामि मले, कर्मघन नाशी  
 केवल प्रकाशे ॥ जागी० ॥ १ ॥ नूली शुद्ध जाव आपो लखी पुद्  
 गले, तेहना रोगमां जोग जाणी; आश धरी अन्यनी दास थइ तेहनो,  
 शुद्ध बुध आपणी ना पिठाणी ॥ जागी० ॥ २ ॥ कहत सुमति प्रिया  
 जागी जो साहिबा, दर्शन ज्ञान सुखशक्तिचारी; जोगनी वस्तु घर  
 सहज स्वतंत्र तुज, सर्वने तुंही कल्याणकारी ॥ जागी० ॥ ३ ॥  
 निज निधी नूली परघर घरे याचतो, जरु चल एंठमां स्वाद जाणी;  
 मूर्ख कोण ए समो, अखिल जग देखीए; डुरितनी प्रीतमां हित  
 मानी ॥ जागी० ॥ ४ ॥ परतणी आश धरी शक्ति शुध वीसरी,

आखरे तेह निराश थावे; आश विष विषमनी वेली निःकंदीने, ठंडी  
परमाद शुद्धात्म ध्यावे ॥ जागी० ॥ ५ ॥ निज निज उव्यना लक्षणो  
लक्षमां, होय त्रिकाल स्वतंत्र जावे; कोशना कोशमां कीमही व्यापे  
नहीं, दोष गुण अन्यने ना उपावे ॥ जागी० ॥ ६ ॥ अस्ति प्रमेय  
नित्य वस्तु द्रढ ध्यानमां, शुक्ल जाज्वल्य ज्योति जगावे; ज्ञान दर्शन  
चरण वीर्य व्यक्ति लही, मनसुख परम कल्याण पावे ॥ जागी० ॥ ७ ॥

॥ पद ( १५ ) ॥ राग प्रजाती ॥

आवोने प्रीतमजी प्यारा, जिन दरशन रस लीजेरे; जिन  
दरशन रस लीजे वारी, अनुभव अमृत पीजेरे ॥ आवो० ॥ १ ॥ वीती  
रजनी जोर जयो हे, अमल कमल दल फूल्यां रे; सकल सत्ता थल  
पसर्या किरण, अंतर नयणां खूल्यां रे ॥ आवो० ॥ २ ॥ लोक सकल  
निज कामे लाग्यो, अब तुंम तजो परमादोरे; तिहणता उपयोग  
स्वचावे, थिर रहि शिवपद साधोरे ॥ आवो० ॥ ३ ॥ तगतगता तारा  
बल घांटो, रविकर तेज समाणोरे; गुण पञ्जव एकात्म जावे, लखी  
रहो सहज सुजाणोरे ॥ आवो० ॥ ४ ॥ काल अनादि जिन दरशन  
विण, कुमते बहु दुःख पायोरे; गुरु कृपा अमृत घन वृष्टे, सकल  
कलुष नसायोरे ॥ आवो० ॥ ५ ॥ दर्शनज्ञानचरणमय चेतन,  
एक अनंतानंदीरे; जिन मुख देखत प्रगटे मारो, चेतन परमानंदीरे  
॥ आवो० ॥ ६ ॥ अखील प्रदेश सकल समये निज, सद्चावे जर  
जरियोरे; सकल प्रजाय समजावामृत रस, प्रेमे पूरित दरियोरे ॥  
आवो० ॥ ७ ॥ आत्म अंश न होवे अलगो, अन्य अंश नवि आवेरे  
रोग विना नहि कामातुरता, तेणे तृष्णा न सतावेरे ॥ आवो० ॥ ८ ॥  
तृष्णा विण नवि होय दीनता, तेथी नहि परतंतोरे; मंगलिक पूरे  
तेथी जपिए, सिद्ध समाधी मंतोरे ॥ आवो० ॥ ९ ॥ पास जिनेश्वर  
दरशन करतां, परमानंद प्रकाशेरे; मनसुख दरशन फल लहि वसजो,  
शिव कमला घर वासेरे ॥ आवो० ॥ १० ॥

॥ पद ( १६ ) ॥ राग जैरव ( प्रजाती )

धन ज्ञानी गुरु गुरु गम दाता, सुख शाता मोये करताहे, त्रम  
 तम नाशक आत्म उपासक, परम समाधि चरताहे ॥ धन० ॥ १ ॥  
 अधर गगन बीच अमृत दरीया, परम रयणसें चरीआहे, सुगुरा  
 होय सो चर चर लेवे, मूरख द्रष्टे न चकीआहे ॥ धन० ॥ २ ॥ तरुवर  
 एक मूल फूलादिक, एक रूप हम देखाहे; उसपे पंथी आय अनंते,  
 पे उनका एक लेखाहे ॥ धन० ॥ ३ ॥ जो जहांसे आता वहां जाता,  
 और ठाम नहि ठेकाहे, उनमें एक अमूलक हंसा, उनका सबकुं ठेकाहे  
 ॥ धन० ॥ ४ ॥ कंचन काट जरत अगिसें, कंचन शीतल होताहे,  
 एसा पावक जो जन जाने, सो जन चवडुःख खोताहे ॥ धन० ॥ ५ ॥  
 दोय सारंगी बाजनहारी, दोय बजावन वालेहे, सात सुर तीन ग्राम  
 अनोपम, तान तीन ठैआले हैं ॥ धन० ॥ ६ ॥ मुर्बना एकवीश अनू-  
 पम, सो विधि कीनसें चालेहे, सो विधि जाणी आपा पाया, सो शिव  
 मंदिर र्हालेहे ॥ धन० ॥ ७ ॥ रेतीको सुत काते कोई, सो सुतका पट  
 करताहे, सो पटमें लीपटी निज चूढ्या, पटकुं आप समरताहे ॥ ८ ॥  
 कोई विदेशी घरकुं चाहे, चलते घर नहि आयाहे, थिर खडा जब  
 निज घर देखा, परम प्रीय रस पायाहे ॥ धन० ॥ ९ ॥ जेर दीये जो  
 कवडु न मरता, सो अमृतशुं मरीयाहे, उनके इंद्रजाल जे जाणे, सो  
 शिवसुंदरी वरीआहे ॥ धन० ॥ १० ॥ कण चक्रीकुं पीसत प्यारे, सो  
 कणको नर पीसेगा, सो नर राज पाई त्रिभुवनको, द्रष्टे सब जग  
 दिसेगा ॥ धन० ॥ ११ ॥ दासी एक जगत वंश राख्यो, जो उनकु  
 वंश राखेगा, उनके पाय नमे सबकोही, परमप्रीय रस चाखेगा;  
 ॥ धन० ॥ १२ ॥ पथ्यर पीली तेल नीकाले, जलसे माखण करताहे,  
 वंजा पूत्र पढावे विधशुं, सो मेरे दिल ठरताहे ॥ धन० ॥ १३ ॥ दुध  
 लीये आकाश दोही मुनी, गगन अमृत रस चाखेहे, सुरत समाधि  
 ध्यान ऊकोले, शिवमय नीज करी राखेहे ॥ धन० ॥ १४ ॥ जोगी

सोही परम रस जोगी, जग जोगी विजोगीहे, वेद अच्युसी वेद न  
जाणत, वेद कहावत रोगीहे ॥ धन० ॥ १५ ॥ राज करे शिरनाथ और हे,  
त्रीख त्रेख त्रट फिरताहे, राजी राज हमारा सांही, जीन-निज धनकी  
थिरताहे ॥ धन० ॥ १६ ॥ एक नपुंसक सब जग जीता, पाय विना सो  
चालेहे, उनकुं पकरी जे घर लाया, सो शिव मंदिर म्हालेहे ॥ धन०  
॥ १७ ॥ कोई तल तेलीकुं पीले, उनका नहि खल आताहे, जब तेलीएं  
तीलकुं देखा, तब तल खल हो जाताहे ॥ धन० ॥ १८ ॥ कोई दिन  
पयकी ऊरीआं बरसी, पत्ते सोही जमायाहे, सो मथि माखण विरला  
पाया, बास जगत जमायाहे ॥ धन० ॥ १९ ॥ रति विलास किए बल  
अधिको, सो नारी कुण पाईहे, धन्य धरम रिधि रूप सुधारत, सो मेरे  
दिल जायीहे ॥ धन० ॥ २० ॥ जो सुणता सो समजत नाहि, समजेकुं  
कहा कहेनाहे, कहेता सो कहु जानत नाहि, जाणैसो नहि कहेताहे  
॥ धन० ॥ २१ ॥ कोक अच्युसी कोक न जाणत, कामकला नहि पाईहे,  
कृश शुकल पद्म चंद्रकला लखी, मनसुख शिव विरमाईहे ॥ धन० ॥ २२ ॥

॥ पद ( १७ ) ॥ राग सारंग ॥

मेरेनाथको बोल अमोल है, अमोल अतोल स को लहे ॥  
॥ मेरेनाथको ॥ जाणे माने ध्याने राखे, कामीत पूरण सो लहे; शुध  
बुध मुंदित जे अविनितजन, ते नर फूटे ढोलहे ॥ मेरेनाथको ॥ १ ॥  
चाह दाह दुःख त्रास मिटावे, आत्म खजानको खोलहे; कुमति हठी  
लटपटि कपटी शठ, आदि अनंत निचोर्लहे ॥ मेरेनाथको ॥ २ ॥  
मोहको ऊटके कर्मको पटके, चेतन चटके चोलहे; अति सन्मान  
विना जन लहत न, कुर्मन नदीको टोर्लहे ॥ मेरेनाथको ॥ ३ ॥ बातज  
साची ए हम जाची, काचो न कांई पोर्लहे; लायकको दाखे मन राखे,  
अखय निदान अतोलहे ॥ मेरेनाथको ॥ ४ ॥ चूक न चूकत चूक न

१ सार जाणनार २ पाडे ३ चानके चोलजेवो पाको ४ भलु मननथी ५ पथर  
६ खोदु नथी ७ भुलीने बोलीश नहि.

जल्लिके, बहुत प्रमादकी खोलहे; निराखंबता जो चित चाहे, चपल  
 वचन मत खोलहे ॥ मेरेनाथको० ॥५॥ एक विवेक समाधिको त्यागिके,  
 और अनंतकुं को लहे; दिन दिन पर आखंबन जजते, कौन निराखंब  
 पणो लहे ॥ मेरेनाथको० ॥ ६ ॥ त्यागि सवे प्रतिबंध संबंधको, अंतर-  
 दृग एकेलो लहे; विद्या अनेककी एकज विद्या, विद्या वशे देवी सो लहे  
 ॥ मेरेनाथको० ॥ ७ ॥ एकज अर्थ लही बहुसिध्ध्या, एक बहुत समणो  
 लहे; आप तरे जविजनको तारे, सुगुरो अर्थ शुधो लहे ॥ मेरेनाथको०  
 ॥ ८ ॥ ऊट खटपट लट उलट सुलटके, जो तुज ज्ञान कलोलहे; बोल  
 जो राखे अक्षय सुखचाखे, मनसुख शिवधर तो लहे ॥ मेरेनाथको० ॥९॥

॥ पद ( १८ ) ॥ राग सारंग ॥

हम मगन जये सुधापानमें; ज्ञानमें मौनमें ध्यानमें, हम मगन  
 जये सुधापानमें; मेलो अथिर दिसे जग जनको, चतुरो समजे सानमें;  
 पर परिणतिमां जग बहु रींझयो, विष्णु निजगुण सन्मानमें ॥ हम० ॥१॥  
 ईतने दिन दृग बाहिर फेली, मेली विषय अमानमें; पुद्गल परिण-  
 तिमें सुख मान्यो, निरख्यो न निजगुण ज्ञानमें ॥ हम० ॥ २ ॥ मोह  
 महा मदिरा मद ठाकी, नयण न खोले म्यानमें; सत्ता वज्र महेल एकांते,  
 ज्ञान ऊरोखे मेदानमें ॥ हम० ॥ ३ ॥ लोकालोक अपर निजथी सब,  
 विगमे उपजे तानमें; में मेरा तिहां कहुए न बिगडे, उदासिन विधा-  
 नमें ॥ हम० ॥ ४ ॥ दो दिनके मेहेमान बटाउ, बोल विगार न कहा-  
 नमें; दुर्लज श्री जिन शासन पायो, अब क्युं रहीए अयानमें ॥ हम०  
 ॥ ५ ॥ रति विलसो निज प्रशमरतिशुं, निज धन अखय खजानमें;  
 मनसुख शिव सुंदरि सहवासे, केवल कमला थानमें ॥ हम० ॥ ६ ॥

॥ पद ( १९ ) ॥ राग सारंग ॥

ठोरी औरकी आश सखी हम, ठोरी औरकी आश; तन धन  
 बल बुद्धि सुधि खोई, जयो जन जनको दास ॥ सखीहम० ॥ १ ॥

त्रास विनाश सहे पर आशे, कीनो दुःख निवास ॥ सखी० ॥ १ ॥  
 आशा पास बंध्यो हुं चिरलों, निज निधि न लहीखास ॥ सखी० ॥ २ ॥  
 विषम विषय विष पान कियो हम, पड्यो डुरिजनके पास ॥ सखी०  
 ॥ ४ ॥ कौटी उपाय कीये बुधि बलसें, लेश फली नहि आश ॥ सखी०  
 ॥ ५ ॥ आरत ध्यान करी लहि अरति, मूके लंबे निसास ॥ सखी०  
 ॥ ६ ॥ धिक मिथ्यात अज्ञान इंद्रियरस, मोह महातम जास ॥ स०  
 ॥ ७ ॥ माहरी उत्तम शक्ति अर्पी, कांई न आव्युं मुजपास ॥ सखी  
 ॥ ८ ॥ हुं जड प्रचुनो विलखो शेवक, अशरण दीन निराश ॥ सखी०  
 ॥ ९ ॥ पर परिणति सेवी सुख चाहे, तौलों न सहज विलास ॥ सखी०  
 ॥ १० ॥ तबलों आतम अनुभव नांहि, चूढ्यो त्रम विकास ॥ सखी०  
 ॥ ११ ॥ चित्त पटंतर होवे जबलों, नही रुडो सहवास ॥ सखी० ॥ १२  
 अणहोती होवे नहि कबहुं, देखे धरणी आगास ॥ सखी० ॥ १३ ॥  
 पर उपदेशतही निज चेत्यो, उलस्यो बोध प्रकाश ॥ सखी० ॥ १४ ॥  
 जिनवचनामृत सुगुरु कृपातें, आतम शक्ति उलास ॥ सखी० ॥ १५ ॥  
 कर्णकर कर मेहेर शेवकपें, अब मोय दीजे दिलास ॥ सखी० ॥ १६ ॥  
 जो पर आश तजी निज सेवे, मनसुख शिवघर वास ॥ सखी० ॥ १७ ॥

लायक जोयाविना मर्म खोलवो नहि ते उपर पद.

॥ पद (१०) ॥ राग सारंग ॥

बोल न बोल न बोल न, कोईनो अवगुण तुं बोल न; हित करतां  
 अहित जस होवे, ते कारण मुख खोल न; केवली जाणे पण न प्रकाशे,  
 तुं मूरख कोई तोल न ॥ कोईनो ॥ १ ॥ तुं जाणे हुं जग जन तारुं, तुज  
 शक्ति ए अमोल न, दुःख सुख करता नहि कोई केनो, देह न ताहरी  
 बोल न ॥ कोईनो ॥ २ ॥ जो शक्ति ठे तुजमां रुडी, तो तुं आपही



चूल न; घाट घडंतां हेम जो फाटे, चूषण होय ते गोर्लन ॥ कोईनो०  
 ॥३॥ जाव वीरज प्रगट तुज दीसे, हितकर वच किम खोल न, विनय  
 अने बहुमान विना कौउ, चाहत अमृत ढोल न ॥ कोईनो० ॥ ४ ॥  
 प्रेरक हितकर शिवमग प्रेरे, मंदरुचि रंग चोल न, अणसमजे तुं जोर  
 करीने, काय वचन मन घोर्लै न ॥ कोईनो० ॥५॥ ज्ञान ध्यान अनुष्ठान  
 शक्ययुत, मान माय मद फूल न; शरण पयन्नामां निष्फल ते, केम तस  
 कीजे तोल न ॥ कोईनो० ॥६॥ ग्रहण शक्ति जोयाविण जननी, मर्म  
 हियानो खोल न; ता विण घा लागे नहि कबहुं, काचा फल त्वकै ढोल न  
 ॥ कोईनो० ॥ ७ ॥ बहु दुर्गुण जाणी गुरु मुजमां, जय करी रखा अबोल  
 न; मनसुख घर सहजे शिव सुंदरी, तो क्यों करत कलोल न ॥को०॥७॥

॥ पद (९१) ॥ राग सारंग फाग अगार धमाळ ॥

निज गुण नंदनवन विषेहो, खेले चेतन ईद ललना;—खेले चेतन  
 ईद, सची समता निज संगमांहो, सब सखीयनको ब्रंद—रंगीली  
 आतमाखेलीएहो—अहो मेरीललना—खेलो तुम याविध फाग—ढवीली  
 चेतना फागुनहो ॥१॥ पंचाचार चंपक लता हो, अचल सुशितल बांय  
 ललना—अचल० खांती मृडुता खेलतीहो, रजुता मुक्ति ग्रही  
 बांह्य—रंगीली—अहो—खेलो—ढवीली० ॥२॥ आतम तृप्ति निवासमांहो,  
 तृष्णा ताप विनाश ललना—तृष्णा० संयम निज परिवारमेंहो, करत रंग-  
 विलास—रंगीली—अहो—खेलो—ढवीली० ॥ ३ ॥ महके मद ऊरती  
 तिहांहो, गुण गण कुसुम निवास ललना—गुण० पज्जव रयण उद्याते-  
 यीहो, लोकालोक प्रकाश—रंगीली—अहो—खेलो—ढवीली० ॥४॥ मंद  
 मंद वायु चलेहो, अनुप्रेक्षा चउवार ललना—अनु० पज्जव फूल खीली  
 नहो, दशदिश रम्य सुवास—रंगीली—अहो—खेलो—ढवीली०॥५॥ चरण  
 अंबुगुण मंजरीहो, करी कोयल टउकार ललना—करी० स्याद्वादमय

१ बुध्द गोलकार घाटवालुं न थाय २ घोळवुं चुंधवुं ३ चामढी.

देशनाहो, मुनि अलि करी झहंकार-रंगीली-अहो-खेलो-ठवीली०  
 ॥६॥ चेतनका मीत पूरणोहो, जेव्यो प्रशमरति आय ललना-जेव्यो०  
 अति रंगे एकांतमांहो; देखी निज अवसर पाय-रंगीली-अहो-खेलो  
 -ठवीली० ॥ ७ ॥ जीले चेतन चेतनाहो, संवर सरवर नीर ललना  
 -संवर० रागादिक मल धोईनेहो, वीर्य अनंत सुधीर-रंगीली-अहो  
 -खेलो-ठवीली० ॥ ८ ॥ चउपद सहज सुव्यक्तिमेंहो, नहि ईहां  
 परपदकाम ललना-नहि० एकांगे रंगे रमेहो, चरण रमण थिर-  
 गम-रंगीली-अहो-खेलो-ठवीली० ॥ ९ ॥ ब्रह्मअस्त्र देखी जगेहो,  
 अठदश सहस्र अब्रह्म ललना-अठदश० मनसुख सुमति विलासमांहो,  
 विलसे पूरण शर्म-रंगीली आतमा खेळीएहो, अहो मेरीललना खेलो  
 तुम याविध फाग-ठवीली चेतना बागमांहो ॥१०॥

॥ पद ( ११ ) ॥ कंचन वरणो नाहरे ॥ ए राग सोरठ ॥

गुरु गुण अगम अगाहरे, मुने कोय मिलावो; जे मुज करे सना-  
 हरे, मुने कोय मिलावो ॥ ए देशी ॥ काल अनंतमां जे नवि मिल्हीओ,  
 साचो शिवपुर साथरे ॥ मुने० ॥ नरक निगोद विषे दुःख पाम्यो,  
 अशरण दीन अनाथरे ॥ मुने० ॥ १ ॥ सचल समल पुद्गल परिणति  
 ग्रही, बहु नज जीडी बाथरे ॥ मुने० ॥ अष्ट करमदल वैरी त्रास्यो,  
 कुमति कदाग्रह साथरे ॥ मुने० ॥ २ ॥ दुष्ट कषाय दावानल बूजे,  
 सुखथल आवे हाथरे ॥ मुने० ॥ उन्मार्गे पडी मार्ग न लाघ्यो, मिथ्या  
 तिमिर अगाधरे ॥ मुने० ॥ ३ ॥ जीम जयंकर जव वन जमतां, न  
 मित्यो दीन दयालरे ॥ मुने० ॥ अगम अतट्ट जवोदधि जीमे, न करी  
 कोई संजाळरे ॥ मुने० ॥ ४ ॥ तनु मन व्याधी याधी सही बहु, पर-  
 वश दुष्ट संयोगरे ॥ मुने० ॥ तृष्णा दाह अनल विषय धन, वली थयो  
 ईष्ट वियोगरे ॥ मुने० ॥ ५ ॥ दुष्ट अज्ञान तिमिर वश जूह्यो, न लस्यो  
 निज गुणजोगरे ॥ मुने० ॥ सुगुरु कृपाळ दयाळ मिले जो, तो बहुं

अनुजव योगरे ॥ मुने० ॥ ६ ॥ मञ्जु गलागल एम जग लागी, पुद्गल  
 लुंटाळुंटेरे ॥ मुने० ॥ डुविध प्राणनी रक्षा करता, गुरु निज धन दे  
 अखूटेरे ॥ मुने० ॥ ७ ॥ पुण्य प्रतापे सदगुरु मिलीओ, दाता दान  
 अत्यंतरे ॥ मुने० ॥ अमृत मेघ गुरु वरसावे, मनसुख शीव वसंतरे ॥ मु० ॥ ८

॥ पद ( १३ ) ॥ राग ऊपरनो ॥

आतम ज्ञानानंदरे, हुंतो दरिण पायो; नागे सवि दुःख छंदरे, हुंतो  
 निज घर आयो, सहज स्वतंत्र आणंदरे, मिथ्यात्व नसायो; केवल कमला  
 कंदरे, गुण रमण रमायो ॥ ए देशी ॥ एक विवेक सहित ए साचो,  
 सिद्ध समाधि अनंतरे ॥ हुंतो० ॥ पुद्गल ममता त्यागी निजमां, स्थिर  
 उपयोग महंतरे ॥ हुंतो० ॥ १ ॥ जीत्यो एक निजातम जीते, शत्रु विजाव  
 अनंतरे ॥ हुंतो० ॥ डुविध दयाधर परम हेमंकर, दरिण ज्ञान अत्यं-  
 तरे ॥ हुंतो० ॥ २ ॥ चरण रमण स्थिर वीर्य अनंतो, अव्याबाध अजं-  
 गरे ॥ हुंतो० ॥ सकल कषाय दावानल बूजे, श्रुत जल वृष्टि प्रसंगरे  
 ॥ हुंतो० ॥ ३ ॥ तृष्णा वेल उखेडी मूलथी, निज गुण पञ्जाव चोगरे  
 ॥ हुंतो० ॥ दान लाज उपजोग अनंतो, पूरण अनुजव योगरे ॥ हुंतो०  
 ॥ ४ ॥ जनम न मरण न ठेद न वेद न, नहि डुरिजन दुःख त्रासरे  
 ॥ हुंतो० ॥ नूख न प्यास न काम न घाम न, शित जित नाहि प्रया-  
 सरे ॥ हुंतो० ॥ ५ ॥ नरक निगोद न रोग न शोग न, परम स्वजाव  
 उद्वासरे ॥ हुंतो० ॥ ए नंदनवन एह कटपतरु, चिंतामणी सुविलास  
 रे ॥ हुंतो० ॥ ६ ॥ कामगवी ए कामीत पूरण, चूडामणी प्रचु पासरे  
 ॥ हुंतो० ॥ सकल दोष हर परम धर्मधर, मनसुख शिवधर वासरे ॥ ७ ॥

॥ पद ( १४ ) ॥ राग सोरठ ॥

सबजन शब्दे ध्यावे परम गुरु सबजन शब्दे ध्यावे, विरला अगम  
 गति पावे परमगुरु सबजन शब्दे ध्यावे ॥ परमगुरु० ॥ १ ॥ दौरे पीठे  
 सवही दौरे, मूल मरम चित नावे; उत इत फीरत लहत रस नाही, ज्यौं

पशु चर्वित चावे ॥ परमगुरु ॥ १ ॥ गुण परिणति एकत्व सन्धाने,  
निजमें निजही रमावे; आतमराम आराम अतुलवर, मनसुख निज  
धन पावे ॥ परमगुरु ॥ ३ ॥

॥ पद ( १५ ) ॥

॥ केरबो सोरठ महोटी बहुये मन गमतुं कीधुं ॥ ए राग ॥  
रुहुं माहरे ज्ञायकतानुं ध्यान ॥ ए आंकणी ॥ लक्षणथी लक्ष  
जिन्न न होवे, नवि प्रगटे लक्षण आन ॥ रुहुं माहरे ॥ १ ॥ लक्षण  
लक्ष अनेद एकमां, जग देख्युं प्रत्यक्ष प्रमाण ॥ रुहुं माहरे ॥ २ ॥  
लक्षण नाश त्रिकाल न होवे, कोई समजे सहज सुजाण ॥ रुहुं माहरे ॥  
॥ ३ ॥ मन वच काय न प्रेरुं परमें, वीर्य राखी निज ठाण ॥ रुहुं माहरे ॥  
॥ ४ ॥ रागादिक विण केवल चेतन, तजी परपद अजिमान ॥ रुहुं  
माहरे ॥ ५ ॥ कारण काज न कारक परमें, निजधन अखय खजान  
॥ रुहुं माहरे ॥ ६ ॥ सहज स्वतंत्र स्वजावे विलसे, सिद्ध समाधि  
सुजाण ॥ रुहुं माहरे ॥ ७ ॥ कहत न समजत सुनत न जानत, पिंडस्थ  
पदस्थ प्रमाण ॥ रुहुं माहरे ॥ ८ ॥ रूपस्थ रूपातीत एहथी, पामे मन-  
सुख शिव थान ॥ रुहुं माहरे ॥ ९ ॥

॥ पद ( १६ ) ॥ राग सोरठ ॥

मो सम कोन कुटिल खलकामी; अपनी रिद्धि चूली परमें, सकल  
समय रह्यो मांमी, सहजानंद लखे बिन मूरख, परघर जमत हरामी  
॥ मो सम ॥ १ ॥ चेतायो किमहि नहि चेतत, तनधन परिजन  
कामी, चेतन आतममें धन जाणी, मनसुख होय आरामी ॥ मो ॥ १॥

॥ पद ( १७ ) ॥ राग सोरठ ॥

हे पीया अपनी रीत सुधारो, डुरमति वेगे टारो ॥ हे पीया ॥  
डुरमति संगे बहु दुःख पायो, विषय कषाय अटारो, जव वन ज्रमण  
करी जय जोगे, क्या घर होत सवारो ॥ हे पीया ॥ १ ॥ दरशन ज्ञान

चरण निजमय निज, वीरज परम संचारो; श्रव्याबाध अनंत स्वतंतो,  
 फोगट पत किम हारो ॥ हे पीयाण ॥ १ ॥ परघर जटकी वयर जंतुसें  
 करि निज रिधि न बिगारो, खांत्यादिक परिवार बुलावो, सुमता महेल  
 पधारो ॥ हे पीयाण ॥ २ ॥ न्यायवंत तुं त्रिचुवन नायक, लायक एह  
 तुं मारो, परम दयाल दया करी डुविधे, निज पर प्राण उगारो ॥ हे  
 पीयाण ॥ ३ ॥ अपनी हांसी आप करावत, दीलमें क्यों न विचारो  
 सबलासें अबला उलंजे, माने न दील हमारो ॥ हे पीयाण ॥ ४ ॥  
 निजघर निजधन जोगे सज्जन, कहां कोण करत नकारो, मनसुख  
 शिवतिय संगे बिलसें, वाजे जीत नगारो ॥ हे पीयाण ॥ ५ ॥

॥ पद ( १८ ) ॥ राग काफी ॥

पीया बिन कैसे रहूं में, अबला एकलकी रे नार; मोये डुर्रर कामे  
 पीनी, अब मोही खीण न सुहाय; विरह व्यथा कबु व्यापति एसी,  
 ठतियां फिट फिट जाय ॥ पीयाण ॥ १ ॥ सखीयां हमारी हांसीकरतु  
 हे, पीउ तुज किम न बुलाय, लोकलकां म्हेणां बहु देवे, पीउ मोये  
 मनसुं चुलाय ॥ पीयाण ॥ २ ॥ पीउ बिन चंद कलाको चातुर, काम  
 क्रिडा रस जाण, पूरण बलीश्रो रूप रसीदो, पीउ बिन कोण प्रधान  
 ॥ पीयाण ॥ ३ ॥ एकवार रसत्तर मुज नयणे, निरखो त्रिचुवन राय; फिर  
 तुमको कुबजा न सुहावे, निज घर मंगल थाय ॥ पीयाण ॥ ४ ॥ याही  
 वचन सुनी घर आयो, जोगी जमर सुजाण, रंग रमंतां पीठली रयणे,  
 प्रगट्यो केवलजाण ॥ पीयाण ॥ ५ ॥ गुण परिणति एकत्ववितर्के,  
 मनसुख अमृत मेघ; अलख अगोचर राधा रसकुं, पावे परम विवेक  
 ॥ पीयाविन ॥ ६ ॥

॥ पद ( १९ ) ॥ राग काफी ॥

टली न टेव अजहु जीखकी, क्या तुं चतुर कहायो, दीन  
 अनाथ रह्यो पर आशें, निज धनको न लखायो ॥ टली ॥ १ ॥ जैन

ब्रेन सुनी हृदय न धारे, एंठ स्वाद मन लायो, जखत चखत जमी  
परघर घरकुं, सहज संतोष न पायो ॥ टली० ॥ २ ॥ चित्त करुणा  
लाई तुं अपनी, कर शुद्ध ध्यान सदायो, चेतनता विण सबही ठंडी,  
मनसुख निज पद पायो ॥ टली० ॥ ३ ॥

॥ पद ( ३० ) ॥ राग काफी ॥

मेंही जूठी पर निज मानी, अब हम श्री जिन वाणी पहि-  
चानी ॥ ए टेक ॥ ज्ञायक रुप एक नित्य निज, सहज स्वतंत्र आणंदी,  
लिखे चखे बीनुं परममत्त्वे, पुद्गल परिणति फंदी ॥ मेंही० ॥ १ ॥ में  
मेरा ईन जगमें नाही, मोमें नाही रे तेहुं, ईष्ट अनिष्ट अर्थ हे केसा,  
मुज कारण नाहि केहु ॥ मेंही० ॥ २ ॥ मिथ्या विकल्प तज होवेंगे,  
स्थिर चेतन उपयोगी, मोहे बीनु अखंर रहेंगे, सकल समय सुख-  
योगी ॥ मेंही० ॥ ३ ॥ में मुजसें नहीं डुर देशांतर, कहा दुंदु जई परमें,  
मनसुख ध्येय सकल साधकको, तत्त्व लही रहुं घरमें ॥ मेंही० ॥ ४ ॥

॥ पद ( ३१ ) ॥ राग आशावरी ॥

चेतन निज नीधि निकट निहालो, जूठ मनोरथ वारो ॥चेतन०॥  
तनधन कंचन महेल नारी नर, विषय उमंग अपारो, कामकि शक्ति  
योगकि व्यक्ति, निश दिन ज्रमको चारो ॥ चेतन० ॥ १ ॥ वैक्रिय  
तैजश कार्मण आहारक, अथिर उदारिक धारो, ए जड एंठ अशुचि  
सचलमल, ईनहीकु काहे संजालो ॥ चेतन० ॥ २ ॥ नाही स्वतंत्र एह  
डुखदायक, लायक नाही तुमारो, फोगट आरत रुद्रध्यान करी, बंधत  
कौन गमारो ॥ चेतन० ॥ ३ ॥ धर्म शुक्ल धरीके सुविवेके, मोह चोर  
कसी मारो, परम विरजधर ग्रहि सुमती कर, केवल ज्योति उजारो  
॥चेतन०॥४॥ जूठ मनोरथसें काहा आवे, जववन वानर चालो, फोगट  
काल गमावत मूरख, मनमें क्युं न विचारो ॥ चेतन० ॥५॥ सन्निपात  
कीसिही दसा एह, जव संतती न वधारो, शांतसुधा समरस अज्यासे,

सज्जन हृदय धखालो ॥ चेतन० ॥६॥ आई एकांते खेलो मोसें, कुण तुम करत नेकारो, दाव पाय न चूक चतुर पीउ, निजघर सेज पधारो ॥ चेतन० ॥७॥ त्यागि ममता समता राखो, वाजे जीत नगारो, अंगे रंग सर्वांग मीढुंगी, औरकुं काहे संजारो ॥ चेतन० ॥ ८ ॥ जग-नारी क्या प्यार करेगी, उनके हाथ न सारो, ए परतंत रस रीज न जानत, चाटे एंठ गमारो ॥ चेतन० ॥९॥ मंत्र मणी औषधी बहुविद्या, कला विज्ञान सुधारो, आत्म अनुभव सम नहि कोई, निजधन जोग उदारो ॥ चेतन० ॥ १० ॥ नर नारीशुं प्रेम चहतहे, ए तन रोगको क्यारो, कर्मवशे वे डुखीत विचारे, विषय वशे जग सारो ॥ चेतन० ॥ ११ ॥ ते परतंत्र वशे अति तलपे, को नही किनको सारो, तेरी निज निधी निकट सदा शिव, अपनी क्युं न संजारो ॥ चेतन० ॥ १२ ॥ पर-संगे परआश बढे अति, क्युं न स्वतंत्र संजारो, परकी आशा हे वड-पाशा, केसे आपकुं तारो ॥ चेतन० ॥१३॥ खोट खजाने को नवि दीसे, लेखो घरको संजारो, मेंही तेरी तुंहीज मेरे, ईत्युत त्रमण निवारो, ॥चेतन०॥१४॥ क्षिण एक पीउशुं न रहु अलगी, और विकल्प निवारो मनसुख अमला कमला अचला, शिव करे हेत अपारो ॥ चेतन० ॥ १५ ॥

॥ पद ( ३१ ) ॥ राग—आशावरी. ॥

( प्रश्न ) अंतर खोल दे मतवारे, सहज सुहित विचारे ॥ ए टेक ॥ जबलग प्रेम प्रतित न आइ, तबलग नहि मुज सोरे; अपने घरकी रिद्धि विलसत, और पिउ कुण वारे ॥ अंतर० ॥ १ ॥ में तुजसें नहि अंतर राखुं, तुं क्युं परुदा डारे; सोर जोरसें प्रीती होत क्या, न्यायी न्याय विचारे ॥ अंतर० ॥२॥ तेरे परुदेसें हे परुदा, और न अंतरकारी; ( उत्तर ) जो तुं हेतु तो हुं हेतु, डुरजन संग निवारी ॥ अंतर खोलदे मतीवारी ॥ जाण न भूल हमारी ॥ अंतर० ॥ ३ ॥ अपनी जूल न जानत जोरी, औरके दोष विचारी; अमृत स्वाद चखे हमसेती, सत्य स्वरूप

निहारी ॥ अंतरण ॥ ४ ॥ आपके दोषको जे अविचारी, हे जस  
 द्रष्टी विकारी; जोर तेहशुं किण विधि चाखे, उन्नय मिले सुखकारी  
 ॥ अंतरण ॥ ५ ॥ में मेरा में जाणुं चेतन, तुं मती चित्त प्रजारी;  
 त्यागि प्रमाद लखे निज संपत्ति, जो सम सेज निहारी ॥ अंतरण  
 ॥ ६ ॥ सरल स्वभावे सुधु माने, वक्रे वांकु विचारे; जो शाश्वत सुख  
 श्छे कोई, सो मन रजुता धारे ॥ अंतरण ॥ ७ ॥ अंतर तोमे घुंघट  
 खोले, दरस ज्ञान अजुआले; सहज अनंत स्वतंत्र आनंदे, मनसुख  
 शिव निहाले ॥ अंतरण ॥ ८ ॥

॥ पद ॥ ( ३३ ) राग आशावरी ॥

योगी क्या मन ऊघरा मंडे, मोहकी टेव न ठंढे ॥ योगीण ॥ जेने  
 जे मन मान्युं मीतुं, तेणे तेहिज दीतुं, कालांतरकी वे क्या विचारे, विण  
 अनुन्नवही अनीतु ॥ योगीण ॥ १ ॥ धर्म अर्थ ने काम मोह ए, जेणे  
 जेहमां सुख जाण्युं, क्रोध मान मदमाय लोन्नमां, धाम कुटुंब पिठाण्युं  
 ॥ योगीण ॥ २ ॥ चेतनता मेरे मन मानी, रढ आणी शुन्न जाणी,  
 खेद निंद ने थाक न लागे, जे निरधारी पिठाणी ॥ योगीण ॥ ३ ॥  
 जोर न केनो कोई उपर, वचन आलाप विकारे, बूजे रींजे आपही आपे,  
 जेह चपलता वारे ॥ योगीण ॥ ४ ॥ नय युक्ते आढ्यु नवि हाढ्युं,  
 पूरु जोर न चाढ्युं, कांश्क घातुं कांश्क नातुं, शेष रहुं दल कातुं  
 ॥ योगीण ॥ ५ ॥ संग्रह दोष दीसे मुज बहोला, परपद किरिया रागे,  
 पण लघुकर्मी सूधुं जाणे, लागे अनुन्नव जागे ॥ योगीण ॥ ६ ॥ चूल  
 आपकी जे नर देखे, और पे दोष न मारे, साची वात कहे सुख माने,  
 तेहिज दोष विदारे ॥ योगीण ॥ ७ ॥ अमृत देत हैये विष माने, मो  
 सम और न जाणे, हेतु अहेतूको न पिठाणे, आपमति अजिमाने  
 ॥ योगीण ॥ ८ ॥ स्यादवाद अमृत मन लावे, ताप कषाय समावे, दुःख  
 दोहग जय शोग नसावे, जे समरस मन जावे ॥ योगीण ॥ ९ ॥ मन



वांकेयी सघलुं वांकुं, सरले सत्य सोहावे, कणबीनो बेटो रीसांयो, उवट  
जंगल नशी जावे ॥ योगी० ॥ १० ॥ गुरु कृपा पामी थिर रहिशुं, मोह  
ठकी नवि कहीशुं, मन मान्युं पोताने कहिशुं, मगन जनक शिव  
लहिशुं ॥ योगी० ॥ ११ ॥

॥ पद (३४) राग सारंग बिराजे रामा ईन घटमांहि ॥ ए राह ॥

अरथी जनको न आवे जरुसो मोये अरथी जनको न आवे,  
कोमी साटे कोटी बतावे, कोटीमां कोडी न पावे ॥ जरुसो० ॥ १ ॥  
चाहत अर्थ अनर्थ गहतु हे, निज पर अर्थ नसावे, अनुपचरित सुख  
लक्षमें नाही, उपचरित रस जावे ॥ जरुसो० ॥ २ ॥ क्षिणमांही हेय  
लखे विषयारस, क्षिण उपादेय बतावे, देश प्रतक्ष न बचन ठीकता,  
कालांतर फल गावे ॥ जरुसो० ॥ ३ ॥ मांटी रिद्धि मान चहत चित्त,  
सेवे उनकुं फसावे, निरदय हृदय कठोर कुशिल शठ, कर्म जरम जर-  
मावे ॥ जरुसो० ॥ ४ ॥ उपचरित सुख दुःख बहु दाखी, जन जय-  
जीत करावे, शांती पमामे तेने संत कहीजे, मुख दीठे दुःख जावे  
॥ जरुसो० ॥ ५ ॥ हेयादेय जचावत निज चितमें, शिव वधु सन्मुख लावे,  
स्यादवाद जाणें गुरु सोई, अलख स्वरुप दिखावे ॥ जरुसो० ॥ ६ ॥  
बंध उदय सत्ता उदिरणा, विवरी विविध बतावे, मनसुख बहुश्रुत  
चरण रहीजे, जन्म कृतारथ थावे ॥ जरुसो० ॥ ७ ॥

॥ पद ॥ (३५) राग गोडी ॥

रहे शाहुकारी हमारी हो प्रचुजी ॥ रहे० ॥ लीयो उनको पीठो  
देउं, अपनो लेउं संजारी, स्वपर विवेचनं परम विवेके, राखुं खजानो  
तारी ॥ हो प्रचुजी० ॥ १ ॥ लिये दियेसे शुधवट प्रगटे, पावे धन वेपारी,  
न्याये रिद्धि मीले सव आई, शुज उद्यम हितकारी ॥ हो प्रचुजी०  
॥ २ ॥ परधन ले सो चोर कहावे, सोहि मूढ अविचारी, मनसुख ड्रव्य  
खजावे खेले, होवे धन अधिकारी ॥ हो प्रचुजी० ॥ ३ ॥

॥ पद ( ३६ ) ॥ आरति ॥

दोहरा—ज्वजय आरत डुर करे, ज्ञान दिपक प्रगटाय;  
परम कल्याणमयी नमं, चोवीशे जिनराय;

॥ राग गोमी ॥

अरति उतारो जीणंदा मेरी ( जवनी ) अरति उतारो जीणंदा;  
पुद्गलथी न्यारो हुं चेतन, शुद्ध सिद्ध सुखकंदा; एक अखंन अजंग  
अबाधित, सहज स्वतंत आनंदा ॥ जवनी० ॥ १ ॥ सकल डुरित जय  
सात नशावो, नित्यानंद अमंदा; अक्षय अजर अमर अत्यंतिक, दर्शन  
ज्ञान दिणंदा ॥ जवनी० ॥२॥ सकल प्रदेश समाधि अशेषे, सेवे सुरनर  
वृंदा; स्यादवाद वचनामृत वरसे, शोभित जिनसुख चंदा ॥ जवनी० ॥३॥  
जवदव दावानल जय तृष्णा, डुष्ट कषाय हरंदा; अमृतघन तुज वचन  
विलासे, अहित डुरित निकंदा ॥ जवनी० ॥ ४ ॥ प्रचुआणाधर शांति  
उपावे, जयजय जगदाणंदा; मनसुख सुखजर शिवघर रहेतां, विलसे  
परमाणंदा ॥ जवनी० ॥ ५ ॥

॥ पद ( ३७ ) ॥ मंगलीक दीवो ॥

दोहरा—ज्ञानदिपक प्रगट करी, कीजे हृदय उद्योत;

परमात्म निज देखीये, अक्षय शाश्वत ज्योत ॥ १ ॥

केवल रवि सवि तम हरे, निज गुण पज्जव शुद्ध;

स्यादवाद जिन वयणथी, होवे निर्मल बुद्ध ॥ २ ॥

॥ राग गोमी ॥

कीजे मंगलिक दीवो जिनघर कीजे मंगलिक दीवो, पूरण ज्ञान  
दिवाकर जिनजग, तमहर परम पईवो, लोकालोक प्रकाशक शिवमग,  
नायक तुं चिर जीवो ॥ जिनघर० ॥ १ ॥ पुद्गल ममता टाली लखी  
निज, जिन वचनामृत पीवो, निजगुण पज्जवमय निजरूपे, विमल  
विज्ञान सदैवो ॥ जिनघर० ॥ २ ॥ अजीव कामना कलुष हरन प्रचु,

मेतत् डुरित अशीवो; मोहमहामल मय्यो जेहने, अचल विरज व  
 तिवो ॥ जिनघरण ॥ ३ ॥ समसुख प्रगट निकट चेतनद्रग, अज  
 अमल थिर रहीवो; अखिल जगत जयकारी जिनेश्वर, स्यात्पद वच  
 वदैवो ॥ जिनघरण ॥ ४ ॥ नद्रकद्वयाण करी सहु संघने, नविज  
 तारु तरैवो, सकल जंतुनुं विरुध्द निवारी, मनसुखघर रहे शी  
 ॥ जिनघरण ॥ ५ ॥

॥ पद ( ३८ ) ॥ राग धीरापदनी देशी ॥

समयसुख जोगीरे, अनुभव योगी खरो; करुणा रस जरीयोरे, गु  
 तो मारे दीलडे ठर्यो; ॥ ए टेका ॥ पथ्थर टांकी चेतन मूरति, करी जेणे नि  
 हाथ, एवा सलावटने जे मलीया, ते राखे आपनी आथ ॥ समय ॥ १ ॥  
 जगमां सलावट घाट घने घणा, पण जारेनुं हलकुं थाय, एतो सल  
 वट अवनवो दीगो, ठोटानुं मोटुं कराय ॥ समय ॥ २ ॥ एवा सल  
 वटने शोध्दी सेवो, तजो न तेहनो साथ, नवजल डुबत देखी जनने  
 सहजे जाले हाथ ॥ समय ॥ ३ ॥ ठालो ठाम रहेवाने नाही, जाव  
 ठाम न कोय; वस्तु गुणे सजर जर जरियो, अमल न मेलो होय ॥ समय ॥  
 ४ ॥ नूढ्यो नूलावे नूढ्याने, न नूढ्यो न नूलावे तेह; मरतो मा  
 मरणहारने, जीव्यो जीवामे जेह ॥ समय ॥ ५ ॥ एवो गुरु आथ  
 राखे हमारी, अनुभव योग जगे; मनसुखनो गुरु साचोरे, जाचो  
 एतो हीरो जगे ॥ समय ॥ ६ ॥

॥ पद ( ३९ ) ॥ राग धीरापदनी देशी ॥

विमल तुज वाणीरे, विमल जिन विमल करी; विमल ते तो  
 प्राणीरे, अचल जस हृदय ठरी ॥ ए टेका ॥ नय निक्षेप निज राखे निजमां,  
 पर क्षेपे परमांहि; विमल आपोपु धारतां, रहे अचल उढ त्यांहि ॥  
 विमल ॥ १ ॥ चीम नवाटवी नय सव नागो, प्रगटधुं कांईनुं कांय;  
 अद्वया एक पलकमां जोने ए तो, रंकनो प्रगट्यो राय ॥ विमल ॥ २ ॥

स्यादवाद वाणीने जाणी, मायों मोह सुनट; शिवसत्ता रोकनीने जीवने,  
 कयों हतो जवनट ॥ विमल० ॥ ३ ॥ जन्म जरा मरणादिक दुःखमां,  
 शरण अन्यनुं चहाय; जरुनो कामी अर्शने जटक्यो, शरण मद्युं नहीं  
 त्यांय ॥ विमल० ॥ ४ ॥ परमगुरुनी करुणा लहेरे, जाणी तुमची वाण;  
 त्रिजुवन मुकट समो मुज मलीयो, साचो सुख निदान ॥ विमल० ॥ ५ ॥  
 ए वाणीथी डुरे जे जन, ते दुःखीआ संसार; वाणी पंथे जे नर विचरे,  
 विलसे रिद्धि उदार ॥ विमल० ॥ ६ ॥ शुद्ध नये तुज आणा सेवे,  
 प्रगटे शुद्ध स्वरूप; मनसुख ते अक्षय सुख पावे, आनंदघन चिद्रूप  
 ॥ विमल० ॥ ७ ॥

॥ पद ( ४० ) ॥ राग गजल ॥

चीद् ज्योतिको उद्योत होत, ममत मीट गयो; अमान ज्ञान  
 शिव निदान, सुमति पति जयो ॥ चिद्० ॥ १ ॥ लखी सिद्ध स्यो सरूप  
 आप, सुखमयी थयो; त्रम तारकु उतारी लहु, विवेक परिणयो ॥  
 चिद्० ॥ २ ॥ विज्ञाव योग रोग नाही, मोह मीट गयो; अनुभव निदान  
 प्रगट ज्ञान, रहे न संशयो ॥ चिद्० ॥ ३ ॥ घनघाती क्षिण शुकल  
 लीन, वीर्य उमह्यो; मनसूख रंग शीवसंग, सेजसें रह्यो ॥ चिद्० ॥ ४ ॥

॥ पद ( ४१ ) ॥ राग गजल ॥

प्रतक्ष दक्ष ज्ञान लक्ष, चेतना जगी; ममता रांरु मोह चांड,  
 संग ले जगी ॥ प्रतक्ष० ॥ १ ॥ जये दरशजोर गये चोर, प्रशम सगी-  
 लगी; आनंद कंद मति अमंद, शिव सुरस पगी ॥ प्रतक्ष० ॥ २ ॥  
 कषाय जाय प्रगट न्याय, सम दया वगी; जीणंद वैन लखत चैन,  
 वीर्य उमगी ॥ प्रतक्ष० ॥ ३ ॥ गुण विशेष पक्षा अशेष, कार्यमें लगी;  
 जडता जाय सुख सदाय, पाय रस खगी ॥ प्रतक्ष० ॥ ४ ॥ प्रसंग मारी  
 मोह मारी, परपरिणति त्यगी; शुद्धात्मजाव लही सुदाव, कुमति नटी  
 रंगी ॥ प्रतक्ष० ॥ ५ ॥ लही सुसार पुरुषाकार, सार जिन मगी; मन-  
 सूख ठेक ग्रहि विवेक, टेक शिव जगी ॥ प्रतक्ष० ॥ ६ ॥

॥ पद ( ४७ ) ॥ राग गजल ॥

द्रग ज्ञान चरण सहजमें, न बंध जिन कल्या; मिथ्या अज्ञान  
कलुष ध्यान, बंध जीय रहा ॥ द्रगण ॥ १ ॥ विवेक एक आत्मको,  
लहीके जव तरो, सुगुरु सयोग आत्मज्ञोग, धारी शिव वरो ॥ द्रगण  
॥ २ ॥ अनंत काल खोटे ख्याल, खेती जव जम्या, निगोद नर्क गर्क  
दुःख, जोगी दिन गम्या ॥ द्रगण ॥ ३ ॥ सहेत चेत चेतना, गाफील  
तुं मत् रहे, निज निधि विसार दुःख अपार, काहेतुं सहे ॥ द्रगण ॥ ४ ॥  
मिथ्यात जोर फोरी मारे, आत्ममित्तकुं, सम्यक्त जोर फोरी प्यारे,  
ठेद शत्रु तुं ॥ द्रगण ॥ ५ ॥ मनुष्यजन्म पाय, स्यादवाद जिन लह्या,  
मनसूख धीर वीर थीर शीवघरे रहा ॥ द्रगण ॥ ६ ॥

॥ पद ( ४३ ) ॥ राग गजल ॥

सुबोधके उद्योत होत, डुरित तम हरा; श्रीसिद्धस्यो सरुप लखी,  
अशेष सुखतरा ॥ सुबोधण ॥ १ ॥ नरिंद इंद्र चंद्रब्रंद, सकल किंकरा;  
शुद्धात्म तत्त्व सेवी जविक, होत ठाकुरा ॥ सुबोधण ॥ २ ॥ अजाण  
धर्म कर्त कर्म, सहत दुःख बुरा; सुजानधर्म ठेदि कर्म, वसत शिवपुरा  
॥ सुबोधण ॥ ३ ॥ नर जन्मपाय तुं सदाय, सेवी गुरु खरा; करी निज  
विलास क्लेश नाश, लहीश सुखतरा ॥ सुबोधण ॥ ४ ॥ निजात्म एक  
लहि विवेक, ध्यान थीर धरा; मनसूख धीरवीर थीर, रहत शिवधरा  
॥ सुबोधण ॥ ५ ॥

॥ पद ( ४४ ) ॥ राग गजल ॥

जैनवाण रत्नखाण, गुण निधान ध्याईए, शुक्ल ध्यान लगत  
तान, आत्म प्रगट पाईए ॥ जैनण ॥ १ ॥ न विजाव राग रोष लाम,  
मोह यों नशाईए, न अन्य काम सगुण धाम, रीम यों रमाईए ॥ जैनण  
॥ २ ॥ देखी अखिल आपरुप, सुख अनूप लाईए, जव विपति नाश  
गुण विलास, सहजके फलाईए ॥ जैनण ॥ ३ ॥ अजंग अंग अन्य-

संग, नवि कदा मिलाईए, सुधीर वीर गुण गंजीर, सिद्धिमें समाईए  
॥ जैन० ॥ ४ ॥ महत्त रूप परम चूप, औरमें न माईए, विलोकीए  
अलोकलोक, आपमें समाईए ॥ जैन० ॥ ५ ॥ निरावलंब एक ठेक,  
देखके मनाईए, मनसूख अंग शीवसंग, रंगमें जमाईए ॥ जैन० ॥ ६ ॥

॥ पद ( ४५ ) ॥ राग गजल ॥

सुहेत चेत चेतना, तुं मनुषपण लहा ॥ जिनेशसें उपदेश सुन,  
गाफील तुं क्यों रहा ॥ सुहेत० ॥ १ ॥ अफसोस हैं बेहोश तुं न सुनत  
गुरु कहा ॥ अंधसे कुंध धारी, जरु ज्युं बन रहा ॥ सुहेत० ॥ २ ॥  
देहादि ममत करत रमत, जरममें वहा ॥ मिथ्यात धारि निज विसारी,  
विविध दुःख सहा ॥ सुहेत० ॥ ३ ॥ आयु अनित बहुत चीत, सुमग  
नहि गहा ॥ आर्य आय सुगुरु पाय, बोध अब लहा ॥ सुहेत० ॥ ४ ॥  
सुबोध पाय आत्म ध्याय, मोह मग चहा ॥ जरम डारी करम मारी,  
पाय सुख महा ॥ सुहेत० ॥ ५ ॥ सगुण ध्याय शुक्ल पाय, मेरु थिर  
जहा ॥ मनसूख वीर होय धीर, शिवघरे रहा ॥ सुहेत० ॥ ६ ॥

॥ पद ( ४६ ) ॥ राग गजल ॥

प्रभु फजद मजल करुं में, आत्म शक्तिपें; कजलसें चित्तको धोउंगा,  
जिणंद बेनसें ॥ प्रचु० ॥ १ ॥ रझल रहा सूणे न शुध, जैन बेन में;  
सम जल मिला न हिरणसें, मिथ्या कुनेनतें ॥ प्रचु० ॥ २ ॥ जवाब्धि  
जलमें डूब रहा, लोलुप्त विषयुसें; न जल मिला तिसा रहा, कुजोग  
तृष्णासें ॥ प्रचु० ॥ ३ ॥ अबल सबलकों मार रहा, सत्ता अजानतें,  
अनल कषाय शांतिदाय, सुगुरु मोहि हैं ॥ प्रचु० ॥ ४ ॥ सुबोधदाय  
शिव उपाय, बेन हम गहे; लखि स्यादवाद तज विषाद, शुध नय  
रहे ॥ प्रचु० ॥ ५ ॥ दिव्य ज्योत जर उद्योत, गुरु प्रतापतें; मनसूख  
अंग शीवसंग, रंगसें रमे ॥ प्रचु० ॥ ६ ॥

॥ पद ( ४७ ) ॥ राग गजल ॥ घहुंली ॥

सुबोध दाय शिव सहाय, सुगुरु हम लहे, न मान माय सम  
सदाय, वेन सम कहे ॥ सुबोध० ॥ १ ॥ अनंतकाल मिथ्या चाल;  
गहिय दुःख सहे, श्री जैन वेन सुनत सेन, नेन खुल रहे ॥ सुबोध०  
॥ २ ॥ कुगुरु जोर करत सोर, कुगति चहि रहे, ठोरी धर्म करि कुकर्म,  
जर्ममें वहे ॥ सुबोध० ॥ ३ ॥ व्रत पंच धार पंचाचार, आत्म रति लहे,  
पर आश डारी मोह मारी, नहि विकथ चहे ॥ सुबोध० ॥ ४ ॥ विरागी  
त्यागि अरु सोजागी, शुध्द पद गहे, सिध्दांत जाण गुण निधान,  
योग थिर वहे ॥ सुबोध० ॥ ५ ॥ अनेकांत बोध आत्म शोध, मोक्ष  
मग वहे, निजबल अमान शिव विधान, अमित सुख लहे ॥ सुबोध०  
॥ ६ ॥ तजी आर्त्त रुद्र कुगति मूढ, परिसह सहे, धरी धर्म शुक्ल  
ध्यान ज्ञान, पाई थिर रहे ॥ सुबोध० ॥ ७ ॥ न संग अन्य तप सधन्न,  
चरण चरी रहे, जन बोधी शुध्द करत बुध्द, कुमत मद दहे ॥ सु०  
॥ ८ ॥ करे संघ सार कुमग टार, प्रेरते रहे, यह युगप्रधान जिन  
समान, मुनिश ए कहे ॥ सुबोध० ॥ ९ ॥ सुनय विशाल वच रसाल,  
तत्त्व शुध्द कहे, धरो विनय लक्ष होय दक्ष, परम पथ गहे ॥ सु० ॥ १० ॥  
तजी विज्ञाव जजी स्वज्ञाव, काम मद दहे, गुण ठतिश धाम पद वि-  
राम, तिज्ञव शिव लहे ॥ सुबोध० ॥ ११ ॥ करी बहुत मान गुण विधान,  
जय विजय कहे, आण चलत स्तुति करत, मनसूख शिव लहे ॥ सु० ॥ १२

॥ पद ( ४८ ) ॥ राग रेखतो ॥

दिखा मुख आज पीउ तेरा, गया त्रम ताप दुःख मेरा ॥ ए  
आंकणी ॥ जई व्रती सकल शांत मेरी, असीय चरी नेनमें तेरी, टुटा  
पूरजावका घेरा, कीया निज स्थानमें केरा ॥ दीखा० ॥ १ ॥ खबर  
सव अन्यकी पूठे, अकल मोय आपमें सूजे, आनंद अछीत पद मेरा,

करत शठ एठसे मेरा ॥ दीखाण ॥ १ ॥ आकुल मन मोहसें जेनुं, अलख  
बिच ओर नहि चेनुं, नही मोये देन हे केरा, अवरसें लेन कहा मेरा  
॥ दीखाण ॥ ३ ॥ मेरा सब मोयमें चास्या, टली परदासकी आशा,  
शितल कब जाव वन्हीकेरा, चपल पद होय ना मेरा ॥ दीखाणा ॥ ४ ॥  
खबर पीठ समय समय पूठे, मोये परठांय कीम रुचे, जपे मोये किं मंत्र  
मेरा, लहे मनसूख शिव शेरा ॥ दीखाण ॥ ५ ॥

॥ पद ( ४ए ) ॥ राग सींधी ॥

मुजे खीलाय दो बदामी हलवा ॥ ए राह ॥

हमें कराईदो अनुभव पान, मेरा लागे हे ए ध्यान ॥हमें॥१॥ काल  
अनादिका में प्यासा, करता हुं सद्गुरु गुणगान ॥ हमें॥ २ ॥ नाचे  
साचे सांहीब आगे, अब प्रभु दीजे दान अमान ॥ हमें॥३॥ पुद्गल  
जोग तृषीत दीन डुखीया, देखी प्रभु मुज विनति मान ॥ हमें॥ ४ ॥  
सत्ता आतम गुण रत्नाकर, प्रभु बीन अबतक रखा अजाण ॥हमें॥५॥  
पीठष करत गुरु हृदय डहेसे, वचन बिंडु वरसे असमान ॥हमें॥ ६ ॥  
करी कृपा गुरु हृदय प्रेमजर, मनसुख पावे परम कढ्याण ॥ हमें॥ ७ ॥

॥ पद ॥ ( ५० ) ॥ राग इसाई ॥

आव्यां ठे पजुसण आजे पर्व, विधिशुं जिनशाशन सेवो शर्म ॥  
दशनो विनय दिल धारीशुं, मोह मिथ्या शत्रु विदारीशुं ॥ १ ॥ तप  
करी त्रिगुण करो निज शुध, तृप्ति शुधातम धर्मे बुध ॥ दिन रात प्रति-  
क्रम करीए नित्य, गुरु वैयावच्च धरीए चीत्त ॥ २ ॥ सांचलशुं तिर्थ-  
पति कढ्याण, परमातम जाव धरी निज ध्यान ॥ दशविध समाचारी  
चरिए, प्रत्याख्यान शक्तिशुं आचरीए ॥ ३ ॥ बहु संवत्सर परघर  
फरता, दरीया डुरित डुःख जय जरता ॥ संवत्सरी प्रतिक्रमी आवी-  
शुं, घर सहेजे सुमति मनावीशुं ॥ ४ ॥ मनमंदिर पावन सुधरावी,  
समकित सिंहासन प्रभु ठावी ॥ गुण मणिमय आंगी रचावीशुं, शुद्ध



पञ्जव दीप दीपावीशुं ॥ ५ ॥ करी पोषध परमधर्म पोषो, एम अष्टकर्म  
दल मल शोषो ॥ शुद्ध शुक्लध्यान जाज्वल्य धरी, फैंको अडकर्मनी  
जस्म करी ॥ ६ ॥ केवलद्रगज्ञान चरण प्रगटे, होइ अचल विर्य  
कवहु न मीटे ॥ जिनधर्म प्रजाव वधारीशुं, रमशुं मनसुख शिव  
प्यारीशुं ॥ ७ ॥

॥ पद ॥ ( ५१ ) ॥ राग होरी ॥

चित्त चेतन होरी मचाई, मचाई संग सखी सुमति रीजाई,  
चित्त चेतन होरी मचाई; ज्ञान नंदन वन द्रग सुवासधन, मन अक्षि  
परिमल जाई; सुमति गुप्ति मिल पंच वर्णके, शुभ फुल माल बनाई;  
संग सखी खंती रमाई, चित्त चेतन होरी मचाई ॥ १ ॥ नय नृतकार  
अप्पठर नाचत, स्यात्पद ताल मिलाई; पद्म प्रमाण वाजिंत्र नाद  
सुणी, शिव रुची ठकनी ठकाई; प्रशम सरवंग मिलाई, चित्त चेतन  
होरी मचाई ॥ २ ॥ मृडुता जिनगुण सुरजर गावे, रुजुता केसर लाई;  
निस्पृहता घनसार अतर तप, आम्र कोयल टउकाई; मोह रज अतिहि  
उडाई, चित्त चेतन होरी मचाई ॥ ३ ॥ कामदार संयम द्रढ धीरज,  
परम सत्यता आई; संवर सरवर जीवत सव मील, नवदव तपत मिटाई;  
विमल निज अंग निपाई, चित्त चेतन होरी मचाई ॥ ४ ॥ शुद्ध ब्रह्म-  
मय चरण रमणकी, अनुभव बाँट मिठाई, सम्यक् मित्र सहित घर  
आये, मनसुख घर शिव आई, जई जग सुजस वधाई, चित्त चेतन  
होरी मचाई ॥ ५ ॥

॥ पद ॥ ( ५२ ) ॥ कब में साधु स्वरूप धरुंगा ॥ ए राह ॥

विमल सकल निज चेतनता लखी, त्यागि निदान सुध्यान  
वरुंगा ॥ ए टेक ॥ पुद्गल ममता ठंडी शुधातम, सहज अखंड स्वजाव  
धरुंगा; ज्ञान अमान समान सिद्ध ज्युं, वर्तमान रस रिंज नरुंगा ॥ वि०

॥ १ ॥ रहित विकल्प लखी निजमय निज, एक विवेक न कब विस-  
रुंगा; आ जव परजव नर देवादिक, दुष्ट निदानकी टेव हरुंगा ॥ वि०  
॥ २ ॥ रागविना शुद्ध ज्ञान सहित में, वीर्य अनंतयुत कब न मरुंगा;  
सहज अबाधित सादि अनंते, निज परिणामनते न टरुंगा ॥ वि० ॥३॥  
द्रव्य जाव खटकायकि रक्षा, सकल समय संयम समरुंगा; त्यागि बेर  
विरोध जंतुसें, परम दया धरीके विचरुंगा ॥ विमल० ॥ ४ ॥ हांत्या-  
दिक दश पंच महाव्रत, आतम प्रंचाचार चरुंगा; ज्ञायक रूप लखी  
निज आतम, मनसुख शिवसें केली करुंगा ॥ विमल० ॥ ५ ॥

॥ पद ॥ ( ५३ ) राग कनको ॥

चेतन एकही तुं निज रिंजे, और रिंज कबु काम न आवत,  
कोटी जतन जोरे कीजे; सचल समल परद्रव्य क्षेत्र पर-काल जाव तजी  
दीजे ॥चेतन०॥ १॥ नर नारी अरु राज अश्व गज, देवादिक रिंजवीजे;  
सासय संग रहे नहि तेहु, निरर्थक कष्ट तजीजे ॥ चेतन० ॥ २ ॥ कोटि  
दाम अरु काम आराम दे, जो जनको वश कीजे; खीण खीणमें वे उलुट  
पुलटकर, बेरबेर अति खीजे ॥ चेतन० ॥ ३ ॥ औरकी रिंज चहे जन  
मूढा, रिंज शुधातम लीजे; समकाले निज पर केम रिंजे, न्याय सुधा-  
रस पीजे ॥ चेतन० ॥ ४ ॥

॥ पद ॥ ( ५४ )

प्रणाम ठे जिन आणाधारी संघने प्रणाम, साधमीनी संगे अमे  
पाम्या जिन धाम ॥ प्रणाम० ॥ १ ॥ वाणी सुणी जाण्यो शुद्ध हांत्या-  
दिक धर्म, सिद्ध समो चेतनता धारी दूरे नागो जर्म ॥ प्रणाम० ॥ २ ॥  
गुरु पधारी महा उपगारी अमने कर्यासनाथ, जव दरिये बूमंता जाणी  
जाव्यो प्रचुण हाथ ॥ प्रणाम० ॥ ३ ॥ मलबारी लुंटेरा कुमति लुंटे दर्शन  
ज्ञान, स्यादवाद मारग दर्शाव्यो दीधुं अक्षय दान ॥ प्रणाम० ॥ ४ ॥  
पासत्थादिक घर घर जटके कहे दोकडे धर्म, कालीधारे ते तो बूने करे

सदा कुकर्म ॥ प्रणाम ॥ ५ ॥ सेवकने आणा फरमावो जेम लहीए  
 नवपार, शरण हमारे गुरु विण बीजो नही जगमां आधार ॥ प्रणाम ॥  
 ६ ॥ सार हमारी कीजे साहिब तुं साचो सुखठाम, रजा मागी  
 जइए हमो हमारे मुकाम ॥ प्रणाम ॥ ७ ॥

॥ कर्ता चंपालाल ॥ घहुंली ॥ ११ ॥ चोपाई मात्रा १६ ॥

जंगम सुरतरु मुनिवर आव्या, समकित फलदायक मन जाव्या;  
 करीए सामईउ मनरंगे, सुर नर नारी मली सहु संगे ॥ १ ॥ रणझण  
 बत्रीश वाजां वागे, महिमा मेरु पेरे मुनि गाजे ॥ पंच वरण ध्वज  
 शोन्ने सारी, वाजे सेणाई सूखकारी ॥ २ ॥ गोरी खांत्यादिक गुणगावे,  
 गुरुने नगर प्रवेश करावे ॥ पुण्ये आज अमृतघन वरस्या, हर्ष्या नवि  
 जिन वचने तरस्या ॥ ३ ॥ विविध दयातोरण बंधावो, उपशम स्स  
 जल नरी ठटकावो ॥ केसर चंदन अंबर लावो, मृगमद वास बरास  
 वसावो ॥ ४ ॥ पोषधशाले गुरु पधरावो, वाणी सुणवा अहनिश आवो ॥  
 कुमत तिमिरहर रविकर दीपे, शुधनय वचने मुनि जग जीपे ॥ ५ ॥  
 थाल नरीनरी मोती वधावो, विनय वैयावड करी गुण गावो ॥ नर-  
 नव पामी लाहो लीजे, वंठित कारज एणी विध सीजे ॥ ६ ॥ दरशन  
 ज्ञान चरण सुख होवे, आतम परमातम निज जोवे ॥ काल अनंते  
 श्रीगुरु लाध्यो, पुरुषाकार करी सुख साधो ॥ ७ ॥ सघलो वैर विरोध  
 नशावे, साचो गुरु दुःख दोष नशावे ॥ ८ ॥ विण तजीए खोटा ख्यालो,  
 विनय करी कहे चंपालालो ॥ ९ ॥

॥ कर्ता चंपालाल ॥ घहुंली ॥ १३ ॥ ललितक ठंड ॥ मात्रा १७ ॥

जंगम सुरतरु आवीया, प्रगट्याठे पुन्य पवीत्ररे ॥ सामईयू सजी  
 चेटशुं, गित ध्वज मोटा वाजीत्ररे ॥ थालनरी मोती वधावशुं, गाईशुं  
 गुरु गूण मालरे ॥ नगर प्रवेश करावशुं, अति विनये उजमालरे ॥ १ ॥  
 मित्रादिक चउ जावना, वांधि चंद्रोदिका चाररे ॥ केशर चंदन चर-

चिने, करी शुच श्रावकाचाररे ॥ दुविध दयातणुं बांधीए निजघर  
 तोरण साररे ॥ अडबुद्धि मंगल थापीए, गुरु सनमूख जयकाररे ॥ १ ॥  
 कटपतरु फट्यो आंगणे, वरस्या ठे अमृत मेहरे ॥ ताप कषाय बूजा-  
 वशे, शांतिनो दायक एहरे ॥ परम कृपाल दयालुवा समन्नाषि मुनिवर  
 एहरे ॥ आर्जव मार्दव खांतिना निस्पृहता गूण गेहरे ॥ ३ ॥ आतम  
 रम्य रमण करे तजि ममता प्रतीबंधरे ॥ निरालंबता मन सदा नहि  
 परन्नावनो धंधरे ॥ सुमति गुपतिधर सेविने ठोडशुं कर्मनो बंधरे ॥ दृ-  
 शन ज्ञान चरण सधे टाळी प्रमादनो फंदरे ॥ ४ ॥ द्वायक दरशन  
 पामशुं सदगुरु संग सदायोरे ॥ आणा ईष्ठाए चले, मोह तिमिर दूर  
 जायोरे ॥ नरन्नव एम सफल करो लहि निज पुरुषाकाररे ॥ चंपालाल  
 जे मन धरे गुरुगुण मंगलिक मालरे ॥ ५ ॥

॥ घहुंली चौदमी ॥ १४ ॥

लीलुडीसी घोमीने पीलुडो पलाणयो चाबखमो चांपानेरनोरे  
 घोडी ठेल ठबीली ॥ ए राह ॥

गुरु सुत ज्ञानीने स्याद्वाद वाणी, सहज समाधि सुध्यानीरे, गुरु  
 धरम धुरंदा; धरम धुरंदा ने सहज आणंदा, अनुन्नव अमृत कंदारे, गुरु  
 धरम धुरंदा ॥ मुनि समन्नाषी ने परम उदासी, आतम शक्ति प्रका-  
 शीरे ॥ गुरु ॥ १ ॥ अक्षय वस्तु स्वन्नाव प्रकाशे, अनुन्नव ज्ञान विला-  
 सेरे ॥ गुरु ॥ खांति महव अज्जव धारी, निस्पृहता बह्मचारीरे ॥  
 गुरु ॥ २ ॥ नय निक्षेप प्रमाण प्रकाशे जिनशासन उद्धासेरे ॥ गुरु ॥  
 तप संजम शुद्धातम जावे, विचरे उदय प्रजावेरे ॥ गुरु ॥ ३ ॥ पंच  
 महाव्रत पंचे सुमती, मन वच कायनी गुप्तीरे ॥ गुरु ॥ अठार हजार  
 शीलांगना धोरी, जाव लब्धि निजफोरीरे ॥ गुरु ॥ ४ ॥ मोह मिथ्यात  
 अज्ञानने कापे, ज्ञान दरश सुख आपेरे ॥ गुरु ॥ सत्य शौच आर्किंचन  
 पूरा, कर्म विदारण शूरारे ॥ गुरु ॥ ५ ॥ कुमत हठीना मानने चंजे,  
 नवि जिन जिन वचने रंजेरे ॥ गुरु ॥ स्वपर समय जाणे गुण ज्ञाता,

जगबंधव जगत्रातारे ॥ गुरु० ॥ ६ ॥ सायण वायण चोयण करता, पडि-  
चोयण पट धरतारे ॥ गुरु० ॥ पंचाचारज पाळे पलावे, ज्विने जिन  
धर्म सधावेरे ॥ गुरु० ॥ ७ ॥ आलंबन तजी शरण न चाहे, प्रतिबंध  
विना शिव राहेरे ॥ गुरु० ॥ ज्वदव हरवाने मेघ समाना, ज्व तारण  
गुरु मन मान्यारे ॥ गुरु० ॥ ८ ॥ नित खटकायनी रक्षा करता, जे  
ज्वदरियेथी उधरतारे ॥ गुरु० ॥ व्रत आचारना दूषण टाळे, सहुने  
समजावे निहाळेरे ॥ गुरु० ॥ ९ ॥ मान अपमान समान विचारे, मन  
राग रोष नवि धारेरे ॥ गुरु० ॥ धर्म शुक्ल शुध ध्यानना ध्याता, शध  
आतम रमणे रातारे ॥ गुरु० ॥ १० ॥ निज गुण नंदन वनमां रमता,  
करकंठ धरी साची समतारे ॥ गुरु० ॥ इंद्र नरेंद्र नहि मुनि तोळे,  
जिनवर आगम एम बोळेरे ॥ ११ ॥ जगजन पुद्गल एठना जोगी,  
मुनिवर शिव संपति योगीरे ॥ गुरु० ॥ तजि प्रमाद शिव मारग साधे,  
धन जे मुनि पद आराधेरे ॥ गुरु० ॥ १२ ॥ मन इंद्रि दमी थिरता  
धारी, शुध अध्यातम अधिकारीरे ॥ गुरु० ॥ श्री जिनवाणीने सन-  
मानी, हरे दुःख दोहग खाणीरे ॥ गुरु० ॥ १३ ॥ उपशम वरसी ने  
निज गुण दरसी, हरषी शुद्ध सत्ता फरसीरे ॥ गुरु० ॥ जे ज्वि देशना  
सुणवा आवे, मनसुख शिव कमला पावेरे ॥ गुरु० ॥ १४ ॥

॥ विषय विषे सज्जाय ॥ स्वामी श्री मंदह वीनती ॥ ए राह ॥

विषय विष परिहरो प्राणीआ, रमण शुद्ध आत्मनुं धारीरे ॥  
ज्ञान दूरशन चरण मुक्तिनो, मारग दोष नीवारीरे ॥ विषय० ॥ १ ॥  
विषयथी प्राणने पीकतो, अलिक अदत्त अब्रहारे ॥ परिग्रह आरंज बहु  
करे, बांधे अरु नव नव कर्मरे ॥ विषय० ॥ २ ॥ पुरुष नारी वश विषयने,  
रीकवे एक प्रते एकरे; खेद अपमान बहु दुःख सहे, विनय करे राखी  
विवेकरे ॥ विषय० ॥ ३ ॥ जाणे हुं विनयी संसारमां, मुज समो अवर न कोय  
रे; पण ए विनय विषय शत्रुनो, ते सुखदाई किम होयरे ॥ वि० ॥ ४ ॥ विष-  
यथी पाप अठारने, सेवतां डुरगती जायरे ॥ विषय ठे मूल ज्व ज्वमणनुं,

मन वच थीर नहि कायरे ॥ विषय० ॥ ५ ॥ विषयना त्यागथी शिव  
 लहे, लहे शुध दरश चरण ज्ञानरे ॥ सकल विकल्पे दुख दूर टले, लहे  
 शुध धर्म शुक्ल ध्यानरे ॥ विषय० ॥ ६ ॥ दोष बहु नारीना देखतो,  
 विषय वश होय नर दासरे ॥ नारी पण विविध परे पुरुषने, रीझवी  
 चाहे वीळासरे ॥ विषय० ॥ ७ ॥ रमण स्वप्नाव निज आत्मनो, धर्म  
 विण रमणविषय ठेकरे ॥ शुद्ध निज रमण जेह नर लह्युं, तजे पररमण  
 अनेकरे ॥ विषय० ॥ ८ ॥ परपद रमत चउ गति जमे, निज पद रमत  
 कढ्याणरे ॥ त्यागी प्रमाद विषय ठोकीए, एम तुं होई सूजाणरे ॥  
 विषय० ॥ ९ ॥ विषय वश निरय तिरिय गति जम्यो, विषय वश  
 जंतुथी वयररे ॥ विषय वश सुगुरु उवेखीया, धर्म रयण हायो बहु  
 पेररे ॥ विषय० ॥ १० ॥ विषय वश धर्म दातारनो, विनय नहि होय  
 सन्मानरे ॥ आतम हित वचन नवि रुचे, अहट दूहट अशुच ध्यानरे ॥  
 विषय० ॥ ११ ॥ चित्तमां चेन वले नहीं, विषय विण चित्त उदास रे  
 लाज लहे विषयनो जेहथी, होई रहे तेहनो दासरे ॥ विषय० ॥ १२ ॥  
 फरस रस गंध ने रूप ठे, शब्दयुत वचन ए पंचरे ॥ अथिर परतंत जगत  
 जीवनी, एंठ दुःख खाण दुःखसंचरे ॥ विषय० ॥ १३ ॥ ईद्र आदिक  
 न राखी शके, चाहे जिन वचन अजाणरे ॥ रोग उपचारने सुख गणे,  
 विषयी लहे त्रिजग अपमानरे ॥ विषय० ॥ १४ ॥ नरजव लह्यो महा-  
 पुण्यथी, विषय तजी सेवो जिन धर्मरे ॥ आतम गुण रमण थिर करो,  
 लहो मनसुख शिवशर्मरे ॥ विषय० ॥ १५ ॥

॥ “ मनसुखदाते ” पोताना मददगार शिष्यने खमावेला ठंद ॥

॥ शीखरणी ठंद ॥

। s s s s । । । । s s । । । s

नमो शांती देवा, करत सुर सेवा नित प्रते, सवे शांती दाता,  
 परमगुरु त्राता सहू, प्रते; नमोस्तू ओं शांती, विमल कमलानो तुंहि

पती; हरो विघ्नो सर्वे; तुज अतिशयेथी नित प्रती ॥ १ ॥ मटे अंत्रायो  
 सौ, सकल गणि केरी नजरथी; सधे लब्धी पंचे, सुगुरुपद केरा शर-  
 णथी; हमारा बंधूने, सकल समयेमां सुखकरो; खमावुं आजे हुं, सुमति  
 सहु मोटी मन धरो ॥ २ ॥ कर्या अप्राधो में, मन वचन काये अशुच जे;  
 कदा रागे रोषे, अहितकर कीधुं तुम प्रते; कह्या खोटा बोलो, तुज मुज  
 परार्थे चुल करी; मने ना आणो ते, परम थिरताए चित धरी ॥ ३ ॥  
 कर्या अंत्रायो जे, विकल मतिए जे कुमतथी; खमो हेमाधारी, जिन-  
 वचन सेवो सुमतथी; सआलोचुं नंदू, गरहि गुरुशाखे प्रतिक्रमुं; न थाए  
 को वारे, जिन वचन राखी मन दमुं ॥ ४ ॥ तुमे बालाचोला, पण अव-  
 सरे में नवि लह्युं; न संजार्थुं में तो, जिन वचन जूली करि कह्युं; हवे  
 शिक्षा राखुं, जिन वचन साचुं अनुसरुं; नशाव्यो मिथ्यातें, चरण शरणे  
 तो थिर करुं ॥ ५ ॥ सदा हुं संजालुं, अखय सुखमां तुं पद धरुं; कर्या  
 जे आजारो, सकल कदि ते हुं न विसरुं; पिता माता ज्ञाता, तुम सम  
 न कोना हितकरु; मने अमृत दीधुं, हित पुरण तेतो चितधरुं ॥ ६ ॥  
 तमारा कामोमां, मन वचन सूत्रो बहु गम्यां; ससर्वे जव्योने; सयल  
 सुख माटे मन रम्यां; नमो हुं औंकारे, गजतमनि लब्धी जय करो; न मे  
 शत्रू मित्रो, सकल जवि सत्ता शुध वरो ॥ ७ ॥ सवे जव्यात्माओ,  
 चरम जिन नामे शिव वरो; सदा ज्ञावो पावो, विमल निज आत्मा जय  
 हरो; पराया दोषोने, अवगणि गुणो द्यो थिर थई; सुण्यां तें सन्माने,  
 गुरु वचन होजो सुखमई ॥ ८ ॥ मटे व्याधी सर्वे, धरम जिन केरा  
 चरणथी; चुदयो ते सौ टाली, समय शिव कामे करि रती; नमो अर्ह-  
 ताणं, वलि सयल सिद्धा सुखकरु; नमो आचार्याणं, सुमुनि उवझाया सु-  
 तधरु ॥ ९ ॥ न चूको को माने, विनय जस प्यारो गुण ग्रहे; विने आवे  
 ज्ञानो, दरश अखये ते पण लेहे; जिणंदा चोवीशे, अखिल जविना  
 तो जय हरो; रुडे ध्याने ज्ञाने, मनसुख सुशांती शिव वरो ॥ १० ॥

॥ “शिष्ये” गुरुप्रत्ये खमावेला ठंद ॥ शीखरणी वृत्तम् ॥

तमो आदी नाथं, नविक जिवना सौ जयहरो; दया दाने दाता,  
परम गुरु त्राता सुखकरो; नमो धर्म दाता, मन वचन शुद्धे चितधरुं;  
कर्या आचारो जे, त्रिकरण त्रिकाले न विसरुं ॥ १ ॥ कर्या अप्राधो  
में, डुरित सह्य आगे सविकहुं; जुठे माने क्रोधे, रतिअरति जोगे  
विकल हुं; जये लोत्ते माये, मद हिलन माठी परिणते; सदा रागे  
रोषे, मिसकरि डुगंढया गुरुप्रते ॥ २ ॥ अजाणे जाणीने, अवि-  
नय अनर्थे तनुमते; मने वाचे काये, दुःख करि कराव्युं अनुमिते;  
खरुं बोढ्यो ना हुं, अहितकर चास्यां वचनथी; न कीधी श्रद्धा जे, मुज  
सुहित माटे पण हती ॥ ३ ॥ हठे में जूठानां, वचन हठवादे चितधर्यां;  
हतां मारे हेते, सुवचन हठे ते नविग्रह्यां; थयो हुं तो वांको, वच चप-  
लतानां पण कह्यां; परीक्षा ना कीधी, अवसर गमाव्यो दुखसह्यां ॥४॥  
श्रमो मारे माटे, करिय मुजने तो हित ठते, न मान्या आचारो, वलिय  
श्रम आप्यो तुम प्रते; न वैयावहे हुं, रहि सदगुणेने अवगणी; कीधी  
आशातनाओ, शुध बुध न राखी हित तणी ॥ ५ ॥ विराध्युं जे जे  
ते, विविध धुरथी में अनुचिते; कुटुंबावेशे में, सुविहित न धार्युं थिर  
चिते; ठकाया प्राणेने, विरुध कर्युं में तो दुविधथी; तमारी आज्ञाने,  
अवगणि सदा जे सरवथी ॥ ६ ॥ विगेरे दोषो जे, तुम मुज परार्थे  
डुरित ते; खमो खेमावंता, सकल मुज दोषो शुचचिते; सदा लोचुं नंदू,  
गरहि गुरु शाखे प्रतिक्रमुं; मिठामी दुःकृत्यो, सुगुरु नव तारु नमि-  
नमुं ॥ ७ ॥ न दाता एवो को, विकल जनने जे थिर करे; रहे जे आणामां,  
परम सुख पामे नव तरे; लहो कढ्याणो तुं, अखिल जन तारो तुम तरो;  
हमारा दोषोने, मनथि दुर फेंकी हित धरो ॥ ८ ॥ पिता माता त्राता,  
सकल सुखदाता तुहिज ठे; सदा शणे राखो, कवहु न विसारो प्रनु-  
मने; सदा होजो साथो, जबदग सुसिद्धि पद वरुं; वचावो ओषेथी,  
सुविधि सुख आपो शिवकरु ॥ ९ ॥ शुधात्मा योगे जे, निज अनुचवे



जे थिर रहे; पुज्या देवे जेने, सुमतिजिनचंदा कर ग्रहे; पुजे चौबीशेने,  
शुध धरम पामे सुख व्रहे; पुजो शांतीनाथं, मृगमद सुवासे  
महमहे; ॥ १० ॥

### ॥ चैत्यवंदन ( १ ) द्रुतविलंबित वंद ॥

रुषज आदि जिणंद नमीजिए, विमल आतम अमृत पीजिए;  
अजित संजव वाणि रुदे धरो, सि अजिनंदन देव सुहंकरो ॥ १ ॥  
सुमति चंद नमो जव तारणो, डुरित मोह महाजय वारणो; नमत देव  
मुणींद सुहावनो, जिम जवार्णव पार उतारणो ॥ २ ॥ जगत जंतु महो-  
दय कारणं, कुमत मान अज्ञान विदारणं; सुहित ज्ञान सुधारस पावनो,  
हरत क्रोध महानल दावनो ॥ ३ ॥ अहित झेर निवारण जांगुली,  
अमृत वाणि सदा सहु मंगली; जविक अंबुज जोति प्रकाशनं, जयति  
जानु सुधातम चासनं ॥ ४ ॥ सुत समर्पण तत्व प्रकाशनो, तपत तेज  
सदा जिन शासनो; मनसुखे शिव संग विलासनो, शुकल ध्यान विकल्प  
नशावनो ॥ ५ ॥

### ॥ अजीतनाथस्वामीनुं चैत्यवंदन ( २ ) द्रुतविलंबित वंद ॥

सकल मोह विनाशन कारणं, डुरित दोष निवारण तारणं,  
पुरण ज्ञानघनादि गुणालयं, परम वंठित पूरण ए स्वयं ॥ १ ॥ धरम  
ध्यान सुधा घन गर्जितं, शुकल मोह महा मल वर्जितं; ममत नाशन  
शक्ति प्रकाशनं, अखिल तेज प्रजाकर चास्करं ॥ २ ॥ सकल आतम  
शत्रु विनाशनं, अचल उज्वल जोति विलासनं; सुचित्त नंदन ए सुम-  
हावनं, अखय कामित पूरण कामदं ॥ ३ ॥ तिरथ कारण सारण धारणं,  
जुरि कषाय बुझाव महाघनं; रुज हरो जय सात नशावनो, तन अजंग  
उमंग सुपावनो ॥ ४ ॥ सहज नीस्पृह जाव सुजावितं, परम मंगल दायक  
शांतिदं; अजित कर्म विदारण पावनं, मनसुखे शिव खेत सदा ध्रुवं ॥ ५ ॥

॥ सञ्जवनाथनुं चैत्यवंदन ( ३ ) पुतविलंबित ठंद ॥

विमल सञ्जव वंदन कीजिए, परम अमृत आपहि पीजिए; धरम पावन ज्ञाव सञ्जावनो, नृजव पावत दाव शुधात्मनो ॥ १ ॥ सकल पाप विनाशन कारणं, दुरित दोहग मोह निवारणं; अचल उज्वल आत्म स्वज्ञावितं, परम शर्म सुहावन लावितं ॥ २ ॥ विमल ज्ञान अनंत प्रज्ञावनो, नमत देव समूह सुहावनो; जयति आदिश्वरं शिव दायकं मनसुखे करि आत्म निरंजनं ॥ ३ ॥

॥ विमलनाथनुं चैत्यवंदन ( ४ ) माखिनी ठंद ॥

विमल विमल वाणी, शुरू सिद्धांत जाणी; सकल दुःख नशावे, ध्यावतो शुक्ल ध्यानी ॥ १ ॥ सगुण रमण पावे, मोह मिथ्यात जावे; शिव सनमुख आवे, परम आनंद पावे ॥ २ ॥ पुनरपि जव नावे, शुरू बुद्ध स्वज्ञावे; मनसुख सुख लावे, शुरू स्याद्वाद जावे ॥ ३ ॥

॥ शांतिनाथनुं चैत्यवंदन ( ५ ) मंदाक्रांता ठंद ॥

पूरे पुत्रे नरजव लही, मोहनो नाश कीजे; स्याद्वाद सत्ता सकल विमले, एक आणंद लीजे ॥ १ ॥ नाशे दूरे विपति सघली, सार शांती रमीजे; द्वांती मुक्ति पद पुरणना, लाजथी काज सीजे ॥ २ ॥ शांतीनाथ चरण कमले, वंदना नित्य कीजे; सिद्ध्या सिद्धे मनसुख गुरू, संगमां रंग जीजे ॥ ३ ॥

महावीरस्वामीनुं चैत्यवंदन ( ६ ) वसंत तिलका ठंद ॥

आत्मा सदा विमल पज्जव आप रूप, रीझयो रमायुत रहे निज कार्य रूप; नावे विज्ञाव विविधान्य रुपे कदापि, आत्मा स्वशक्ति निज अर्थ न अन्य व्यापि, सर्वे सुरासुर पुजी तसु पाद पद्मं, नाशे विज्ञाव दुर आतम केलि सद्धं; देवादि देव वर वीर जिणंद देवा, कीजे सदा मनसुखे नित शुरू सेवा ॥ १ ॥

## ॥ महावीर स्वामीनुं चैत्यवंदन ( ७ ) ॥

श्री जिन आणा सेवीए, आणाविण सवि बंध; आणा विण  
अनादिनो, करे कर्म बहु बंध ॥ १ ॥ परवशताए दुःख सहां, जिन  
आणा विण अंध; दुःख कारण जेजे सदा, सेवंतो मति मंद ॥ २ ॥  
मिथ्या अव्रत कषाय ठे, जोग क्रिया परमाद; कर्मबंध कारण तजी,  
शिव कारण नित साध ॥ ३ ॥ दर्शन विरति अकलुषता, थिरता जोग  
अप्रमत्त; शिव कारण दाख्यो सदा. श्री जिन शासन सत्त ॥ ४ ॥  
तजी ममता समता नजो, दया द्रव्य शुद्ध ज्ञाव; आणा वीर जिणं-  
दनी, ठे नवसागर नाव ॥ ५ ॥ मनसुख शिव संपत्ति लहे, सेवे आणा  
शुद्ध; दर्शन ज्ञान चरण विषे, निर्मल जेनी बुद्ध ॥ ६ ॥

## ॥ चैत्यवंदन ( ८ ) मालिनी वृत्तम् ॥

सयल जिन वरींदा, केवलानंद कंदा, चउविश वरनाणी, वंदिता  
इंद्र चंदा, परम धरम दाता, जंतुना हेतु त्राता, सकल जिव दयाना,  
बंधु ठे जे विख्याता ॥ १ ॥ वर अतिशय शोभा, तेज कांती प्रतापो,  
अजिनव शशि ज्ञानू, दासने दर्श आपो, कुमत हठ नशावे, शुद्ध  
स्याद्वाद वाणी, नविक विमल होवे, जे जने ते पिठाणी ॥ २ ॥ अचल  
विमल सत्ता, एकमां एक ज्ञावे, अखिल थिर प्रजाया, शुद्ध ध्याने रमावे,  
परम विरज धारी, त्यागिने दुष्ट ज्ञावो, मनसुख शुध ध्याने, शीव संगे  
रमावो ॥ ३ ॥

## ॥ परमगुरुनुं चैत्यवंदन ( ९ ) हरिणी वंद ॥

अक्षर १७ ( न समरस लेगा )

परमगुरुने प्रेमे वंदी, लह्यो शुचि तत्वने ( ज्ञावने ), परसमयने  
त्यागी सेवुं, निजात्म स्वज्ञावने, परधर नम्यो मोहे मूंजी, अनंत उपा-  
धिमां, सुगुरु विण ना साचातत्वो, लह्यां त्रम ज्ञावमां ॥ १ ॥ विषय रसमां  
लोचायो हुं, न आवि सुथीरता, चरण सरणे आव्यो त्हारे, जुलो न  
भने पिता, मनसुख सुखे साधे सिद्धि, नवे निधि आपमां, नरनव लह्यो  
ते हुं साधू, सहेज क्णकमां ॥ २ ॥

॥ सुबोध प्रकाशक बंद ॥

परम सकल मंगल विषे, वर प्रधान जिन धर्म, कलिमल कलुष  
निवारिने, दे अनुपम शिवशर्म ॥ १ ॥ अहिंसा संयम तप, ड्रव्यत्राव  
सुविधान, सम्यक् रीते आचरे, धर्म सकल सुखखाण ॥ २ ॥ जेह  
पवित्र सुधर्ममां, सदा त्रियोगे लीन, देवादिक तस पदकजे, नमे  
ऋक्ति धरि पीन ॥ ३ ॥ मणि गणमां चिंतामणी, ग्रह गणमां जिम  
त्राण, तरु गणमां जिम सुरतरु, गुण गणमांहि सुज्ञान ॥ ४ ॥ ज्ञान  
सुगुरुथी संपजे, गुरु सम को न दयाल, प्रेम प्रतिते सेवतां, लहिये गुण  
मणि माल ॥ ५ ॥ दया न्याय वली तत्त्वनो, कहिश शुरू अधिकार,  
सुणि सहहे आदरे, ते लहे जग जयकार ॥ ६ ॥

॥ दुतविलंबित बंद ॥

॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥  
पुरण कामित दाई जिनेश्वरं, डुरित नाशन शासन चास्करं,  
सकल कामित कारण कारकं, मुगति कारण कारक धारितुं ॥ १ ॥  
अखिल काज सधे खट कारके, मुगति हेतु लहो सुविचारके, उचित  
कारक कामित देतु हे, दुषित कारक काम न होतु हे ॥ २ ॥ उनत  
कार्य चहे विण कारके, सहत क्लेश सदा ऋव धारके, विदित मोह  
महामल नाशनं, उचित कारक सिद्धि प्रकाशनं ॥ ३ ॥ सुमति कारक  
कार्य सुधारिए, डुरित मोह महा मल वारिए, कुमत मान कुध्यान  
निवारजो, सुमति ध्यान विज्ञान सुधारजो ॥ ४ ॥ सुनय बोध प्रकाश  
उदासनं, सुत महार्णव आदर सिद्धिदं, सुनय चार निक्षेप विचारजो,  
शुध प्रमाण सदा मन धारजो ॥ ५ ॥ सुत नयाब्धि महाबल धारितं,  
दुषित मोह विदारि महारिणं, विरज शक्ति शुधात्म सुधारिए, घन  
महादल चार विदारिए ॥ ६ ॥ दरव पंच सदास्ति वखाणिए, नव  
पदारथ शुरू पिठाणिए, शुध नयातम आतम जाणिए, मुगति कारण

शुद्ध प्रमाणिए ॥ ७ ॥ विविध जंग सतादि सहू लखो, शुद्ध सदागम  
 अमृत ए चखो, जगतजंतु महोदय कारणं, सुत महाजय सात निवा-  
 रणं ॥ ८ ॥ विमल ज्ञान सदा जव तारणो, दरश मोह विदारण कारणो,  
 नृजव दुर्लज आर्य जलो जयो, शुद्ध विचार विनाज वृथा गयो ॥ ९ ॥  
 श्रीजिन चंद्र करे जय संघनो, उदित ज्ञानुं प्रकाश जिणंदनो, अति-  
 शयो वर चोतिश शोचता, जविक जंतु जणी बहु थोचता ॥ १० ॥  
 चउ निकाय मली बहु देवता, विविध पावन जाव सुसेवता, धवल  
 चोविश जोडि सु चामरं, दिशत ठत्रत्रयी शिर उपरं ॥ ११ ॥ ईहविधे  
 बनि शोच अतीघणी, गयण गाजत दिव्य प्रजू ध्वनी, जरम जांजत  
 रिंजत परखदा, विमल बोध लहे तव सौ मुदा ॥ १२ ॥ परम नायक  
 दायक मोक्षना, हरत मान महा मति अंधना, मनसुखे शिव वास रहो  
 सदा, धरम पावन जावनते मुदा ॥ १३ ॥

### ॥ जीवतत्त्व ॥

सवैया त्रेवीशां—चेतन जानत देखत जोगत, शुद्ध अशुद्ध  
 रहे उपयोगी । शुद्ध लखे तव शुद्ध रहे परजाव गहे परजावको जोगी ॥  
 शब्द न रूप न स्वाद न गंध न, फास न मूरति घाट न कोई । चेत-  
 नता उपयोग सदाधिर, पुद्गल संगथि मूरति होई ॥ १ ॥

सवैया त्रेवीशा—आप जुखी परजाव चहे पण, चेतनता निज  
 शक्ति अनंती । नित्य सदा पुरवापर जानत, कर्तुत जोगकि शक्ति  
 स्वतंती ॥ हे निरवाण विजाव अजावधि, संयम ज्ञान लही शिव पावे ।  
 ए जिवतत्व लखे नर सहहि, सम्यक दर्शन शुद्ध उपावे ॥ २ ॥

सवैया एकतीसा ( मनहर ठंड )—द्रग ज्ञान उपयोगी;  
 शुद्ध निज जाव जोगी, करता हुं आप मारा स्हेज जाव दावनो । देव  
 गुरु धर्मपणुं, निश्चे जुडु नहि गणुं, हुंतो रहुं साक्षी सदा, लोकालोक  
 जावनो ॥ आप रूप चूले जेह, तेह ठे मिथ्यात गेह, चूले जीव जेह

तेह, विज्ञाव विकासनो । गुरुजीनी म्हेर थई, मिथ्यामति नाशी गई,  
चेतना चेतनमयी, पज्ञाव विदासनो ॥ ३ ॥

सवैया एकतीसा—द्रव्य परजायारथ, वचनना नथ सप्त, वस्तु  
वस्तुमां विचारो, निक्षेपा जे चार ठे । जंग साते पक्ष आठे, व्यवहार  
निश्चे वाटे, उदासीन मारगमां, समय ए सार ठे ॥ प्रवचन लही शुद्ध,  
चालो मोक्षमार्ग बुरू, शुद्धातम अविरुद्ध, जीते जयकार ठे । आरजमां  
पुण्ये आई, चेती करो चतुर्गई, सफल करो सजाई, चेतो तो न वार ठे ॥४॥

सवैया एकतीसा—ज्ञान गुण सहीत लखे ठे जीव आपा-  
पर, पुद्गल ते आपापर लखे नही सर्वथा । चेतना ते जीव सदा, पुद्-  
गल अचेत जरु, एह तो अंतर वरु जेद रह्यो ठे यथा ॥ जिहां लगे  
अनुभव, आवे नही तिहां लगे, मिथ्यातनो जोर रहे, रूप लखे  
अन्यथा । समकीत आवे जब, जरम नशावे तब, जीव स्वस्वभावतणो,  
करता ठे सर्वथा ॥ ५ ॥

### अजीव तथा पुण्यपाप अधिकार.

सवैया एकतीसा—गतिस्थायी धर्म कह्यो, धितिनो अधर्म  
लह्यो; अवकाश आपे तेह, आकाश वखाणिए । त्रणे ए अरूपी नित्य,  
जैननी सिद्धांत रीत; केवलीना वचनथी, प्रतीते प्रमाणिए ॥ जीव  
उपयोगवंत, ज्ञान ड्रग चर्ण संत; स्वामी कर्ता जोक्ता आदि, अरूपी  
पिठाणिए । पूरणगलनवंत, रूपी प्रमाणु अनंत, खंधादि प्रदेश सादि-  
संत एह मानिए ॥ १ ॥

सवैया एकतीसा—धर्माधर्म नन्न जीव, पुद्गल पंचे सदीव;  
अनादि अनंत एह द्रव्य अस्ति जाणीए । परावरतन धरे, पंचना पर्याय  
फरे; काल द्रव्य एह उपचार करी मानीए ॥ निश्चे परिणामी सहु द्र-  
व्यना पर्याय बहु; निज निज समयमां, प्रवृत्ति वखाणीए । कोईकेनो कर्ता  
नही, परगुण करे नही; परिणमे निजमयी; शुद्ध मन आणीए ॥ ३ ॥

सवैया तेवीसा—धर्म अधर्म विहाय सकालज, पुद्गल पंच अजीव कहें है । हे करुणा निज जीव सवे पर, ते शुभ बंधत सूख लहें है ॥ पाप सथान अठार कहे नर, सेवि महा मति मूढ कहावे । वेदन चेदन तामन तर्जन, आदि सदा दुखदंरु उपावे ॥ ३ ॥

### न्याय अधिकार

सवैया एकतीसा—कर्ता परिणामी द्रव्य, कारज ठे निज कर्म; प्रजाय फरे ते क्रिया, वस्तु एक जाणीये । व्हेवारे चेद अनेक, निश्चे वस्तु एक ठेक; स्यादवाद लखी चाई, यथातथ्य मानीए ॥ एक कार्य कर्तव्यता, बेहु मली नहीं तथा; एक तो न करे कदा, बेना जूदा मानीए । चेतनता चेतननी, समकित्ती शुद्ध करे; मिथ्याती अशुद्ध राग, द्वेषादिक जाणीए ॥ १ ॥

सवैया एकतीसा—शुद्ध ज्ञाव चेतना अशुद्ध ज्ञाव चेतनानो, करता ठे जीव पण अन्य नहिं मानीए । पुद्गल वर्गणानो, पुद्गल करता सदा; वर्गणानो कर्ता कदा, जीव नहि मानीए ॥ रागादिनो मिथ्यामती, स्हेज धर्मनो सुमती; करता स्वज्ञाव चेद, ज्ञानथी पिठाणिए । जीव जे ममत्व करे, राग द्वेष ज्ञाव धरे; शुभाशुभ पुद्गल ते, थाय एम जाणीए ॥ २ ॥

सवैया एकतीसा—वर्ण गंध रस फास, संठाणादि करे खास; थूल सूक्ष्मादि चेद, पुद्गलना ठे घणा । सर्दण पडण करे, उद्योत ठायादि धरे; चेद तो अनंत एना, सूत्रो मांहेथी सुण्या ॥ पुद्गलनी चाले करी, काल ए ठे वात खरी; पंचथी न चिन्न काल, ज्ञानी मुनिए जणया; आपणा स्वज्ञाव मांहे; कर्ता क्रिया कर्म रहे, कोई केनो कर्ता नही; स्हेजथी सदा बणया ॥ ३ ॥

सवैया एकतीसा—जीव ज्ञानादिक धरे, वर्णादि पुद्गल करे;  
कोई केनूं कारज तो, न करे कोई कदा । लुण करे खाराशने, साकर  
करे मीठाश; साकर न खारुं करे, लुण खारुं ठे सदा ॥ एकमां न बे  
स्वज्ञाव, बंनेनो न एक ज्ञाव; जिन्न ड्रव्ये जिन्न ज्ञाव, शाश्वता रहे  
मुदा । जीव धरे ठे विज्ञाव, अनादि मिथ्या स्वज्ञाव; जरु कार्य मानी  
आप, मोही लही आपदा ॥ ४ ॥

सवैया एकतीसा—वर्ण गंध रस फास, जीव नहीं करे तास;  
ज्रमथी में कर्यु माने, एहतो मिथ्यात ठे । वस्तु स्वस्वज्ञाव धरे, संठाण  
आकार फरे; जीव पुद्गल वने, प्रजाय ए थाय ठे ॥ कंचनना घाट फरे,  
मूल स्वज्ञाव न टरे; वस्तु विना वस्तु नवी, कोईथी ना थाय ठे ।  
एक एकना कारण, सही पण कर्त्ता नहीं; पर कारणे प्रजाय, फेरफार  
थाय ठे ॥ ५ ॥

सवैया एकतीसा—चेतननी चेतना, रोकाय जेह पुद्गलमां,  
तेथी ज्ञानावर्णादिक, नाम तेह पामे ठे ॥ दीवाने जे ढांके तेने, दीवानुं  
ढंकण कहुं, दीवो अने ढंकण ते, जूदा नाम पामे ठे ॥ एथी ड्रव्य-  
कर्म रुपी, कह्या जीनवर देवे; रागादि अरुपी मिथ्यातीना परिणाम  
ठे ॥ जीव जो ममत्त तजे, शुद्ध निज रूप जजे, रागादिक वस्तु नाहि,  
जीव शिवधाम ठे ॥ ६ ॥

सवैया तेवीसा—ज्ञान विना कबु न्याय न दीसत, न्याय  
विना नहि ज्ञान न ध्यानं ॥ ज्ञान दया विण होत न संयम, हे जिन  
मार्ग सुज्ञान प्रधानं ॥ सम्यक ज्ञान विना नहि चारित्त, हे किरिया  
सवि ज्ञानथि साची ॥ ज्ञान विना किरिया दुख दायक, संयम ध्यान  
विधी सहु काची ॥ ७ ॥

सवैया तेवीसा—राज करे नृप न्याय लखे नहि, तास प्रजा  
किम सूख उपावे ॥ श्री जिनराजको न्याय अनंत लही मनसूख



सुसंपत्ति पावे ॥ कूमति ज्ञान न न्याय न जानत, ते जगजंतु विरोध उपावे ॥ बूडत आपहि और बुडावत, नर्क निगोद महादुख पावे ॥७॥

सवैया तेवीसा—माहणता उपदेश करी प्रभु, सौ जगजंतु विरुद्ध नशावे ॥ ज्ञान सुन्याय लहे समजावधि, केवलदर्शन ज्ञान उपावे ॥ वीर्य अनंत लहे जिय शाश्वत, पूरण व्हे परब्रह्म कहावे ॥ काल अनंत रहे अनबाधित, ते चक्रचक्रमें फेरि न आवे ॥ ९ ॥

सवैया तेवीसा—लोक सवे विषयारस कारण, न्याय विचार अशुद्ध गहे है ॥ सम्यक ज्ञान विना सुख नावत, कर्मको बंधिके दुःख सहे है ॥ सम्यकज्ञान सवे दुख चूरत, पावत आपकि रिद्धि अनंती ॥ काल अनंत अबाध रहे जिय, जोगत शांति अनंत स्वतंती ॥ १० ॥

सवैया तेवीसा—पुद्गल पज्जवको निज जानत, मानत जोगत रंग उमंगे ॥ ज्ञान अनंत निदान चिदात्म, बंधत कर्म अनंत सवंगे ॥ सा मित्त ओरकों आपकों जानत, ज्ञान न न्याय न शुद्ध लहो हे ॥ ग्राहक व्यापक रक्षक चेतन, द्रव्यहि द्रव्यको ज्ञानी कहो हे ॥ ११ ॥

सवैया तेवीसा—अंग न संग न और न औरकुं, द्रव्यकों द्रव्यसुं जिन्न नहीं हे ॥ है गुण पज्जव द्रव्य अजिन्न सखेत सकाल अजेद सही हे ॥ आवत जावत लैवत देवत, कोइ न कोइको ना करता हे ॥ जर्मथि चूलि फिरे नव मूरख, न्याय विना दुःखकों चरताहे ॥ १२ ॥

सवैया तेवीसा—रम्य न पुद्गल एंठ अनंतकि, रम्य सचेतन शक्ति अनंती ॥ स्हेज स्वतंत्र लखे जव आपहि, जोगत ज्ञायक व्यक्ति अत्यंती ॥ एक अत्यंत अजंगसु रंगसु, आपहि आपकों जानि विदासे ॥ जारिके कर्मकि खाख उडावत, अष्ट गुणात्म सिद्धि प्रकाशे ॥ १३ ॥

सवैया तेवीसा—औरकि रिद्धि न औरहि पावत, जे जड आपकि रिद्धि न देखे ॥ औरकि रिद्धिको लेवन ईछत, रिद्धि स्वजाविक जोग अलेखे ॥ आत्मको अधिकार न जानत, औरनके अधिकारि जये हे ॥ चूलि स्वतंत्र समाधि सुराजको, शत्रुकि त्रासकों लेण गये हे ॥ १४ ॥

सवैया तेवीसा—द्रव्य स्वकाज करे निज आपहि, और स्वजाव करे नहि औरे; कारण कारक कारज आपहि, द्रव्य अचेद स्वजाव सगैरे ॥ द्रव्यथि जिन्न नहीं गुण पज्जव, औरके खेत न जाय न आवे । काल अनंत रहे गुण पज्जव, है परिणामिक स्हेज स्वजावे ॥ १५ ॥

सवैया तेवीसा—स्यात्पद नित्य स्वजाव कहे गुरु, पज्जव स्यात्पद होइ अनित्ये । स्यात्पद एक अनेकहि द्रव्यकि, स्यात अचेद सचेद अमीते ॥ उत्पत वीगम ध्रुव रहे इक, और उपाय न और विनासे । काल अनंतकि रीत यहै जिन, शासन केवल बोध प्रकाशे ॥ १६ ॥

सवैया तेवीसा—वक्त अवक्तव चेद अनंतहि एक अनंत स्वतंत स्वजावे; ठोडि मर्याद न घाटत बाधत, द्रव्य सपज्जव गुण उपावे ॥ औरकि पज्जवकों न उपावत, स्हेज स्वजावकि चाल तुं जाणे; औरकि शक्तिकुं और न जोगत, सम्यकवंत सुहीत पिठाणे ॥ १७ ॥

सवैया तेवीसा—ग्राहक कोइको कोइ न होवत, द्रव्य सग्राहकु आप ग्रहे हे ॥ रक्षक अन्यको अन्य न होवत, राखि स्वजाव स्वद्रव्य रहे हे ॥ व्याप न व्यापत द्रव्य दुजे कव, व्यापक व्याप अचेद रहे हैं । सम्यकवंत रमावत आपहि आपकि शक्ति सरम्य रमे हैं ॥ १८ ॥

सवैया तेवीसा—चेतन दान अनंत सदायक, लायक लाज अनंत लिये हैं ॥ जोगत जोग अनंत सपज्जव, गुण गणे उपजोग रहे हैं । पंडित वीर्य अनंत स्वजाविक थीर अनंत सदाहि धरें हैं । ले सुत धर्म समाधि तदा नर, शुद्ध सुधा शिवसंग वरें हैं ॥ १९ ॥

सवैया तेवीसा—ज्ञान सुन्याय जरे जिन देवहि, न्याय दया सविरुद्ध मिटावे । न्याय सुज्ञान दया करी सद्गुरु, जव्य अनंतके दूःख नशावे ॥ बैन खरे चित्त धारि तुं हे बुध, न्याय दया शुध ज्ञान जरे हैं । ए विण देव नशास्त्र न सद्गुरु, देवगुरु वच जूठ ठरें हैं ॥ २० ॥

सवैया एकतीसा—ज्ञान तिहां न्याय होय, न्याय तिहां दया होय; दया तिहां संजम ठे, एम तत्त्व जाणिये । देवगुरु शास्त्र खरा, परखीने मन धरो; एह जग तारण, त्रीतत्त्व मन आणिये ॥ ज्ञान नहि न्याय नहि, दया नहि संजम न; विरुद्ध चलावे तेने मिथ्यामति मानिये । जेनो जेवो जाणो बोद्ध, तेवो तेनो करो तोल, झवेरीनी पेठे प्यारे, तत्त्व तो पिठाणिए ॥ २१ ॥

सवैया एकतीसा—परख ए साची करो, जव वन केम फरो, विरुध निवारो जग जंतु हित धारीने । समकीत दायकथी, जवदव जय नथी; शुद्धतामां नावे मोह नाशी जाय हारीने । स्यादवाद वाणी गुण खाणी जाणी प्राणी तुमे; दोष सर्व टाळी गुण, ग्रहो मन धारीने । चेतना संजारे ज्यारे, मिथ्यात न आवे त्यारे, दोय जेद दया धारो, मोह चोर मारीने ॥ २२ ॥

सवैया एकतीसा—पज्जव अनंत रह्या, वस्तु वस्तु मांहि कह्या, चार तो निह्नेपा तेना, मूख्य परजाय ठे । द्रव्यथी ते जिन्न नथी, नाम द्रव्य जाव कथी, निश्चे एक जाणो नक्की, जिन्न नवि थाय ठे । कोईमां केनो न आवे, न जाये केमां कोईनो, प्रजाय अजिन्न जाणे

मिथ्या तम जाय ठे । न्यास ए वस्तुना सदा, चिन्न नहि होय कदा  
उपचारे जूदा जूदा, चिन्नमां कहाय ठे ॥ २३ ॥

सवैया एकतीसा—द्रव्य संज्ञा नाम धारो, थापना खेत्र  
आकारो, द्रव्य गुण राखे सोही, कारणता एह ठे । परम धर्म जाव  
मानो, एक वस्तुमां पिठाणो, चिन्न द्रव्य चिन्न जाणो, जेना जेमां  
जेह ठे ॥ उपचारे चिन्न कहे, शुद्ध वस्तु नवि लहे, कोई तेने मानि  
लिये, वस्तु न लखाय ठे । एकमां अनेक जाणे, निक्षेपा अचिन्न  
माने, शुद्ध नय थापनाए, सत्यबोध थाय ठे ॥ २४ ॥

सवैया एकतीसा—ज्ञायकता शक्ति मांही, जासे ज्ञेय जैसे  
ठांहि, ज्ञानमां न ज्ञेय वस्तु, जूदे जूदे खेत ठे । ज्ञेय ज्ञान एक नाही  
एकमेक होय नाही, वस्तु सत्ता वस्तु मांहि अनादि ए रीत ठे ।  
ज्ञेयनो ममत्व करे मिथ्यामती जेह धरे; त्रमे चूढ्यो त्रव फरे, पुद्गलमां  
प्रीत ठे ॥ ज्ञान ज्ञेय न्यारे जाणे, ज्ञायक शक्ति सन्माने, समकितवंत  
लखे, साची एह रीत ठे ॥ २५ ॥

सवैया एकतीसा—परनो न कर्त्ता होय, कर्त्ताने कारण होय,  
कर्त्ता विण कारण ना, ओर कोई जाणीए । पर परिणामनो जे, परि-  
णामी होय तेह, करमनो कर्त्ता थई, त्रमे चूढ्यो मानीए ॥ पर परि-  
णाम तजे, स्हेज निज जाव त्रजे, रहे समजावे तेह पंडित प्रमाणिए  
। कारण न होय जोरे, आपो आप बल फोरे, त्रम विजाव तोडे-  
साची एह मानीए ॥ २६ ॥

### आश्रव संवर अधिकार.

सवैया एकतीसा—परद्रव्य ममत्वथी, उपजी अनंत दोष,  
जीवजग त्रटकी त्रटकी दुःख पावे ठे । दरशन ज्ञानमयी, आतम स्वरूप

सही, लखी थिर रही समजावे शिव थावे ठे ॥ अजर अमर अक-  
लंक निजतत्व लखो, धरम शुक्ल ध्याने, स्हेज सुख थावे ठे । निज  
पर दया करो, प्रमादने परिहरो, केवल सुलझी वरो, गुरुजी बतावे ठे ॥ १ ॥

सवैया तेवीसा—आश्रव छार न बंध करे तव, पुद्गल राग  
रसें तुं जराणो । शत्रु महादल कर्म सतावत, दूःख दिये तुज चारि  
अमानो ॥ धारि सुसंवर जेख लही सुख, रम्य स्वरूप सों आप रमीजे ।  
होवत निर्जर कर्म अनंतकि, मारि महामल मोह हरीजे ॥ २ ॥

सवैया तेवीसा—लोक असंख्य फिर्यो दीन दूःखित, जो नर  
सम्यक बोध न पायो । बोध लही निज संयम सेवत, ते जग जीति  
सुखीत सदायो ॥ हेतकि बात चिचार तुं चेतन, दुर्लज आरजमें अब-  
आयो । मेट विरुद्ध सहू जगजंतुशि, सद्गुरु योगधि सम्यक पायो ॥ ३ ॥

सवैया तेवीसा—कूमति बैन विषै रस पोषत, तांहि सदा मन  
रंगसों रिंझे । सद्गुरु बैन सुने तव आलस, शीख दिये तव मूरख  
खीजे ॥ चेतन चेत महा हित धारिके, त्यागि कुचालकि टेव नठारी ।  
ज्ञानसुं न्यायकि रीत जलीधर, शुद्ध दया जिन बैन विचारी ॥ ४ ॥

सवैया तेवीसा—पुद्गल द्रव्यको आप लखे तव, मोह मिथ्या-  
मति आप उपावे । नाहि विरक्त रहे परद्रव्यसों, जोग प्रवृत्ति करे मन  
जावे ॥ शुद्ध नये निज शक्ति पिठानत, राग रु सेष कदा नहि चाहे ।  
आतम शुद्ध सुध्यान धरे थिर, योग अकंप करे शिव राहे ॥ ५ ॥

सवैया तेवीसा—राग पचीस कषाय करे बहु, द्वेष करी बहु  
प्राण नशावे । आरत रूद्र कुध्यान करे बलि, सेवि प्रमाद दशा दुख  
पावे ॥ ए सव आश्रव पुद्गल रींझधि, आवत राग रु द्वेष प्रजावे । संवर  
अंवरमां रहि चेतन, सिद्ध समो निज रूपज ध्यावे ॥ ६ ॥

सर्वैया तेवीसा-सूमति गुप्ति धरे मुनि मारग, पंच महाव्रत  
खंति उपावे । मार्दव आर्जव मूत्ति धरे तप, संजम जोगसु चित्त लगावे ॥  
सत्य लखे निज तत्त्व सदा वच, सत्य कहे रहि आतम जावे । राग  
रु द्वेष विना रहि उज्वल शौच सवे गुण पज्जव ध्यावे ॥ ७ ॥

सर्वैया तेवीसा-फौज जिते परिसैकि सदाधिर मारि महा  
दल मोह हठावे । आतमअंग अखंरु लखे तव राग रु द्वेष कदा नवि  
आवे ॥ ध्यान अखंडित रंग लग्गे मुनि धर्म रु शुक्ल धरे समजावे ।  
आतम चूमि सुधीर करे तव कर्म कलेश प्रवेश न पावे ॥ ८ ॥

सर्वैया तेवीसा-संयम रंग तुरंग चडे जव जीत निशानकि  
दुंदुजि बाजे । देखत ज्ञान गजे मुनि राजत कंपत कर्म अरीदल जाजे ॥  
जावन बारकि फोज चढे अति चेद विज्ञान सु बाण चले हे । शत्रुकि  
फौजकु मारि विदारत राज निकंटक आप वरेहे ॥ ९ ॥

सर्वैया तेवीसा-शुधोपयोगकि सार नई तव सार दया अरु  
सत्य खरो हे । चोरि कुशील न संग्रह अन्य न संयम अंग सुरंग नयों  
हे ॥ होइ निसंग सुधीर महामुनि कंचन कोडि न रंच चहे हे । दोषको  
टालि आहार लिये मुनि टालि प्रमाद सु जोग वहे हे ॥ १० ॥

सर्वैया तेवीसा-दान दया तप संयम रागधि शील पुजां करि  
पुण्य बधे हे । आय उदै शुच जोगको जोगत होय कषाय नवाब्धि  
सधे हे ॥ जो समजाव रहे थिर चेतन मेटि उपाधि सुशीव लहे हे ।  
सादि अनंत सदा सुख जोगत काल अनंत अबाध रहे हे ॥ ११ ॥

सर्वैया तेवीसा-कारकसैं सहु कारज होवत, मुक्तिसु कारक  
हे समजावो । जंतु सवे पर शाम्य विचारत वैर विरोध न होय कुजावो ॥  
श्री जिनराज सदा उपदेशत चेतन चेति तजो परजावो । चार निदोष  
सवस्तु विचारत आप रहो थिर त्याग विजावो ॥ १२ ॥

ठप्पय ठंड-कर्त्ता आतम द्रव्य, सिद्धि निज काज चहे जव ।  
उपादान निज धर्म, निमित्त गुरु वैन गहे तव । आतम संपत दान  
त्याग परपद ममताको ॥ रागद्वेष परजाव तजी गहिए समताको ।  
अधिकरण आत्म क्षेत्रे रही शुद्ध समय निज ध्याईए । अड कर्म विदारि  
शुद्ध शिव चिदानंदघन पाइए ॥ १३ ॥

सवैया तेवीसा-चेतन पुद्गल जिन पिठानत द्रव्य सखेत  
सकाल स्वजावे । चेतनता विण और सु मम्मत त्यागत राग रु द्वेष न  
आवे ॥ संगत त्याग सवे परद्रव्यकि त्यागि संबंध रहे समजावे । चंच-  
लता तजि काय रु वाचकि चंचल चित्त तरंग समावे ॥ १४ ॥

सवैया तेवीसा-सार सदा खट दर्शनको यह पावत संवर  
सूख प्रधानं । जो क्ण आवत संवर रहेजहि तोरत बंध अनंत अमानं ॥  
अंग उपंग सुरंग लगे तव जानत एक ससिद्ध स्वजावे । कारण एह  
सदा सुखको लखि ते मनसूख सिधे सुख पावे ॥ १५ ॥

सवैया तेवीसा-चेतन और अनंतकि संगत सूख लखी दुःख  
अंत न पायो । ए विपरीत दशा तव जानत बोध जिनागम रहेज सुहायो ॥  
ठोडि प्रमाद दशा धरि संयम आपहि आपसु आप रमावे । ए पद  
पावत नावत ओधमें जोगत रिद्धि अनंत स्वजावे ॥ १६ ॥

सवैया तेवीसा-आश करी जगदास जयो अब श्री जिन  
वैन सदा मन जावो । निंद अनादि निवारि सुखे जवि मोह महा मल  
कर्म नशावो ॥ चेतन चेति लहो निज संपति खंतिसु रंग सदा सुख  
वासे । केवल ज्ञान सु रिद्धि लही गुण पञ्जाव जोग अनंत विलासे ॥ १७ ॥

सवैया तेवीसा-मूढको जोग लगे अति बहूच दूर्लभ धर्म  
न आप विचारे । जोग रुचे बहु त्रास सहे तव लेश न पावत शांति  
विचारे ॥ क्लेश सहे गुरु वैन सुणे नहि आलस खेद तिहां मन धारे ।  
लाज रु जोग चहे मद अष्टको आपहि नर्क निगोद स्त्रिकारे ॥ १८ ॥

सवैया तेवीसा-बैन जिनेंद्र सुसंपति दायक तीक्ष्ण बाण  
जिसे तस लागे । जोग कुटुंब चहे अति रागसु निंद रु खेद सवे दुर  
जागे ॥ कामको चाहत प्राण तजे पण धर्म विचारशुं चित्त न लागे ।  
पुद्गल जोग अनित्य लखे जव श्री गुरु बैन सुधारस जागे ॥ १९ ॥

सवैया तेवीसा-पुद्गल पञ्जव नित्य न कोयहि कोइ न सार  
करे परकेरी । जूलि जमे जवमें जिव आपहि जोगत पाप कमाइ  
अपेरी ॥ कोइ न हे जग औरहि आपको चेतनसें सवि अन्यहि जाणो।  
देह अपावन राग तजो गुरु बैन सुधारस सिंधु पिठाणो ॥ २० ॥

सवैया तेवीसा-है ममता तव कर्म अनंतहि है समता तव  
कर्म न बंधे । है समता तव आप स्वतंतहि है ममता परतंत्र अत्यंते ॥  
है ममता सवि पाप सथानक है समता सहि स्हेज आनंदो । है समता  
सहि सम्यक दर्शन है ममता मति मिष्ठत अंधो ॥ २१ ॥

सवैया तेवीसा-है समता तव ज्ञान चरित्तज है समता व्रत  
पंच अखंडो । जूठ क्रिया समता विण पूरण मम्मत देतहि मूर्खकुं दंडो ॥  
है ममता तव ज्ञान न चारित्त पावत नाहि कदा जव पारो । है समता  
तव आतम संपति सेवत ब्रह्म अठार हजारो ॥ २२ ॥

सवैया तेवीसा-ए ममता जवचक्र फिरावत काल अनंत क्रिया  
करि खोवे । अंतरमूरत हू सम जावत केवल शीव वधू मुख जोवे ॥  
है समता तव मित्र अनंतहि हे ममता तव शत्रु अनंते । हे समता  
तव क्रोध न काम न मोह न मान न माय रहंते ॥ २३ ॥

सवैया तेवीसा-है समता तव लोचन न दोचन न आतम शांति  
समाधि रमावे । रिद्धि लहे निज ते नर पूरण औ निरवाण महा पद  
पावे ॥ ज्ञानि कैरे तलवार रहे सम कर्म अनंतको मारि जगावे । कर्मकि  
फोज फिरे नहि जीवति जीत-निशान अनंत बजावे ॥ २४ ॥



सवैया तेवीसा—है ममता तव दोष अनंतज है समता तव दोष न कोई । है ममता मति दास अनंतको है समता सहु सेवक होई ॥ को समती पर वैर न राखत सिंह सुरादि न आथ विदारे । रिद्धि उपावत लब्धि सुपावत देवहि सेवत सार उदारे ॥ १५ ॥

सवैया तेवीसा—है ममता जिय रंक दुखी बहु है समता शिर शक्र नमावे । है ममता जय जीति अनंतकि है समता जव जीति नशावे ॥ है समता तव रोग न शोक न जोग अनंत रहे थिर जावे । है समता निज आतम द्रव्यकि खेत सकाल सआत्म स्वजावे ॥ १६ ॥

सवैया तेवीसा—द्रव्य प्रजाय लखे सवि द्रव्यके जंग प्रमाण लहे बहु जेदे । स्यात्पद द्रव्यकि शक्ति पिठानत जोगत आपकि आप अखेदे ॥ औरके तर्फ न देखत चेतन वीर सुधीर रहे समजावे । शुक्ल सुध्यान लहे तव आपहि सो थिर ध्यान सदा शिव पावे ॥ १७ ॥

सवैया तेवीसा—कामकि नीरसें पीर सही बहु दास जयो पर त्रास सहो हे । हाणि करी खटकायिक जंतुकि बोलि अलीक के लोक उग्यो हे ॥ चार प्रकार अदत्त लियो हम औरकि नारिको संग कियो हे । धारि परिग्रह मारि अनंतको क्रोध लिये बहु नाश कियोहे ॥ १८ ॥

सवैया तेवीसा—टेव रहे जह आश्रवकी तव कर्म अनंतको ग्राहि बंधे हे । मिष्ठत है तव मिष्ठत प्रत्यिक है अवरित्त न वृत्ति सधे हे ॥ होइ कषायकि प्रत्य कषायिक होय प्रमाद प्रमादसो बंधे । जोगसु प्रत्यिक जोगसु बंधत पंचकि टेव टरे नहि फंदे ॥ १९ ॥

सवैया तेवीसा—जाय मिथ्यामति सम्यक पावत त्यागि श्रवी रति संयम जावे । त्यागि प्रमाद लहे संतमे गुण खोइ कषायके बारमें आवे ॥ जे उपशांत कषाय करे तव एकदशे गुणगण कहावे । जोग निरोध करे जव चौदमें सो परमात्म सिद्धि उपावे ॥ २० ॥

सवैया तेवीसा—रिद्धि अनंत सबत्ति न देखत मागत चीख धरेधर बारे । हेत करे नहि हेत निदानिसु दूःखज दानिसु हेत विचारे ॥ हेतु लखे विण सूख न पावत शीख न पावत तेह बिचारे । कामि हठी निज दोष न देखत पथ्थर थंज समो मद धारे ॥ ३१ ॥

सवैया तेवीसा—आप मती मणि माणिक जानत है गुरुकी मति कंकर जैसी । आप समो नहि हे जग पंडित बोलत है गुरु जावत जैसी ॥ पुद्गल चेतनको नहि ईछत मूर्खहि चाहत पुद्गल प्रीती । पुद्गलके वश जेह रहे जग तेह न जानत नीति अनीती ॥ ३२ ॥

सवैया तेवीसा—शब्द रूपे रस गंध वशे मन फाससु काम चहे जन अंधो । एविण काज न साज न औरहि ज्ञायकता विण जूठज धंधो ॥ ज्ञायकता निज शक्ति संचारत सेवत जावत सर्व उपाधी । श्रीजिनराजके बैन विचारत संवर धारत होय समाधी ॥ ३३ ॥

सवैया तेवीसा—काल अनंत फियो जग चेतन पुद्गल ड्रव्य अनंत लिये हे । श्री जिन बैन लख्या विण मूरख चूलि अनंत आवर्त किये हे ॥ औरहि और प्रजायको लेवत चूलिके आपके मानि लिये हे । खेद करे तस राखण कारण दूःख जये जर रंक जिये हे ॥ ३४ ॥

सवैया तेवीसा—चेत तुं चेतन हेत सदा निज जो निज रिद्धि स्वतंत्र संचाले । त्यागि प्रमाद धरे शुध संयम पावत दर्शन ज्ञान विशाले ॥ देख जवी शुध धर्म महातम कीणमें मोहको मारि जगावे । काल अनंतके कर्म कटे तव ए जव चक्रमें फेर न आवे ॥ ३५ ॥

सवैया एकतीसा—ममता निकारी कारुं मोहको पठाडी मारुं, वीरज अनंत धारुं ड्रढ मति धारीके । राग द्वेष त्यागि रहुं अन्यको न संग गहुं, एकके अनेक लहुं निरालंब सारिके ॥ मुजमें ब्रह्मांड ठेक अनंत पज्जव एक मोहि डर नावे नेक शक्ति निहारिके । डर नहि और केरो सुखकर गुरु मेरो, हूकम जखेरो ताको रहुं दिख धारीके ॥ ३६ ॥

### क्रोध अधिकार

सवैया तेवीसा-पूरण पंच महाव्रत पालत, ध्यान बिगारि  
प्रसन्नज चंदो । क्रोध करी दल नर्क मिलावत, चारित बाहिज सेवि  
अमंदो ॥ आवत खंति महादल जेदत केवलदर्शन ज्ञान निपायो ।  
ए गुण खंति महाबल जाणि तुं आतम खंतिसु जीत सदायो ॥ १ ॥

सवैया तेवीसा-क्रोध मटे तव शांति लहे बहु आतम अंग  
सुरंग लगवे । रे नर ए सम शत्रु नको जग पूरव कर्म उदे दुख पावे ॥  
क्रोधहि शत्रु तुं जाणि न लावत तो वह जोर करी नहि आवे । आत्म  
प्रदेश असंख्यहि शाश्वत दर्शन ज्ञान स्वतंत्र स्वजावे ॥ २ ॥

सवैया तेवीसा-एक अचेद अनंत धनी नित ठेदन जेदन  
तुं नहि पावे । वज्र समान सखेत अजंगहि औरज जोर प्रवेश न पावे ॥  
अंतर द्रष्टि विचारि लखे नित तो तुज क्रोध न कोविध आवे । पुद्-  
गल पज्जव नित्य नहीं कब आपकि मानत सो दुख पावे ॥ ३ ॥

सवैया तेवीसा-ज्ञान जगे निज आतमको तव एक अखंड  
स्वतंत्र सुहावे । खंति रहे तव मान न आवत माय न लोचन न काम  
सतावे ॥ आतम प्राण दुजेद हणे नहि ते जिन शासन खंति कहावे ।  
त्यागि विकल्प सुज्ञान हणे नहि दर्शन चारित थीर रहावे ॥ ४ ॥

सवैया तेवीसा-पुद्गलमां निज काज न मानत दर्वित प्राणकि  
घात नशावे । घात विना कबु वैर न होवत तो अड कर्मज बंध खपावे ॥  
होय क्षमा तस मीत्र अनंतहि वैर विरोध न कोइ उपावे । फौज अपार  
परीसहकी नर, जीतिके मोहनि कर्म नशावे ॥ ५ ॥

सवैया तेवीसा-हायक चर्ण लहे मुनि खंतिथि केवल दर्शन  
ज्ञान उपावे । पंडित वीर्य क्षमी मुनि पावत, हायक लब्धि तुरंतहि  
पावे ॥ आठहि कर्मज नाश करे क्षमि ते निरवाण महापद पावे । शांति  
अनंत अखेद अबाधित ए जवचक्रकि पीर नशावे ॥ ६ ॥

सवैया तेवीसा—जे नर क्रोध करे निशि वासर वैर विरोध  
अनंत उपावे । अंतर दाह जले अगनी सम कोइहि हेतु न मीत्र न  
थावे ॥ क्रोध वशे चित थीर रहे नहि ज्ञान न ध्यान न धर्म सुहावे ।  
बोध न पावत सद्गुरुको तव सज्जन मित्तहि पास न आवे ॥ ७ ॥

सवैया तेवीसा—ते जगमां अपकीर्ति लहे बहु पावत नर्क  
अर्धमि सतावे । ज्मीम नयंकर मार सहे बहु क्रोधिकि सार न कोइ  
करावे ॥ जो नर आपज दोष न जानत औरकि चूल सदा मन द्यावे ।  
क्रोध चढे अति वेग बढे तव क्रोधथि क्रोधज बंध उपावे ॥ ८ ॥

सवैया तेवीसा—क्रोध अपाय महाजय कारक क्रोध समो विष  
को नहि होई । कंपत डर्पत चित्त रहे नित क्रोधथि दूर रहे सब कोई ॥  
क्रोधिको हेत चहे नहि को जग क्रोधज दोष कहे नहि जावे । आतम  
अंग अजंग लखे जव क्रोध कलेश प्रवेश न पावे ॥ ९ ॥

सवैया तेवीसा—क्रूर सिंहादि गती करि क्रोधथि ते जवचक्र  
जमी दूख पावे । श्री जिन बैन धरे नर चित्तहि क्रोधकि पासमें सा  
नहि आवे ॥ द्दामिके पाय पडे जग इंद्रहि होय द्दामी मुनिराज कहावे ।  
ते जगजीति लहे शिव संपति दोष वसी रहे शुद्ध स्वजावे ॥ १० ॥

सवैया एकतीसा—ठेदन न जेदन न वेदन न खेदत न, अंग  
संग रंग चंग विवेक स्वतंत हे । एकमां अनेक ठेक अनेकमां एक टेक,  
अजर अमर निर्द्धद निकलंक हे ॥ धृति कीर्ती सिद्धि लही साची सती  
कलावति, जक्ति मुक्ति अंगथी नन्यारी रहे एक हे । तारण कारण काज  
सारण वारण साज, राज लाज ने समाज मेरो मेरे पासहे ॥ ११ ॥

सवैया तेवीसा—क्रोध समान न आगज दूसरि दाहत देह  
अने मन शोषे । ज्ञान सुवागको नाश करे यह चारित वृद्धको दाहत

रोषे ॥ नीतिकि बेलको एह सुकावत त्रास दवानलको उपजावे । बेल दया जड एहिज दाहत पून्य समूहको शिघ्र नशावे ॥ १२ ॥

सवैया तेवीसा—उत्तम स्वारथ क्रोध नशावत क्रोध करे नर सो दूःख पावे । जे जिन वैन सुधारस पीवत ते नरको कजि क्रोध न आवे ॥ सुत्त सुधारस स्हेजहि जीलत सिंचत अंग सदा सुत जावे । परम क्कमा जल जे नित सेवत तेहसो क्रोधको जोर न फावे ॥ १३ ॥

सवैया तेवीसा—खंति समान न अमृत औरहि देह तथा मन शांति जमावे । ज्ञान सुबाग विस्तार करे क्कम चारित वृक्षसु फूलि फलावे ॥ नीतिकि बेलको एह बढावत त्रास दवानल एह बुझावे । बेल दया जडको एह सिंचत पून्य समूहको एह बढावे ॥ १४ ॥

### मानअधिकार.

सवैया तेवीसा—बाहुबली मन मान धरी अति संयम बाह्य महा ड्रढ पाढ्यो । केवल दर्शन ज्ञान लख्यो नहि फोगट काल कष्टे करि गाढ्यो ॥ आइ मृदू मति मान विदारिके केवल दर्शन ज्ञानज दीधो । देखि जवी मद दोष अनंतको सेवि मृदू मति कारज सिध्यो ॥ १ ॥

सवैया तेवीसा—है मृदुता तव शुरू विवेकहि ना मृदुता मति होत अनारी । है मृदुता शुज न्याय संचारत ज्ञान दया सु लहे हितकारी ॥ मान करे गत ज्ञान अजाणहि ते मृदुता शुरू ड्रष्टि खुलावे । है मृदुता दुःख दोष नशे सवि पूरण आतम संपति पावे ॥ २ ॥

सवैया तेवीसा—जो कुल आदिक मदधरे अड तो निज रूप न जासत है सो । चेतन रूप लख्यो नहि आपहि हाकज पिंरु बनी रह्यो जैसो ॥ रे जिय मान महा दुःख दायक जीव जयो कहु सैलहि वैसो । बाण समो गुरु वैन लगे मन जागत जंगलि रोज सरिसो ॥ ३ ॥

सवैया तेवीसा—है उपयोगज जीव सवे सम चारि न हे लहु सर्व समाने । चारि विचारत मूढ सदा निज चेतन शक्ति न आपहि

जाणे ॥ होय विनै तस कारज सिद्धत सो ततखीण लहे गुण पोषं ।  
होइ मृदूमति दोष गमावत ज्ञान लहे नहि राग न दोषं ॥ ४ ॥

सवैया तेवीसा—होंससु नीचकु काम करेनिज दोष न देखत  
ते अविचारी । औरकु दोषित देखत खीजत रिंझत आपहि दोषवधारी ॥  
मानि लहे अपमान सदा जग मानज दोष अथाह कहेहें । सम्यक  
दर्शन ते नर पावत मान महा नंगपें न गयेहें ॥ ५ ॥

सवैया तेवीसा—निंद करे गुरुकी सहु आगल शीख गुरुकि न  
चित्त धरेहें । मान वशे अहिठंदको सेवत पासथ्य आदिको संग करे  
हें ॥ औरकुं आपके संग फसावत मानि मिथ्यामत मांहि परे हें । दुर्लज  
बोध कह्यो जिन आगम मानि विचार न शुद्ध करे हें ॥ ६ ॥

सवैया तेवीसा—मानथि मायकि शक्य रहे चित शक्य मिथ्यात  
जवाब्धि जमावे । शक्य निदान विषै रस पोषत संयम ध्यान न शुद्ध  
जमावे ॥ संयम दोष तजे नहि मानथि मानथि दूर्गुण अंगहि आवे ।  
चोखवि लोकको युक्ति करी बहु दूष्टहि आप महंत कहावे ॥ ७ ॥

सवैया तेवीसा—मानि हठी जिन बैन उथापत मान लिये मत  
चेद जये हें । होइ सठंद मिथ्यात चलावत काल अनंत मिथ्याति रहे  
हें ॥ बूडत आप दुजेको बुडावत धर्मसु त्यागि कुकर्म चहे है । ना करुणा  
जग जंतुकि लेशहि दाझ न आपकि चित्त रहे है ॥ ८ ॥

सवैया तेवीसा—नाम तिथंकर बंध करी नर खोवत मान वशे  
मतिअंधा । एह अचंजकि बात दिखे अति त्यागत शूत्रको मानज  
धंधा ॥ जे जग जंतुको नाहि उवेखत शक्ति सदा सम जीवकि जावे ।  
तो नर शुद्ध लहे निज संपति मानके फंदमे जो नहि आवे ॥ ९ ॥

सवैया तेवीसा—मान महा गज उन्मत अंधज विप्लि नदी महि  
पास ले जावे । जे अति दूस्तर नीम करालहि ले जव सिंधुकि बीच

बुडावे ॥ जे अति उत्तम गूण समूहको धूलिसि जेम गजेंद्र उडावे ।  
क्रोधकि आग जलाइके उन्मत निर्दय धूम्रकि वेग बढावे ॥ १० ॥

सवैया तेवीसा—निर्मल बुद्धिकि सांकल तोरत दूर्वच धूल  
मतंग उडावे । आगम अंकुशको नहि मानत त्याग सुमार्ग कुमार्ग ले  
जावे ॥ मानिकि सो अनरथ करे नहि शुध सुचर्णको येहि बिगामे ।  
सुकृत पंकज वेलि उखेरत धर्म आलाणको एह उखामे ॥ ११ ॥

सवैया तेवीसा—संयम जीवन नाश करे यह सर्प समो विष  
मानहि मारे । कीर्तिकि बागको एह उखेरत सद्गुरुको उपकार न  
सारे ॥ गूण समूहको दाय विनै सम वंठित दायक और न होई । मान  
महा शुभ बाग बिगामत मान समो जग दूष्ट न कोई ॥ १२ ॥

सवैया तेवीसा—मान मणीधर वीष उतारण मंत्र विनै सम  
और न कोई । मान महा नग जेह चड्यो नर तास उतारु विनै ड्रढ  
होई ॥ है मृडुता तब आइ विनै शुभ गूण अनंतकि राशि दिखावे ।  
जो मन मग्न सदा मृडुता धरि शीघ्रहि आतम संपति पावे ॥ १३ ॥

सवैया तेवीसा—है मृडुता गुण आय अनंतकि है मृडुता  
वशमें जग आवे । है मृडुता तस वैर न होवत कीर्ति लहे जगमें जश  
पावे ॥ पावत उंचपणो जग सेवत लब्धि अथाह लहे शिव पावे । मोह  
टले दुःख शोक न आवत सज्जन मित्त मिले हित जावे ॥ १४ ॥

सवैया तेवीसा—उंचज गोतसु बंध करे नर उंच गती शुभ  
आयु उपावे । नामसु उंचज बंध करे जिय शांति समाधि सदा सुख  
पावे ॥ है मृडुता तव माय न होवत है मृडुता जिय हाणि करे ना ।  
है मृडुता तव जूठ न बोलत औरकि वस्तुको रंच हरे ना ॥ १५ ॥

सवैया तेवीसा—है मृडुता अति लोच न होवत पाप आरंज  
करे नहि जारी । दोष अढार तजै अति निर्मल त्यागि अकृत्य सुकृत्य

विचारी ॥ है मृडुता तव तत्त्व विचारत आतम शक्ति सु खेत संचारी।  
है मृडुता निज आतम तारत तारत और बहू नर नारी ॥ १६ ॥

सवैया तेवीसा—है कुमती मन मान चहावत है मृडुता मति-  
वंतको प्यारी । है मृडुता मति कोमल फूलसि पर्वत से मद तोरत  
चारी ॥ है मृडुता शुभ्र पंकज वासज औरके चित्तको शांति चरे हैं ।  
ताप कषाय निवारत आपकि औरको स्तार उद्धार करे हैं ॥ १७ ॥

सवैया तेवीसा—है जग जंतु अनंत समानहि काहे तुं मूढ  
गुमान करे हैं । आपहि आप महंत लखी अति दूर्गतिमें निज पांव  
धरे हैं ॥ है जग जीव अनंतहिमें एक तुंहि महामद काहेकुं राखे । अन्य  
अनंतको ठेक उवेखत बंध अशूच करी फल चाखे ॥ १८ ॥

सवैया तेवीसा—मानि न पावत धर्म विनै विन ज्ञान न आवत  
मूढ स्वचावे । मानि हठी गुणवंत उवेखत पथ्यर थंज न शीष नमावे ॥  
तेह गुणी गुणको न विचारत आप प्रशंस करे मन चावे । ते गुणिको  
नित निंदत खिसत सद्गुण कोइ न अंगहि आवे ॥ १९ ॥

सवैया तेवीसा—मानि न डोडत चित्त कठोरत सत्य शिखामण  
ते नहि पावे । मानिनकुं सुत बोध फले नहि चारित निष्फल मान  
प्रचावे ॥ धर्मनुष्ठान सवे तस फोगट काय कलेश करी दुःख पावे ।  
है मृडुता तस सद्गुण आवत दर्शन ज्ञान विनै सुस्वचावे ॥ २० ॥

सवैया तेवीसा—मानि लहे अपमान बहू जग ए परलोकमें  
नीच कहावे । नीचहि गोतज बंध करे वह नीच गती निच आयु  
उपावे ॥ दर्शन ज्ञान फले नहि चारित उंच पदे नर तेह न आवे ।  
मान महा गुणको अति घातक मान महाचव चीम च्रमावे ॥ २१ ॥

सवैया तेवीसा—चर्ण फले रिधि आय मिले निज सर्व क्रिया  
सिध हे मृडुचावे । धर्मसु मूल कह्यो विनये जिन ते मृडुवंत विनै पद



पावे ॥ गुण अनंत लहे विनयी नर एह पदेपद सिद्धि उपावे । शीघ्रहि दर्शन ज्ञान फले सुत चारित मोहनि कर्म खपावे ॥ ११ ॥

सवैया तेवीसा—गूण सवे सुप्रधान विनै गुण जेह लहे तस सद्गुण आवे । ज्ञान विज्ञान लहे नर पूरण ते घनघातिय कर्म खपावे ॥ जीव अनंत वसे जववासहि तूं निज मोटप काहे विचारे । ठोटप मोटप कोय नहीं जिय शक्ति अनंत अपार उदारे ॥ १२ ॥

सवैया तेवीसा—केवल दर्शन ज्ञान नहीं तुज लब्धि न रिधि न सिद्धि न क्युंही । फोगट मान धरे मन मूरख मानकि बंध करे सठ युंही ॥ मानथि मायकि वेग वधे बहु मान करी जिय हाणि करे हें । मानथि बोल मृखा बहु बोलत मान वशे परवस्तु हरे हें ॥ १४ ॥

सवैया तेवीसा—मान करी परदारिकु सेवत मान वशे रिधि संग्रह धारे । मानथि पाप अठारह होवत पै मति मूढ न मान निवारे ॥ मानि उवेखत धर्म सुदायिकु होत अशायण तो न गिणें हें । आपहि दोष बुपाइके बोलत जूठ लवे सठ नाहि डरें हें ॥ १५ ॥

### ॥ माया अधिकार. ॥

सवैया तेवीसा—माय बुरी जग हे दुःख दायक मायिको मीत्र न को जग होवे ॥ जे रुजुता ग्रहि तत्त्व विचारत ताहिको मीत्र सवे जग सोहे ॥ सद्गुरु साथ करे शठ मायको आपहि आपसु हीत न धारे ॥ आप ठगे सठ आपहि आपको सज्जन मायिको संग निवारे ॥ १ ॥

सवैया तेवीसा—माय न कूशलता जनमावत वंझ त्रिया सम माय वखाणो ॥ ज्ञानसु जानुको अस्तज कारण मायको जाण तु सांज समानो ॥ कूगति यूवति माय मिदावत ते कुगती करकी

वरमाला । पंकज से समजावको हीमसि मोह गजेंद्रकी एहिज  
शाला ॥ २ ॥

सवैया तेवीसा—है रजुता तव कीर्ति अनंतज है रजुता  
व्रत दोष न लागे ॥ है रजुता मन शब्द रहे नहि है रजुता दुःख  
दोहग जागे ॥ है रजुता सुकृपा गुरुकी बहु गूण समूह महा धन वृष्टी ॥  
है रजुता बहिरातम जागत है रजुता लहे शुद्ध सुद्रष्टी ॥ ३ ॥

सवैया तेवीसा—है रजुता मद मान न आवत ए रजुता  
जय सात नशावे ॥ है रजुता नय शुद्ध लहे मुनि दूष्ट कदाग्रह पास  
न आवे ॥ है रजुता तव आरत रुद्र न है रजुता तव सत्य सुकर्णी ।  
है रजुता सुख पोष लहे बहु दोष अनंत हरे जव तर्णी ॥ ४ ॥

सवैया तेवीसा—है रजुता सम पंकज सुंदर है रजुता शिव  
संपति वेढी ॥ नंदन सी रजुता मुनि खेलत सूमति संग करे  
गुण केली ॥ ए विण ज्ञान न ध्यान न संयम कष्ट क्रिया जव चक्र  
जमावे ॥ चेतन शक्ति समान विचारत मायको कंद उखेदि  
जलावे ॥ ५ ॥

सवैया तेवीसा—द्रव्य प्रजाय अचेद लखे निज त्यागि  
सखेत परे नहि जावे ॥ नित्य सखेत रहे गुण पूरण औरकि औरमें  
कोइ न आवे ॥ शुद्ध विचार करे चित अंतर मायके फंद अनंत  
नशावे ॥ रिद्धि अनंत लखे धिर आपकि कूर कलेश प्रवेश  
न पावे ॥ ६ ॥

सवैया तेवीसा—मायिधि नीच नहीं जग अंदर है रजुवंतधि  
कोइ न जारी ॥ मायि जमे जव नीम जयंकर दे रजुता जवसांयर  
तारी ॥ जे रजुता मन धारि सदा नर श्री जिन वैनको सार विचारे ।  
केवल दर्शन ज्ञान उपावत आप तरे बहु जव्यनि तारे ॥ ७ ॥

सवैया तेवीसा—कल्पलता रजुता समजावकि मातज पूत्र विवे-

कज होई ॥ तेह रहे निज संग सदा जय सिद्धि सुरिद्धि महा सुख  
होई ॥ दर्शन ज्ञानकि वक्रता जानत शास्त्र सवे शुध अर्थ लखावे ॥  
चासन दूर्नयको सव नाशत शुद्ध नये श्रुतलब्धि उपावे ॥ ७ ॥

सवैया तेवीसा-मायकि चाल बुरी अति दुस्तर ए अपकी-  
र्तिकि है रजधानी ॥ हेतु अहेतु न मायि विचारत दूःख अनंतकि  
एहिज खाणी ॥ सर्वधि कूरु करे मति मूरख स्वारथ आपहि आप  
नशावे ॥ सद्गुरु शीख हिये नहि आवत तत्व विचार कदापिन पावे ॥ ८ ॥

सवैया तेवीसा-आशय दूष्ट हिए अति चिंतत कूपथ जोजन  
रोग उपावे ॥ बिद्धि न देखत डांग पिये पय मार पडे तव ते पढतावे ॥  
ए मुज कूरु न कोइहि जानत पंफित मायिको मूरख धारे ॥ आरत  
ध्यान अनेक करे शठ शुद्ध सुबातको वक्र विचारे ॥ ९ ॥

सवैया तेवीसा-मायि करे चतुराइ अती चित पै वह आप  
नवाब्धि बुडावे ॥ मायिके नेन रुदे वच वक्रज शुध सुपंथको मूढ  
उडावे ॥ मायिको को विसवास करे नहि मायि कुमार्ग अनेक चलावे ॥  
काल ड्रहे वह आपहि बूडत जीव अनंतको साथ बुडावे ॥ १० ॥

सवैया तेवीसा-है रुजुता सम कोइ न उत्तम है रुजुता तस  
मित्त अनंते ॥ है रुजुता तप संजम आवत दर्शन ज्ञान सधेहि सतंते ॥  
है रुजुता विनये बहु आवत है रुजुता गुरु देवको प्यारी ॥ है रुजुता  
नव नूल नशावन है रुजुता शिवकी अधिकारी ॥ ११ ॥

सवैया तेवीसा-चेतन अंग अन्नंग लखे जव शोग वियोगको  
नै नहि आवे ॥ आपकि रिधि कुटुंब सदा शिव जानिके रंग अन्नंग  
लखावे ॥ पूत्र विवेक सदा सुमती घर केलि करे मिलके सम जावे ॥  
ते मनसूख विलास करे निज मोहको जीति निशान बजावे ॥ १२ ॥

## ॥ लोचन अधिकार ॥

सवैया तेवीसा—पापको बाप कह्यो गुरु लोचनको दोष अनंतकि  
एहिज खाणी । लोचन नशे सब पुद्गलको जब जो मन धारत श्री  
जिनवाणी ॥ दर्शन ज्ञान अनंत लखे निज लोचनके मूलको तेह उखारे ।  
जोगत आत्म रिद्धि स्वतंत्र स आत्म चतुष्टय शुद्ध संचारे ॥ १ ॥

सवैया तेवीसा—लोचनधि जीवकि हाणि करे नर लोचनधि जूठ  
अनेक उचारे । लोचनधि औरकि रिद्धि हरे नर होइ कुशील सुशील  
न धारे ॥ लोचन परिग्रह मूल महातम आरत रूद्र कुध्यान बढावे ।  
अंध कुंध अपार करे नर दीवस रात विराम न पावे ॥ २ ॥

सवैया तेवीसा—जोगके कारण ड्रव्य उपावत जोगवि जोग  
विराम न पावे । डारि जमीतल आखिर आपहि होय जुजंग महा  
दुःख पावे ॥ नर्क त्रिजंच फिरे बहु लोचनधि लोचनज दोष अनंत उपावे ।  
स्हेज शुधातम रिद्धि लखे तव लोचनज दोष न आइ सतावे ॥ ३ ॥

सवैया तेवीसा—जूख सहे वनवास रहे बहु त्रास सहे फरि  
सिंधु मथे है । हुंगर देश फिरे मुरठा वश वैर विरोध अनंत वधे है ॥  
ठेदन जेदन मार सहे पण श्री जिन बैन न चित्त धरे है । लोचनहि  
काल कराल जुयंगम डंसत चित्त न चैन रहे है ॥ ४ ॥

सवैया तेवीसा—नीति न जीति न भित्तको देखत धर्म न पावत  
लोचन विचारे । संयम ज्ञान न ध्यान न आवत रंकधि रंक बने मत-  
वारे ॥ नीचकि सेव करे अति लोचनधि क्रोध धरी बहु युद्ध करे हैं ।  
जोग तृषातुरता लखि खेलसि खेद अपार गमार करे हैं ॥ ५ ॥

सवैया तेवीसा—लोचन अनाण तरु ड्रढ मूलहि शांति समुद्र  
अर्गस्थ जुं शोषे । दूःख दवानल एह फलावत लोचन समीर परे

अति रोषे ॥ लोचथि क्रोध बढे अरणी जिम संयम बाग दहे वड रोषे । स्हेज प्रताप सुचानुको ढंकत बादल मेघ घटाघन जोसे ॥ ६ ॥

सवैया तेवीसा—शुध विवेक सुचंद्रकु ढंकत राहु समानहि लोच जयो हैं । बाप सपूत्रको मारिहि डारत पूत्रज बापको मारि रह्यो हैं ॥ आपति नहि समूह समूद्रहि ए ढल जेद अनेक करे हैं । कीर्त्ति लता जिम हाथि उपारत धर्मसु बागको एह दहे हैं ॥ ७ ॥

सवैया तेवीसा—दूषण धूम्र अत्तीहि बडावत गूण पतंगको लोच दहे हैं । ए अपकीर्त्तिकि बेल फलावत लोच वशे तन रोग सहे हैं ॥ पुद्गल लोच जवाब्धि अभावत निस्पृहता जव पार उतारे । आतम रिधि अनंत लखे जब आप तिरे जविजीवनि तारे ॥ ८ ॥

सवैया तेवीसा—आतम रिधि स्वतंत्र लखे तव नाशत लोच संतोष रहे हैं । होय संतोषहि रत्न चिंतामणि कामगवी मुनि ताको कहे हैं ॥ कटपतरू सम ए फल देतहि दोष दवाशिको मेघ समानं । आतम रिधिसु एह निदानहि ए शिव संपति देत प्रधानं ॥ ९ ॥

सवैया तेवीसा—इंद्र कुबेरंकि रिद्धि अपारहि पै नहि कोइ संतोष समानं । निस्पृह जाव रहे जग सर्वथि जोगत सूख समूद्र अमानं ॥ एह संतोषकि पास न आवत जोग तृषातुरता धन तृष्णा । दोष अनंत नशे जस देखत जागत लोचज नागणि कृश्रौं ॥ १० ॥

सवैया तेवीसा—औरको जोर न राडैको सोर न जागि गई दीनता दुखदाई । एह संकटप विकटप नशावत जोगत केवल रिधि सदाई ॥ औरकि आश न दास न पास न कर्मज बंधन ठेदि स्वतंते । आत्म प्रदेश असंख्य विराजत दर्शन ज्ञान सुवीर्य अनंते ॥ ११ ॥

सवैया तेवीसा—जे नर मुक्ति धरे थिर उत्तम आवत नांहि कलेश कदापी । धैर्य अथाह रहे चित निश्चल कंपत दोचत नांहि

कदापी ॥ स्हेज निजात्म प्रदेश असंख्यज हे गुण पज्जव रिद्धि अनंती ।  
दर्शन ज्ञान सुवीर्य अबाधित देखत जोगत स्हेज स्वतंती ॥ ११ ॥

सवैया तेवीसा—एह संतोष स्वरूप तुं जानहि जो नित आतम  
तत्त्व सुध्यावे । तो अति अंतर दर्वित चावित लोच कलेश प्रवेश न  
पावे ॥ जाणि शुधातम रिद्धि रहे थिर काहेको मागत चीख पराई ।  
शक्ति स्वतंत्र अचंग अनंतहि देखत पावत रिद्धि अथाही ॥ १३ ॥

॥ हास्य अधिकार ॥

सवैया तेवीसा—औरकि हांसि तुं काहे करे मन पुद्गल एंठ  
जली तुज लागी । पुद्गल लंपटता न गई तुज आतम ध्यानकि प्रीति  
न जागी ॥ हांसि जई तुज बेर अनंतहि कर्मकि रीतकि कौन बडाई ।  
आत्म सुहीत लखे जब आपहि औरकि हांसि न होत कदाई ॥ १ ॥

॥ रति अधिकार ॥

सवैया तेवीसा—पुद्गल पिंरुथि रक्त जई कहा सार अबाधित  
रिद्धि विसारो । ए जरु एंठ सदा अशुची घर त्यागि सु उज्वल रिद्धि  
संचारो ॥ स्हेज स्वतंत्र स्वचाव लखे तव कोइ अरति न तोहिज आवे ।  
पुद्गल मम्मत त्याग करी निज जोगत पर्म समाधि स्वचावे ॥ १ ॥

॥ अरति अधिकार ॥

सवैया तेवीसा—रत्नमणी कण पुद्गल पज्जव नित्य न आपके  
एह स्वतंते । फोगट खेद करे जन मूरख चूलिके आपकि रिद्धि अत्यंते ॥  
मानुष्य आरज श्री जिनधर्म तुं दूर्लभ बोध निजातम पायो । सद्गुरु  
योग सिद्धयो निज धर्मको पाइ प्रमाद ग्रहीके गमायो ॥ १ ॥

॥ जय अधिकार ॥

सवैया एकतीसा—मेरो तात मेरी मात मेरो चात मेरे जात  
मेरो तन मेरो धन सारो मेरे साथ हैं । मेरी नारी सारी प्यारी सुमति

सुधारी सारी मोक्ष मग हुंशियारी मित हित वास हे । शांति कांति  
खांति मुक्ति ठति रति गुक्ति युक्ति शक्ति व्यक्ति शुद्ध गति चेतना  
विदास हे । पर डर नांहि कदा सुख एक ठेक सदा सज्जन सखाई  
सुखदाई मेरे वास हे ॥ १ ॥

सवैया एकतीसा—आतम प्रदेश अंग एकहि अचंग चंग  
तूटे नांहि बूटे नांहि गुण परजायसें ॥ उतपति जाकि नांहि परलय-  
ताको नांहि नांहि हे संयोग तास विरह कदा न हे ॥ ईह जव जय  
नांहि आतमीक नाश नांहि ज्ञानी निज रिधि जोगी मगन निशंक  
हे ॥ अचेद अखेद सत्ता देखी मुनि अप्रमत्ता ध्यान धारि थिर रहे  
आनंद अनंत हे ॥ २ ॥

सवैया एकतीसा—गुण गण चक्रफिरे अज्ञान तिमिर हरे  
कारकके जाव निज काज तो सधतु हे ॥ परपद जवन ना ड्रव्यांतर  
गमन ना ज्ञानि निज रम्य रसे रमण करतु हे ॥ निज पद नित्य  
मांहि परतणो जय नांहि निरजय निराकुल शांतिसु रहतु हे ॥ मम-  
ताको त्यागि जये समता स्वरूप रहे जय नांहि तांहि निज शुधता  
गहतु हे ॥ ३ ॥

सवैया एकतीसा—परजव जय नहि कषाय आश्रव नहि  
ड्रग ज्ञान चरण शुक्ल शुद्ध वासमां ॥ मरण न आवे कदा शरण न  
चाहे तदा एकताकि ठेक ठेक धारे निज आतमा ॥ अगुपत जय नावे  
सत्तामें न और आवे आप रसे आप दावे सत्ता वज्रचूमिमें ॥ धन-  
वती रुपवती मति धृति धरी अति जयहरु शिवकरु सहज समाधिमें ॥ ४

सवैया एकतीसा—दरशन ज्ञान थान शुध सुख वीर्य प्राण  
आत्मते अचेद याको नाश नहि होत हे ॥ ड्रव्य स्वजाव सुनित्य जाने  
ताही नांहि जीति चेतना अखंड अंग रंगजर जोतु हे ॥ चेतना  
ज्योत होत शुध बोध जास ज्योत मरणको जय नांहि तांहि तिहुं

कालमें ॥ और सु विरागी ज्यो शुध्ध रुप जागी रह्यो अचल अमर  
ज्यो आपकी संज्ञालमें ॥ ५ ॥

सवैया एकतीसा-वेदक स्वज्ञाव जाको थीर स्हेज आतमाको  
वेदे निज संपति विज्ञावता उठेदिके ॥ पुण्य पाप नित्य नांही पुद्ग-  
लकि एह ठांही आप खेत्र रहे ज्ञानी शांति रस वेदिके ॥ वेदना तो  
होत नांही शुध्ध ज्ञान ज्योति मांही ठेदन जेदन नांही आतम सु  
अंगके ॥ अतूट अखंड अंग रोगको न है प्रसंग सहज अबाधित हे  
जोगधारी ज्ञानके ॥ ६ ॥

सवैया एकतीसा-वर्गणाना पिंरुने तो रक्षकनी ठे जरुर ज्ञान  
पिंड आतमा हुं एक नित्य शाश्वतो ॥ मारुं धन मारी पास पास्की न  
राखु आश कोई केनु केने न अपाय न लुंटाय तो ॥ मारी शक्ति मारो  
माल अजेद सज्जन चाल शाश्वतो प्रणामिक ठे धर्म मारो जाणीतो ॥  
रक्षक जरुर जही सत्ता अबाधित सही शुध्धता जानु प्रगट्यो मारे  
मन मानितो ॥ ७ ॥

सवैया एकतीसा-वज्र सत्ता जूमिमांही अतूट धन ठे त्यांहि  
चोरनुं न चाले जोर गाढी निधि चूरं ठे ॥ ठौर जाणे कोण और हुंतो  
रह्यो आप ठोर सुमती हमारी प्यारी सावचेत सुर ठे ॥ रक्षपाल खसे  
नांही धन मारुं चसे नांही अतूट अखंड सत्ता पूर्ण मारी पास ठे ॥  
गुण पज्जव अनंत न कदापी परतंत्र चूके न प्रमेय मारे ज्ञाननो  
विलास ठे ॥ ८ ॥

सवैया एकतीसा-जगमां वस्तु अनंत गुण पज्जव अत्यंत  
को न घटे न वधे न और रुप थाय ठे ॥ अनादि ए मरजाद जाणे जेह  
स्यादवाद तेने अचानक जय कदापि न थाय ठे ॥ इव्यनी शक्ति  
अखूट प्रजाय वहे अतूट प्रमेय न पलटे न अचानक थाय ठे ॥ उर्ध-



ताकी शक्ति धरे गुण तो पज्जव करे समकीति आपो जाणे निर्जय  
सदाय ठे ॥ ए ॥

सवैया तेवीसा—आत्म प्रदेश असंख्य अमूरत ज्ञायकता  
एक रूप हमारो । होत अनंत प्रजाय प्रतेकज सर्व प्रदेश सदा नित  
धारो ॥ एह कुटुंबज ए निज रिधिहि अंग अजेद सवे परिवारो ।  
बूटत कोइ न कोइ न जावत शोक न आवत तांहि विचारो ॥ १० ॥

॥ शोक अधिकार ॥

सवैया तेवीसा—पुद्गल रिधि कुटुंब अनादिथी आपकि मान  
के जूलि विचारो । जेह अथीरज थीर रहे किम मोहकि टेव अवे तुम  
टारो ॥ जात न जात न वंशकि वेलि न आप महा रिधि आप सहारो ।  
शुध सदा निज संपति देखिके शोग वियोगहि रोग निवारो ॥ १ ॥

॥ दुगंग आश्रव अधिकार ॥

सवैया एकतीसा—शब्द वरण खंध रस फरस ने बंध गमता  
अणगमता देहना ममत्तथी । ज्ञान मांहि चासे पण परखेत्रे रहे तेथी  
दुगंगानुं दुःख ज्ञानी मुनिने कांइ नथी ॥ शब्द सुणे कानथकी रूप  
देखे आंख थकी नाक खंध ग्रहे रस जीव्हा एह इंद्रिथी । फरस ने  
बंध कोइ अतींद्रियमां न होई ज्ञानो हुं अतींद्री मारे ममता एनी  
नथी ॥ १ ॥

॥ कामना अश्राव अधिकार ॥

सवैया तेवीसा—कामके कारण प्राण तजे पण धर्मसु कारण  
खेद लगे हैं । कामके वान लगे चित चेन न या तनमें मनमथ्य जगे  
हैं ॥ है सन्निपात दशा जग कामिकि केइ उठी कहि जाय जगे हैं ।  
नारि खिजे नर आय मनावत मर्द खिजे तिय पाय लगे हैं ॥ १ ॥

सवैया तेवीसा—सद्गुरु खीजत पास न जावत मान वशे जन

दूर जगे हैं । कामहि चाहत लाज न मान न मार सहे पण ईष्ट लगे हैं ॥ एह महातम मोहकि देखत चेतन लाज न आवत तोही । जो न रहे तस राखण चाहत नित्य अनित्य न जानत मोही ॥ २ ॥

सवैया तेवीसा—काम वशे अजिमान कियो हम मारि मरी पर आप ठग्यो हैं । काम वशे बहु लोच करी नित अंध कुधंधमें चित्त पग्यो हैं ॥ काम वशे बहु हांसि करी जग जीवको दूःख अनंत दियो हैं । पुद्गल जावसों रक्त जये हम काम वशे न विचार कियो हैं ॥ ३ ॥

सवैया तेवीसा—पुद्गल जोगको देखि चढ्यो चित तत्त्व विचार न कांइ लह्यो हैं । लोटन बुद्धि लखी मिनि नाचत त्यौं विषयारस देखि नच्यो हैं ॥ शुद्ध सुबुद्ध विसारि रह्यो तव आतम ध्यान न धर्म ग्रह्यो हैं । जन्म कुमर्ण किये बहु दुर्गति लोचि न बोधसुं रंग कियो हैं ॥ ४ ॥

सवैया तेवीसा—दे उपदेश गुरु करुणाकर रोझ समान ए मूढ जयो हैं । काम बहु जव चक्र फिरावन कामथि वैर अनंत कियो हैं ॥ कामथि मीत्र न पूत्र लख्यो हम कामथि कर्म अनंत कमाये । कामथि सो जग दास जयो बहु कामथि रंच विराम न पाये ॥ ५ ॥

सवैया तेवीसा—काम कुराहु लग्यो जिय अंगको कामहि चूत अनंत त्रमावे । शुद्धि न बुद्धि न पंडित राखत कामथि सूझ गमार कहावे ॥ जे जन चेतत कामको मर्दत ते वडवीर सुझानि कहावे । चेतिके चेतन काम निवारत तो जवसिंधु तुं फेरि न आवे ॥ ६ ॥

सवैया तेवीसा—कर्मको बंधन कारण कामहि कामविना न कषायहि आवे । आपकि आप दया धरि चेतन जो मन लाज स्वचावकि पावे ॥ आतम अंग निरोग लखे तव पुद्गल जोगमें चित्त न जावे । दर्शन ज्ञान सुचर्ण अनंतसु आपहि केवल सिद्धि उपावे ॥ ७ ॥

सवैया एकतीसा—शीत ताप झुधा काम आदि ठे पुद्गल धाम नरनारी नपुंसक एतो हुं नहि कदा । काम धाम हुं तो नहि

द्रग ज्ञान चर्णमयी वीरज अनंतवंत अव्याबाधी तुं सदा ॥ देहनुं  
ममत्व जेने काम दुःख देहे तेने निःकामी नीसंगी अंग नावे मारे  
आपदा । विमल लह्नी संचारी शुद्ध सु पज्जव धारी शक्ति मारी  
जयकारी रहे शिव संपदा ॥ ७ ॥

॥ निर्झरा तत्त्व अधिकार ॥

सवैया तेवीसा—शुद्ध सदागम संग करी नर आतम अंग  
सुरंग लगावे । ते निरवेद लह्नी जव जोगधि संयम योगसु चित्त जगावे ॥  
दायक सम्यक बोध लह्नी नर आतम रम्य रहे थिर जावे । वीर्य अनंत  
उपावत पंडित मोह महा रिपु मारि जगावे ॥ १ ॥

सवैया तेवीसा—जे सुरवीर जयो छठ धीर ते त्यागि प्रमाद  
रहे थिर जावे । आठ महा दल कर्म विदारिके ए जवचक्रमें फेर न  
आवे ॥ जोग जला नहि चेत चतूर तुं भेटि विमोहकि नींद स्वजावे ।  
को बलवंत न तोहि समान हे जोर अनंत जो आप दिखावे ॥ २ ॥

सवैया तेवीसा—जंतु अनंत वसे जव वासहि ध्यान विना जग  
को न रहे हैं । चारहि ध्यान कहे जिनशासन आरत रुद्र कुध्यान कहे  
हैं ॥ धर्म रु शुक्ल सुध्यान कहे जिन सो मुनि साधत सूख लहे हैं ।  
चित्त रुके एक ध्येयकुं ध्यावत और विचार न तांहि रहे हैं ॥ ३ ॥

सवैया तेवीसा—आरतके चउ जेद कहे गुरु ईष्ट वियोगकि  
चिंत रहे हैं । ईष्ट वियोग जयो तव सोचत पीटत हाय विलाप करे  
हैं ॥ केश उपारत शीर पठारत शांति समाधि न कोइ गहे हैं । त्यागि  
ममत्व शुधात्म विचारत स्हेज समाधिसु सूख लहे हैं ॥ ४ ॥

सवैया तेवीसा—है ममता जव पुद्गलकी तव आइ अनिष्ट  
संयोग सतावे । त्यागि ममत्व लखे निज संपति स्हेज अवाधित आप  
लखावे ॥ देहकि व्याधिकुं चिंतत जो नर पीडजचिंतन ध्यान कह्यो  
हैं । देहसुं चिन्न लखे निज आतम पीरकु त्यागि समाधि लह्यो हैं ॥ ५ ॥

सवैया तेवीसा—चित्त अनागत कोइ करे तव आपहि आप समाधि न पावे । आतम अंग अजंग लखे तव सादि अनंत समाधि उपावे ॥ ए चउजेद कषाय उपावत प्राय त्रिजंचकि आय सधे हैं । चेतन आतम धर्म रमे तस मोह सुमारग स्हेज सधे हैं ॥ ६ ॥

सवैया तेवीसा—रूद्र कुध्यान के जेदहि चारज प्राणिकि घात कुध्यान उपावे । मारन तारुन ठेदन जेदन रूद्र प्रणाम करी दुःख पावे ॥ जूठहि चिंतत जूठहि बोलत धन्न उगाइकि चिंत रहे हैं । जूठसुं राचत जूठसुं माचत एह कुध्यानकि चाल गहे हैं ॥ ७ ॥

सवैया तेवीसा—चोरि चहे नर लूट बिचारत ड्रव्य हरे पर त्रास उपावे । जारि उगोरि करे मन चिंतन ड्रव्य हर्या विण चैन न पावे ॥ लोचको ध्यान बुरो जग जीवको लोचि महा मतिअंध कहावे । रात दिने मन तृप्त न होवत कुंगर देश विदेश ज्रमावे ॥ ८ ॥

सवैया तेवीसा—जागत सोवत चित्त जमे बहु कोइ सुठाम अराम न पावे । जूठहि बोलत चोरि करे पर प्राण हणी बलवंत कहावे ॥ सत्त मिले तव लाखको ईहत कोटि मिले तव राज चहावे । लोचके दोष अनंत कहे मुनि ईद्रकि रिधिधि तृप्ति न आवे ॥ ९ ॥

सवैया तेवीसा—जोगथि लोचज जोगन जोगतपै मन जोगकि ज्ञावना ज्ञावे । सत्य सुवैन सुनै नहि ते कब आखर नर्क निगोद सिधावे ॥ चारहि रूद्रज ध्यानके कारण लोचिको धर्म न ध्यान सुहावे । एह कुध्या-नहि नर्कज कारण सम्यकवंत कदा नहि ध्यावे ॥ १० ॥

सवैया तेवीसा—आतम रिधि स्वतंत्र लखे नर आतम आतम रिधि उपावे । केवल आतम सिधि लहे जब जे मुनि लोचको मूल गमावे ॥ पुद्गल रक्षण जेह करे नहि ते निज आतम संपति राखे । आतम संपति जानिके जोगत ते मुनि शुध्द महा सुख चाखे ॥ ११ ॥

सवैया तेवीसा—धर्म सुध्यानज जेद कहे चउ दर्शन ज्ञान चरित्त सुध्यावे । जे जिनराजकि आण विचारत त्यागि विजाव रहे निज जावे ॥ रागहि द्वेष अपाय कहे गुरु एहि जवोदधि जूरि ज्रमावे । आतम रिद्धि स्वतंत्र लखे तव लेश कलेश प्रवेश न पावे ॥ १२ ॥

सवैया तेवीसा—कर्मविपाक बुरे दुख दायक धर्मसु ध्यावत कर्म नशावे । चौदह रज्जुमे जीव ज्रमे बहु जो न रहे थिर आत्म स्वजावे ॥ कोइहि ठाम विराम लह्यो नहि पुद्गल योग अनंत करीके । सम्यक पावत शांति उपावत केवल आप समाधि जरिके ॥ १३ ॥

सवैया तेवीसा—धर्म सुध्यानथि देव मनुष्यकि उत्तम आयु लही सुख पावे, साधकता लहि आखर मोक्षकि होवत प्राप्ति सुध्यान प्रजावे; शुक्ल सुध्यानज जेद कहे चउ द्रव्य प्रत्येक प्रजाय विचारे, उत्पत्ति नाश लखे ध्रुव द्रव्य स व्यथि गुण अजिन्नज धारे ॥ १४ ॥

सवैया तेवीसा—एह पृथक्त वितर्क कह्यो जिन जिन्नज द्रव्यकि जिन्न विचारे, आपके पज्जव गूण अजेद सजेद विकल्प न कोइ विचारे; चार अनंत लहे तव केवल ते घनघातिय कर्म विदारे, सूक्ष्म कृत्य प्रवृत्ति रही तव तेरस योगि गुणे मुनि धारे ॥ १५ ॥

राग चोपाई—मुनि शैलेशि करणे आवे, चौदशमें गुणगण कहावे; शिद्व्या सम करी थिर त्रण योग, उच्छिन्नक्रिया अयोगी शिव जोग ॥ १६ ॥

राग चोपाई—एक समयमां जाय लोकांते, सुख विलसे तिहां सादी अनंते; मनवचकाय योगथी न्यारो, तैजस कम्म उराळ निवार्यो ॥ १७ ॥

राग चोपाई—परम निवृत्ति परमानंदा, निजगुण विलशे सहज स्वतंता, कर्म प्रकृति ईहां नाठी सघळी; आतम अंग रिद्धि थई विमळी ॥ १८ ॥

दोहरा—ध्यान हुताशन धमी कर्युं, चेतन केवल रूप, ध्यानानल  
धमतां हुवे, आतम सिद्ध स्वरूप ॥ १९ ॥

सवैया तेवीसा—द्वादश जेद कहे तप आगम जोजन त्याग  
करे नर कोई, जोग इहा तजि तृप्ति लहे निज ए धुर जेद कहे गुरु  
सोही, जोग कषायको जेह घटावत एह उणोदर हे तप बीजो, वस्तु  
अनेक संखेप करे नर ते तप सार कहे जिन त्रीजो ॥ २० ॥

सवैया तेवीसा—जे खट स्वादको त्याग करे नर ते चउथे  
तपवान कह्योहे, कायक्लेश सहे द्रढ धीरज प्रंचमही तप कष्ट सह्योहे;  
अंग उपंग सकोच रहे जव जंतुकि हाण न होवत कोई, संलिनता  
तप षष्ठम जाणहि ए तप बाह्य बहों विधि होई ॥ २१ ॥

सवैया तेवीसा—जो व्रतमें अतिचार लगे तव प्राश्चित ले व्रत  
शुद्ध करेहें, तेह अच्यंतर धूर कयो तप तेहनि वृत्ति अखंड ठरेहें; जेह  
करे गुणिको विनये तप अंतर द्वीतिय तेह धरेहें, तीय वैयावच्च  
सद्गुणिकी करि कर्मकि निज्जर आप करेहें ॥ २२ ॥

सवैया तेवीसा—पंच प्रकार सप्राय करे मुनि ते जव कानन  
कष्ट दहेहे, द्वादश अंग सुसार लहे निज स्हेज शुधातम धारि  
रहेहे; धर्मसु शुक्लको जेह अन्यासत घातिय कर्म विनाश करेहे, प्राय  
अनंत चतुष्टय ते मुनि ते जवसिंधु सहेज तरेहे ॥ २३ ॥

सवैया तेवीसा—देह ममत्व निवारि रहे थिर सार न देहकि  
कांइ करेहे, आप शुधातम शक्ति संचारत फौज परीसहसें न डरेहें;  
एह अच्यंतर हे तप बविह जे तपिके मुनि शीघ्र तरेहे, धारत धीरज  
सारत वीरज आतम रिद्धि अनंत वरेहे ॥ २४ ॥

चोपाई—जोग धर्म पुद्गलमें नांही, ज्ञानी करे न जोगवेत्योही;  
राग द्वेष मिथ्याती जोगी, पुद्गल संग रहे परयोगी ॥ २५ ॥

चोपाई-ज्ञानी जोगी शुद्धात्म केरो, ते माटे न करे जव फेरो;  
सहज शुद्धात्म शुद्ध विचारो, तजी समता परमात्म धारो ॥ २६ ॥

चोपाई-ममता सम जग नहि दुःखदाइ, समता परम शांति  
सुखदाइ; जावकर्म मिथ्याती कर्त्ता, समकीर्ति कर्म जरमनो हर्त्ता ॥२७॥

सवैया इकतीसा-ज्ञानीनी क्रिया ते सहु निर्झराने हेते बहु,  
अज्ञानीनी बंधकारी जेद मन धारीए; ममत्तथी राग द्वेष होय बंधनो  
प्रवेश, ममताविना तो राग द्वेष न विचारीए; मिथ्यामती तेथी बंध  
ज्ञानी रहे निरबंध, ममता तजीने प्यारे निजात्म तारीए; अशरण  
संसारमां दया आप आपे करो, जत्र तरो शिव वरो शुद्ध बोध धारिएशु

सवैया इकतीसा-शुद्ध रूप एक जल संगथी अनेक थल,  
वांकी चूकी धारने परपोटा तरंग ठे, परसंगे बहुरूप संग विना शुद्ध  
रूप, पाणीमां विजाव जीम जीव अन्य संग ठे, जीव कर्त्ता ठे स्वतंत  
विजावनो आपे अंत, निर्मल गुण करीने आप सिद्ध आय ठे, ज्ञान  
विना क्रीया जूठी शुद्धात्मथी अपुठी शुद्धता समीप क्रिया साची  
शिवदाय ठे ॥ २८ ॥

सवैया इकतीसा-जो मिथ्यात करे नहीं जूठो त्रम धरे नहीं  
समजावे ज्ञानी रहे करम आवे नहीं, नसावे अन्याय सहु, ज्ञानादि  
प्रजाय बहु शुद्ध थिर राखे निज राज साचुं ए सही, विरुद्ध न रैयतमां  
न्यायी राज रह्युं जीहां साधीने अनंत सुख आनंद लहे मही, वैरी  
चोर जोर नहीं शोक दुःख जय नहीं, आनंदपुरी तो एवी पामे जीव  
ते सही ॥ ३० ॥

सवैया इकतीसा-चेतन चेतनावंत ममत्त तजे जो संत  
मार्गणादि नहीं त्यारे अेक शुद्ध बुद्ध ठे । ज्ञाननो समूह ज्ञान गम्य  
ठे स्वरूप जेनो देह व्यापी देहातीत शुद्ध अविरुद्ध ठे । शुद्ध सर-  
वंग अेक रस ठे चेतन ठेक सज्ञा निरमल सदा जग जयवंत ठे ।

ममत्त न तजे मूढ तव लग ते अशुद्ध कुमति अज्ञानी तेह अनादीनो  
अंध ठे ॥ ३१ ॥

सवैया इकतीसा-पुद्गल प्रजाय जोगी ज्ञानथी रह्यो वियोगी  
अनादि विज्ञाव योगी महा मोह सैनमां, मग्न रह्यो योग मांहि पुद्ग  
लना जोगमांहि निजरुप केम लहे मिथ्या वक्र नैनमां, जोगसुं उदासी  
रहे जूठ जोग नवि चहे सम्यक स्वरुप ग्रहे जोग चित चैनमां,  
सिद्धांतनो स्तार एह शुद्ध नय ग्रहे जेह समज्ञान जोगी रहे चेत  
गुरु वैनमां ॥ ३२ ॥

सवैया इकतीसा-निज निज क्रिया खेत व्याप व्यापक  
अचेद, द्रव्य जाव कर्मको नकर्ता ज्ञानी कहिये, मिथ्याती करे ममत्त  
नूढ्यो ठे आतम तत्व, द्रव्य जाव कर्म कर्ता मिथ्याती सहिए,  
आकाशमां जेला रहे सत्ता केनी को न ग्रहे पर निज माने रागे जिन  
जाणे नहि ए, समकीती कर्ता नहीं निजपर जिन माने, ज्ञान द्रग  
जोगी तेथी साचे राचे सही ए ॥ ३३ ॥

दोहरो-निश्चयथी मिथ्यामती, जाव कर्म करतार, द्रव्य कर्म  
कर्ता कह्यो, नय व्यवहार विचार ॥ ३४ ॥

सवैया इकतीसा-जूदा जूदा द्रव्यना ठे गुण परजाय सहु,  
लक्षण प्रकृति जेद रह्यो ठे अनादिनो, तोय पण जिनता न जासे जेने  
ते मिथ्याती, कर्म कर्ता जम जोगी मानीए उपाधिनो, समकीती पर  
निज जिन जाणे जिन माने, ग्रही समतानो जोगी सहज समाधीनो,  
ज्ञानी ते एकांत तजे स्यादवाद शुद्ध जजे आतम शुद्धि न तजे जूठो  
मत वादिनो ॥ ३५ ॥

सवैया इकतीसा-करे ते तो जोगी होय करे कोय जोगे कोय,  
एतो साची नही होय नय ठीक धारीए, मिथ्याती मिथ्यात करे  
ज्ञानी शुद्ध जाव करे, जम तिमिर हरे शुद्ध ए विचारीए, आतम



स्वरूप ग्रही ड्रग ज्ञान चर्णमयी, धर्म शुक्ल बाण ग्रही मोह चोर मारीए, केवल दर्शन ज्ञान वीरज थीर अमान, लही पद निरवाण आपे आप तारीए ॥ ३६ ॥

### ॥ बंध तत्व अधिकार ॥

सवैया तेवीसा—पुद्गल ज्ञावधि राग करे जव रागसु राग बढी अतिबंधे, कर्म पुरातनके दलसैं तव नौतन पुद्गल आइके फंदे, राग विज्ञाव बढे पर ड्रव्यधि पुद्गल आत्म प्रदेशकुं बंधे, रंग लगे निज आत्म स्वज्ञावमें बंधन मूल उखेरी निकंदे ॥ १ ॥

### ॥ मोह तत्व अधिकार ॥

सवैया तेवीसा—मोह लहे निज संपति जोगत सादि अनंत स्वतंत निसंगे, ज्ञायक एक समाधि लगावत पज्जव ड्रव्य अज्ञेद सुरंगे; धारि अखंडित ध्यान रहे थिर पंडित वीरज अंग उमंगे, चेतन शुद्ध चिदात्म जोगत एक स्वतंत्र सदा शिव संगे ॥ १ ॥

सवैया तेवीसा—है समज्ञाव सदाशिव मारग ज्यां समज्ञाव तिहां शुध ज्ञानं, ज्यां समज्ञाव तिहां सुख पूरण है समज्ञाव ते परम निधानं; ज्यां ममता तिहां दोष अनंत हे है ममता सहुकर्म निदानं, ज्यां समता सखि खंति रु मुत्तिहे अज्जव मइव तृप्ति अभानं ॥ २ ॥

सवैया तेवीसा—संयम सत्य अकिंचन ब्रह्महि ए समसुख अनंत अमानं, ज्यां समभाव सुमित्त अनंतहि है समज्ञाव सुधर्म प्रधानं; है समज्ञाव महाव्रत पंचज ए विण संयम ज्ञान न ध्यानं, ज्ञान विना समज्ञाव न आवत आवत ज्ञान तिहां वरनाणं ॥ ३ ॥

सवैया तेवीसा—जूठ क्रिया सव ज्ञानविना कहि ज्ञान कह्यो समज्ञाव सुसंगे, हो उतसर्ग समीप क्रिया कर निश्चय अंतर वाद्य

सुरंगे; आप लखी गुणठाण प्रवृत्ति स त्यागि प्रमाद क्रिया करि रंगे,  
साधत मार्ग समे मन धारत कर्मकि फौजकुं मारि उमंगे ॥ ४ ॥

दोहरा—बहिरातम तजी जावीये, अंतर आतम मांह्य, परमा-  
तम पद सिद्ध सम, जीहां विकल्प न कांय ॥ १ ॥ ढंडी परपद  
कामना, ध्यावो शुद्ध स्वरूप, सकल विकल्प तजी रहो, निज पदमां  
थिर रूप ॥ २ ॥ क्रिया चपलता जोगनी, तजत होय थिर ध्यान,  
आतम आतमता लहे, साधे परम कढ्याण ॥ ३ ॥ सकल कुशल वर  
वेल ए, घन पूष्कल जल धारं; दुरित तिमिरहर रविकर, जिनवाणी  
जयकार ॥ ४ ॥ कल्पवृद्ध सम फल दीये, जवजल निधीमां पोत;  
आतम अनुभव सुख करी, जमहर परम उद्योत ॥ ५ ॥ शिव संपति  
हेतु सदा, प्रणमं शांति जीणंद; मंगलकारी हो सदा, करी कढ्याणा-  
नंद ॥ ६ ॥ मंगल श्री जिनधर्म ठे, अतिशय मंगल चार; शिव संपति  
मनसुख लहे, परम समाधि उदार ॥ ७ ॥

चोपाई—चंपाबाई आग्रह अति कीधो, चंपालाल मदत रस  
लीधो; होजो ग्रंथ ए जगत प्रसिद्धो, सुणी समजे तस घर नव-  
निधो ॥ १ ॥ ओगणीश त्रेशठ अश्विन मासे, शुक्ल एकादशी ज्ञान  
विलासे; गुरु गुण रंगे दोहद वासे, ग्रंथ रच्यो अतिरंग विलासे ॥ २ ॥  
ग्रंथ सुबोध प्रकाशक नामे, कीधी रचना जवि शिव कामे; अक्षर अर्थ  
शुद्ध मन जावे, ते नर आतम संपति पावे ॥ ३ ॥ शुक्ल ध्यान अनु-  
भव थिर आवे, मनसुख शिव वर रंग जमावे; ते जव चक्रमां फेर न  
आवे, परम पूज्य प्रभुताई पावे ॥ ४ ॥

॥ संपूर्ण : ॥



॥ ॐ श्रीवर्द्धमानाय नमः ॥ श्रीगौतमाय नमः ॥

श्री मनसुखलालजीकृत श्री आदिनाथ प्रमुख चोवीश  
तीर्थकरनी स्तवनागीत चोवीशनो बालावबोध  
सहित प्रारंभ करियें ठैयें.

॥ अथ प्रथम श्रीरुषजिन स्तवन ॥

केसर अर्चित सुरनर पूजित वंदु आदि जिणंदोरे, ज्ञान  
न्याय ने दया सुधारि लहीशुं परमाणंदो ॥ वाणी प्रचुनी  
गजे राज, देवनी दुंदुभी गाजे राज, शोभा तारी गजे राज,  
आंति मननी आंजे राज ॥ १ ॥ आंकणी ॥

अर्थः—केशर चंदनादिके देवो मनुष्योनी कोडीए अर्च्युं ठे जेनुं  
अंग एवा प्रथम तीर्थकर अठार कोडाकोडी सागर धर्मविरहना टाल-  
णहार, सामान्य केवलीओमां इंद्र सरिखा, एवा पहेला जिनइंद्रने  
के० आदि जिनेश्वरने पूजो. के जे ज्ञान न्याय अने दया ए त्रणेनो  
सुधारो करनार तेमने पूजिने उत्कृष्ट आनंद पामीशुं. जे मिथ्याज्ञान  
ते ज्ञान नथी, जेम पुद्गलादिक परवस्तुने पोतानी जाणवी, मानवी,  
वापरवी ते ज्ञान नहीं; ने परवस्तुने पोतानी जाणी, मानी, वापरे तो ते  
न्याय पण नहीं, अने पर जे पुद्गल वस्तु ते उपर अनंत जीवोनी  
खुंटाखुंटे ठे तेना तेज पुद्गलो वारंवार ग्रहण करवाने माटे एके ग्रहेला  
बीजा खुंटे, बीजाए ग्रहेला बीजा खुंटे, तो ते जीवोने सुख केम होय ?  
जरूर हःख पामे; तो दया शानी ? माटे शुरू ज्ञान, शुध्द न्याय,  
शुध्द दयाना दातारनी आज्ञा अंगीकार करी ते प्रमाणे चालवायी  
ज्ञान न्याय अने दयानो सुधारो करी जीवो परमाणंदने पामे. रुपुं सोनुं  
अने रत्न एवा त्रण गढनी अंदर मणिमय सिंघासन उपर तीर्थपति



नहीं अने पोताना अनंत आनंदमय आत्मस्वभावमां मग्नपणे स्थिर रहे एटले फरीथी ममत्व अने कोइ जंतुथी विरुध्द न थाय. सर्व-ज्ञानी आज्ञा अणमानता जेने असद् आग्रह खोटुं निजमतिनुं अ-जिमान ठे ते कुमति हठीला, देहमां उपजता विषयरूप रोग ते विष सरखा तेने सुख करीने माने ठे. पण तुं देहथी न्यारुं पोतानुं परमाणं-दमय स्वरूप वतावी अज्ञानथी ठोडाववावालो तुं एटले अज्ञान बूढ्या पठी पूरण ज्ञान, पूरण न्याय, पूरण दया प्रगट थाय अने विरुध्दनो अंश रहे नहि. ॥ ३ ॥ इति तृतीय गाथार्थः ॥

दुरमति खटकायाने हणता, न्याय विना नहि ज्ञानीरे।तेथी में तुज साचो परख्यो, कुमत कदाग्रह जानी ॥ वाणी० ॥ ४ ॥

अर्थः—जेने आत्म स्वरूपथी दुरके० वेगली नजर ठे ते स्वपरहित अणजाणता ठए कायाना जीवोनी हिंसा करे, तेथी न्यायविना ज्ञानी नथी तो दया शानी होय ? तेथी ते लोकोना वचनो उपरथी माळूम पडे ठे के ते लोको ज्ञान न्याय दयाना अजाण ठे. तेथीज हे जिनेश्वर ! तारा वचनथी बहुनय, बहुचेदे अने बहु प्रमाणे कुमति कदाग्रह टालीने में तने साचो परखी कबूल कर्यो ठे ॥ ४ ॥ इति चतुर्थ गाथार्थः ॥

तारी आणा जेह विराधे, ते अपराधी होवेरे । ते नर संसारे संसरतो, काल अनंत विगोवे ॥ वाणी० ॥ ५ ॥

अर्थः—जे तारी आज्ञा विराधे ते ताहरो अने पोताना आत्मानो तेमज अन्य जीवोना पण अपराधी थाय ठे. ते जीव संसारमां एक गतिथी बीजी गतिमां प्रवेश करतो अनंतकाल सुधी पोते पोताने विगोवे ठे एटले ठेकाणे ठेकाणे जन्म जरा मरण परतंत्रता आदि बहु दुःख सहे ठे ॥ ५ ॥ इति पंचम गाथार्थः ॥

माहणता उपदेश करीने, जग जय पटुह वजावेरे । ते जगमां निज संपति पामी, विद्वसे सहज स्वभावे ॥ वाणी० ॥ ६ ॥

वेसे, अने वारे प्रकारनी पखदा चराय, वली देव मनुष्य तिर्यच अने स्वपर मतवादी आदि अनेक जीवोने देशना आपे. ते वाणी सकल दोष रहित अने पांत्रीश गुणे सहित शोभे ठे. ते वखते देवता आकाशमां दुंदुभी वजावे ठे एटले दुंदुभी गाजी रहे ठे. चविजीवोनी अनेक प्रकारनी त्रांति चागे ठे. अने जिनेश्वरनी चोत्रिश अतिशय आठ महाप्रातिहार्य आदि अनेक प्रकारे शोभा ठाजे ठे एवो तुं त्रिचुवन मांहे धर्म राजा तुं ॥ १ ॥ इति प्रथम गाथार्थः ॥

ज्ञान नहीं त्यां न्याय न दीसे, दया न्याय विण क्यांधीरे।  
कुमत हठीला जीव विराधे, ते न खसे चवमांधी ॥ वा० ॥ ७ ॥

अर्थः—ज्ञान विना स्वपर वस्तुने अने स्वपर वस्तुना स्वामिने जाणे नहीं तथा जूठ साच नीति अनितिने परखी शके नहीं; तो ते न्याय शी रीते करे? अने न्याय विना दया होयज नहीं. कुमति के० ज्ञानीओना वचनने अण सनमानता, पोतानी मति कटपनाए चादनारा, हठीला, जीवना ड्रव्यजाव प्राणने ओलख्याविना तेनी विराधना करे; तेथी सदाय चव चमण कर्या करे एटले चवथी खसे नहीं. ॥ १ ॥ इति द्वितीय गाथार्थः ॥

खटकायानुं विरुध्द मिटावे, परनुं ममत्व ठोडावेरे । कुमति  
दुःखने सुख करी जाणे, तुं अज्ञान नसावे ॥ वाणी० ॥ ३ ॥

अर्थः—जेम राजा पोतानी रैयतमां चोरी, व्यजिचार, लूटफाट, मार, कपट, जूठ आदि एक एकनुं विरुध्द मटावे. तेम प्रचु तुं चौदराज लोकमांहे रहेला ठए कायाना जीवोनुं विरुध्द मटाववावालो एटले कोई केना ड्रव्यजाव प्राणने हणशो नहीं दुखवशो नहीं एवो माहणतानो बोध आपी विरुध्द मटावनारो अने विरुध्दनुं कारण पर पुद्गलादिनुं ममत्व ते पण शुध्द नय, निक्षेप, प्रमाण अने बहुजंगे बोध आपी ठोडावनारो तुं. एटले ममत्व ठोड्या पठी कोई जीव केनुं विरुध्द करे

अने तो अपराधीजने मारवा पकडवा रात्रे राणी साथे सूतेला पंच  
इंद्रिना जोग विलास ठोडीने दोडवुं पडे ठे. पण ताहरे तो अपराधी  
माटे पोताना अखंड आनंदमां कांई खामी पडती नथी ॥ ७ ॥ इति  
अष्टम गाथार्थः ॥

परिकर ते रागादिक तेना, क्रोध माय ने कामोरे । तुं प्रयास  
विना शिवसंगे, विलसें परमारामो ॥ वाणी० ॥ ९ ॥

अर्थः—हवे जगजंतुना वक्र परिवार क्रोध कपट कामादिक तेज  
तेजने दुःख देठे. अने तुंतो प्रयास विनानो शिवकमला साथे अखंड  
विलास जोगवुं बुं ॥ ९ ॥ इति नवम गाथार्थः ॥

जगजंतुना परिकर दुविधे, वांकाने वली शूधा रे । वांका ते  
दुरगति पढोंचावे, शिवघर लावे शूधा ॥ वाणी० ॥ १० ॥

अर्थः—जगज्जीवने बे प्रकारनो अंतरंग परिवार ठे. एक तो उपर  
कहेलो क्रोध कपट कामादिक वांको दुःखदाइ परिवार ठे अने बीजो  
ज्ञान दर्शन चारित्र क्रांत्यादिक सुधो सुखदाइ परिवार ठे उपर कहेला  
क्रोध कपट कामादिक ते दुरगति दुःखमां पाडे ठे अने जे ज्ञानादिक  
सुधो परिवार ते सत्ताचूमिरुप आनंदपुरीमां उपद्रव रहित स्थानके  
एटले शिवघरे लावे ठे ॥ १० ॥ इति दशम गाथार्थः ॥

परवस्तु पोतानी माने, निज लक्षण न पिठाणेरे । परघर  
जमता बहु दुःखखमता, कुमति न्याय अजाणे ॥ वाणी० ॥ ११ ॥

अर्थः—ताहरी आज्ञाना अजाण कुमति पुद्गलादि परवस्तुने  
पोतानी माने ठे. पारकां घर धन स्त्री विगेरे पोतानुं जाणवाथी  
कांई पोतानुं थाय नहि. निज लक्षण एटले ज्ञान दर्शन उपयोगादि  
अरुपी निजात्म लक्षण जाणे नहीं अने पोताथी चिन्न एवां वर्ण गंध  
रस स्पर्श आकार आदि मूर्तिवंत पर लक्षण तथा अमूर्तिवंत आकाश  
आदिनां परलक्षण तथा पुद्गल संबंधे अयेलां विजावीक रागादिक



अर्थः—तें पोते अने गणधरो आचार्योनी मारफत माहणतानो निर्घोष जय पडह वजाड्यो. एटले नानामां नाना अंगर मोटा कोइ जीवने पण अंश मात्र दुःख देवुं नही आगामी काले पण कोइ जीव दुःखी थाय नहीं एवी यत्नाए वर्त्तवुं अने बीजाने पण यत्नाए वर्त्ताववा, अयत्नाए वर्त्ते तेने अनुमिती आपवी नहीं. एम मन वचन कायाए यत्नाए वर्त्तवुं. जे अयत्नाए प्रवर्त्तशे ते बहु दुःखी थशे. द्रव्यज्ञाव यत्नाए वर्त्तशे ते पोतानी ज्ञान दर्शनादि अक्षय संपदा पामी उपाधि रहित सहज स्वतंत्र स्वज्ञावे अनंतकाल सुधी पूरण परमाणंद विलाशी थशे ॥ ६ ॥ इति षष्ठ गाथार्थः ॥

राज विरुद्ध चले जन कोइ, तेहने राजा दंडेरे । प्रयास करी नरपति अधिकारी, देवे दूःख प्रचंडे ॥ वाणी० ॥ ७ ॥

अर्थः—जे कोइ राज विरुद्ध चले तेने राजा पोताना कोटवाल, फोजदार, जेदर विगेरे अधिकारीओ मारफत घणो प्रयास करी अपराधीने शिक्षा आपे ठे एटले जारे दुःख आपे ठे ॥ ७ ॥ इति सप्तम गाथार्थः ॥

अपराधीने प्रयास विहुणो, तुं तेहने नवि दंडेरे । पण अपराधीना जे परिकर, निज स्वामीने दंभे ॥ वाणी० ॥ ८ ॥

अर्थः—पण हे प्रभुजी तुं तो निःप्रयासी, ताहरी आणा तोडनार अपराधीने तुं पोते दंड आपतो नथी पण अपराध करनारना परिकर क० परिवार एटले अज्ञान मिथ्यात्व क्रोधादिकने राखनार जे जीव तेज अज्ञान मिथ्यात्वादिनो स्वामि तेने तेज अज्ञान मिथ्यात्वादि तेनो परिवार नरकादिक गतिमां लेई जइने असह्य वेदना उपजावे ठे. ए आश्चर्यनी बात ठे के! ताहरी आणा तोडनार अपराधीने दंड देवा ताहरे तो कांई प्रयास के दुःख सहेवुं पडतुं नथी. पण अपराधीनो जे परिवार तेज पोताना स्वामिने पोतानो आदर करनारने दुःख देठे. तुं तो पोतानी परम निवृत्ति राणी साथे परमाणंद विलासमां रहे ठे. राजा-

रैयत तेने हरकत करनारा समत्व राग द्वेष आदि चोरटा तेज पोताना शत्रु तेनो नाश करीने अने पोताना मित्रो हांत्यादिक गुणोने पोषी पोतानी सकल प्रजायरूप प्रजाने खुशी राखे ठे. वली तीर्थना राजा पोतानी चतुर्विध संघरूप रैयतने रागादिक चोरोना पासमांथी ठोडावी पोतानी आनंदपुरी नगरीमां थीर राखे ठे. माटे एवा परमोत्कृष्ट राजाना अक्षय राज्यमां सुखी रहींशुं ॥ १३ ॥

विमल राजपरखीने में तो, जाण्यो प्रचुने राजा रे। हुं निज आत्म सत्ता प्रणमुं, वंदु श्री जिनराजा ॥ वाणी० ॥ १४ ॥

अर्थ:—हे देवाधिदेव ! देवो अने देवोना इंद्रो नो देव, मुनिओना इंद्र ताहरुं निर्मल राज्य परखीने में तने परम राजा जाण्यो ठे. हुं मारी आत्मसत्तानो परिणामी थई परम नीति आदरी तुज समान राजाने प्रणाम करुं एटले ताहरी आज्ञामां रहुं ॥ १४ ॥

निज कर्ता चोक्तादिक जाणे, पर परिणति पर माने रे। निरमल चेतनता विण सहु पर, जाणी ममता ज्ञाने ॥ वाणी० ॥ १५ ॥

अर्थ:—जे पुरुष कर्ता, चोक्ता, ग्राहकता, व्यापकता, स्मरणता, दान, दान, जोग, वीर्य आदि पोतानुं पोतापणे जाणे, माने, अनुभवे अने पर एटले पर परिणति जे वर्णादिक तेने परपणे जाणी, परपणे मानी, तेनुं ममत्व तजी रागद्वेष वर्जि उदासीन्नपणे रहे, एक चेतनता शिवाय बीजुं माहरुं कांई नथी एम जाणी चेतनतामांहे मग थई थिर रहे तेज शाश्वत आनंदने पामे ॥ १५ ॥

रागादिक परचाव तजीने, थिर उपयोगे मातोरे, शिवसंगे रंगे रहि मनसुख, सहज न्यायमां रातो ॥ वाणी० ॥ १६ ॥

अर्थ:—जे पुरुष वर्णादिक रागादिक परचाव तजीने शुद्ध चेतना थिर उपयोगमां पुष्ट रहे तथा मनमां सुखे करी सहज न्यायमां रातो रहे शे ते शिव संगे रंगे मग श्हेशे ॥ १६ ॥ इति श्री रूपज्जिन स्तवनं समाप्तं

संयोगी लक्षण ते शुद्ध आत्माथी जिन्न लक्षण ठे पण अज्ञानी ते वर्णादिक रागादिकने ज्ञानविना स्वपर ड्रव्यनां जिन्न लक्षण जाणता नथी. तेथी अज्ञानी जिन्न जिन्न वस्तुओना जिन्न जिन्न स्वामिओने जाण्या विना न्याय शी रीते राखी शके ? अने न्याय विना दया पण केम राखी शके ? तेथी परघर केण चोराशी लक्ष जीवायोनी रुप पुद्गल घर अगर लोकाकाशना असंख्यांत प्रदेश रुप परघर तथा मोहनी कर्मना असंख्याता अध्यवसाय रुप परघर नमता बहु दुःख खमता कुमतिओ अनंतकाल परतंत्रता जोगवे ठे ॥ ११ ॥ इति अगी-यार गाथार्थः ॥

निज परवस्तु जिन्न न जाणे, तेह न्याय किम जाणे रे। न्याय ज्ञान ने दया विहूणो, कोण तस राजा माने ॥ वाणी ० ॥ १२ ॥

अर्थः—जे पोतानी वस्तु अने परवस्तुने जिन्न जाणतो नथी, एटले वस्तुना स्वामीने ओलखतो नथी ते न्याय शी रीते करी शके ? पुद्गल वर्णादिना कर्ता, चोक्ता, ग्राहक, व्यापक, रमणता आदि जीवमां माने ते न्याय केम जाणे ? अने जे न्याय जाणतो नथी तेने ज्ञानी केम कहीए ? अने ज्ञानविना स्वपर प्राणने शी रीते बचावी शके ? स्वपर प्राणनी हाणी कीये कीये शस्त्रे अने कये कये प्रकारे थाय ठे ते जाण्या विना दया शी रीते रहे ? एम न्याय ज्ञान अने दया विनानो ते पोतानुं राज्य राखी न शके तो ते राजा केम कहेवाय ? ॥ १२ ॥ इति द्वादश गाथार्थः ॥

विरुध्द मिटावे राजा साचो, थिर राजे सुख लहीए रे। अपणी रैयतने सुखी राखे, तस राजे सुखी रहीए ॥ वाणी ० ॥ १३ ॥

अर्थः—जे पोतानी सर्व रैयतनुं विरुध्द मिटावे अने पोतानी रैयतने केम कुशल राखे ते साचा राजाना थिर राज्यमां सुखी रहीए; तेम हमारो आदिनाथ राजा पोताना ज्ञानादिक अनंत प्रजायरुप पोतानी

संजमनुं मूल ज्ञान ठे अने संजम परम समाधिनुं कारण ठे एम जाणवुं २  
दया न्याये खरीरे, संजमधारी पाले शुद्ध । परम दामा  
धेरेरे, थिर रहि निज उपयोगे बुद्ध ॥ धन्य० ॥ ३ ॥

अर्थः—साची दया न्यायशीज थाय ठे अने संजमधारी एटले सिद्ध  
समान पोताना रूपने जाणी तेज उपयोग थिर राखे वली पंच विषय,  
पंच अब्रत, चार कषाय अने त्रण योगनी चपलता, ए सत्तर प्रकारे  
असंयम तजी संयम धारी शुद्ध दया पाले एटले संजम राखे. तेज  
संजमी ड्रव्यथी अने ज्ञावथी स्वपर प्राणने हणे नहि एटले परमदामा  
करे. अपराधी उपर पण कोपे नहीं तो बीजा सर्वे जीवो उपर तो केमं-  
कर होय तेमां शुं कहेवुं ? माटे बुध के० पंडित जनोए शुद्धात्म  
उपयोगमां थीर थवुं एटले चिर संचित पापनो लघु काले अंत आवे  
अने परम दया सधे ॥ ३ ॥

मद आठे तजेरे, धारे मृदुता विनय सुजाण । धर्म लहे  
खरोरे, शुद्धात्म साधि लहे निरवाण ॥ धन्य० ॥ ४ ॥

अर्थः—पंडित जन, जाति लान्न आदि आठे प्रकारना मद तजे अने  
कोमल परिणाम राखी धर्मना दातार अरिहंत अने धर्माचार्यादि दशनो  
पंच प्रकारे विनय साचवे तेज पुरुष साचो धर्म एटले ज्ञान दर्शन चरण  
तप वीर्यादि वस्तुगते रहेलो शुद्ध धर्म उतावलो निर्मल प्रगट करे  
एटले आत्मानी शुद्धता साधी निरवाण पद पासे. विनयवात्मानुं सर्वे  
धर्मानुष्ठान अने सूत्र अन्यास पगले पगले सिद्धि आपनार थाय.  
उक्तंच “ विनय मूले पन्नत्तो धम्मो ” ॥ ४ ॥

रुजुता आदरेरे, परथी निस्पृह ज्ञाव सदाय । कुमत अज्ञा-  
नीओरे, जाणे न्याय दया नहीं कांय ॥ धन्य० ॥ ५ ॥

अर्थः—सूज्ञ पुरुषो रुजुता आदरे एटले मन वचन काया अने परि-

॥ अथ द्वितीय श्री अजितजिन स्तवन ॥

अजित जिणंदनेरे, वंदी जीतुं मोह महंत, आठे कर्मनेरे,  
आवे चेतनताथी अंत ॥ धन्य नर तेहनेरे, सेवे श्री जिन  
आण । सकल सुख ते वरेरे, पावे पद निरवाण ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥

अर्थः—अजितनाथ अरिहंत जेणे मोहादिक आठकर्म शत्रुने जीत्या.  
तेज अजितनाथ अरिहंत अनंत ज्ञान दर्शनना दातार आत्मानुं शुद्ध  
वीर्य देखाडवावाला परम उपगारीने वंदी महा मोटो मोह जेणे  
सर्व संसारी जीवनी आत्म सत्ताचूमि पोताना कबजे दबावी राखीठे  
एवो जगत् द्वेषी तेने तमारी आजाण चाली तमारा बताव्या प्रमाणे  
दाव राखी जीतुं. तमारी आजा ठे के चेतना पोतानी चेतनता संचारे  
अने परद्रव्यनुं ममत्व करीने रागादिके चेतनाने मलिन करे नहि अने  
थीर उपयोगे चेतनताने अचल विमल राखे तो ज्ञानावर्णादिक आठे  
कर्मनो अंत आवे अने आत्मा परम समाधि परम निवृत्ति परमाणंदने  
पामे. धन्य ठे ! तेने के जे जिनेश्वरनी आजा सेवे एटले आत्म शुद्ध-  
तामां उपयोग थीर राखे अने द्रव्यभाव स्वपर प्राणनी हिंसा करे नहीं;  
ते पुरुष ज्ञानादिक चार अनंतां पामे अने अष्टात्मगुणरूप सिद्ध  
संपदाने पामे एटले ते सर्व सुख वरे निर्वाण एटले अचल शाश्वत  
सुख पामे ॥ १ ॥

ज्ञाने न्याय ठे रे, न्याये निर्मल ज्ञान सधाय । वली संजम  
रहेरे, एथी साचुं सुख लहाय ॥ धन्य ० ॥ २ ॥

अर्थः—ज्ञान विना न्याय नथी अने न्याय विना ज्ञान पण नहीं.  
ज्ञान विना दया नहीं. दया विना संजम नहि. संजमथीज साचुं सुख  
पामे, उक्तच दश वैकालिके “ पढमं नाणं तयो दया ” वली अन्य  
सूत्रे “ नाणेणं मुनि होई नो मुनि रण वासेणं ” एटले न्याय अने

अर्थः—आत्मा पोताना द्रव्य क्षेत्र काल अने जावमां जोतां पोते सत्य सिद्ध स्वरूप ठे, परद्रव्यादिकमांहे पोतानुं कांई नथी. स्वद्रव्य क्षेत्र काल जावमां पर द्रव्यादिक असत्यपणे ठे माटे एवी स्वद्रव्यादिकनी सत्यता जाण्याविना पोताना अजिमाने चालनारा कुमति चक्ररूप कुवामां पडेला ठे ॥ ७ ॥

पर ममता विनारे, राखे निर्मल निज गुण शुद्ध । तृणमणि नवि चहेरे, न करे जग जन कांई विरुद्ध ॥ धन्यं ० ॥ ८ ॥

अर्थः—चेतना जो परद्रव्यनुं ममत्व न करे तो राग द्वेष मिथ्यात्व अज्ञान दोषो आत्मअंगे लागे नहीं एटले आत्म अंग तथा आत्मगुण शुद्ध निर्मल रहे तेनुंज नाम साचो शौच कहिए. पण जगत् जीवनी एंठ हाड चाम मांस रुधिरादिनो पींड जे शरीर ते तो जातेज अशौच ठे. तो एने धोवाथी कई अशुचि गई ? अने शुं निर्मल अयुं ? अर्थात् कांई नहीं. माटे आत्मगुण निर्मल राखवो एज शौच जाणवो. परवस्तु धोवाथी आत्मानी निर्मलता थती नथी. आत्मा पोते ज्ञानादिक अनंत रिद्धिनो धणी ठे माटे जेणे आत्म स्वरूप जाण्युं ठे तेने तृणथी मांडी मणिरत्न पर्यंत कोई वस्तुनी जरूर नथी माटे कोई जगत् जीवोथी कोई रीतनुं पण विरुद्ध करता नथी ॥ ८ ॥

अठार हजारनारे, शुद्ध राखे शील सुअंग । ब्रह्मचारी हुवेरे, पामे निर्मल ज्ञानसुं रंग ॥ धन्य ० ॥ ९ ॥

अर्थः—सिद्ध समान आत्मानुं शुद्ध स्वरूप तेज शुद्ध ब्रह्म कहीए ते शुद्ध ब्रह्म आचरण माटे अठारहजार जेदे अब्रह्म तजे एटले अठार हजार जेदे पराचरणरूप अब्रह्म तजी शीलनां अठारहजार अंगरूप ब्रह्मचर्य आचरी निर्मल ज्ञानथी रुडो रंग राखे. ए अठारहजार जेदनी विगत सुमतिविलास ग्रंथना पहेला जागमां आत्मबोध पत्रिकामां दर्शावेल ठे ॥ ९ ॥

णामनी वक्रता ( कुटीलता ) नहीं; साचा ज्ञाव प्रकाशे कोईने उगवा माटे चाहे नहीं कह्युं ठे के:-

“ गाथा ॥ तित्थयर समो सूरी, सम्मं जो जिणमयं पयासेई; आणाइ अइक्कंतो, सो कापुरिसो न सप्पुरिसो ॥ ”

अर्थ:-तीर्थकरनो मार्ग सम्यक् प्रकारे सुधो प्रकाशे एटले क्रोध कामादिके मार्ग उलटो प्ररुपे नहीं तेज पुरुष तीर्थकर सरखो जाणवो. अने तिर्थकरनी आज्ञा मतिकटपनाए अतिक्रमे ते कुपुरुष ठे पण सत् पुरुष नथी. केमके ते पोते पण बूडे अने अन्य जोला जीवोने पण संसारमां बूडाववावालो जाणवो. जे पंडिते आत्म स्वज्ञावमांहे पोतानुं ज्ञान दर्शनादि परम अटूट अद्भय धन जाण्युं ठे अने परम निवृत्तिनो विवास जाण्यो ठे तेने अन्य जीव अथवा पूद्गलनी कांई स्पृहा ईष्ठा मनोरथ कामना होती नथी. पण कुमति अज्ञानी, न्याय अने दया विगेरे परम समाधिना मार्गने जाणता नथी, स्वेच्छाचारे वर्ती स्वपरने अहितकारी थाय ठे ॥ ५ ॥

तृप्त रहे सदारे, निजगुण रत्नत्रये थिर थोत्र । सिद्ध समो लखेरे, संजम निर्मल थिर अक्षोत्र ॥ धन्य० ॥ ६॥

अर्थ:-वली सुद्ध पुरुषो स्वज्ञान स्वदर्शन स्वज्ञावाचरण रुपशुद्ध जोग जोगवतां निज रम्य रुपमां रमण करतां तृप्तिवंत रहे ठे. तेथी तेने विषयो अने धनना जोगनी तृष्णातुरता थती नथी अने दीनता पण होती नथी ते माटे परम तप जाणवो. वली सत्तागते पोतानुं सिद्ध समान स्वरुप जाणीने ते शुद्ध रुपमां लक्ष थिर राखे ठे अने विषय परिसह धनादिकथी क्षोत्रना एटले चपलता करता नथी एटले अचल निर्मल संजम राखे ठे ॥ ६ ॥

निज ज्व्यादिकेरे, जाणे सहजे सिद्ध स्वरुप । एवी सत्य-तारे, विण लखी कुमत पड्या जवकूप ॥ धन्य० ॥ ७ ॥

अर्थः—आत्मा पोताना द्रव्य क्षेत्र काल अने जावमां जोतां पोते सत्य सिद्ध स्वरूप ठे, परद्रव्यादिकमांहे पोतानुं कांई नथी. स्वद्रव्य क्षेत्र काल जावमां पर द्रव्यादिक असत्यपणे ठे माटे एवी स्वद्रव्यादिकनी सत्यता जाण्याविना पोताना अज्ञिमाने चालनारा कुमति चक्ररूप कुवामां पडेला ठे ॥ ७ ॥

पर ममता विनारे, राखे निर्मल निज गुण शुद्ध । तृणमणि नवि चहेरे, न करे जग जन कांई विरुद्ध ॥ धन्यम् ॥ ८ ॥

अर्थः—चेतना जो परद्रव्यनुं ममत्व न करे तो राग द्वेष मिथ्यात्व अज्ञान दोषो आत्मअंगे लागे नहीं एटले आत्म अंग तथा आत्मगुण शुद्ध निर्मल रहे तेनुंज नाम साचो शौच कहिए. पण जगत् जीवनी एंठ हाड चाम मांस रुधिरादिनो पींड जे शरीर ते तो जातेज अशौच ठे. तो एने धोवाथी कई अशुचि गई ? अने शुं निर्मल थयुं ? अर्थात् कांई नहीं. माटे आत्मगुण निर्मल राखवो एज शौच जाणवो. परवस्तु धोवाथी आत्मानी निर्मलता थती नथी. आत्मा पोते ज्ञानादिक अनंत रिद्धिनो धणी ठे माटे जेणे आत्म स्वरूप जाणुं ठे तेने तृणथी मांडी मणिरत्न पर्यंत कोई वस्तुनी जरूर नथी माटे कोई जगत् जीवोथी कोई रीतनुं पण विरुद्ध करता नथी ॥ ८ ॥

अठार हजारनारे, शुद्धा राखे शील सुअंग । ब्रह्मचारी हुवेरे, पामे निर्मल ज्ञानसुं रंग ॥ धन्यम् ॥ ९ ॥

अर्थः—सिद्ध समान आत्मानुं शुद्ध स्वरूप तेज शुद्ध ब्रह्म कहीए ते शुद्ध ब्रह्म आचरण माटे अठारहजार चेदे अब्रह्म तजे एटले अठार हजार चेदे पराचरणरूप अब्रह्म तजी शीलनां अठारहजार अंगरूप ब्रह्मचर्य आचरी निर्मल ज्ञानथी रुडो रंग राखे. ए अठारहजार चेदनी विगत सुमतिविलास ग्रंथना पहेला जागमां आत्मबोध पत्रिकामां दर्शावेल ठे ॥ ९ ॥



राजा न्यायनोरे, तुं प्रभु मोटो मुज मन मांह्य । दाख्या तत्त्व  
तें रे, करवा त्याग ग्रहण उठांह ॥ धन्य० ॥ १० ॥

अर्थः—हे जिनेश्वर ! उपर प्रमाणे संसार तरवाना मार्ग तें अम  
सरखा दीन अनाथने बताव्या. तुं पूरण न्यायनो राजा तुं तेथी मारा  
मनमां ताहरा समान बीजो राजा आवतो नथी. तें जे नवतत्त्व आदि  
तत्त्वो बताव्या ते ताहरा कह्या प्रमाणे जे आश्रवादि तत्त्वो त्याग करवा  
कह्या ते त्यागवाने अने संवरादि तत्त्वो उपादेय कह्या ते आदरवाने  
मारा मनमां उमेद ठे ॥ १० ॥

सत्ताचूमिनोरे, राजा तुं जिनजी जग मांह्य । मनसुखने  
सदारे, शिववर कटपतरुनी ठांह ॥ धन्य० ॥ ११ ॥

अर्थः—हे देव ! तुं पोतानी आत्मसत्ता चूमि ज्यां अनंत गुण रत्न  
चरेलां ठे एवी पोतानी सत्ता चूमिनो तुं साचो राजा तुं पण बीजा, अन्य  
वस्तुना ममत्वे करी पोताने राजा कटपे ठे तेम तुं नथी अने तुं मन-  
सुखने शिवफल आपनारुं एवुं स्वज्ञावाचरणरुप कटपवृक्षनी प्रधान  
ढायारुप तुं एटले पोताने वचने करीने चवत्रमणनी असमाधि टाली  
परम समाधिनो दातार तुं ॥ ११ ॥ संपूर्ण ॥

॥ अथ श्री तृतीय श्री संज्ञवजिनं स्तवनं ॥

धन्य ते मुनिवरारे, जे चाले समज्ञावे ॥ ए राह ॥

संज्ञवदेवनोरे, निरमल पुरण सुधिर समज्ञाव; सहज  
अज्ञेद ठेरे, दर्शन ज्ञान चरण एकज्ञाव ॥ ए आंकणी० ॥  
अव्यावाध अनंतो वीरज, प्रगट्यो पूर्णानंदोरे, चौसठ इंद्र करे  
नित सेवा, वाणी शिवतरु कंदो ॥ संज्ञव० ॥ १ ॥

अर्थः—त्रीजा श्री संज्ञवनाथ अरिहंत देवाधिदेवनो अतिशय निर्मल  
पूरण परमस्थिर समज्ञाव ठे के जेना ज्ञान दर्शन चरणादिकना अनंत  
पर्याय स्वतंत्र स्थिरताने पाम्या ठे, विना प्रयासे समज्ञावरुप अमृत  
समुद्रमां परम आढ्यादने जोगवे ठे, सकल उपाधि वर्जित दर्शन ज्ञान

चारित्र्यादिकनो आत्म प्रदेशथी अज्ञेदपणे सर्व समय विकल्प रहित  
एकांतिक अत्यंतिक आनंद जोगवे ठे. जेना सर्व प्रदेशे अने सर्व पर्याये  
सर्वकाले अनंतो अव्याबाध विलास ठे. जेनुं वीर्य अनंता ठती पर्यायमां  
अने सामर्थ्य पर्यायमां अंत रहित अस्खलित स्वतंत्र अप्रतिहत थीर  
अकंप ठे. ए आदि हे प्रभु ! ताहरे पूर्णानंद प्रगट थयो ठे. चोसठ ईद्रो  
जेनी शेवा हमेश करे ठे जेनी वाणी लोकालोकना त्रिकालवर्तीना  
रूपी अरूपी सर्वे ज्ञावने प्रकाश करवावाली अने मोक्षफल आपनारुं  
चारित्ररूपी वृद्ध तेनुं मूल ठे ॥ १ ॥

मुज होजो समज्ञावनो दाता, प्रभु जगजंतु त्रातारे। जस त्रिभु-  
वन कीर्ती विख्याता, हम तो प्रभु गुण राता ॥ संज्ञव० ॥ १ ॥

अर्थ:-हे प्रभु ! तमे मने समज्ञावना दाता होजो. समज्ञाव विना  
हुं माहरा ज्ञान दर्शन चरणादिक सर्व आत्मगुणो मलिन करी गुण विष-  
मताए आठ कर्मनो बंध करी गुणजोग विना रीतो के० खाली रह्यो  
अने आठ कर्मनी उपाधि बधारी परतंत्रताए अनंत दुःख सह्यां; हवे  
हुं ताहरा शासनमां ताहरे शरणे आव्यो. तुं जगजंतुने दुर्गुणो अने  
दुर्गतिथी बचावनारो तुं ताहरी कीर्ती स्वर्ग मृत्यु पाताल त्रणे लोकमां  
प्रख्यात ठे तेथी हुं तो ताहरा गुणमांहे रातो (रींझ पाम्यो) हुं ॥ १ ॥

सुत तप खटआवश्यक करणी, समज्ञावे सुखत्रणीरे । ते  
विण जूठ सकल खल करणी, श्री जिनशासन वरणी ॥ सं० ॥ ३ ॥

अर्थ:-सूत्र तप अने खटआवश्यकदिक ते समज्ञाव सहित होय  
तो ज सुखत्ररी आपनारां थाय. समज्ञावविना सर्वे अनुष्ठान बालचाल  
जेवां अहेतु जाणवां एटले तुष खंडण समान ठे. हे प्रभु ! ताहरा शास-  
नमां साध्य सापेक्ष अनुष्ठान मोक्षफलनुं आपनारुं कहुं ठे ॥ ३ ॥

निर्मल साध्य लक्षण अनुसारी, सत्ता थल जग धारीरे । विधि  
निखेद करी अइ अधिकारी, करुं किरिया जयकारी ॥ ४ ॥

अर्थ:—निर्मल साध्य के० सिद्ध समान आत्मानि शुद्धता ते साध्य.  
 अने साधना लक्षण एटले ज्ञान दर्शन चरणादिक पर्यायनी शुद्धता  
 अने थिरता तेने अनुसरिने आत्म सत्ताचूमिमां ज्यां ज्ञानादिक गुणो  
 रह्या ठे त्यां द्रष्टि धारीने एटले उपयोगनी थिरता राखीने उपयोगनी  
 थीरता वधारनारां बाह्य कारण आदरी अने उपयोगनी थीरता चूका-  
 वनारां बाह्य कारण तजी एटले विधि निखेद करी पुद्गल परिणति  
 उपरथी पोतानो अधिकार उठावी शुद्धात्म परिणतिना अधिकारी थई  
 मोहादिक कर्मोथी जय करनारी क्रिया करुं ॥ ४ ॥

द्रव्य प्रदेश पुरण गुण पज्जव, ठालो ठाम न दीसेरे, काल  
 अनंत स्वतंत्र अखंडित, समरस हियडे हीसे ॥ संज्ञव० ॥ ५ ॥

अर्थ:—आत्मद्रव्यना सर्वे प्रदेशमां गुण अने पर्याय पूरण जरेला ठे.  
 कोइ प्रदेशे गुण पर्यायनो अंशमात्र आठो अधिको नथी एटले पर-  
 द्रव्यना गुण पर्याय रहेवाने माटे स्वप्रदेशमां अंशमात्र ठाम खाळी  
 नथी. आत्मद्रव्यना गुणो अनंतकालथी आत्मप्रदेशे स्वतंत्र ठे अन्य  
 द्रव्यथकी ए गुणो लेवाय वुंटाय बगाडाय खेसवाय के खंडित थाय  
 नहि पण पोतेज ते स्वगुणो उपर नजर न देतां आत्माथी बाहिर पर-  
 द्रव्य उपर द्रष्टि राखतां बहिरातम जावे परद्रव्य उपर थता विकारने  
 पोतापणे मानतां पोतेज चूके तो ते कंई अन्यनो वांक नथी; एटले बीजा  
 कोई इंद्र चक्रवर्ती आदिक चौदराज लोकमांहे महा वलवंत होय ते  
 पण आत्मगुणोने हरकत करी शके एवा नथी. ज्यां सुधी पोते न संज्ञाव्युं  
 त्यांसुधी पोतेज परतंत्रता आदरी ठे पोतानी शुद्धता जाण्वापठी अन्य  
 कारण हरकत करी शकतां नथी एटले आत्मसत्ताचूमिमां परद्रव्या-  
 दिक आवी प्रवेश करी शकता नथी. समपरिणामे पोतानी सत्ता  
 जोईए तो ते समज्ञाव रूप अमृत हैयामां हर्ष प्रमोद उपजावे ठे ॥ ५ ॥  
 परद्रव्ये नवि आवे जावे, गुण पज्जव कोइ केनोरे । सदा  
 अनेद अवाधित लहीए, जे जेहनो ते तेहनो ॥ संज्ञव० ॥ ६ ॥

अर्थः—पंचास्तिकाय द्रव्यमांथी कोई द्रव्यनो गुण पर्याय अन्य द्रव्यमां जाय नहीं तेम अन्य द्रव्यनो गुण पर्याय स्वद्रव्यमां आवे नहीं; एटले कोई द्रव्यनो गुण पर्याय अन्य द्रव्यमां जाय पण नहीं तेम अन्यनो अन्यमां आवे पण नहीं; अनादि अनंतकाल सुधी द्रव्यना गुण पर्याय स्वस्थानकने ठोडे नहीं परस्थानके जाय नहीं एटले जे द्रव्यनो जे गुण पर्याय होय ते तेनोज रहे ते अन्यनो थाय नहीं तेम अन्यमां जाय नहीं त्रणे काल पोताना प्रमेयने चूके नहीं सदा अबाधित पणे पोतानी परिणामिकताए परिणमे. जेम पुद्गलनो वर्ण गुण ते सर्वे समये वर्ण पणेज परिणमे पण गंधपणे न परिणमे तेम जीवना जे ज्ञानादिक गुणो ते सर्वे आप आपणा कार्यपणे परिणमे स्वजाती अन्य कार्यपणे पण न परिणमे तो परजाति अन्य कार्यपणे केम परिणमे ? अर्थात् नज परिणमे. एटले सर्वे द्रव्यना गुण पर्याय स्वद्रव्य प्रदेशथी अज्ञेदपणे ठे ते बूटा केम पडे ? अन्य द्रव्यनुं बल अन्य द्रव्यमां प्रवेश कर्याविना कोई केने बाधा पीडा शी रीते करी शके ? तेम गुण दोष पण करी शके नहीं एम निश्चयथी जाणवुं. माटे द्रव्यथी द्रव्यना गुण पर्याय अज्ञेद अबाधितपणे जे जेहना ते तेहना एम जाणवुं ॥ ६ ॥

जे परपरिणति अपणी माने, वरते आरत ध्यानेरे। साधक बाधकता नवि जाणे, ते मिथ्या गुणठाणे ॥ संज्ञव० ॥ ७ ॥

अर्थः—जे पुद्गल परिणतिने पोतानी माने ए पुद्गल परिणति अनंत पुद्गल परमाणुनी एक वर्गणा अने अनंत पुद्गल वर्गणाथी थएलां देह स्त्री धन पुत्रादि अथिर आपणी ईहाए चाले नहीं एवां सडण पडण विध्वंसन धर्मवादाने पोतानां माने तेने अवश्य आर्त्त रौद्र ध्यान थयाविना रहेज नहीं अने बाधकता साधकताने एटले अमुक परिणामे वर्त्ततां कर्म बंध अशे अने अमुक परिणामे मोक्षमार्ग सधाशे एम न जाणवाथी ते पहेले गुणठाणे जाणवो ॥ ७ ॥

साध्य लख्याविण साधन साधे, ते जिन आण विराधेरे  
 नवकंतारे ते नमवाने, शुद्धात्म नवि साधे ॥ संनव० ॥ ७ ॥

अर्थ:-जे वस्तु जेवी रीतनी तैयार करवीठे ते स्वरूप जाणे नहीं  
 एटले पोताना आत्मानुं केवुं रूप तैयार करवुंठे ते जाणे नहीं अने क्रिया  
 प्रवृत्ति करे एटले साधन साधे अने साध्य साधवाने माटे केवलज्ञानी-  
 ओए जेवी आज्ञा फरमावीठे ते प्रमाणे वर्त्ते नहीं ते जिनेश्वरनी आज्ञानो  
 विराधक जाणवो अने पोताना कार्यनो पण विनाश करनार जाणवो.  
 ते दुःखदाई नवकंतरमांहे नमवानो अत्रिलाषी थई निजात्म शुद्धताने  
 साधतो नथी निःशंकपणे चार गतिना दुःखनो साधनारो थायठे ॥ ७ ॥

दुर्मती डाचे डाकण नाचे, जीच्या मिथ्या माचेरे । स्यादवाद  
 वस्तु जे राचे, ते किम जाणे साचे ॥ संनव० ॥ ८ ॥

अर्थ:-जिनेश्वरना मार्गशी उलटो मिथ्यामार्ग चलावनारा दुर्मतीना  
 डाचामां जीच्या रुपी डाकण नाचेठे मिथ्यातमां माचेठे पण जे स्याद्वाद  
 वस्तुस्वभाव जाणी निजात्म तत्त्वमां रींझ्याठे ते मिथ्यावाणीने केम  
 साची जाणशे ? ॥ ८ ॥

समये साचे जे नर राचे, परसमये किम माचेरे । ते जिनवाणी  
 जाणे साचे, आत्म अनुभव राचे ॥ संनव० ॥ १० ॥

अर्थ:- अरिहंतना प्ररुपेला शुद्ध तत्त्वमार्ग सिद्धांतरुप साचा  
 समयमां जे राच्या ते परसमय के० शांख्यादिनां शास्त्र जेमां ज्ञान,  
 न्याय, दया नष्टी जेमां वस्तु स्वरूपनो यथार्थ बोध नथी. पुद्गल  
 परिणति रूप परसमयमां सुख समाधि बतावीठे एवुं परनुं सिद्धांत तेमां  
 केम राचशे ? ते जिनेश्वरनी वाणी साची जाणीने शुद्धात्म अनुभव  
 मांहे रच्या मच्या रहेशे. ॥ १० ॥

निश्चे दर्व अनुयोग अच्यसे, सुत अनुभव सुविलासेरे ।  
 निश्चय समकित तेहिज पासे, लहे खायक उद्धासे । संनव० ॥ ११ ॥

अर्थः—जे जवि निश्चय द्रव्यानुयोगनो अच्यास करशे अने सूत्रमां पोतानी परिणति उंडे विचारे रमावशे, विलास करशे तेने निश्चय समकित पोतानी पासेज ठे अथवा पामशेज. अने आत्मवीर्य उद्धास पामी ह्यायक समकित पण पामशे ॥ ११ ॥

सकल पाप ह्यकारि खायक, सम्यक् प्राक्रम मलीयुं रे। सहजे ते समजाव उपावे, ते आगल कोण बलीयुं ॥ संव्रव० ॥ १२ ॥

अर्थः—सर्वे पापनो ह्य करनार खायक समकितनुं बल जेने मद्युं ते जीवने सहजे समजाव आवशे एटले ह्यायक समकित अने समजाव आगल बीजुं कोण बलवान ठे ? केवल ज्ञानादिक अनंतगुणोने निर्मल करनार अने थीर करनार एक समजावज ठे ॥ १२ ॥

प्रसन्नचंद्र मुनि ऋरतादिकनुं, समजावे कारज सीधुं रे,। तर्या तरे ने तरशे एहथी, गुरुमुख अमृत पीधुं ॥ संव्रव० ॥ १३ ॥

अर्थः—प्रसन्नचंद्रराजा चारित्रलेई बाहिरथी निर्दोष संजम पालतो हतो पण पुत्रनुं राज्य जाय एवी हकीकत सांचली ममता आवी क्रोध मानादि फेड्या, सातमी नरकनां दल मेलव्यां, तेनो बंध पड्या पहेलां माथाउपर हाथ पडवाथी हुं संजमी हुं एम जाणी उपशम संवेग आव्यो तेथी अशुचदल विखेरी समजाव आदरी, शुद्ध्यान आदरी घनघाती नाश करी चार अनंतां प्रगट कर्या अने सिद्धि पण पाम्या सर्वे दुःखनो अंत कर्यो. वली ऋरतराजाए पण ठखंडनुं राज्यकरी अरीसाचुवनमां तत्त्व विचारथी समजाव लावी केवलज्ञान निपजाव्युं. ए आदि गये काले जे तर्या वर्तमाने तरे ठे अगार आत्मगुणनी वृद्धि करे ठे वली आगामी काले तरशे ते सर्वे समजावनुं महात्म्य ठे. अन्य मतिओथी पण समजावने खोटो कही शकाशे नहीं. माटे विनाप्रयासे परम आणंदने आपनारो समजाव सुखअजिलाषीए जरूर आदरवो. में तो समजावरूप अमृत गुरुमुखथी पीधुं एटले समजावनेज सार जाण्यो ठे.

उक्तंचः—

“गाथा ॥ सेयंवरो य आसं-बरोय बुधेय अहव अन्नो वा ॥  
समजावजाविअप्पा । लहेइ मुखं न संदेहो ॥ १३ ॥”

न्याय ज्ञान संजम समजावे, अनुजव रस अज्यासेरे ।  
अचला विमला कमलासंगे, मनसुख शिवघर वासोसंजव ॥ १४ ॥

अर्थः—साचो न्याय ज्ञान अने संजम एटले दया समजावथीज थाय  
ठे. माटे समजावनो आनंद लेवाने जे अनुजव अज्यास करे ते अचल  
अने निर्मल ज्ञान दर्शनादिक लक्ष्मी साथे मनसुख कहे ठे के शिव-  
घर वासो करे ॥ १४ ॥

॥ संपूर्ण. ॥

॥ अथ श्री चतुर्थ अजिनंदनजिन स्तवन ॥

॥ नंद सलुणा नंदनारे लो, तें तो मने नांखी ठे फंदमारे लो ॥ ए राह ॥

अजिनंदन जिन चरणे नमुंरे लो, शुद्ध ध्येयमा ध्यान  
थापी रमुंरे लो ॥ ए आंकणी ॥ देहथी न्यारो हुं सदारे  
लो, में तो देहथी मानी ठे एकतारे लो, परकारज कर्ता मानी-  
योरे लो, निज कर्ता काज न पिठाणीयोरे लो ॥ अजि० ॥ १ ॥

अर्थः—अजिनंदन स्वामिना चरण कमलमां मस्तक नमावी  
नमस्कार करी आज्ञा शीर चढावी अजिनंदन स्वामिए आदरेला अने  
प्ररुपेला स्वजावाचरणनो परिणामी थऊं. सिद्ध समान शुद्धातम जाव  
तेज शुद्ध ध्येयमां ध्यान थापी रमण करूं. मन वचन कायाना योग अन्य  
कार्य प्रवृत्तिमांथी वारी एक शुद्ध ध्येयमां थिर करीए अने शुद्ध ध्येयने  
लक्ष्मी न चूकीए तेनुं नाम ध्यान कहीए. अनंत पुद्गल वर्गणाथी  
उपजेलो देह अथिर तेथी न्यारो हुं अरुपी अनंत चेतना वीर्यवंत हुं  
पण परमेश्वरनी वाणी जाण्याविना हुं देहथी एकमेक थई रह्यो एटले

देह एज हुं तुं एम जाण्युं पण पूर्णानंदमय माहरुं स्वरुप न जाण्युं  
 त्यांसुधी अनंत दुःख सहां. हुं ज्ञान दर्शनादिक निजगुणनो कर्त्ता तुं  
 अने ज्ञान दर्शनादिक निज गुण एज माहरुं कार्य ठे एम न जाण्युं  
 त्यांसुधी में मने पुद्गल वर्णादिनो कर्त्ता जाण्यो अने पुद्गलनी क्रिया  
 शब्द आकार उत्पेक्षाण ( जंचुंफेंकवुं ) आपेक्षाण ( नीचुंफेंकवुं ) प्रसा-  
 रण ( विस्तारवुं ) आकुंचन ( संकोचवुं ) गमन ( गमनकरवुं ) ए विगेरे  
 अनंत पर्यायमां माहरुं कार्य मान्युं, हर्ष संतोष मान्यो पण ते पुद्गल  
 कार्य माहरे हाथे स्वतंत्र रह्युं नहि. एटले कोई द्रव्य अन्य द्रव्यना  
 कार्यनो कर्त्ता नथी ते ठतां मिथ्याचावे अन्यना कार्यनो कर्त्ता मान्यो  
 ते फोकट श्रम करी दुःख उपाज्युं. अनंतकालसुधी चौदराज लोकमां  
 जमतां जे जे पुद्गल कार्य में कर्त्ता अने तेमांथी सुख लेवानो अजि-  
 लाष राख्यो पण ते कार्य सर्वे विनाश पास्यां तेथी सुख हाथ आव्युं  
 नहीं ॥ १ ॥

जोगी निज जोग न जाणीयोरे लो, रागे परजोगो मानी-  
 योरे लो । परग्राह्य तणी ममता करीरे लो, निज ग्राह्य विना  
 जववन फरीरे लो ॥ अजिनंदन० ॥ २ ॥

अर्थः—हुं जोगी ठतां ज्ञान दर्शन अबाधित अनंत वीर्यादि पोताने  
 जोगववा लायक स्वक्षेत्रमां ठे तेने जाण्याविना परक्षेत्रे रह्या जे शब्द  
 वर्ण गंध रस स्पर्शादिक ते मांहे जोग मान्यो. ते परक्षेत्री जोग  
 जोगवी शकाय नहीं तो पण तेना राग वशे में एम जाण्युं हुं जोगवुं तुं  
 पण मात्र राग द्वेषने जोगवी दुखी रह्यो पण स्वक्षेत्रे रह्या जे जोगववा  
 लायक स्वतंत्र आनंद आपनार आत्माना अनंत धर्म तेना जोगविना  
 रीतो ( खाती ) रह्यो. कोई द्रव्यना गुण पर्यायरुप ग्राह्यने अन्य द्रव्य  
 कोई ग्रहण करी शकतो नथी. जेम मणिनी निर्मल कान्ति आदिक  
 ग्राह्यने पत्थर ग्रहण करी शकतो नथी अने पत्थरना गुणरुप ग्राह्यने



“गाथा ॥ सेयंवरो य आसं-वरो य बुक्षेय अहव अन्नो वा ॥  
समज्ञावज्ञाविअप्पा । लहेइ मुखं न संदेहो ॥ १३ ॥”

न्याय ज्ञान संजम समज्ञावे, अनुज्ञव रस अज्यासेरे ।  
अचला विमला कमलासंगे, मनसुख शिवघर वासोसंज्ञव ॥ १४ ॥

अर्थः—साचो न्याय ज्ञान अने संजम एटले दया समज्ञावथीज थाय  
ठे. माटे समज्ञावनो आनंद लेवाने जे अनुज्ञव अज्यास करे ते अचल  
अने निर्मल ज्ञान दर्शनादिक लक्ष्मी साथे मनसुख कहे ठे के शिव-  
घर वासो करे ॥ १४ ॥

॥ संपूर्ण ॥

॥ अथ श्री चतुर्थ अचिनंदनजिन स्तवन ॥

॥ नंद सलुणा नंदनारे लो, तें तो मने नांखी ठे फंदमारे लो ॥ ए राह ॥

अचिनंदन जिन चरणे नमुंरे लो, शुद्ध ध्येयमा ध्यान  
थापी रमुंरे लो ॥ ए आंकणी ॥ देहथी न्यारो हुं सदारे  
लो, में तो देहथी मानी ठे एकतारे लो, परकारज कर्त्ता मानी-  
योरे लो, निज कर्त्ता काज न पिठाणीयोरे लो ॥ अचि० ॥ १ ॥

अर्थः—अचिनंदन स्वामिना चरण कमलमां मस्तक नमावी  
नमस्कार करी आज्ञा शीर चढावी अचिनंदन स्वामिए आदरेला अने  
प्ररुपेला स्वज्ञावाचरणनो परिणामी थऊं. सिद्ध समान शुद्धातम जाव  
तेज शुद्ध ध्येयमां ध्यान थापी रमण करूं. मन वचन कायाना योग अन्य  
कार्य प्रवृत्तिमांथी वारी एक शुद्ध ध्येयमां थिर करीए अने शुद्ध ध्येयने  
लक्ष्मी न चूकीए तेनुं नाम ध्यान कहीए. अनंत पुद्गल वर्गणाथी  
उपजेलो देह अथिर तेथी न्यारो हुं अरुपी अनंत चेतना वीर्यवंत हुं  
पण परमेश्वरनी वाणी जाण्याविना हुं देहथी एकमेक थई रह्यो एटले

देह एज हुं तुं एम जाण्युं पण पूर्णानंदमय माहरुं स्वरुप न जाण्युं  
 त्यांसुधी अनंत दुःख सहां. हुं ज्ञान दर्शनादिक निजगुणनो कर्त्ता तुं  
 अने ज्ञान दर्शनादिक निज गुण एज माहरुं कार्य ठे एम न जाण्युं  
 त्यांसुधी में मने पुद्गल वर्णादिनो कर्त्ता जाण्यो अने पुद्गलनी क्रिया  
 शब्द आकार उत्पेक्षाण ( जंचुंफेंकवुं ) आपेक्षाण ( नीचुंफेंकवुं ) प्रसा-  
 रण ( विस्तारवुं ) आकुंचन ( संकोचवुं ) गमन ( गमनकरवुं ) ए विगेरे  
 अनंत पर्यायमां माहरुं कार्य मान्युं, हर्ष संतोष मान्यो पण ते पुद्गल  
 कार्य माहरे हाथे स्वतंत्र रहुं नहि. एटले कोई ड्रव्य अन्य ड्रव्यना  
 कार्यनो कर्त्ता नथी ते ठतां मिथ्याज्ञावे अन्यना कार्यनो कर्त्ता मान्यो  
 ते फोकट श्रम करी दुःख उपाज्युं. अनंतकालसुधी चौदराज लोकमां  
 जमतां जे जे पुद्गल कार्य में कर्त्ता अने तेमांथी सुख लेवानो अजि-  
 लाष राख्यो पण ते कार्य सर्वे विनाश पाम्यां तेथी सुख हाथ आव्युं  
 नहीं ॥ १ ॥

जोगी निज जोग न जाणीयोरे लो, रागे परजोगो मानी-  
 योरे लो । परग्राह्य तणी ममता करीरे लो, निज ग्राह्य विना  
 जववन फरीरे लो ॥ अञ्जिनंदन० ॥ २ ॥

अर्थः—हुं जोगी ठतां ज्ञान दर्शन अबाधित अनंत वीर्यादि पोताने  
 जोगववा लायक स्वक्षेत्रमां ठे तेने जाण्याविना परक्षेत्रे रह्या जे शब्द  
 वर्ण गंध रस स्पर्शादिक ते मांहे जोग मान्यो. ते परक्षेत्री जोग  
 जोगवी शकाय नहीं तो पण तेना राग वशे में एम जाण्युं हुं जोगवुं तुं  
 पण मात्र राग द्वेषने जोगवी दुखी रह्यो पण स्वक्षेत्रे रह्या जे जोगववा  
 लायक स्वतंत्र आनंद आपनार आत्माना अनंत धर्म तेना जोगविना  
 रीतो ( खाली ) रह्यो. कोई ड्रव्यना गुण पर्यायरुप ग्राह्यने अन्य ड्रव्य  
 कोई ग्रहण करी शकतो नथी. जेम मणिनी निर्मल कान्ति आदिक  
 ग्राह्यने पत्थर ग्रहण करी शकतो नथी अने पत्थरना गुणरुप ग्राह्यने

मणि ग्रहण करी शक्तुं नथी पण में अज्ञानवशे पुद्गलना वर्णादि गुण पर्यायरूप ग्राह्यनी ममता करी तेथी माहरा ज्ञान दर्शनादि अथवा दान लाजादिक स्वग्राह्य जाण्या ग्रह्याविना जववनमां दुःख जोगवतो फर्यो ॥ १ ॥

पर परिणति व्यापे व्यापीयोरे लो, निज व्यापे उपयोग न थापीयोरे लो । निज रम्ये रमण करी ना रम्योरे लो, पर रमण वशे प्राणीने दम्योरे लो ॥ अग्निनंदन० ॥ ३ ॥

अर्थः—माहरार्थी पर जे पुद्गल परिणति ते पुद्गल परिणतिना गुण पर्यायमां पुद्गल व्यापे पण अन्य द्रव्य कोई व्यापी शके नहि. पण में अज्ञान वशे पुद्गल परिणतिमां व्यापकता मानी माहरा ज्ञानादि द्वांत्यादि दानादि स्वगुण पर्यायमांहे उपयोग थिर कर्यो नहि एटले दुःखी रह्यो. निर्मल ज्ञान दर्शनमय स्वतंत्र वीर्यवंत माहरुं रूप रम्य ठे ते जाण्याविना पुद्गल परिणति जे सडण पडण विध्वंसनवंत क्षीणे क्षीणे अनंत विकारी अनेक रोगनुं स्थानक अनेक कषाय चपलता उपजावनार एवा अरम्य पुद्गलरूपमां में रमण कर्युं एटले निज रमण कर्याविना सुखी न थयो अने पर अरम्यने रम्य मानी तेमांहे रमण करतो बहु अज्ञान कषाय मिथ्यात्वादि दुःखनो जोगी रह्यो. पर रमण वशे अनेक प्राणीओना द्रव्यज्ञाव प्राणने दमी ज्ञानावर्णादिक कर्म बांधी पोताने जोगववा अनंत उपाधि खडी करी उक्तंचः—

गाथा ॥ “ परदव्व रओ बज्जइ, विरओ मुंचेइ अठकम्महिं ।  
एसो जिण उवएसो, समासओ बंध मोखस्स ” ॥ ३ ॥

निज शक्तिनो दानी ना थयोरे लो, परसत्ता दानी मानी रह्योरे लो । लाज लीधो न आतम आथनोरे लो, लाज मान्यो में पुद्गल वाथमांरे लो ॥ अग्नि० ॥ ४ ॥

अर्थः—ज्ञान दर्शन चारित्र (सुख) वीर्य दान लाज जोग उपजोग एवी

माहरी अनंत शक्तिनो दातार हुं मने न थयो पण पुद्गल वडे पुद्गल  
 ग्रही पुद्गलने आपी में मने परसत्तानो दानी मान्यो पण अन्य द्रव्यनी  
 शक्ति ग्रहण करीने कोई अन्य द्रव्यने आपी शकाती नथी तेम पोतानी  
 शक्ति पण पारकाने अपाती नथी. कोई द्रव्यथकी परशक्ति ग्रहण करी-  
 लेवाती नथी पण विपरित वासनाए में एम जाण्हुं के अहींआंथी हुं  
 लाव्यो अने अमूकने में आप्युं तेथी माहरी शक्तिनो हुं मने दातार  
 थयो नहि. जोगवशे जे पुद्गलो ग्रहण करीए ते व्यवहारथी ग्रहण  
 कर्या कहेवाय अने अन्नपानादिक जोगवशे ग्रहण करेला पुद्गलो  
 बीजाने आपीए ते में आप्युं एम कहेवाय पण समत्व वडे ए ज्ञांति  
 ठे; आत्मा पोतानी शक्ति कोईने आपी शकतो नथी तेम अन्य द्रव्यनी  
 शक्तिने लेइ शकतो नथी. आत्मानी ज्ञान दर्शनादिक रिद्धिनो लाज  
 में न मान्यो पण पुद्गलोनी बाथो चीडवामां लाज मान्यो ते पुद्गलो  
 माहरे तावे रखा नहीं तेथी पण सुखी थयो नहि ॥ ४ ॥

निज जोग विना तृष्णा सहीरे लो, परजोगे में तृप्ति नवि  
 लहीरे लो । पर परिणतिना उपजोगमांरे लो, बहु दुःख सह्यां  
 तनुमन रोगमांरे लो ॥ अजि० ॥ ५ ॥

अर्थः—ज्ञान दर्शन चरणादि अनंत समाधि परम निवृत्ति परम  
 स्वतंत्रतानो जोग में न जोगव्यो तेथी अनेक पर पर्याय जोगववानी  
 आतुरता तृष्णा अने कामनानां दुःख सह्यां. पर पर्याय जोगवी जोगवी  
 तृप्ति थई नहीं तेथी दीनता विगेरे बहु दुःख जोगव्यां पुद्गल परि-  
 णतिने जोगवतां तनु मनना विकार उपज्या ते विकारोने अहंपणे मानी  
 बहु आधि व्याधि सही अने बली नवा विकार उपजावी दुःखनी  
 परंपरा करी दुःखी रह्यो ॥ ५ ॥

चल वीरज पुद्गल संगथीरे लो, बल फोर्युं न निज गुण

रंगथीरे लो । जोगक्रिया न आत्म धर्म ठेरे लो, नहि पुद्गल खंध निज शर्म ठेरे लो ॥ अत्रि० ॥ ६ ॥

अर्थः—चपल पुद्गल संगे माहरुं आत्मवीर्य चपल कर्युं अने आत्मगुणमां रंगे करी वीर्य फोर्युं नहि. जेम कोई राजा पोतानुं बल वीर्य शत्रुने सोंपे शत्रुने तावे करे एटले पोते पण शत्रुने तावे थाय पठी पोतानी शक्ति बल कटकादि पोतानुं काम करे नहि पण उलटा पोताने हाणीना कारण थाय तेम में माहरुं आत्मवीर्य पुद्गल संगे रही पुद्गलने तावे कर्युं ते पुद्गलरुप शत्रुए माहरी सत्ताचूमि विकारी करी सर्व गुणोने बगाड्या तेथी पण सुखी न थयो. पण निजात्म गुणमां खुशीथी वीर्य फोर्युं होत तो एवी अवस्था थती नहि. मन वचन कायाना जोगोनी क्रिया ते आत्मधर्म नथी; मोक्ष मार्ग साधनारने साधकतानुं कारण थाय ठे पण ते कारणने कार्य कहीए नहीं. जोग क्रिया तो आखरे तजवाथीज कार्य सिद्धि थाय ठे. जोग क्रिया पुद्गल खंधने मेलवे पण जे पुद्गल खंध ते आत्म रिद्धि नथी माटे आखरे पुद्गल क्रिया हेय ठे. माटे जोगनी स्थिरता साधवी एज जिनेश्वरनी आज्ञा ठे ॥ ६ ॥

शुद्ध द्रव्य न संगी अन्यनोरे लो, अधिकारी आत्म निज धन्ननोरे लो । प्रभु देशनाथी प्रभुने पिठाणीयोरे लो, लखि शिव कारण मन मानीयोरे लो ॥ अत्रि० ॥ ७ ॥

अर्थः—शुद्ध द्रव्य अन्य द्रव्यनो संगी नथी तेम शुद्धात्मा पोताना ज्ञानादिकनो अधिकारी ठे पण जे पोतानी शुद्धताने जाणता नथी अने परद्रव्यना अधिकारी थई वेसे ठे ते दुःखीआ थाय ठे. माटे अन्य द्रव्य उपरथी अधिकार वुद्धि उठावी निजात्म शुद्धताना अधिकारमां मग्न थवुं तेज सकल दुःखथी निवृत्ति करनार अने परमानंद पद प्राप्ति करवानुं कारण जाणवुं. हे अज्ञिनंदन स्वामि! तुमारी देशनाथी में तमने ओलख्या. माहरा आत्माने शिवसुख कारण जाणी माहरा मनमां मान्या गम्या ॥ ७ ॥

हमे शैलेसिए शिव साधशुंरे लो, त्रणे जोगनी थिरता  
आराधशुंरे लो । शुद्ध उत्सर्गमां द्रष्टि धरीरे लो, तुज आणा  
नयण आगल करीरे लो ॥ अजि० ॥ ७ ॥

अर्थः—चौदमे गुणठाणे मनवचनकायाना जोगने शिद्धा पेठे थीर  
करीने पूरण सुख साधीशुं. ते शैलेसीकरणरुप उत्सर्ग साधवा माटे  
आजथी मनवचन कायाना जोगोनी स्थिरतानो अज्यास करीशुं हे  
प्रभु! ताहरी आणारुप द्रष्टि आगल करीने स्थिरतानो अपवाद साधतां  
पूरण उत्सर्गे स्थिरता पामीशुं ॥ ७ ॥

शुद्ध धर्म शुक्ल दृढ धारशुंरे लो, आर्त्त रौद्र तजीने मोह  
मारशुंरे लो । अजिनंदन प्रभु कृपा लहीरे लो, मनसुख शिव-  
घर रहेशे सहीरे लो ॥ अजिनंदन० ॥ ८ ॥

अर्थः—वस्तु स्वभावरुप शुद्ध धर्मध्यान तथा पोताना द्रव्यगुण  
पर्यायनी अज्ञेदतारुप निर्विकल्प शुक्ल के० उजळुं ध्यान धारी आर्त्त  
रौद्रध्यान निवारी मोहनीय कर्मनो नाश करीशुं. अजिनंदन स्वामिनी  
कृपा पामी मनसुख शिवघरे रहेशे एटले जे पुरुष मनमां सुखे करी  
अजिनंदन स्वामीनी आज्ञा परम आदरे सेवशे ते जरूर उपद्रव रहित  
आत्मिक सुख पामशे ॥ ८ ॥

॥ अथ श्री पंचम सुमतिजिन स्तवन ॥

अरु थारी आवे मने सुमति जिणंदा, सुमति जिणंदा, शिव-  
सुखकंदा ॥ अरु थारी० ॥ ९ आंकणी ॥ दर्शनज्ञानमयी  
निज चेतन, केवल कमला ज्योति अमंदा । स्यादवाद नय  
बोध दीयो मुज, मिथ्या मोह अज्ञान हरंदा ॥ अरु० ॥ ९ ॥

अर्थः—हे सुमतिनाथ स्वामी ! तमे मने क्षीणे क्षीणे याद आवोवो.  
हे सुमतिनाथ स्वामी ! तमे मोक्षसुखनुं मूल वो. तमे माहरं आत्म-

स्वरूप दर्शनज्ञानचरणमय केवल लक्ष्मी परमज्योति दिनकररूप वतावी स्याद्वादनये शुद्ध बोध आपी मिथ्यात्व अने मोहआदि अहितने दूर करवावाला ठे ॥ १ ॥

तुज दरिशन विण हुं जव जटक्यो, हणी हणी निज पर प्राण सुबंदा । शत्रुकुं पोषी मित्र हणे हम, में बहु बांध्या पुद्गल खंधा ॥ अरु० ॥ १ ॥

अर्थः—ताहरुं दर्शन एटले शासन अथवा समकित पाम्या विना हुं जवसमुद्रमां जटक्यो. में माहरा अने अन्यजीवोना ड्रव्य जाव प्राणने स्वठंदपणे ( निर्जयपणे ) हण्या मोहनीय कर्मनी अछावीश प्रकृति ज्ञानावरण दर्शनावरण अने अंतराय आदि शत्रुओने पोष्या ( पुष्टकर्या ) ज्ञान दर्शन अने हांल्यादिक मित्रोने हण्या तेथी घणा पुद्गल वर्गणाणा खंध बांधी अनंतीवार चार प्रकारे पुद्गलपरावर्त्तन करतां वारंवार जन्म जरा मरणे करी दुःखी रह्यो ॥ २ ॥

मूढमती जन विषय आरामी, तुं केवल निःकामी मुणंदा । विषय चपल परतंत अधिर मल, गुण गण जोगी प्रचु परमाणंदा ॥ अरु० ॥ ३ ॥

अर्थः—जेने पोतानी आत्मशुद्धतानी खबर नथी तेवा मूढमती विषयरूप विषमां सुख आराम मानी रहे ठे. पण हे प्रचु ! तुं केवल ज्ञान दर्शन आदि पोतानुं परमात्मरूप निर्मलकरी अंशमात्र पण पुद्गल परिणामनी कामना करतो नथी. तुं तीर्थनो पति अने मुनिओमां इंद्र हुं. विषयो अने विषयना पदार्थ ते हणजंगुर ठे वली परतंत्र ठे आपणा राख्या रहे नहीं परवशतानुं कारण ठे आत्मगुणने मलिन करवावाला ठे. पण हे प्रचु ! तुं तो अनंत ज्ञानादिक गुण समुदायनो जोगी परमः आनंदमय हुं ॥ ३ ॥

चपल वीरज में कीयो परसंगे, अचल अबाधि तुम वीर्य

सुठंदा । अन्नय अखय अखुट धन जोगी, पुरण प्रजाय  
विलास अफंदा ॥ अरु० ॥ ४ ॥

अर्थ:—में पुद्गलादिना संगे आत्म वीर्य चपल कर्युं तेथी आत्मिक  
वीर्य बाल बाधकता जावने पाम्युं. तें तो वीर्यने अचल अबाधित राख्युं  
तेथी सर्वे समय विना प्रयासे सर्वे गुणोमांहे प्रवर्ततुं कार्यकारी थयुं  
अने पोतानेज तावे अप्रतिहत (कोइ अन्य ड्रव्यथी हणाय नहीं एवुं)  
रह्युं. तुं अन्नय तुं एटले सात महाअन्नय विगेरे कोइ प्रकारनो अन्नय तने  
आवी हरकत करे नहीं. तुं पोतानी ज्ञान दर्शनादि रिद्धि अने आत्म  
अंग सहीत अक्षय तुं. ताहरुं धन अखूट अव्यय एटले खरचतां वाप-  
रतां खूटे नहि एवुं ठे. एवा परम धननो तुं जोगी तुं. तुं आत्मिक  
अनंत पूरण प्रजायनो विलासी तुं. कर्मबंधे फंदायेलो नथी ॥ ४ ॥

पुद्गल जड जिय हेत करे कहा, पुद्गल ग्रही सेवे मति-  
अंधा । परपद रींज रहे परबंधे, निजपद रींजे कर्म निकंदा ॥५॥

अर्थ:—पुद्गल जाते जड पदार्थ ठे तेनी गमे तेटली सार संचाल  
सेवा चाकरी करो बलबुद्धि एमांहे वापरो पण ए, जीव उपर हेत  
करी जाणतुं नथी अने एवा पुद्गलो ग्रही जे जीव पुद्गलोने वश  
थया ठे ते पण जडसंगे जडजेवा थया तो ते पण स्वपर हित करी  
जाणता नथी. मति अंध पुरुषो एवा पुद्गलोने सेवी सुख लेवानी आशाए  
पुद्गलने वश थाय ठे. जे जीवोने पुद्गल उपर प्रीति ठे ते पुद्-  
गल वर्गणा ग्रही ते मांहे सुख मानी रह्या ठे तेनी पण सेवा करीए तो  
ते पण पोतानुं हित जाणता नथी तो बीजा उपर शुं हित करशे ?  
ज्यांसुधी परपदमां रींज रहे त्यांसुधी चेतना अनंती कर्मवर्गणाने वांधे  
ठे पण ताहरी आज्ञा जे जाणी आदरी आत्माना ज्ञानादिक स्वभावमां  
रींज करे ठे तेज दुःखदाई कर्मबंधनुं मूल उखेडी आनंदीत थाय ठे ॥५॥

देई सुमति मेरी कुमत जगाई, मेरे तो सगाई साची तेरी



जिणांदा । प्रेम प्रतीत जई मेरे पूरण, मनसुख शिवघर केली करंदा ॥ अरु० ॥ ६ ॥

अर्थ:—हे उपगारी ! तें माहरा सरखाने सुमति आपी अने हमारी कुमति दुर करी माटे माता पिता स्त्री पुत्रादिक तो कहेवानांज संगां ठे संसारमां खेंचनारां ठे पण हे जिनेश्वर ! तमे तो सामान्य जिनोमां इंद्र सरखा ठो अने माहरे तो उत्कृष्ट सगाई ताहरी साथे ठे माहरे ताहरा उपर पूरण प्रेम पूरण प्रतित ठे एटले ताहरा सिवाय माहरा सूखनो हेतु बीजो कोइ नथी. मनसूख कहे ठे तुं आनंदपुरीमां शिवघरे पोतानी शिवकमला साथे केली करवावालो तुं ॥ ६ ॥

॥ संपूर्ण. ॥

॥ अथ श्री षष्ठ पद्मप्रज्जिन स्तवन ॥

॥ पद्मप्रज्जिन गुणनिधीरे लाल ॥ ए राह ॥

पद्मप्रज्जु मुखपद्मनीरे लाल, परिमल वाणी विलासरे साहिवीआ लाल । ए मुज जवोदधि तारणीरे लाल, करती शक्ति प्रकाशरे केशरीआ लाल ॥ पद्म० ॥ १ ॥

अर्थ:—ठछा पद्मप्रज्जु स्वामीना मुखरूप पद्मकमलथी नीकली एवी वाणीरूप परिमल सुवास ते शुद्धात्म विलासने आपनारी ठे. हे त्रणे जगतना साहेब ! ज्ञानादिक अनंत गुणमांहे रक्त ताहरी वाणी मने जवसमुद्रथी तारनारी ठे, पंचास्तिकायनी शक्ति प्रगटपणे देखाडवावाली अने जवि जीवोने आत्मशक्ति प्रकाश करवावाली एटले शुद्ध सिद्धतानी दातार अनंत महिमावंती ठे. हे जिनेश्वर ! तमोने सुर किन्नर त्रिद्याधर मनुष्योए केशर आदिके करी पूज्या ठे ॥ १ ॥

ज्वय प्रदेश अजेद ठेरे लाल, गुण प्रजाय अनंतरे साहि० । परिणामे सकल समय सदारे लाल, निज परिणाम स्वतंतरे ॥२॥

अर्थः—सर्वे द्रव्यना प्रदेश द्रव्यथी अज्ञेदपणे ठे. जीवद्रव्यना दरेक प्रदेशे अनंतागुणोना ठती पर्याय अनंतानंत ठे ते पोताना द्रव्यप्रदेशी अज्ञेदपणे ठे. सर्वे समय ज्ञान दर्शनादिकना पर्याय आप आपणा जिन्न जिन्न कारण कारक कार्यपणे परिणमे ठे, कोई अन्यद्रव्यनी सहाय तथा हरकत विना स्वयंसिद्ध निःप्रयासपणे पोताना परिणामे परिणमे ठे एटले सर्वे गुण आप आपणुं कार्य अस्खलितपणे करे ठे ॥१॥

परगुण न ग्रहे को कदारे लाल, नवि व्यापे पर व्यापरे ॥ साहिबी० ॥ परगुण रक्षक को नहिरे लाल, निज क्षेत्रे निज व्यापरे ॥ के० ॥ पद्म० ॥ ३ ॥

अर्थः—कोइ द्रव्य अन्य द्रव्यना गुणने कदापि ग्रहे नहीं. द्रव्य पोताना स्वगुण पर्यायमां व्यापे पण परगुण पर्यायमां व्यापे नहीं एटले स्वक्षेत्रे व्यापे. एक द्रव्यना गुणपर्यायने बीजो अन्य द्रव्य राखी शके नहि पोताना गुण पर्यायने पोतेज राखे. जेम सोनाना पितत्व गुरुत्व आदि गुणपर्यायने सीसुं राखी शके नहीं पण सोनुंज राखे तेम माहरो आत्मा पोतानाज गुणपर्यायने राखवावालो ठे पण ज्यांसुधी ताहरां वचन जाण्यां नहि त्यांसुधी विपर्यास वासना टली नहीं ॥३॥

जिन्न न लक्षण लक्ष्यीरे लाल, एक अज्ञेद सअंगरे ॥ साहि० ॥ सकल प्रदेशे शुद्धतारे लाल, विलसो जोग सुरंगरे ॥ के० ॥ पद्म० ॥ ४ ॥

अर्थः—कोइ द्रव्यनां तेम आत्म द्रव्यनां लक्षण पोताना स्वलक्षण एटले स्वद्रव्यथी जिन्न नथी. तमें परमात्म द्रव्य पोतानां लक्षणोना पोताना अंगथी अने सर्व प्रदेशथी परम शुद्धताए अज्ञेदपणे निज अंगे परम मग्नताए सर्वे समय समकाले विलास करोगे ॥ ४ ॥

में तो काल अनादिथीरे लाल, शक्ति न लही निज शुद्धरे

॥ साहि० ॥ बाहीर जग अज्यासथीरे लाव, मोहे मुंशी रहि  
बुद्धिरे ॥ के० ॥ पद्म० ॥ ५ ॥

अर्थः—हे देव ! तुं तो सर्वे समय परम शुद्धतानो विलास करुं तुं  
पण में तो अनादिकालथी माहरी शुद्ध सत्ता जाणी नहि केमके  
अंतर नयणे माहरी सत्तास्थलमां में देख्युं नहीं पण माहारा आत्मअं-  
गथी बाहिर द्रष्टिना अज्यासथी परद्रव्यमांहे माहरी बुद्धि मोहे  
मुंजाई रही तेथी हुं सुख न पाम्यो ॥ ५ ॥

स्यात्पदयुत देशना सुणीरे लाव, मुज मन उमह्यो अत्यंत  
रे ॥ साहि० ॥ शुद्ध साध्य निज साधवारे लाव, विलासवा  
व्यक्ति स्वतंतरे ॥ के० ॥ पद्म० ॥ ६ ॥

अर्थः—ताहरी स्याद्वाद शुद्धनय देशना सांजलीने माहरुं मन माहरी  
शुद्ध सत्ता प्रगट करवा एटले शुद्ध साध्य साधवा अने स्वतंत्र शक्तिनो  
विलास करवा अत्यंत हर्ष उमेद पाम्युं ॥ ६ ॥

तुज करुणा लहेरे करीरे लाव, प्रभु शुद्ध आणा आधा-  
ररे ॥ साहि० ॥ दुष्ट विकल्प निवारीनेरे लाव, लहीशुं जवो-  
दधि पाररे ॥ के० ॥ पद्म० ॥ ७ ॥

अर्थः—हे प्रभु ! ताहरी हमारा उपर परम करुणानी लहेरे अने  
ताहरी शुद्ध आज्ञाना आधारे चालीने अहितकारी संकल्प विकल्पो  
एटले देह धन स्त्री आदिकमांहे शुजाशुज कल्पनारूप अहट्ट दुहट्ट  
ध्यान निवारीने जवसमुद्रनो पार पामीशुं ॥ ७ ॥

मिथ्या प्रजाय अनंतने रे लाव, ज्ञानावर्ण अनंतरे ॥ सा० ॥  
वेदी दायक चरणथीरे लाव, लहे मनसुख शिव संतरे ॥ के० ॥  
पद्म० ॥ ८ ॥

अर्थः—मिथ्यात्वना असंख्याता अध्यवसाय अने अनंत पर्याय तेमज

ज्ञानावरणना पण अनंत पर्यायने ह्यायक स्वप्नावाचरणे एटले शुद्ध स्वरूप रमणे करी ठेदी मनमां सुखे करी संत पुरुषो उपद्रव रहित शाश्वत परम समाधिने पामे ॥ ७ ॥

॥ संपूर्ण ॥

॥ अथ श्री सप्तम श्री सुपार्श्वजिन स्तवन ॥

॥ श्री सुपार्श्वजिन अंतरजामी ॥ ए राह ॥

श्री सुपार्श्वजिन त्रिचुवन स्वामी, केवलकमला पामीरे । शुद्ध अनंत प्रजाय आरामी, परपरिणति निःकामीरे ॥ श्री ० १

अर्थः—श्री सुपार्श्वनाथ सातमा तीर्थपति त्रणे चुवनना जीवोने मोक्षमार्ग देखाडी सारण वारण करी नवदुःखथी ठोडाववावाला माटे त्रणे चुवनना स्वामि, तमे ज्ञान दर्शनादि केवललक्ष्मी पामी ज्ञान, दर्शन, चरण, वीर्य, अव्याबाधादि अनंत स्वतंत्र पर्यायमां आराम कर्षो ठे. पुद्गलादि पर परिणतिना अनंत पर्यायमांथी एकपण पर्यायनी तमारे कामना चाह दाह आतुरता रहि नथी माटे अकामी ठे ॥१॥

निज अधिकार परमपद स्वामी, परपरिणति गति वामीरे । जगजन परपरिणतिना मामी, ते केम होय आरामीरे ॥ श्री ० ॥ २ ॥

अर्थः—तमे पोतानो शुद्धात्म अधिकार संचाढ्यो एटले शुद्ध परमपदना धणी ठे. अने अनादि पुद्गल परिणतिनी चालने तमे दुःखदाई जाणी ठोडी अने शुद्धात्म चाल आदरी. जगत्ना जीवो, पर जे पुद्गल परिणति तेने जोगवी सुख लेवानो माम केण उमेद राखे ठे. परद्रव्यना गुण पर्यायनो कोई अधिकारी नथी. पण जूठा परना अधिकारी थई बेसे ठे ते अथिर पुद्गल परिणतिना आदरथी जडता संगे केम आराम पामे ? अर्थात् नज पामे ॥ २ ॥

हुं जूगो परपरिणति स्वामी, तेणे निज शक्ति न पामीरे।  
पुद्गलथी सुख छेवा हामी, वेला गमावी नकामीरे ॥ श्री० ॥ ३ ॥

अर्थः—में मने परपरिणतिनो जूगो स्वामी मान्यो अने रातदिन तेने राखवा जोगववानी कामनामां रह्यो एटले सर्वे समय कर्मचेतनापणे परिणम्यो, वळी कर्मफलचेतनापणे पण सर्वे समय सुख दुःखनो परिणामी थयो, ज्ञानचेतनापणे थीर रह्यो नहीं. तेथी माहरी अनंत शुद्ध परमानंदमय शक्ति प्रगट पान्यो नहीं अने अथिर परतंत्र पुद्गलथी सुख छेवा हामी करी तेमाहरे स्वतंत्र थया नहीं फोगट अनंतो काल दुःखमा गमाव्यो ॥ ३ ॥

ह्वे तुज सम मुज मळीयो स्वामी, तेणे थयो शिवपद  
कामीरे। योग क्रिया मति करी परठामी, प्रमादवशे रहि  
खामीरे ॥ श्री० ॥ ४ ॥

अर्थः—ह्वे महागोप महामाहण महासथ्यवाह निर्यामक सकल दोष रहित अनंतज्ञान सहित परमकृपालु परमदयालु स्वामी तुं माहरे हाथ आव्यो तेथी हुं उपद्रव रहित आत्मानंद एटले शिवपदनो कामी थयो पण पुद्गलना पर्यायरूप परठाम के० योग क्रियाए प्रवर्तवानी मति रही ए आदि प्रमादवशे माहरामां खामी रही ॥४॥

पण जग चटपटी थइ शिव सामी, थइ मति निजगुण  
धामीरे। तजी परमाद थऊं शिवगामी, नवि रहुं पुद्गल  
कामीरे ॥ श्री० ॥ ५ ॥

अर्थः—पण माहरी द्रष्टिमां मोक्षमार्ग आदरवाने माटे चटपटी लागी अने शुद्ध सत्ता सन्मुख द्रष्टि थई, सत्ताचूमिमां रहेला आत्मगुण प्रगट करवा माटे मति थई एटले परस्थल तजी निजघरे मति आवी. ते माटे ह्वे प्रमाद तजी मोक्षमार्गे चालुं अने पुद्गलनी कामनामां रहुं नहीं ॥ ५ ॥

तुं दाता त्राता घननामी, शिव जोगी शिव ठामीरे । सारक  
वारक अंतरजामी, शिवसुख दायक स्वामीरे ॥ श्री० ॥ ६ ॥

अर्थः—तुं शुद्ध मार्ग परम समाधिने दातार, अशरणते शरण, एत  
ताहरां अनंत नाम ठे. उपद्रव रहित शिवकमलानो जोगी, उपद्रव रहित  
आत्मसत्ताजूमिमां रहेवावालो, जविजीवोने कर्मोथी ठोडाववा सार  
संज्ञाल करवावालो, अज्ञान मिथ्यात्व अने कषायरूप उन्मार्गथी वार-  
वावालो, ते माहस अंतरंगमां रह्यो तुं. तुं शिवसुखनो दातार जे ताहरी  
आणा आदरे तेनो स्वामि तुं ॥ ६ ॥

निज अधिकार सुसार ईढामी, प्रचु चरणे शिरनामीरे । शुद्ध  
ध्येय द्रढ ध्यान धरामी, तुज दरशन रस पामीरे ॥ श्री० ॥ ७ ॥

अर्थः—प्रचुना चरणकमलमां शीष नमावीने आत्म अधिकारनी रुढी  
संज्ञाल करवाने ईहुं तुं. तेथी हवे ताहरुं शासन एटले ताहरी वाणीनो  
रस मने लाग्यो तेथी माहरुं शुद्ध सिद्ध समान स्वरूप ध्येय तेने जाणी  
मनवचन कायाना जोगो थीर करी शुद्ध ध्येयमां लक्ष थीर करी द्रढ  
ध्याने रहुं ॥ ७ ॥

तन्मय तत्त्व एकत्व मिलामी, लय योगे मती जामीरे । रहिशुं  
सत्ता रमण आरामी, मनसुख शिव वीसरामीरे ॥ श्री० ॥ ८ ॥

अर्थः—परद्रव्य अने परद्रव्यना संसर्ग रहित परद्रव्य ममता अने  
रागादि रहित एवा शुद्धात्म तत्त्वथी एकत्वपणे मलुं. परमां जती परि-  
णति स्वरूपमां लय करवी ते लययोग करवाने माटे माहरी मती जमी  
ठे तेथी आत्मसत्ता रमणमां परम आरामी रहीशुं. मनमां सुखे करी  
रमण करीने उपद्रवरहित सहजानंद परिणतिना विसरामी थईशुं ॥८॥

॥ संपूर्ण. ॥

॥ अथ अष्टम श्री चंद्रप्रभुजिन स्तवन ॥ राग काफी ॥

मेरे धन दिन सफल घरी, सरदचंद्र समचंद्रप्रभु मुख देखी  
विपती जायपरी ॥ मेरे० ए आंकणी ॥ गई मिथ्या माया ममता  
मति, तपत कषाय हरी, गई थिरता निजगुण पज्जवमें, जाय  
अज्ञान जरी ॥ मेरे० ॥ १ ॥

अर्थः—माहरे आजनो दिन अने घडी सफल गई आशोसुदी पुन-  
मना चंद्रमानी उपमाए परम शांति समाधिरूप अमृत वरसावतुं चंद्र-  
प्रभु स्वामिनुं मुख देखी मने अंतरंग समाधि गई तेथी परद्रव्यना  
ममत्वथी थती अनेक विपत्तिओ दूर नाशे. मिथ्यामती अने परद्रव्य  
उपर स्नेह अगर परद्रव्य माटे क्रिया करवानी मती तथा परद्रव्यनी  
ममतामती ते गई कषायनी तती परमेश्वरना मुख एटले वचनरूप  
शांतिए दुर करी, आतम गुण पर्यायने थीर जाण्या तेथी सर्वे अज्ञान  
बली जशे ॥ १ ॥

रम्यरूप लखी निज आतमको, शक्ति सखेत जरी । सहज  
स्वतंत्र अत्यंतिक सुखजर, प्रेम प्रतित करी ॥ मेरे० ॥ २ ॥

अर्थः—आत्मरूप रम्य, रमण करवा लायक सर्वे प्रदेशे ज्ञानादिक  
पूरण शक्ति जरेलुं लक्ष्मां आव्युं; उपाधि रहित परतंत्रताविना अंत  
रहित सुखे जरेलुं ते उपर में प्रेम प्रतित करी ॥ २ ॥

भूले जमत जग जिन दरशन विण, मथुरां काशी फरी । सात  
महाजय सवि डुर नाशे, निज शुधता समरी ॥ मेरे० ॥ ३ ॥

अर्थः—जगतमां ताहरुं दर्शन पास्या नथी ते मथुरां काशी आदि  
तीर्थोए फरी भूला जमे ठे. जे ताहरुं दर्शन पास्या तेने सात महाज-  
यनुं मूल दूर गयुं अने पोतानी शुद्धता संचाली सुधारी ॥ ३ ॥

समरस शांति लखि सरवांगे, पुद्गल आश हरी । लय  
करवा निज परिणति निजमां, एक उमेद खरी ॥ मेरे० ॥ ४ ॥

अर्थः—जे ताहरुं दर्शन पाम्यो तेने समरसे करी सर्वात्मअंगे शांती  
जरी अने जूठी पुद्गलमां सुखनी आशा हती ते बोडी. माहरे तो  
परचावमां जती परिणति पाठी वाली निज स्वरुपमां लय करवानी  
एक साची उमेद ठे ॥ ४ ॥

दर्शन ज्ञान चरित्रानंदी, विरज अनंत जरी । तुमही अबा-  
धित नित्यानंदी, व्यक्ति अनंत वरी ॥ मेरे० ॥ ५ ॥

अर्थः—हे प्रभु ! तुं केवलज्ञान दर्शन स्वचावाचरणमां आनंद रम-  
णवंत अनंत स्वतंत्र वीर्ये करी जरपूर तुं अबाधित तुं नित्य शाश्वत  
स्वतंत्रानंदी तुं. अनंत शक्ति तें प्रगट पणे पामी ठे. ॥ ५ ॥

जे घटकारण पटको नाही, परको को न ठरी । मेरे शिव-  
कारण तुम आणा, चितसें ओर टरी ॥ मेरे० ॥

अर्थः—जे घट कार्य करवानां कारण ते पटादिक अन्यकार्य करवानां  
कारण न ठरे तेम माहरे तो शिव समाधि प्रगट करवा माटे ताहरी  
आणा सेवा शिवाय बीजुं कारण नथी एटले माहरे मोक्षनो पुष्ट हेतु  
तुं एकज तुं अने तेथी जूठा आलंबननी आल पंपाल माहारा चित्तथी  
दूर गई ॥ ६ ॥

जिन्न काजके जिन्नही कारक, अवरको को न करी । निश्चय  
कारण कारक कारज, में मेरो समरी ॥ मेरे० ॥ ७ ॥

अर्थः—जगत्मां जिन्न जिन्न कार्य करवानां जिन्न जिन्न कारक होय  
ठे. घटकार्यनां कारक ते पटादिक अन्यकार्यनां कारक नहीं एटले एक  
कार्यनां जे कारक होय ते कारकथी अन्य कार्य थाय नहि पण जे  
कार्यनां जे खटकारक होय तेथीज ते कार्य थाय अने ठ कारकमां एक  
पण कारक ओहुं होय अगर जलदुं होय तो पण ते कार्य थाय नहीं



पण हे परम कृपालु में ताहरे वचने निश्चय नयथी माहरी सिद्धिरूप कार्यनां ठ कारक एटले कर्ता, कार्य, कारण, संप्रदान, अप्रदान, अने अधिकरण में माहरां माहरामां अजेदपणे जाण्यां एज ताहरो परम उपकार ठे, एटले माहरी कारक परिणति सुधारी मुक्तिरूप परम समाधिरूप परम निवृत्तिरूप कार्य करीशुं ॥ ७ ॥

कारज सिधे तुंमही पसाये, में जढ चित्त धरी । मनसुख कारज सिधि लहीने, विलसे शिव सुंदरी ॥ मेरे० ॥ ७ ॥

अर्थः—मनसुख कहे ठे के तमारा पसायथी कार्य सिद्धि धाय एवं में चित्तमां जढ धार्युं. मोक्षरूप कार्यनां कारक साधवावाला कार्य सिद्धि पामे अने शिवसुंदरी संगे सादि अनंत विलास करे ॥ ७ ॥

॥ संपूर्ण. ॥

॥ अथ नवम श्री सुविधिनाथ जिननुं स्तवन ॥

॥ आघा आम पधारो पूज्य अमघर वहेरण वेला ॥ ए राह ॥

प्यारा पुष्पदंत जिनराय, हरो जव पीड हमारी ॥ ए आंकणी ॥  
प्रीतनी रीत लह्या विण में तो, तुमतें प्रीत न धारी । अथिर चपल पुद्गल परिणतिमां, पूरण प्रीत विचारी ॥ प्यारा० ॥ १ ॥

अर्थः—नवमा श्री पुष्पदंत स्वामी जगतजीवो उपर परम हेत अने प्यार करवावाला, हमारी जव त्रमणादि पीडा दूर करो. में मूढमति ए साची प्रीतनी रीत जाण्याविना तमारा सरखा परमोपकारी साथे प्रीत करी नहीं, पण अथिर चपल परतंत्र अज्ञान, कषाय, मिथ्यात्व, जन्म, जरा, मरण, बहु रोगो, बहु दुःखनुं कारण एवी पुद्गल परिणतिमां पूरण प्रीत विचारी ॥ १ ॥

प्रीतनी रीत नवि खल जाणे, जडचल एंठ विकारी । मूरख पुद्गल प्रीत करीने, हो रहे आप जीखारी ॥ प्यारा० ॥ १ ॥

अर्थः—खलपुद्गल ते जीव साथे प्रीत करी जाणतुं नथी ए त्रस  
स्थावर जीवोनी एंठ ठे; बहु विकार उपजावनार ठे. पण मूर्ख जीव  
एवी पुद्गल परिणती साथे प्रीत करी पोताना ज्ञान दर्शन आनंद  
विना चौदराजलोकना असंख्याता प्रदेशमांहे एज पुद्गल विषयनी  
जीख मागता पोते जीखारी थई रहे एटले मने कोई बचावो, मने  
कोई कंई आपो, मने दुःखथी ठोडावो, हुं दुःखीओ हुं एम जूतुं शरण  
चाहाता फरे ठे ॥ २ ॥

प्रेम प्रतीत थई अब तुमतें, प्रीत प्रचुनी जाणी । परसें  
तोडी तुमतें जोडी, शिवकारण मन मानी ॥ प्यारा० ॥ ३ ॥

अर्थः—माहरा उपर तमारी पूरण प्रीत जाणी मने तमारा उपर प्रेम  
आव्यो, अने पुरी प्रतीत थई एटले माहरी जे प्रीतनो फेलाव चौद-  
राजलोकना पुद्गलो उपर हतो अने ए पुद्गलोथी हुं सुखी थईश  
एवी प्रतित हती पण हवे ते पुद्गलो दुःखदाई जाण्या माटे तेना  
उपरथी प्रेम प्रतित उठी अने परम समाधिना कारण जाणी प्रचु साथे  
प्रीत करवी ते माहरा मनमां सन्मानी ॥ ३ ॥

जडसें प्रीत करे जन दुरमती, ते रहे सूख वियोगी । परम  
पुरुषसो प्रीत करे जे, होय शिवसंपति जोगी ॥ प्यारा० ॥ ४ ॥

अर्थः—पुद्गल ते जड अने जे पुद्गल वर्गणा ग्रहण करी तेना मम-  
त्वमां तन्मय थया ठे ते पण जड. अने एवा जड साथे जेनी पोतानी  
शुद्धतामां मती नथी एवा दुर्मती प्रीत करी पोताना परमनिवृ-  
त्तिरूप सुखथकी वियोगी रहे. अने तुमसमान ज्ञानानंदमय परम  
पुरुषथी जे प्रीत करे ते उपद्रव रहित आत्मसंपदाना जोगी थाय ॥ ४ ॥

बहिरातमता दुर तजी जेह, अंतर आत्म जावे । तुम सम  
परमात्म पद ध्यातां, घातिकरम दय जावे ॥ प्यारा० ॥ ५ ॥

अर्थः—जे पुरुष आत्म जावथी जे बाहिरला जाव एटले शरीर स्त्री धन पुत्रादिकमां अहंपणारुप बहिरातमजाव तजीने अंतरआत्म एटले हुं अरुपी उपयोगवंत ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्यवंत हुं. एम पोताना आत्म स्वजाव अंदर थीर उपयोग करी तमारा सरखुं पोतानुं परमात्म पद जावे निश्चय करे, आत्म शुद्धता अनुभवे ते चारे घातीकर्मनो दाय करे ॥ ५ ॥

दुरजन ने सज्जननी प्रीती, समकाले न सधाय । विषजर प्रीती जववासीनी, ते जव ज्रमण उपाय ॥ प्यारा० ॥ ६ ॥

अर्थः—दुरजन के० पोताथी विरुद्ध अहित करनारा अने सज्जन एटले पोताने अविरुद्ध हित करनारा, ए बन्नेनी प्रीति समकाले सधाय नहीं. जो सज्जननी प्रीत करीए तो दुर्जननी प्रीत न बने अने दुर्जनथी प्रीत करीए तो सज्जन साथे प्रीत न रहे एटले जेना साथे प्रीत करवी होय तेना वैरीने वैरी अने तेना हेतुने हेतु जाणी वर्तीए तोज प्रीत बने. जववासीनी जे प्रीत ते विष जरेली ठे एटले राग द्वेष कूड कपट सहीत पोताना अर्थनी प्रीत ठे. ते तो जव ज्रमणनो उपाय जाणवो. अने ताहरी साथे जे प्रीत ते दुःखसमुद्रथी तरवानो उपाय ठे ॥ ६ ॥

निरविष प्रीती प्रचुथी करिये, तरिये जवजल ओघ । समरस अमृत रुचिजर पीतां, जाय कर्म अडरोग ॥ प्यारा० ॥ ७ ॥

अर्थः—हे जवि जीवो ! तरण तारण अरिहंत देव साथे निर्विष प्रीत करिए एटले ईहलोकमां अशनादिक अर्थे नहि, परजव एटले देव चक्रवर्ती आदिनी रिद्धि पामवा नहीं, लोकोमां सन्मान पामवा अने अपमान टालवा पण नहीं, मायाशब्द, मिथ्यात्वशब्द अने निदानशब्द टालीने परम निर्झरा अर्थे, सकल कर्म निवृत्ति अर्थे प्रचुनी आणा अति विनय सन्माने सेवीएतेथी जवसमुद्रतरीए. जेनी अंदर अज्ञान राग द्वेष रुपी खारुं पाणी जरेलुं ठे अने जेमां कषायो रुप श्वापदो

(जनावरो) अनेक तरेहनां दुःखदाई रद्यां ठे जेमां पुद्गल विषयकामना रूप वडवानल धगधगी रद्यो ठे, ज्यां परआशारूप मोजां उठली रद्यां ठे, विकट्परूप तरंगो एक गतिमांथी बीजी गतीमां उठाली उठालीने फेंके ठे एवा ज्ञानक संसार समुद्रनो पार पामीए. समचावरूप अमृतरस मनरूपी प्यालामां प्रेमरूप मशाला साथे चरीने पीए तो अष्टकर्मरूप रोग जडमूलथी जाय अने अष्टगुणात्म सिद्धि परमवीर्य प्रबलता प्रगटे॥७॥

पूरण प्रेम करी प्रभु मुजने, आत्म सत्ता दिखाई । विषय कषाय वशे नहि आदर, ए सम नहि मूर्खाई ॥ प्यारा० ॥ ७ ॥

अर्थः—हे देव! तें माहारा उपर पूरण प्रेम करीने माहारी आत्मसत्ता-चूमि अनंतगुण रत्ने चरेली शुद्ध नये माहारी द्रष्टि ते तरफ वालीने मने बतावी. हवे विषय कषाय वशे जो हुं ताहरी आणानो आदर न करुं तो ए समान बीजी मुखाई नथी ॥ ७ ॥

पुरुषारथ करी परम विरज धरी, मोह महामल ठेदी । सुविधि जिनेश्वर कृपा लहीने, अद्भुतं निज गुण वेदी ॥ प्यारा० ॥ ८ ॥

अर्थः—हुं अनंतकाले पुरुषपणुं पास्यो तुं ते पुरुषपणानुं पराक्रम उत्कृष्ट वीर्ये करी एटले लब्धिवीर्य प्रगट करी कर्मराजानो मोटो मोहमल्ल अजर मोहरूप मेल तेने ठेदीने सुविधिनाथ स्वामीनी कृपा पामी निज शुद्धात्म गुणना ज्ञाता-चोक्ता अद्भुतं ॥ ८ ॥

पंचम आरे पण जिनशासन, जविजनने हितदाई । मनसुख शिव सुंदरिशुं रमतां, होशे जीत वधाई ॥ प्यारा० ॥ १० ॥

अर्थः—आ कलीकाल पांचमा आरामां पण जिनेश्वरनुं शासन जवि जीवोने तो हितनुंज कारण ठे. मनमां सुखे करी उपद्रव रहित ज्ञाना-दिक सुंदरलक्ष्मीसाथे आत्मसत्ताचूमिमां रंगे रमतां जीत अने वधाई थशे ॥ १० ॥

॥ संपूर्ण. ॥

॥ अथ दशम श्री शीतलजिन स्तवन ॥

॥ धर्म जिनेश्वर गाऊं रंगशुं ॥ ए. राह ॥

शीतलजिनपति शीतलता लही, परमशांति पद पाय ॥  
वहालेसर ॥ चार निक्षेपे प्रचुने सेवतां, आत्म निरमल  
थाय ॥ वहालेसर ॥ शीतल ० ॥ १ ॥

अर्थः—दशमा श्री शीतलनाथ जिनेश्वर अगीआरमा गुणगणावाला  
उपशम ठद्मस्थजिन, बारमा गुणगणावाला हायकठद्रस्थजिन अने  
तेरमा गुणगणावाला केवलीजिन ए सर्वेमांहे इंद्रसरखा ते परमशी-  
तलता पाम्या. अज्ञान मिथ्यात्व कषाय जन्म, जरा, मरण, नरक तिर्य-  
चादिनी वेदना अने आर्त्त रौद्र ईष्टवियोग, अनिष्ट संयोग, जय शोग,  
दुगंठा, कामातुरी एम अनेक अग्नि शुद्धात्म अनुभवसे बुझावी पर-  
मसमाधि परमनिवृत्तिरूप शांतिपदने पाम्या. जविजीवो उपर प्यार  
करनार सार संजाल करी जव समुद्रथी तारनार माटे हमारो वहालो  
ईश्वर. वली शुद्धात्म सत्ताचूमिमां रह्या जे ज्ञानादिक अनंत गुण  
प्रजायनो ईश्वर एटले परम ऐश्वर्यतावंत एवा प्रचुने नाम, स्थापना,  
द्रव्य अने जाव ए चार निक्षेपे सेवतां-पूजतां पोतानो आत्मा सकल  
पाप-दोष रहित निर्मल थाय ॥ १ ॥

जनम मरण जरा परतंत्रनुं, अज्ञान कषाय असूख ॥ वहा-  
लेसर ॥ चपल विकल्प महाजय सातनो, ईत्यादिक गयुं दुःख  
॥ वहालेसर ० ॥ शीतल ० ॥ २ ॥

अर्थः—उपर प्रमाणे परतंत्रता आदि सर्वे असुख एटले दुःख गयुं ॥२॥  
दरशन ज्ञान रमण अनंत वे, वीरज सहज स्वतंत वहा ० ।  
निरजय आकुलता विण नित्य तुं, सुख एकांतिक अत्यंत ॥  
वहा ० ॥ शीतल ० ॥ ३ ॥

अर्थः—हे प्रभु! तमे रूपी अरूपी सर्वे द्रव्यना त्रिकालवर्ती सर्वे जावने केवलदर्शने देखो अने केवलज्ञाने जाणो. अने दर्शन ज्ञानना अनंत प्रजायमां स्थिर समाधीए समकाले सर्वे समयमां अनंत रमण करो. एवा अचलवीर्यना सहज ( उपाधीरहित ) स्वतंत्र निर्भय आकुलता विना नित्य एकांतिक अत्यंत सुखना जोगी ठो ॥ ३ ॥

गुण अनंत समजावे परिणम्या, शांत समुद्र विलास ॥ वहा० ॥ अचल विमल क्लिमल वरजित सदा परमनिवृत्ति शीववास ॥ वहा० ॥ शीतल० ॥ ४ ॥

अर्थः—ताहरा अनंतगुण समजावे परिणम्या तेथी ताहरे शांति समुद्रनो विलास ठे. ताहरो आनंद अचल विमल क्लेशताना दोष रहित सदा बन्यो ठे. हे प्रभु! तमे परमनिवृत्तिमां उपद्रव रहित शिवस्थानके वसो ठो ॥ ४ ॥

रागादिक जीते जिन नाम ठे, ठवणा असंख्य प्रदेश ॥ वहा० ॥ शुध गुण पज्जव पिंड सद्रव्य ठे, जाव ज्ञानादि सुविशेष ॥ वहा० ॥ शीतल० ॥ ५ ॥

अर्थः—ताहरा चार निक्षेपा ऋषि जीवोने उपगारी ठे. ते शुद्ध निक्षेपा नीचे प्रमाणेः—

- (१) रागादिक शत्रुओने जीत्या भाटे जिन एहवुं ताहरुं नाम ठे.
- (२) असंख्यात प्रदेश पुरुषाकार अवगाहना आकृति ते ताहरी अरूपी स्थापना ठे.
- (३) शुद्ध गुण पर्यायनो आत्मपिंड ते ताहरो द्रव्य ठे.
- (४) ज्ञान दर्शन चरण अने दानादि पंचलब्धि आदि विशेष गुण ते ताहरो जावधर्म ठे.

उक्तंच विशेषावस्य के “ निख्वेवा सवथ्यु पज्जाया ” एटले निक्षेपा ते वस्तुना स्वपर्याय ठे. ॥ ५ ॥

होय निक्षेपा शुद्ध सहु द्रव्यमां, जाणी लेजो ए चार  
॥ वहा० ॥ जेह लहे ते निश्चय पामशे, शुद्धात्म सूख सार  
॥ वहा० ॥ शीतल० ॥ ६ ॥

अर्थः—सर्वे द्रव्यमां द्रव्यथी अत्रेदपणे मुख्य चार चार निक्षेपा  
शुद्धनये जाणवा. अनुयोगद्वारमां कहुं ठे के “ सर्वे द्रव्यमां वस्तुना  
पर्यायरूप अनेक निक्षेपा ठे. ते पंडित जेटला निक्षेपा जाणे तेदला  
निक्षेपे. नहि तो चार निक्षेपा तो जरूर जाणवाज जोईये ” शुद्धनये  
वस्तुना चार निक्षेपा जाणे ते निश्चय शुद्धात्म सार सुख पामे ॥ ६ ॥

तिस नोआगम आगमथी कहा, उपचारे वली चार  
॥ वहा० ॥ आवश्यक एम नाम धरे कोई, जीव अजीवनुं  
धार ॥ वहा० ॥ शीतल० ॥ ७ ॥

अर्थः—हवे नोआगम तथा आगमथी उपचारथी आवश्यक उपर  
चार निक्षेपा अनुयोगद्वार सूत्रप्रमाणे लखीए ठीए. कोई जीव अथवा  
अजीवनुं आवश्यक एवं नाम ठरावीए ते नाम आवश्यक कहीए ॥ ७ ॥

नाम आवश्यक ते एम आखीए, दीसे ए व्यवहार ॥ वहा० ॥  
सहज संकेतिक छीविध नाम ठे, सदसद् थापना विचार  
॥ वहा० ॥ शीतल० ॥ ८ ॥

अर्थः—उपरप्रमाणे नाम आवश्यकनो व्यवहार देखाय ठे. ते नामना  
अनेक जेद ठे पण मुख्यपणे वस्तुनुं सहज नाम अने संकेतिक एटले  
कदपनाए ठरावेहुं नाम एवा वे जेद ठे. स्थापनाना पण वे जेद ठे. सज्ञाव  
स्थापना एटले वस्तुनो जेवो आकार होय तेवेज आकारे धातु पाषाण  
अने चित्रआदिकनी मूर्तिस्थापीए ते सज्ञाव स्थापनानामे पहेलो जेद,  
अने वस्तुना मूल आकार शिवाय बीजाआकारनी मूर्तिस्थापीए, जेम  
शादीग्रामनी मूर्ति अगर आचार्यनी स्थापना बदले जेम चंदन जीवना

अस्थिनी स्थापना, तेम कोई ठेकाणे कोडी आदिक स्थापे ठे अग्र  
अक्षर लखीने स्थापे ठे ते असझावस्थापना नामे बीजो जेद जाणवो.  
एम नाम अने स्थापनाना जेद नोआगमथी तथा आगमथी कहीए ॥ ७ ॥

आगम नोआगम दोय जेदथी, डव्य निक्षेपो ते होय  
॥ वहा० ॥ आवश्यक पद अक्षर शुद्धथी, विण उपयोगे डव्य  
सोय ॥ वहा० शीतल० ॥ ए ॥

अर्थः—डव्यनिक्षेपो नोआगम अने आगम बे प्रकारे ठे. आव-  
श्यक पदना अक्षर, उपयोग विना शुद्ध पाठ करे ते डव्यनिक्षेपो जाणवो.  
ते नोआगम अने आगमथी बंधे जेद नो जिन जिन विवरो आगली  
गाथार्थी जाणवो ॥ ए ॥

घोष अघोष लही शुद्ध गुरुथकी, जाणे बोले हो शुद्ध  
॥ वहा० ॥ डव्य आवश्यक आगमथी कह्यो, सूत्रे जाख्यो  
हो बुद्ध ॥ वहा० ॥ शीतल० ॥ १० ॥

अर्थः—हवे आवश्यकपदना अक्षर घोष अघोष ह्रस्व दीर्घ प्लुत  
स्वर व्यंजन जेवा जोईए तेवा गुरुमुखथी शुद्ध जाणी आत्म उपयोग  
विना शुद्ध उच्चार करे तेने सूत्रोमांहे ज्ञानीओए आगमथी डव्य  
आवश्यक कह्यो ठे ॥ १० ॥

नोआगमथी डव्यावश्यक, त्रिविध दाख्यो ठे एह ॥ वहा० ॥  
इ डव्य अने तडव्यतिरेकथी, विण उपयोग ठे जेह ॥ वहा० ॥  
शीतल० ॥ ११ ॥

अर्थः—नोआगमथी डव्य आवश्यकना इशरीर, डव्यशरीर अने  
तडव्यतिरिक्त एम त्रण प्रकार ठे. ते पण उपयोगविना जाणवा.

(१) इशरीर एटले जे शरीरवडे आवश्यकना पाठविगेरे आवश्यक  
करणी करता हता अने ते देहने ठोडी जीव परलोके गयो पण एज



देह आवश्यकनुं कारण हतुं माटे इशरीर द्रव्यआवश्यक कहीए. जेम पहेलां जे घडामां घी जरता हता तेज घडो खाली पड्यो ठे पण तेने घीनो घडो कहीए. ते नोआगमथी इशरीर द्रव्यनिक्षेपो जाणवो.

(१) जव्यशरीर एटले अरिहतनो जन्म थयो अनेते वखते चारि-त्रावरण कर्म गयुं नथी तो पण अरिहत कहीए; तेम कोई पुरुष जन्म्यो अने आगामिकाले आवश्यक करवानो ठे पण तेनुं शरीर आवश्यकनुं कारण ठे तेने नोआगमथी जव्यशरीर द्रव्यआवश्यक कहिए

जेम घी जरवा कोरो घडो आणी मूक्यो ठे ते घडाने वर्तमाने घीनो घडो कहिए. काम पडे दासने कहे के घीनो घडो लाव तो ते घी जरवा आणेलो कोरो खाली घडो लावे एम जव्यशरीर द्रव्यनिक्षेपो जाणवो ॥ ११ ॥

तद्रव्यतिरिक्त ठे तीन प्रकारथी, लोकिक कुप्रावचनिक ॥ वहा० ॥ लोकोत्तर द्रव्यावश्यक सुणो, हृदय धरो एह ठीक ॥ वहा० ॥ शीतल० ॥ १२ ॥

अर्थः—त्रीजो नोआगमथी तद्रव्यतिरिक्त द्रव्यनिक्षेपो तेना त्रण जेद ठे. ते नीचे प्रमाणे.

(१) सवारमां उठवुं, बहारजवुं, दातणकरवुं, नाहावुं, कसरत करवी वली ए सिवाय पोताने अवश्य करवा योग्य करणी करवी, जेम राजाना अधिकारीओए पोतपोताना अधिकारनां अवश्यनां काम वखतसर करवां, वली स्त्री पुरुषोए पोतपोताना लायक अवश्य करवानां काम वखतसर करवां ते लोकिकद्रव्यआवश्यक नामनो पहेलो जेद जाणवो.

(२) सांख्य मीमांसक वैशेषिक बौध आदि पोतपोताना शास्त्रोमां कहेली संध्या पूजा प्रायश्चित विगेरे अवश्यनी करणी वखतसर करे ते कुप्रावचनीकद्रव्यआवश्यक नामनो बीजो जेद जाणवो.

(३) हवे लोकोत्तरद्रव्यआवश्यक नामनो त्रीजो जेद सांजली सारी रीते हृदयमां धारो ॥ १२ ॥

मुनि सम वेष धरे बाहिरथकी, नहि जिन आणा उपयोग ॥ वहा० ॥ दया नहीं खटकायनी जेहने, वक्र तुरग परे अयोग ॥ वहा० ॥ शीतल० ॥ १३ ॥

अर्थः—कोई मुनिसरखो वेष बाहिरथकी धारण करे पण अरिहंतनी आज्ञानो उपयोग नहीं, ठकायनी द्रव्य ज्ञाव दयाने जाणता करता नहीं अने पोतानी मतिकटपनाए उन्मत्त घोडानी पेठे उन्मार्गे चालनारा, लुंटावा जेवी अटवीमां हठे करी अटकवावाला अयोग्य, वली ॥ १३ माने न अंकुश उन्नत गज परे, न लहे आत्म सार ॥ वहा० मरदन करि निज देह समारता, केश मठारे हो गमार ॥ वहा० ॥ शीतल० ॥ १४ ॥

अर्थः—मदे चढेला हाथीनी पेठे गुरुनी आज्ञारूप अंकुश माने नहीं, सार आत्म तत्व जाणे नहीं, शरीर, साथल, बांहौ, बांसो, मोहुं आदिमां ओटणां आदिनुं मरदन करी देह सुधारे वली ते गमार केश मठारे वली ॥ १४ ॥

उन्नय काल आवश्यक साचवे, द्रव्य परंपरा धार ॥ वहा० ॥ धामधूम करि रिंजवे लोकने, नहि जिन आज्ञानो विचार ॥ वहा० ॥ शीतल० ॥ १५ ॥

अर्थः—द्रव्य परंपराए उन्नयकाल प्रतिक्रमणादि आवश्यक क्रिया साचवे, बाह्य क्रियानी धामधूम करी लोकोने रिंजवे पण जिनेश्वरनी आज्ञानो विचार बिलकुल राखे नहीं ॥ १५ ॥

तेह लोकोत्तर द्रव्यावश्यक, देखो अनुयोगद्वार ॥ वहा० ॥ ज्ञावावश्यक पण होय जेदथी, आदरिये सूखकार ॥ वहा० ॥ शीतल० ॥ १६ ॥

अर्थः—उपर प्रमाणे नोआगमथी लोकोत्तरद्रव्यआवश्यक नामनो तद्व्यतिरिक्तनो त्रीजो जेद जाणवो. उक्तंच अनुयोगद्वारे—

“ इमे समण गुण मुक्क, योगी ढकाय निरणुकंपा ॥ हयाश्व  
डुहामा गयाश्व निरंकुसा ॥ घठा मठा तुप्पोठा, पंडुरयाउर  
गणाजिणाणं ॥ आणाए सबंदा ॥ विहरिउण उन्नउंकावं  
आवस्सगस्स उवठंतितं ॥ लोगतुत्तरियं दवावस्सयं” ॥

जाव आवश्यक पण आगम तथा नोआगम बे प्रकारे ठे ते सुख-  
कारी जाणी आदरीये ॥ १६ ॥

॥ पूरण पद उच्चार सुपाठनो, वली साचो उपयोग ॥वहा०॥  
॥ जाव आवश्यक करतो मुनीवरु, पामे निज गुण जोग ॥  
॥ वहा० ॥ शीत० ॥ १७ ॥

अर्थः—साचा आत्म उपयोगे आवश्यकना पाठनो पुरेपदे स्वर,  
व्यंजन, गुरु, लघु आदि रुडे उच्चारे जावआवश्यक करतो मुनि शुद्धा-  
त्म गुण जोग पामे ते आगमथी जावआवश्यक कहीये ॥ १७ ॥

॥ जाव आवश्यक नोआगमथकी, लोकिक कूप्रावचन ॥  
॥ वहा० ॥ जाव आवश्यक लोकोत्तर जलो, सेवे ते नर धन्य॥  
॥ वहा० ॥ शीत० ॥ १८ ॥

अर्थः—नोआगमथी जावआवश्यकना लोकिक, कुप्रावचनिक तथा  
लोकोत्तर एम त्रण जेदठे. तेमां उपर जेम लोकिक द्रव्यआवश्यक  
कहुं ठे तेज प्रमाणे साध्य उपर उपयोग राखी करे तो तेने नोआग-  
मथी लोकिक जावआवश्यकनो पहिलो जेद कहिये. उपर सांख्यादिना  
शास्त्रमां कह्या प्रमाणे संध्या प्रायश्चित्तादिक अवश्यनी करणी साध्य  
उपयोग सहित होय तेने नोआगमथी कुप्रावचनीक जावआवश्यकनो  
वीजो जेद कहिये. हवे आवश्यकना यथोचित पाठ तथा त्रणे योगनी

उचित क्रिया शुद्ध उपयोग सहित करे तो तेने नोआगमथी लोको-  
त्तरज्ञावआवश्यक नामनो त्रीजो जेद कहीये एहवो लोकोत्तरज्ञाव  
आवश्यक सेवे ते पुरुषने धन्य ठे ॥ १७ ॥

निक्षेपा सवस्तु प्रजाय ठे, पर क्षेत्रे केम होय ॥ वहा० ॥  
रहस्य लहे जे सहज स्वतत्वनो, मनसुख शिवमूख जोय ॥  
॥ वहा० ॥ शीत० ॥ १८ ॥

अर्थः—निक्षेपा ते वस्तुना स्वपर्याय ठे. ते एक द्रव्यना निक्षेपा  
बीजा द्रव्यमां केम होय ? एटले स्वक्षेत्रमांज होय पण उपचारथी  
परद्रव्यमां कहेवाय जेम ठोकरां लाकडीने घोडो मानी घोडो कहे  
तेम साधुपण ठोकराने कहे जे ताहरा घोडाने संचाल, तो लाकडीने  
घोडो कहेवाथी जूठनो दोष लाग्यो नहीं. नवविधे उपचार ठेते निश्चय-  
थी तो सत्य नथी पण जगत्मां बोलाती उपचारनी बोलीने ज्ञानी  
जगत्नी उपचारनी बोली प्रमाणे बोले तो जूठ कहेवाय नहि, पण उ-  
पचरित निक्षेपाथी वस्तुनुं मूल स्वरुप हाथमां आवे नहि माटे मोक्ष-  
मार्ग साधनारने शुद्ध निक्षेपानुं स्वरुप जरूर जाणवुं. स्वपर द्रव्यनी  
जिन्नता करवा शुद्ध निक्षेपानी खास जरूर ठे. उपचरित निक्षेपाथी  
जीवगुणपर्याय अने पुद्गलगुणपर्यायनी जिन्नता पाडी शकाय  
नहीं तो धर्मशुक्लध्यान शीरीते कराय ? जेम राजा पोताना सैन्यने  
अने शत्रुना सैन्यने ओलखतो न होय तो कोने मारे अने कोने  
बचावे ? माटे ते आखर जीत पामे नहीं. जे शुद्ध निक्षेपाना जाण  
होय ते शुक्लध्यान करी रागादिक शत्रुने जीते. निक्षेपानो रहस्य  
जे जाणे ते स्वतत्त्वने पामे, मनमां सुखे करी शिवपद निहाले ॥ १८ ॥

संपूर्ण

॥ अथ एकादशम श्री श्रेयांसनाथनुं स्तवन ॥

॥ एक दिन गंगाके बीचें सुर साथ बहोरा ॥ ए राह ॥

श्री श्रेयांसप्रभु तणो, शुद्ध परमाणंद हां हां रे शु० ॥

॥ स्वप्रदेशथी न वेगलो, आणंद अमंद ॥ हां हां रे आ० ॥

॥ श्री० ॥ १ ॥

अर्थः—अगीआरमा श्री श्रेयांसस्वामीनो शुद्ध सहज स्वतंत्र एकांतीक अत्यंतीक पूरण परम आणंद ठे अने जगत्वासी जीवो शब्दादिक विषय अने धन स्त्रीआदिकमां जे आणंद माने ठे ते उपचरित, परतंत्र, अथिर, अनेक रोगो सहित, जय खेद चिंता आदि कांटाये चरेलो अने तृष्णा आतुरता वधारनारो, दीनता करावनारो, आगामी अनेक दुःखनुं कारण, एवो कटपीत आणंद ठे एटले ताहरा आणंदना तोले इंद्र चक्रवर्ती आदिना आणंद तृणमात्र पण लेखे नथी. एहवो तमारो आणंद ते पोताना आत्मक्षेत्रथी एटले स्वप्रदेशथी वेगलो नथी ते अमंद के० अनुत्तरानंद ठे ॥ १ ॥

सहज निकट ज्ञानादिनुं, सुख अचल अजंग ॥ हां० ॥

॥ सुख० ॥ विण जाणे जगजीवने, पुद्गलमां रंग ॥ हां० ॥

॥ पु० ॥ श्री० ॥ २ ॥

अर्थः—एवो सहजीक अने पोतानाज स्वक्षेत्रमां रहेलो ज्ञानादिकनो आणंद अचल अने अजंग ठे. एहवो शुद्ध आत्मिक आणंद जाण्याविना जगत्वासी जीवोने पुद्गलना शब्दादिक पर्यायोमां रंग लाग्यो ठे ॥ २ ॥

प्रयांस विना सुख ठे सदा, निज पद समजावे ॥ हां० ॥

॥ नि० ॥ सुख लेवा मिथ्यामती, अति प्रयास उपावे ॥ हां० ॥

॥ अति० ॥ श्री० ॥ ३ ॥

अर्थः—तमारे प्रयास विना सकल समय आणंद ठे. जो आत्मा पोताना ज्ञानादिकने समजावे जोगवे तो प्रयास विना स्वतंत्र सुख ठे पण ज्ञानादिनुं सुख जाण्याविना मिथ्यामति मन वचन कायानो अतिशय प्रयास करी अथिर पुद्गल परिणतिमां सुख लेवा माटे प्रवृत्ति करे पण साचुं सुख आवे नहीं. वर्तमाने प्रयास जोगवे अने ज्ञानावरणादिक बांधीने आगामी काले पण दुःखदाई प्रयासनो जोगी आय. ॥ ३ ॥

निज क्षेत्रे स्वद्रव्यमां, स्वकाल स्वजाव ॥ हां० ॥ स्व० ॥  
॥ परम मगनता इहां रहे, जिहां नहि विजाव ॥ हां० ॥  
॥ जि० ॥ श्री० ॥ ४ ॥

अर्थः—स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल अने स्वजावमां परद्रव्य उपरनुं ममत्व अने रागादिक टाळीने देखे तो विजाव विना परम मग्नता रहे ॥ ४ ॥

परक्षेत्री जेह जोग ते, कहो किए विध जोगे ॥ हां० ॥  
॥ क० ॥ राग द्वेषने जोगतो, रह्यो शांति वियोगे ॥ हां० ॥  
॥ र० ॥ श्री० ॥ ५ ॥

अर्थः—जोगवनार करतां जोगववाना पदार्थ अन्य क्षेत्रमां होय तो ते शीरीते जोगवी शकाय ? एटले नज जोगवी शकाय पण विपर्यास वासनाए आत्म क्षेत्रथी न्यारा परक्षेत्रे रहेला पुद्गलादि पदार्थने जाणे हुं जोगवुं हुं पण ते पदार्थ न जोगवतां तेना राग द्वेषने जोगवे ठे-तेथी कर्मबंध करी अनंत जातनी उपाधिओ खडी करी ते उपाधिओने जोगवतां पोताना ज्ञान वीर्य अव्याबाध स्वतंत्रता निवृत्ति आदिनी शांति समाधिनो वियोगी रहेठे. ॥ ५ ॥

पर परिणतिना मोहमां, सुख सहज न देखे ॥ हां० ॥

॥ सु० ॥ पर प्रवृत्ति करतो थको, लहे दुःख विशेषे ॥ हां० ॥

॥ ल० ॥ श्री० ॥ ६ ॥

अर्थः—मिथ्यामती जीव परपरिणति उपर मुंजायेलो सहज आत्मी-  
क स्वतंत्र अनुपचरित निवृत्ति सुख देखी शकतो नथी अने पर  
प्रवृत्ति करतो थको विशेष दुःख पामे. ॥ ६ ॥

पुद्गल परिणति राखवा, धरे अतिही उमंग ॥ हां० ॥

॥ धरे० ॥ वारवार विपती सहे, पण लाग्यो रंग ॥ हां० ॥

॥ प० ॥ श्री० ॥ ७ ॥

अर्थः—पुद्गलो पोतानी परिणामीकताए सर्वे समय परिणमे, पाता  
ना स्वकाल प्रमाणे खंधादिक विखरी जाय. तेने स्वतंत्र राखवा अने  
पोतानी इच्छाए चलाववा अतिशय उमेद राखे पण कोई द्रव्य पोताना  
प्रमेयने ढोडे नहि, कोइनो प्रमेय परतंत्रताए नथी तो जीव, पुद्गल परि  
णतिने केस करी राखी शके? तेथी निराश थइना उमेद थइ आक्रंद करे  
निसासा नांखे पण पोतानीज चूल पोताने दुःखदाई थाय ठे.  
प्रत्यक्षपणे पुद्गल परिणति राखतां वारवार विपतिओ सहे तोपण  
मोहवशे जेने पुद्गलसां रंग लाग्योठे ते हितकारी जिनेश्वरनां वचन  
सांचलता नथी ॥ ७ ॥

तुज शासन जाणया पठी, आतम सुख जाणयो ॥ हां० ॥ आ०

दायक परम समाधिनो, प्रजु मुज मन मान्यो ॥ हां० ॥

॥ प्रजु० ॥ श्री० ॥ ८ ॥

अर्थः—ताहरुं शासन पामी ताहरी वाणी जाणी माहरुं आत्मीक  
सुख जाण्युं तेथी तुं परम समाधिनो दातार माहरा मनमां सन्मा-  
न्यो ठे ॥ ८ ॥

प्रयास विना सुख साधशुं, तुज आण ग्रहीने ॥ हां० ॥

॥ तु० ॥ चेतन सत्ता लक्ष्मां, थिर थोत्र ग्रहीने ॥ हां० ॥

॥ थिर० ॥ श्री० ॥ ए ॥

अर्थः—माहरी चेतन सत्ता लक्ष्मां थिरथोत्र राखीने ताहरी  
आणा ग्रहीने विनाप्रयासे समजावे पूरण सुख साधीशुं ॥ ए ॥

द्रव्य गुण परजायथी, परने पर जाणे ॥ हां० ॥ पर० ॥

द्रव्यादिक चउ जेदथी, निजमय निज माने ॥ हां० ॥ नि० ॥

॥ श्री० ॥ १० ॥

अर्थः—द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद् व्यय ध्रुवादिके करी परवस्तुने पर  
जाणे तेमज द्रव्य क्षेत्र काल थने जावादिके पोताने पोतापणे माने  
एटले परद्रव्यनी कामना रहे नहीं, पोतानो चेतना विलास पोताना  
स्वक्षेत्रमां चासे, परद्रव्यथी सुख लेवानी आशा रहे नहीं ॥ १० ॥

॥ अस्ति वस्तु द्रव्यने, प्रमेयत्व कहीजे ॥ हां० ॥ प्र० ॥

॥ अगुरुलघुने सत्त्व ए, निजमय निज लीजे हां० ॥ निज० ॥

श्री० ॥ ११ ॥

अर्थ—अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व थने सत्त्व  
ए सामान्य स्वजाव पोताना पोतामय जाणवा. ए सामान्य स्वजाव सर्वे  
द्रव्यमां होय तोपण एक द्रव्यना सामान्य स्वजाव ते बीजा द्रव्यना  
नहीं एटले पोताना पोतामांहेज रहे. ॥ ११ ॥

तिम विशेष स्वजाव ते, कोइ केनो न होवे ॥ हां० ॥

कोण॥ वलि लक्षण निज द्रव्यनो, निजमय निज जोवे ॥ हां० ॥

॥ निज० ॥ श्री० ॥ १२ ॥

अर्थ—तेमज विशेष स्वजाव ज्ञानादिक वर्णादिक ते जे जेहना ते  
तेहनाज रहे पण एक द्रव्यना विशेष स्वजाव बीजा द्रव्यमां जाय



आवे नहीं, निज द्रव्य लक्षण निजमय पोते जुए एटले कोई द्रव्यनां  
लक्षण कोई अन्य द्रव्यमां जाय आवे नहीं ॥ १२ ॥

॥ कोई नहीं केना कामनो, कारण व्यवहारे ॥ हां० ॥  
का० ॥ निश्चय कारण कारज, निज मांदि संजारे ॥ हां० ॥  
निज० ॥ श्री० ॥ १३ ॥

अर्थ—एक द्रव्यना गुण पर्याय बीजा द्रव्यने काममां आवता  
नथी पण व्यवहार नयथी निमित्त कारण थाय ठे. निश्चयथी तो कर्त्ता  
कारण, कारक अने कार्य पंडित पोतानुं पोतामां पोताथी अचेदपणे  
जाणे संजाली ले ॥ १३ ॥

॥ स्याने करुं पर कामना, प्रवृत्ति परमां ॥ हां० ॥ प्र० ॥  
॥ स्याद्वाद वचने लखी, निवृत्ती घरमां ॥ हां० ॥ नि० ॥  
श्री० ॥ १४ ॥

अर्थ—तो हवे हुं स्यामाटे परद्रव्यादिकनी कामना करी परमां  
प्रवृत्ति करुं ? हे देव ! ताहरां स्याद्वाद वचन सांजली निज आत्म-  
सत्ता घरमां में निवृत्ती जाणी ॥ १४ ॥

॥ तजी परमादने साधशुं, सुख ठे निज करमां ॥ हां० ॥  
सुख० ॥ साची हामी में करी, मारग जिनवरमां ॥ हां० ॥  
मा० ॥ श्री० ॥ १५ ॥

अर्थ—हवे प्रमाद तजीने आत्मसंपदा साधीशुं तो स्वतंत्र सुख  
पोतानाज हाथमां ठे. ए माटे में ताहरां परमज्ञान न्याय अने दया  
जरेलां वचन सांजली निर्धार करी ताहरो प्ररूपेला मोक्षमार्ग परम  
समाधि साधवा में साची हिम्मत करी ठे ॥ १५ ॥

॥ शुक्लध्यान लय लागशे, मनरंग अजरो ॥ हां० ॥ म० ॥

रम्य रमण थिर एकमां, सुमता धरी रंगे ॥ हां० ॥ सुम० ॥  
श्री० ॥ १६ ॥

अर्थ—जे नविने शुद्धध्यानमां लय एटले एक तान लागशे, शुद्ध-  
ध्यानमां अखंडपणे मननो रंग लागशे अने शुद्ध रम्य आत्मस्वरूपमां  
सुमताए रंग राखी एकज पोताना रूपमां परमस्थिरताए रमण करशे  
ते—॥ १६ ॥

॥ समय अखंफित लहेरमां, निज वीर्य उमंगे ॥ हां० ॥  
निज० ॥ सुख शाश्वत मनसुख लहे, शिवकमला संगे ॥ हां० ॥  
॥ शिव० ॥ श्री० ॥ १७ ॥

अर्थ—समय के० जैनसिद्धांत प्रमाणे निज लक्षण निजमय जाणी  
समयांतर रहीत अखंड समये ध्याननी लहेरमां पोताना क्षयउपशम  
वीर्यवडे क्षायक वीर्य प्रगट करी मनमां सुखे करी ध्यान करतां  
शाश्वत सुख शिवलक्ष्मी साथे जोग जोगवशे ॥ १७ ॥

॥ संपूर्ण ॥

॥ अथ द्वादशम श्री वासुपूज्यस्वामिनुं स्तवन ॥

॥ श्री सुपासजिन त्रिभुवन स्वामी ॥ ए देशी ॥

वासुपूज्य शिव वासे वसता, सहज परमपद जोगीरे ॥  
दरशन ज्ञान सुचरणानंदी, केवल कमला योगीरे ॥ वासु० ॥

अर्थ—वासुपूज्य स्वामी उपद्रव रहित आत्मसत्ता चूमिमांहे  
वसता सहज आत्मीक परमानंदपदना जोगी ठे. जगत्वासी  
जीव घर, गाम, शरीरादि जे अशिव (उपद्रववालां) थिर नहीं एवा  
परतंत्र स्थानकमां अहंपणे वसतां परमपदने जोगवी शकता नथी.  
हे प्रभु ! तमे दर्शन ज्ञानरूप स्वस्वभाव रमणमां आनंदी ठो,

दर्शन ज्ञानादि केवललक्ष्मीना शाश्वत संयोगी ठो, दर्शन ज्ञानादि निर्मल लक्ष्मीत्व निज आत्मतत्त्वथी चिन्न नथी पण जेदव्यवहारे करी संयोगी कह्या ठे ॥ १ ॥

पुद्गल वास करी जे जूढ्या, ते रह्या सुख वियोगीरे ॥  
॥ पुद्गल परिणति ममत करीने, क्षिण क्षिण रहिया सोगीरे ॥  
॥ वासु० ॥ २ ॥

अर्थः—जे जीव, घर, शरीर आदि अथिर पुद्गल पर्यायमां ममताए वास करी सहजानंदने जूढ्या ते ज्ञानादिक सहजानंदना सुखथी वियोगी रह्या अने ते अथिर पुद्गल परिणतिनुं ममत्व करी ते पुद्गल परिणतिना वियोगथी क्षिणे क्षिणे शोगी रह्या ॥ २ ॥

॥ चल वीरज पुद्गल चल संगे, योगी थयो उमंगेरे ॥  
॥ पर परिणति किरियां करि रंगे, लखि विकार निज अंगेरे ॥  
॥ वासु० ॥ ३ ॥

अर्थः—चल पुद्गलनो संग करवाथी आत्मवीर्य पण सचल थयुं अने पुद्गल जोगववाना उमेदे मन वचन कायादिक अने औदारिक कार्मण वैक्रियादि अनंत वर्णानो संयोगी थयो. पर परिणति एटवे मन वचन कायाए पुद्गलमां क्रिया करी रीझ मानी शरीरादि पुद्गलोमां थता विकारो पोताना अंगे मान्या ॥ ३ ॥

॥ जोग क्रिया सुख कारण जाणी, राची रह्यो मन मानी रे ॥  
॥ बाधक बाल विरज मति आणी, करि आत्म गुण हाणीरे ॥  
॥ वासु० ॥ ४ ॥

अर्थः—मन वचन कायानी क्रिया तथा अधिकरणादिक पच्चीश मांहेली श्र्यापथिकी विना चोवीश क्रिया मनमां सुखनुं कारण मानी तेज जूठी क्रिया करवामां कर्मचेतना पणे राची रह्यो. तेथी पोतानुं

वीर्य बाधकतापणे बाल-मूर्खाईषणे प्रवर्त्ताववा मति करी अने ज्ञाना-  
दिक आत्मगुण विकारी करी सुखनी हाणी करी ॥ ४ ॥

काल अनंत करी दुःख खाणी, फोक वलोव्युं पाणीरे ॥  
॥ हवे निरमल तुम वाणी जाणी, आत्म शक्ति पीठाणीरे ॥  
॥ वासु० ॥ ५ ॥

अर्थ:- एम अनंतकाल सुधी दुःखनी खाण करी एटले जेमांथी  
नवां नवां दुःख पेदा थाय. राग द्वेष रूप फोकट पाणी वलोव्युं के  
जेमांथी शुद्धात्म-तत्वरूप-मांखण हाथ आव्युं नहीं. हवे सकल दोष  
रहित ताहरी निर्मल वाणी जाणी आत्मसत्ता ओलखी ॥ ५ ॥

॥ मिथ्या कुमत कदाग्रह ज्ञानी, निःप्रयास सुख जाणीरे ॥  
॥ निज गुण अमृत शुद्ध पिठाणी, सुमत सखी सनमानीरे ॥  
॥ वासु० ॥ ६ ॥

अर्थ:- परद्रव्यादिक अने कुगुरु कुदेव कुधर्मथी सुख लेवानो  
आग्रह हतो, वली कुमतिओना वचननो असद् आग्रह हतो ते  
ज्ञागवाथी पोताना ज्ञानादिक गुणोमां थिर समजावे रहेवुं ए विना-  
प्रयासे सुख ठे एम जाण्युं तेथी ज्ञानादि द्वांत्यादिक गुणोने शुद्ध  
अमृत जाणी सुमति सखीनो आदर कर्यो ॥ ६ ॥

प्रयास करे जे पर परिणतिमां, ते केम सूख उपावेरे ॥  
॥ प्रयास विना निजमां थिर वीरज, राखे ते सुख पावेरे ॥  
॥ वासु० ॥ ७ ॥

अर्थ:- अथिर अने आपणे तावे थाय नहिं एवी परपरिणतिमां  
जे प्रयास करे तेहने कइ रीते सुख उपजे ? अर्थात् नज उपजे अने  
दुःख थाय. पण विनाप्रयासे आत्मजावमां वीर्य थिर राखे ते जरूर  
सुख पामे ॥ ७ ॥

॥ जे पर दास थई नर जडुनो, परघर काज करंतरे ॥  
 ॥ पण सुख देवा नहि जड समरथ, तो कीम दुःखनो अंत  
 रे ॥ वासु० ॥ ७ ॥

अर्थः—जे कोई मूर्खनो दास थइने ते मूर्खना घरनुं सेवा चाकरी  
 आदि सर्वे नीच काम करे पण ते मूर्ख सुख आपवाने समर्थ नथी  
 तो जडमां जड जे पुद्गल तेनी सेवा करीए, मन वचन काया बुद्धि  
 सर्वे जड पुद्गलनी सेवामां वापरिए पण जड पाहुं आपणने वंछित फल  
 आपवा समर्थ नथी. तो दुःखनो अंत केम आवे ? अर्थात् न आवे.

॥ मूर्ख सूख चहे जडआशे, अंत होय निराशरे ॥ प्रजु  
 तुज शासन पूण्ये लहि हुं, तोडुं मोहनो पासरे ॥ वासु० ॥ ८ ॥

अर्थः—मूर्ख जाणे के हुं जड पुद्गलोथी सुखी थईश, एज मने सुख  
 आपशे, तेना उपर हरख उमेद मनोरथ आशा राखे पण ए जड अचे-  
 तन सुख आपवा समर्थ नथी, ए प्रीती पण करी जाणे नहीं, ए तो  
 पोतानी स्थिति प्रमाणे मळे विखरे, पोतानी परिणामीकताए परिणमे  
 पण प्रीती करनार साथे पाठी प्रीति करवा अने सुख देवा देवा जाणे  
 नहीं. एवा जड पुद्गलोना संगी पुद्गलमांथी सुखनी जीख मागता  
 पुद्गलनी आशाए रहेला स्त्री पुरुषो ते पण जड संगे जड जेवा  
 थयेला ठे. ते पण आपणने साचुं सुख आपी शकता नथी तो ते जड-  
 थी अगर जड संगे रहेला जीवोथी सुख चाहानारा अंत निराश अने  
 नाउमेद थाय, जे श्रम कयों ते फोगट वेठ करी तेना बदले चवत्रम-  
 णनुं दुःख सहे अने ज्ञानानंद सहज समाधि पण पामे नहीं. माटे  
 जे प्रीती स्वभाव ते चौदराजलोकना पदार्थों साथे फेलाव्या विना  
 पोताना ज्ञान दर्शनादि अनंत पर्यायमांहे वापरवो स्थिर करवो  
 एटले प्रेम प्रतित प्रीती पोताना गुण पर्यायोमां करवाथी अनंत  
 स्वतंत्र आनंद पामे. जे पोतानी अनेक प्रकारनी शक्ति पोतामां वापरे

ते पूर्णानंद पामे एटले पोतानुं ज्ञान पोताना गुण पर्यायोमां वापरवुं, दर्शन गुण पण पोताना गुण पर्यायोमां वापरवो, चरण रमण पण पोतामांज करवुं, वीर्य पण पोताना सर्वे गुणपर्यायोमां वापरवुं गुणपर्यायोथी चलायमान करी वेगले जत्रा देवुं नहीं, तप एटले तृप्ती पोताना गुण पर्यायोमां करवी. अने जे पुद्गल विषयादिकमां तृप्ती माने तेने तृप्ती रहे नहि पण जलटी तृष्णा वधे अने आतुरता वधवाथी दीन थई जनजनना दास थवुं पडे, संयम एटले संचाल पण पोताना अनंतपर्यायनी राखवी एटले पोताना गुण पर्यायने मलीन अने चल थवा देवा नहीं तेथी द्रव्य जावथी स्वपर जीवनी दया थाय अने दयानी कोई प्रकारे खामी रहे नहीं, शील एटले रुडो आचार ते पण पोताना गुण पर्यायने पर पुद्गल संबंध्यी वारी पोताना जावधर्म मांहे प्रवर्त्तावीए तो बंने प्रकारनुं परम शील रहे एटले पोतानुं बलबुद्धि सर्वे पुरुषाकार पराक्रम पोताना शुद्धात्म तत्वमांहे फोरवे तेज परम समाधि पामे. पण पारकी प्रीत तो मूरख होय तेज करे. हे प्रभु ! ज्ञानादिक अनंत प्रभुताईवंत हुं ताहरुं शासन प्रभुत्व पूणये अनंतकाले पाम्यो हवे हुं मोहना पासने तोहुं केमके ताहरी वाणीवडे मोहना पास कापवानां जेदज्ञान रूप तिदण शस्त्र माहरे हाथ आव्यां ठे तो हुं शत्रुने ठेदवाने माटे केम विलंब करुं ? एवी कोण सूखाई करे के दावमां आवेला शत्रुने वधवा दे अथवा कायम राखे ? ॥ए ॥

आतम ध्याने आतम पामे, अति दृढ वीर्य उद्धासेरे ॥  
निरमल वीरज निज गुण राखे, मनसुख शिवघर वासेरे ॥  
॥ वासु० ॥ १० ॥

अर्थः—ज्यांसुधी आत्माए आत्मानुं स्वरूप जेवुं ठे तेवुं जाण्युं नथी त्यांसुधी परद्रव्यनुं ममत्व अने रागादिक रहे ठे, आत्मवीर्य चल थई बाल-बाधक जावने पामेठे पण ज्यारे आत्मानुं स्वरूप जेवुं ठे

तेवुं जाणे अने अनवचनकाययोग अन्य ध्येयथी वारी शुद्ध ध्येय लक्ष्मां लावी स्थिर करे एटले आत्म ध्यान करवाथी आत्मानुं अति दृढ वीर्य उद्वास पामे, फरीथी वीर्य चल थाय नहीं अने कर्मबंध पण करे नहि, ज्ञानादिक गुणो सादि अनंतकालसुधी निर्मल रहे ते अनंत गुणोनो स्वतंत्र विवास करे. जे मनमां सुखे करी वीर्य निर्मल करी ज्ञानादिक गुणोने निर्मल स्थिर राखे ते सत्ताचूमिरुप आनंदपुरी उपद्रव रहित एवुं शिवघर तेमां घरवासो करे ॥ १० ॥

॥ संपूर्ण ॥

॥ अथ त्रयोदशम श्री विमलनाथजीन स्तवन ॥

॥ राग प्रज्ञाती ( जैरवी ) ॥

विमल जिनेश्वर वदन कमल ध्वनी, सुणि मेरी नयणां खूब रही ॥ ममता माया मिथ्या दुरमती, प्रचु प्रताप डरी दूर रही ॥ विमल० ॥ १ ॥

अर्थः—जेना अनंत गुण पर्याय निर्मल थया एवा तेरमा श्री विमलनाथ अरिहंतना निर्मल वदनकमलथी दिव्य ध्वनी सांचलीने माहरी अंतर द्रष्टि खूली तेथी परद्रव्यनी ममता परद्रव्य उपर स्नेह मिथ्यामती अने आत्म स्वप्तावथी वेगली मती ते रुप दुरमती प्रचुना प्रतापे डरीने दूर रही ॥ १ ॥

सिद्ध समान स्वरूप लख्यो हम, थिर रहे स्वपर विवेक गही ॥ स्यादवाद अमृत रस चारख्यो, सर्वांगे सुसमाधि लही ॥ विमल० ॥ २ ॥

अर्थः—ताहरा वचनथी में माहरुं स्वरूप सत्ताए सिद्ध सरखुं लक्ष्मां आण्युं. हवे आत्म तत्त्व अने अनात्म तत्त्वनो, बंध परिणति

अने अबंध परिणतिनो, संसार मार्ग अने मोक्षमार्गनो विवेक ग्रही  
आत्मशुद्धतामां थिर रहीशुं. ताहरो स्याद्वाद वचनामृत रस में  
चाख्यो तेथी पोतानी समाधि पोताना सर्वांगे जाणी ॥ २ ॥

सत्तर त्रयो ज्ञानादि गुण गण, सत्ता असंख्य प्रदेश  
मही ॥ परगुण रहेवा ठाम न ठालो, जाय न निजगुण  
अवर कहीं ॥ विम० ॥ ३ ॥

अर्थः—स्वप्रदेश रूप सत्ताचूमिमां ज्ञानादिक गुण समुदाय सर्व  
अंशे पूरण त्रयो ठे तेथी परगुण रहेवा माटे माहरी सत्ताचूमिमां  
अंशमात्र ठाम खाती नथी तेथी परगुण आवीने माहरा गुणोने  
हरकत करे के बगाडे तेम नथी. माहरा ज्ञानादिक गुण समुदायना  
अनंत पर्यायमांथी एक अविनाशी पर्याय पण बाहिर अन्य क्षेत्रमां  
जाय एवो नथी केमके ज्ञानादि पर्याय माहरा आत्मअंगने आत्म  
प्रदेशथी अचेद, अटूट, अखंड, स्वतंत्र, अबाधित ठे एटले बीजे  
स्थानके जाय नहीं ॥ ३ ॥

जिन दर्शन आदर विण चूढ्यो, दुःखीयो पुद्गल  
खंध ग्रही ॥ लोकाकाश प्रदेशे तटक्यो, शुद्ध शक्ति हम तो  
न लही ॥ विमल० ॥ ५ ॥

अर्थः—अनंत समाधिनुं दातार ताहरुं दर्शन ते जाण्या आदर्था  
विना हुं अनादिथी चूढ्यो तेथी ज्ञानावरणादि अने औदारिकादि  
देहना पुद्गल खंध ग्रहीने चौदराजलोकना असंख्याता प्रदेशमां  
चारे प्रकारनां पुद्गल परावर्तन करतां अनंतकाल दुःखी रह्यो पण  
ताहरा वचन विना में माहरी शुद्ध शक्ति जाणी नहीं तेथी तन धन  
स्त्री आदिकना ममत्व वशे दुःखी रह्यो ॥ ४ ॥

फोगट काल अनंत गमाव्यो, ममता बहु दुःख देत रही



अशरण दीन अनाथ रह्यो हुं, जन जन शरणां आश  
ग्रही ॥ विमल० ॥ ५ ॥

अर्थः—एम् ज्ञानानंद विलास विना फोगट अनंतो काल गमाव्यो  
तेथी ममता परतंत्रताये बहु दुःख त्रास देती रही. ताहरुं शासन  
पाम्या विना अशरण दीन अनाथ रह्यो, जन जननां में शरणां चाह्यां  
अने जनजननी आशा राखी केमके कोई बंचावे ! पण काई वढ्युं  
नहीं ॥ ५ ॥

समन्नाषी गुरुराज मित्या विणुं, डुरमती कुगुरुके संग  
ग्रही ॥ कुमत कदाग्रह हम नहि त्याग्यो, विषयारस विष राग  
चही ॥ विमल० ॥ ६ ॥

अर्थः—तीर्थकरोना वचन मरड्याविना सुधुं बोलनार समन्नाषी  
दयाल गुरुराज मित्याविना कुमतीओनी संगते में डुरमती ग्रहण करी,  
कुमतनो कदाग्रह (असद् आग्रह) में न तज्यो अने विषय विष रस  
राग चाह्यो ॥ ६ ॥

परकर्ता चोक्तादिक मान्यो, बहु मिथ्यामती फेली रही  
दुविध करी खटकायकी हिंसा, जय जर नरकादिक सही ॥  
॥ विमल० ॥ ७ ॥

अर्थः—में मने परद्रव्यादिकमां कर्ता चोक्तादि मान्यो अने निज  
द्रव्यादिकनुं कर्ता चोक्तादि पणुं जाण्युं नहीं. एम् अनंत मिथ्याम-  
ती फेली रही अने द्रव्य जावथी स्वपर ठक्काय जीवोनी हाणी करतो  
रह्यो तेथी जये जरेला नरकादिक वास सहा

अब समन्नाषी गुरु मोये मिलीयो, कलुष ताप दुर जाय  
वही ॥ शुद्ध द्रव्य गुण पज्जव जाणी, शक्ति शुद्धतम शुद्ध  
वही ॥ विमल० ॥ ८ ॥

अर्थः—हवे परम कृपावंत स्वपर उपकारी स्याद्वादनय जाण सम-  
चाषी गुरु मने मढ्यो तेथी अज्ञान मिथ्यात्व कषायना सर्वे ताप दूर  
वही जशे. अने द्रव्य गुण पर्यायनी शुद्धता जाणी शुद्ध आत्मानी  
शुद्ध शक्ति लक्ष्मां आवी ॥ ७ ॥

सुख दाता त्राता प्रभु जाण्यो, तुमविण तारक ओर नहीं  
परम ज्ञान सुन्याय दया वर, तुमसम जगमें को न कहीं ॥  
विमल० ॥ ९ ॥

अर्थः—शाश्वता स्वतंत्र सुखनो दातार, अज्ञान मिथ्यात्व कषाय  
अने नरकादिक दुर्गति दुःखथी बचावनारो, शरणे राखनारो ज्ञाता में  
तने जाण्यो. तमारा विना संसार समुद्रथी तारनार बीजो नथी.  
परमज्ञानी परमन्यायी वरप्रधान दयावंत तमारा समान जगत्मां  
कोईपण कोई ठेकाणे नथी ॥ ९ ॥

द्रव्य गुण पज्जव तुज जाणे, घाती करम तस जाय वही ॥  
तुज सम निज गुण पज्जव ध्याने, प्रगटे चार अनंत सही  
॥ विमल० ॥ १० ॥

अर्थः—जे ताहरा द्रव्य गुण पर्यायने शुद्ध नये जाणे तेनां चारे  
घातीकरम क्य जाय. ताहरा समान निजात्म गुण पर्यायनुं शुद्ध  
ध्यान करे तेने ज्ञान दर्शन चारित्र अने वीर्य एम चार अनंतां  
प्रगटे ॥ १० ॥

धीर वीर निज पुरुषाकारे, अवसर साधो मार्ग लही ॥  
अचला कमला विमला पावे, मनसुख शिवघर वास रही ॥  
॥ विमल० ॥ ११ ॥

अर्थः—अहो धैर्यवंत ! लब्धिवीर्य धारी पोताना पुरुष प्राक्रमें  
करी वीर पुरुषोए साधेत्तो मोक्षमार्ग अवसर पामी साधो. जे ए मार्ग

साधे ते मनसुख कहे ठे निर्मल ज्ञानदर्शनादि लक्ष्मी पामे अने  
उपद्रव रहित आत्मसत्ताभूमिमां रहिने अनंत विद्यास करे ॥ ११ ॥

॥ संपूर्ण ॥

॥ अथ चतुर्दशम श्री अनंतजिन स्तवन ॥

॥ राग आशावरी ॥

अनंतो रमण रुमो जिनजीनो, रसजर मन मधुकर  
लीनो ॥ अनंतो ० ॥ ए आंकणी ॥ दर्शन ज्ञान प्रजाय अनंते,  
निरमल समरस ज्ञीनो ॥ एक अत्यंत अबाधित शिववर,  
वीरज अनंत नगीनो ॥ अनंतो ० ॥ १ ॥

अर्थः—चौदमा श्री अनंतनाथ स्वामीनुं अनंत शुद्धात्म रमण अ-  
तिशय रुहुं ठे. ते रमण सुवासना रसमां माहरो मनरूपी जमर लीन  
थयो. हे प्रजुजी ! तमे दर्शन ज्ञान वीर्य अव्याबाध अनंतपर्याय सम-  
रस रूप अमृत रसे ज्ञीना ठो. वली अनंत गुण पर्याय सहित एक,  
अंत रहित, बाधा पीडा रहित, वर प्रधान शिवकमला स्वामी अनंत  
वीर्यवंत अनंत प्रजा शोचावंत छो.

स्वपर प्रकाशक दिनमणि सम जिन, वच सुणी शिवमग  
चीनो ॥ स्याद्वाद शुध वाणी धरी मन, बहु नय निश्चय  
कीनो ॥ अनंतो ० ॥ २ ॥

अर्थः—स्वपर प्रकाशक एटले पोताना निर्मल आत्मतत्व तथा लोका-  
लोक सर्वे रूपी अरूपी द्रव्यना त्रिकालवर्ती सर्वे जावना प्रकाश कर-  
नारा दिनमणि समान जिनेश्वरनुं वचन सांजली में शिवमार्ग जाण्यो.  
ताहरी शुद्ध स्याद्वाद वाणी में सांजली मनमां धारीने बहु नय प्रमाणे  
निश्चय कर्णु के जिनेश्वरे जे तत्व प्रकाश्यां तेमां शंकाआदि कोई दोष

नथी. जेने सर्वे दोष गया अने अनंतज्ञान प्रगट थयुं. वली जगत्ना कोई पदार्थनी स्पृहा जेने नथी. जेने राजा अने रंक समान ठे तेना वचनमां भूल होयज नहीं पण में तो नय प्रमाणे अनुभवने निश्चय कर्युं तो शंका आदिनो अवकाशज नथी ॥ १ ॥

जव परपरिणतिसें जग फेरी, मोह ज्यो बल हीणो ॥  
पुद्गलमां सुख आश तजी हम, जेणे मेरो समसुख बीनो  
॥ अनंतो ० ॥ ३ ॥

अर्थः—ज्यारे में परपरिणतिथी दृष्टि फेरवी निजात्म तत्व तरफ दृष्टि करी त्यारे मोहबल हीण थयो एटले रागादिक मंदा थया तेथी पुद्गलमांथी सुख लेवानी आशा हती ते चूल मटी. पुद्गलोना वर्णादि देखी माहरा ज्ञानादि गुणो विकारी थवाथी माहरा सम परिणामनुं बल पुद्गलना शब्दादिके लूंटयुं ए में जाण्युं तो हवे हुं पुद्गल परिणतिथी सुखनी आशा शा वास्ते राखुं ? ॥ ३ ॥

कारणसैं सवि कारज सिद्धे, नाशे कर्म कठीनो ॥ मिथ्या  
कारणसैं जीय बंधे, रहे परपरिणति ज्नीनो ॥ अनंतो ० ॥ ४ ॥

अर्थः—साचा कारणथी सर्वे कार्य सिद्धे एटले मोहनां साचां कारण ज्ञान दर्शन चारित्र्यथी कठीण आठ कर्म नाशे अने परम निवृत्तिरूप अष्ट गुणात्म सिद्धि थाय. मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय अने योग एवा खोटा कारणथी जीव आठ कर्म बंधाय ठे अने कर्मपरिणामे पुद्गल परिणतिमां राग द्वेषे जीज्यो रहेठे तेथी सुख पामतो नथी ॥ ४ ॥

विण कारण कारज जग साधे, एह ममत्त हठीनो ॥ दर-  
शन ज्ञान चरण शिव कारण, मुज मन तुज पद लीनो ॥  
॥ अनंतो ० ॥ ५ ॥

अर्थः—जे जगत्जीवो मोक्षनुं उपादान आत्मतत्व अने बंध मोक्ष तत्वातत्व जणावनारां जिनेश्वरनां वचनरूप निमित्त कारण एहवां सत्य कारण जाण्या आदर्या विना मोक्षरूप कार्य साधे अने कहे के हमे कार्य सिद्धि करीशुं एहवो स्वठंदे चालनार हठीलानो ममत्व ठे. तमे मने सम्यक्दर्शनज्ञान अने चारित्र रूप साचां मोक्षनां कारण व्रताव्यां तेथी माहरुं मन तमारा पदकमलमां लीन थयुं ठे ॥ ५ ॥

निज परिणति निजमां लय करवा, ज्ञान उपाय मतीनो योग क्रिया एकांते साधे, मार्ग चार गतीनो ॥ अनंतो ० ॥ ६ ॥

अर्थः—आत्म परिणति पुद्गलना शुचाशुच संकल्पे ह्योचना पामी पर पुद्गल संबंधे थई ठे. ते परिणति शुद्धात्म स्वभावमां लय एटले एकत्व करवा मतिवंतने ज्ञान एज उपाय ठे. जे जीव, तत्वज्ञान, स्वसाध्य अने उपादान जाण्या विना मन वचन अने कायानी क्रिया एकांते साधे ते चारगति फरवानो उपाय ठे ॥ ६ ॥

शुद्ध नये शुद्धातम रमतां, मार्ग होय मुनिनो ॥ ज्व्य जाव खटकायनी यतना, मार्ग शुद्ध यतीनो ॥ अनंतो ० ॥ ७ ॥

अर्थः—शुद्ध नये आत्म शुद्धता जाणी ते शुद्धतामां थिर उपयोगे रमण करवुं ते मुनिमार्ग ठे. उक्तंच “नाणेणं मुनि होई नो मुनि रणवासेणं” एटले मुनिपणुं ते ज्ञानाचरणथी ठे पण एकांते रणवासमां रहेवाथी मुनिपणुं थतुं नथी. ठक्कायना ज्व्य जाव प्राणनी यतनाए वर्तवुं ते यतिनो शुद्ध मार्ग ठे. पण फोगट यतिनाम धरावाथी यतिपणुं थतुं नथी ॥ ७ ॥

स्वपर ज्व्यनी जिनता जाणी, उदासीन मुनि पीनो ॥ निज गुण पज्जव थिरता साधे, ए सम मार्ग ध्यानीनो ॥ ॥ अनंतो ० ॥ ८ ॥

अर्थः—स्वपर द्रव्य गुण पर्यायनी जिनता जाणी परद्रव्यथी उदा-  
सिन्न रही स्वगुण पर्याय ज्ञानमां पुष्ट रही पोताना गुण पर्यायनी  
स्थिरता साधे ए ध्यानीनो सुधो मार्ग ठे ॥ ७ ॥

शत्रु हणी निज मित्रने पोषे, मारग राज नितीनो ॥  
श्री अनंतजिन चरण पसाये, मनसुख शिवपद दीनो ॥  
॥ अनंतो ० ॥ ए ॥

अर्थः—राजा शत्रुने हणीने पोताना मित्र परिकरोने संजाले—पुष्ट  
राखे ए राजनीतिनो मार्ग ठे. तेम आत्मराजा पण पोताना शत्रु  
मिथ्यात्व अज्ञान रागद्वेष मोहादिकने हणी पोताना मित्र परिकर  
ज्ञानादिक दांत्यादिकने पुष्ट राखे—संजाले एम आत्म नितीए चाले  
तो अक्षयराज पामे. श्री अनंतनाथ स्वामिना शुद्ध स्वज्ञावाचरण  
पसाये अथवा पदकमल पसाये माहरुं मन सुखे करी शीवपदमां दीन  
थयुं ठे ॥ ए ॥

॥ संपूर्ण ॥

॥ अथ पंचदशम श्री धर्मनाथनुं स्तवन ॥

॥ राग कडखो ॥

धर्म जिनराजनो मारी मल मोहने, आत्म अधिकार निज  
राज थापे ॥ जूमि निज शक्तिनी परवशे जे हती, फोरी निज  
दब्धि सुख शांति व्यापे ॥ धर्म ० ॥ १ ॥

अर्थः—पंदरमा श्रीधर्मनाथ अरिहंत शुद्धात्म धर्म आदरी परम  
समाधि सिद्धि पास्या. तेज शुद्धात्मधर्म जिविजीवोने संसार तरवा माटे  
प्ररुप्यो. ते धर्म केवो ठे केमोहरूप कर्म शत्रु महामल तेने मारीने आत्मा  
पोताना अधिकारनुं निजात्म अधिकार राज्य थापे. आत्मानी ज्ञान

वीर्यादिक अनंत शक्ति जे स्थले रही ठे ते आत्मसत्ताचूमि मोहे करी परवश थयेली ठे ते आत्मा पोतानी जावलब्धि फोरी सत्ता-चूमि कवजे करी सुखशांतिमां रहे ॥ १ ॥

प्रथम मिथ्यात्वने दय करी मूलथी, मारी अविरति धरी विरति आपे ॥ जेद विज्ञान अति तिदण बाणथी, दूष्ट कषायनी फोज कापे ॥ धर्म० ॥ २ ॥

अर्थः—प्रथम मिथ्यात्वने मूलथी एटले सत्ताथी नाश करीने अवि-रतिने मारी पोते विरति धारण करे. जेदविज्ञाननां अति तिदण बाणोथी दुष्ट कषायनी फोजने कापतो रहे ॥ २ ॥

वज्र अप्रमत्तनो दंड दृढ कर ग्रही, मारी प्रमाद गुण सतम आवे ॥ शोधि रणचूमि परिकर निज सज करी, रोपी रण-थंज निज दाव लावे ॥ धर्म० ॥ ३ ॥

अर्थः—अप्रमत्तजावनो वज्र दंड परिणामरूप हाथमां द्रढ ग्रहीने प्रमादने मारी सातमे गुणस्थानके आवे. त्यां रह्योथको रण करवानी चूमि शोधे एटले चोख्खी करे बंदोवस्त करे, के ज्यां शत्रु प्रवेश करी शके नहीं, तेमनो दगो दाव चाले नहीं पण पोताना सैन्यने तैयार करी शत्रुने जीतवा रणथंज रोपी पोतानो दाव लावे ॥ ३ ॥

वीर द्रढ धीरनी पंक्ति करी मोरचे, वैरीनां आवता बाण कापे ॥ नाल गोला चले शत्रु दल थरदरे, हंस अप्र-मत्त गज आप आपे ॥ धर्म० ॥ ४ ॥

अर्थः—द्रढ धैर्यवंत एवा वीरसुजटोनी पंक्ति के० हार—श्रोल अगा-डीने मोरचे (खांगे) राखी वैरीनां आवतां काम रागादिक बाण कापे अने मन वचन कायाना उदासिन्न योगरूप तोप अथवा बंदुकोना गोला गोलीओ चलावे, ते देखी शत्रुनुं सैन्य (दलीयां) जे पुद्गळ

वर्गणा ते अक्षथकी हाळे-चक्षायमान थाय अने हंस एटळे आत्मा पोते पोताने अप्रमाद रूप हाथी उपर थापे एटळे बेसे अने पोताना अधिकारीओ पोतानो स्वामी आत्मा जे हंस तेने अप्रमाद जाव रूप हाथी उपर विधि सहित थापे ॥ ४ ॥

जावना बारनी फोज आगळ चळे, खांति आदिक दश सुजट शूरा ॥ निज दल बल लेई धसमसी आगळे, मोह दल ठेदवा प्रबल पूरा ॥ धर्म० ॥ ५ ॥

अर्थः--अनित्यादि बार जावनानी फोज आगळ चळे वली हांत्यादि दश सुजट ते पण पोतपोताना परिवार सहित अगाडी चाले ते पोतानुं दल बल लेईने शत्रुनी फोज उपर आगळ धसमसे. शत्रुनुं दल एटळे मोहनी कर्मादिक जे घनघातिनां दलीयां तेने ठेदवा माटे प्रबल प्रतापवंत अने पूराशूरा ठे ॥ ५ ॥

नीर ज्युं तीर वरसावता ते चढ्या, आठमी जूमि थिर करत डेरा ॥ अपुरव करण निज वीर्य उद्धासथी, मोहना सैन पर करत घेरा ॥ धर्म० ॥ ६ ॥

अर्थः--ते अनित्यादिक जावनानो परिवार तथा हांत्यादिक परिवार मोहनी कर्मना दल उपर वरसादनी पेठे तीर वरसावता अने मोहनी आदिकना दल अने बलने क्षीण करता आगळ आठमें गुणठाणे आवी थीर मुकाम कर्यो एटळे अपूर्वकरण गुणठाणे आव्या. पूर्वे शत्रुने हणवा थीरता करी टक्या नहोता पण हवे परम थीरता पाम्या एटळे शत्रुथी करता नथी अने अपूर्व एटळे पूर्वे एवुं वीर्य उढता धैर्यता नहोता पाम्या ते अहींआं पाम्या, अपूर्व वीर्य उद्धासे करी मोह शत्रुना सैन्य उपर घेरो घाट्यो ॥ ६ ॥

मांडी घमसान पर मानने जंजता, खीण कर्या रागने द्वेष



दोई ॥ जूरि रणतूरि वागे गुरु वयणनी, शुद्ध सद्बोधनो  
हुकम होई ॥ धर्म० ॥ ८ ॥

अर्थ:-त्यां घमसान मांडी शत्रुना अजिमानने तोडता मोहना पुत्र  
राग द्वेष बंधे जाईने तेना परिवार सहित बल हीण कर्या. त्यां सद्-  
गुरुना स्याद्वाद वचनरूप जारे रणतूरि वागी अने शुद्ध सद्बोधरूप  
प्रधाननो हुकम शत्रुने मारवानो थयो ॥ ७ ॥

शत्रुना सैनना मर्म देखाडता, आगम आगले चाले चाले ॥  
हंसनी फोज चली आगम साथमां, शत्रुना मर्मने ठेदि जाले ॥  
॥ धर्म० ॥ ८ ॥

अर्थ:-वली सदागम, शत्रुना सैन्यना मर्म देखाडतो अगाडी  
चाढ्यो. ते सदागम साथे शत्रुना मर्म स्थानने जालाए ठेदती आत्मानी  
फोज ते पण अगाडी चाली ॥ ८ ॥

मोज धरी शत्रुनी फोज बेहोंस करी, नवम गुणठाण  
हद फोज आवी ॥ वेद त्रण हास्य खट झटक संज्वलन  
तिन, धवल जिन आण ध्वज तिहां फुकावी ॥ धर्म० ॥ ९ ॥

अर्थ-अहिंयां हंसनी फोज मनमां मोज धरी शत्रुनी फोजने  
बेहोंस करी नवमे गुणस्थानके आवी त्यां स्त्री पुरुष अने नपुसक  
वेद तथा हास्यादि ठ तथा लोच विना त्रण संज्वलन कषायने झटक्या  
एटले उपसम असीए करी हणीने तिहां जिनेश्वरनी आज्ञारूप धोली  
ध्वजा फरकावी ॥ ९ ॥

लोच संज्वलन दशम ठाण रहि चूरियो, तेहना खंफ  
अनंत कीधा ॥ अध्यवसाय असंख पूरण हणया, जोहि जग  
मोहना प्राण लीधा ॥ धर्म० ॥ १० ॥

अर्थ-पठी दशमा गुणस्थानके रही संज्वलन लोचने चूर्यो

अने तेना असंख्याता अध्यवसाय अने दरेक अध्यवसायनी अनंती वर्गणाना खंडोखंड कर्या एटले अनंती वर्गणा विखेरी नांखी. एम जगत्द्रोही मोहना प्राण हणया ॥ १० ॥

मूढता मोहनी रांड तव टलवले, शुक्लना कुंममां खाख कीधी ॥ शुक्ल थिर ध्यान नोबत तिहां गरगमे, जूमि सत्तातणी कबज लीधी ॥ धर्म० ॥ ११ ॥

अर्थ—तेज वखते महामूढता नामे मोहनी रांड टलवलेतीने शुक्ल-ध्याननी आंचमां बाली खाख करी उडावी. अने शुक्लध्याननी थीरता रूप नोबत गरगडी (वाजी.) अने आत्मसत्ताजूमि पोताने कबजे लीधी तेनो जीतनो डंको थयो ॥ ११ ॥

दरशन ज्ञान ने विरज आवर्ण ए, बारमे अंतमां नाश कीधा ॥ तेरमे चार अनंत प्रजु जोगवी, चौदे शैलेसी करी बुद्ध सिद्ध्या ॥ धर्म० ॥ १२ ॥

अर्थ—दर्शनावरण, ज्ञानावरण अने वीर्यावरण ए बारमा गुणठा-णाना अंतसुधी नाश कर्या. अने तेरमा सयोगी केवली गुणस्थानके आवी अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतचारित्र अने अनंतवीर्य जोगवी, चौदमें शैलेसीकरण करी सिद्ध्या बुद्ध्या ॥ १२ ॥

धर्म जिनराजनो धर्म अति निरमलो, जव जय दूःख अनंत कापे ॥ तूज कृपा लही चरण शरणे रही, मनसुख शिव लहे तुज प्रतापे ॥ धर्म० ॥ १३ ॥

अर्थ—श्री धर्मनाथ अरिहंतनो शुद्ध धर्म अतिशय निर्मल ते जवना जय अने अनंतदुःख कापनारो ठे. मनसुख ताहरा चरण शरणे रहि ताहरी कृपा पामीने ताहरा प्रतापधी शिव पामे ॥ १३ ॥

॥ समाप्त ॥

॥ अर्थ षोडशम श्री शांतिजिन स्तवन ॥

॥ राग रेखतो ॥

देख्यो मुख शांत जिनजीनो, परम रस मन मधुकर  
लीनो ॥ शांतिकर चंद्र प्रभु नवीनो, तिमिर हर तेज केवल  
रविनो ॥ देख्यो० ॥ १ ॥

अर्थ:—ज्ञान दर्शनादिनी समजावे शांति वरसावता स्वतंत्र शुद्धा-  
त्म सत्ता देखाडता एवा शोद्धमा श्रीशांतिनाथ स्वामी तेमनुं अनंत  
शांति नरेलुं मुख देखवार्थी शुद्ध आत्माना परम जावमां माहरो मन  
रूप मधुकर लीन थयो. शांतिना करनार शांतिनाथ प्रभु अजिनव  
चंद्र सरिखा जाण्या, वली मिथ्यात्व अज्ञानरूप अंधकार हरवा माटे  
प्रभु केवलज्ञान प्रकाश करनार सूर्य ठो ॥ १ ॥

तजी परपरिणति सुख पीनो, रह्यो हुं तो परपरिणति  
नीनो ॥ सकल स्वप्रदेश समाधि नरी, द्विविध अमकर्म उ-  
पाधि टरी ॥ देख्यो० ॥ २ ॥

अर्थ:—हे प्रभुजी ! तमे परपरिणति तजी परम सुख समाधिमां  
पुष्ट ठो. पण हुंतो अज्ञान दशाए परपरिणतिमां राग रसे जींजी रह्यो  
हुं. प्रभुजी तमारे असंख्यात प्रदेशे पूरण समाधि नरेली ठे अने  
द्रव्य जावथी आठे कर्मनी उपाधि नाश करी परम निवृत्ति  
पाम्या ठो ॥ २ ॥

ठती परजाय अनंता, सकल प्रदेशे रह्या संता ॥ गुणो  
द्रव्यमांहि अनंता, करे निज काज स्वतंता ॥ देख्यो० ॥ ३ ॥

अर्थ:—जीवना प्रदेशे प्रदेशे ज्ञानादिक गुणगुणना अनंता अनंता  
अविजागी ठतीपर्याय अस्तिजावे रह्या ठे. द्रव्यमां अनंता गुणो ठे  
ते अन्य द्रव्यनी के ईद्रियादिकनी मददविना स्वतंत्रपणे पोतपोतानुं  
काम सर्वे समय करे ठे ॥ ३ ॥

वस्तुता सहजे डव्ये ठरी, विगम उत्पति ध्रुव शक्ति  
करी ॥ गुणो सघला सह परदेशे, अवर गुण कार्य नवि  
खेसे ॥ देख्यो० ॥ ४ ॥

अर्थः—निज निज कार्य करवाने सर्वे डव्यमां उपाधि श्रमविना  
वस्तुता रही ठे. पूर्व पर्यायनुं व्यय अत्रुं, अचिनव पर्यायनुं उपजत्रुं  
अने सत्ताए ध्रुव रहेत्रुं एवो डव्यत्व स्वत्ताव पण रह्यो ठे. सर्वे गुणो  
जिन्न जिन्न सर्वे प्रदेशे रह्या अका पोतानुं कार्य करे पण अवर एटले  
बीजा गुणना कार्यने खेसवे—हरकत करे नहीं. जेम वर्ण गुण एकज पुद्-  
गल परमाणुमां रह्यो अको पोतानुं काम करे पण तेज स्थानके रहेला  
गंध रसादिकने खेसवे—हरकत करे नहीं ॥ ४ ॥

जिन्न जिन्न पज्जव सह गुणना, कोई परदेशे रही न  
मणा ॥ सकल प्रजाय स्वजाती मले, विजाती पज्जव नाहि  
जले ॥ देख्यो० ॥ ५ ॥

अर्थः—सर्वे गुणोना जिन्न जिन्न ठती प्रजाय प्रति प्रदेशे पूरण  
जरेला ठे. कोई पण प्रदेशे मणा एटले ओठा नथी. सर्वे प्रदेशना  
स्वजाती पर्याय एटले ज्ञानगुणना सर्वे प्रदेशे रहेला सर्वे पर्याय जेगा  
मली कार्य करे पण दर्शनादि अन्यगुणना पर्याय ज्ञानादिक गुणना  
पर्याय जेगा जले नहीं. तेम वर्णादि परजाती गुणपर्याय पण जेला  
आवी मले नहीं ॥ ५ ॥

पज्जव सह देशना जेला जले, करे निज कारज सहज  
बले ॥ तिरोथी आवीरमां आवे, कार्य करी जाय तिरो जावे  
॥ देख्यो० ॥ ६ ॥

अर्थः—एम सर्व प्रदेशना स्वजाती पर्याय जेला मलीने सहज बले  
पोतानुं कार्य करे, तिरो जावे रहेला ठति पर्याय आविरत्तावमां सामर्थ्य

पणे आवे अने पोतानुं कार्य करी पाठा तिरोजावे जाय एटले तिरो-  
जावे विणसी आवीरजावे उपजे अने कार्य करी आवीर जावे विणसी  
तीरो जावे उपजे ॥ ६ ॥

द्रव्य परिणामीक जाव धरे, कार्य सहु समये आप करो।  
कार्य विण समय नवी जावे, प्रचु निज वरते सद्जावे ॥  
॥ देख्यो० ॥ ७ ॥

अर्थः—द्रव्यमां परिणामीक जाव ठे तेथी सर्वे समय गुणो पोतपो-  
तानुं काम करे ठे. पण कार्य कर्याविना कोई समय खात्री जाय नहीं.  
एम प्रचु तमे पोताना सद्जावे के० सत्ता सहित ठेते जावे वत्तो  
ठो ॥ ७ ॥

कारण तेह कार्य पाणे उपजे, कार्य थई कारण पाणे  
विगमे ॥ काज कारण रूपे उपजे, कारण थई काज पाणे  
विगमे ॥ देख्यो० ॥ ८ ॥

अर्थः—जे पर्याय कारणपाणे हता ते कार्यपाणे उपजे अने कार्य  
पाणे उपजे एटले कारणपाणे विणसे अने पर्याय पोतानुं कार्य करी  
पाठा कारणपाणे उपजे कार्यपाणे विणसे ॥ ८ ॥

अगुरुदधु धर्म अनंतो, विगम उत्पाद स्वतंतो ॥ विगम  
उतपति श्रिति अनंती, प्रयास विण शांति अत्यंती ॥  
॥ देख्यो० ॥ ९ ॥

अर्थः—एम जीवादिकमां अगुरुदधु धर्म अनंत ठे. व्यय अने  
उत्पाद् ते कोई अन्य द्रव्यथी नहीं पण द्रव्यनी स्वतंत्रताए ठे. कोई  
ठेकाणे व्यवहार नयथी उत्पाद्व्ययने पण परप्रत्यय कह्यो ठे पण  
निश्चय नयथी तो उत्पाद् व्यय द्रव्यने स्वतंत्र ठे, तेथी स्वप्रत्यय  
परप्रत्यय कहेवामां नयज्ञाने कांई हरकत नथी. एम उत्पाद् व्यय

ध्रुवपणुं अनंतु ठे. माटे हे प्रचु ! विजाव विना शुद्ध उत्पाद् व्यय  
ध्रुवपणामां ताहरे प्रयास विना अंत रहित शांति ठे ॥ ए ॥

कुमति पर प्रयास करी दुःखीया, लह्युं तुज दरशन ते  
सुखीया ॥ प्रयास परपरिणतिनो ठंभी, शुधातम रमण रसे  
मंभी ॥ देख्यो० ॥ १० ॥

अर्थ-ताहरी आझा जाणता मानता नथी एवा पोताने स्वेच्छा-  
चारे चालनारा कुमति, पुद्गलमांहे प्रयास करी दुःखीया रह्या. अने  
जे ताहरुं दर्शन पास्या ते सुखीया थया. माटे हुं परपरिणतिनो प्रयास  
ठोडी आत्म शुद्धतामां रमण करी रस लेवा मंभु; केमके ॥ १० ॥

द्रव्य निज रिद्धिची अस्ती, अर्थ पर रिद्धिची नास्ती ॥  
वस्तु अर्थि नर्थि समकाले, रमण दरशन ज्ञाने जाले ॥  
॥ देख्यो० ॥ ११ ॥

अर्थ:-द्रव्य पोताना गुणपर्याय रुप रिद्धि करी अस्ति के० ठतो  
ठे. परद्रव्य परगुण पर्याये करी नास्ति के० ठतो नथी. द्रव्यना  
स्वद्रव्य क्षेत्र काल अने जावनुं पोतामां अस्तित्व रहुं ठे पण पर-  
द्रव्य क्षेत्र काल अने जावनुं नास्तित्व एटले अठतापणुं अजाव ठे.  
वस्तुनुं अस्ति अने नास्तिपणुं वस्तुमां समकाले होय ठे तेथी पर  
द्रव्य गुणपर्यायनुं आत्माने काम नथी पण पोताना गुणपर्यायनुं रमण  
पोताना दर्शन ज्ञाने करी पंडितो जुवे जाणे ठे ॥ ११ ॥

एकांतिक सूख अनंतु, प्रचु मुखथी लह्युं ठत्तुं ॥ शांति-  
जिन मन मंदिर आवे, परमपद मनसुख शिव पावे ॥  
॥ देख्यो० ॥ १२ ॥

अर्थ:-एम प्रचु ताहरे एकांतिक एटले राग द्वेष रोग शोग जय  
जन्म जरा मरण वियोग परतंत्रता खेद क्लेश अज्ञान मीथ्यात्वादि

अनंत दोष रहित एकलुं अनंतु सुख ठे. ते में तमारा मुखथीज ठतुं सुख जाण्हुं. ज्यारे शांतीजिनेश्वर तमो अमारा मनमंदिरमां आवो तोज मनमां सुखे करीने तमारा सरखुं अमो अमारुं परम शिवपद कव्याण पामीए ॥ ११ ॥

॥ संपूर्ण ॥

॥ अथ सप्तदशम श्री कुंथुजिन स्तवन ॥

॥ रहेने रहेने रहेने अलगी रहेने ॥ ए देशी ॥

कुंथुजिनेश्वर निर्मल दरशन, प्रचुजी मुजने दीजे, दीजे दीजे दीजे निरमल दरशन मुजने दीजे ॥ ए आंकणी ॥ काल अनादिनो हुं बुं तरस्यो, तुज वचनामृत पीजे ॥ तन्मय तट्टे ठे मन माहरुं, प्रचु अब ढील न कीजे ॥ दरशन दीजे ॥ १ ॥

अर्थः—सत्तरमा श्री कुंथुनाथ अरिहंत तमारुं निर्मल दरशन मने आपो, दरशन एटले जीवादि नव पदार्थ चार निक्षेपे सात नयेथी तमे दर्शाव्या ते जेने दर्श्या अने शंकादि दोष रखा न होय अने समकितनां आठ अंग प्रगट थयां होय तेने निर्मल दर्शन अथवा समकित कहीए.

(१) जिनेश्वरे जे रुपी अरुपी तत्व प्रकाश्या तेमां शंका रहे नहीं ते निशंकित अंग कहीए.

(२) जिनेश्वरना वचन सिवाय अन्य कुमतिओना वचननी ईच्छा आकांक्षा रहे ते कांक्षा दोष कहीए अने ए दोष न होय तो निकांक्षित अंग कहीए.

(३) जिनेश्वरे जे जाव प्ररुप्या तेमां एके जावनी पण डुगंठा एटले जैननी वात वधी सारी पण साधुने नाहावुं धोवुं नहीं, दातण करवुं

नहीं, मलिन वस्त्र राखवां अथवा नग्नपणे रहेवुं एकाई ठीक नहीं एवो दुगंठा दोष मनमां न होय तो अवितिगिह्वा नामे त्रीजुं अंग कहीए.

(४) जिनेश्वरनां वचन, देव, गुरु अने धर्मनी परिह्वा करी शके नहीं ते मूढता नामे दोष. अने परिह्वामां मूझाय नहि ते अमूढद्रष्टि नामा चोथुं अंग कहीए.

(५) पोतानी ढद्मस्थ द्रष्टिए तेरमा गुणगणा नीचेना ढद्मस्थ गुरुनी उदय आश्रित क्रिया प्रवृत्तिमां दोष देखे, बीजा आगल प्रकाशे ते दोष, अने पोताना मनमां समजे के उदय वशे क्रिया प्रवृत्तिमां आपणी मूर्खाईथी दोष देखाय पण ए गुरु शुद्ध दर्शन ज्ञानगुणे सहित ठे, जिनेश्वरनां वचन समजावे सुधां प्रकाशे ठे, धन विषय मान क्रोध कपटादिके परमेश्वरना वचनने बिलकुल मरडता नथी अने शुद्ध नये देशना देई जविजीवोने तारे ठे एम जाणी अवगुण बोले नहीं पण गुण स्तुति करे, पाठल पण घणां वखाण करे ते उववूह नामा पांचमुं अंग जाणवुं.

(६) समकित्ती जीव पोताना सम्यक्ज्ञाने करी पोताने अने परने समकित ज्ञान चरणादिकथी पडतो बचावे, सम्यक्ज्ञानादिमां स्थिर करे ते स्थिरिकरण नामा ढहुं अंग जाणवुं. उपरथी कोई गुरुपणानो ढंग राखतो होय पण अंतरंग मिथ्याद्रष्टि होय, अर्थनी देशना देतो होय, शुद्ध धर्मना ग्रंथ ओलवतो—बुपावतो अगर कोई वचन मरडतो होय तेने तुरत ढोडी देवो, बीजाने पण चेतावी देवुं, पोते तेनुं मद्देहुं पण देखवुं नहीं, आलाप संलाप संसर्ग परिचय पण वर्जवो.

(७) समकितवंतने एवो स्वजाव होय के गाय जेम पोताना वाठरडा उपर प्रीती राखी सार संजाल करे तेम पोताना गुरु आचार्य उपाध्याय साधु साधमीं शिष्य अने सर्वे समकितवंत उपर प्रीति गम्ब, संजाल करे ते वात्सल्यता नामे सातमुं अंग.



(८) सिद्धांतना रहस्यना जाण होय, शुद्धनये उपदेश देवा तत्पर होय, कुवादिओने हठावे-निरुत्तर करे एवा होय, शासन संचाल अर्थे निमित्त प्रकाशी संजम साधताने कष्ट न पडवा दे एवा होय, पंचविषयना लोलपी न होय एटले पोताना ज्ञान दर्शनादि गुणोमांहे तृप्तिवंत होय, शासनना उपद्रव टालवा विद्या मंत्रादिके बलवंत होय, वचनादिक सिद्धि लब्धिवंत होय अने काव्य सुधारस मधुर अर्थ कही लोकोने जैन धर्ममां रीजवता होय. एम आठ प्रकारमांथी एक बे अथवा पुरा प्रज्ञाववंत होय एटले आठे बाबतमांथी गमे ते बाबते चविजीवोने जैनमार्गमां वाली शासन वधारता होय ते आठमुं प्रज्ञावकअंग. प्रज्ञावकपणुं पोतामां न होयतो विधि सहित जात्रा पूजादिक करणी करे. एम आठदोष रहित अने आठअंग सहित तथा ए विगेरे सडसठ बोले सहित निर्मल दर्शन एटले निर्मल समकीत मने आपो. दीजे दीजे दीजे एटले चवन्नयथी उद्वेग पाम्यो थको उतावलो अति आतुरताए ताहरुं दर्शन ईच्छुं तुं माटे मने कृपा करी निर्मल दर्शन आपो.

अनादिकालथी पुद्गलीक मिथ्यादर्शनरूप विषपान करवाथी माहरी तृषातुरता गई नहि पण अधिक अधिक वधती गई जेने अमृत पान पीवानी इच्छा ठे ते विष पाने केम रींझे ? एटले ताहरां वचनरूप अमृत पीजंतो माहरी तृष्णा आतुरता जाय. विषय कषाय अज्ञान मिथ्यात्व अविरति आदि सर्वे दोषो मटे अने ज्ञानादि आत्मवीर्ये करी पुष्ट थजं. ताहरा दर्शन माटे माहरा मनमां आकरी तलप लागी रही छे अने दर्शन अमृत पीवा माहरुं मन तन्मय थयुं ठे ते माटे हे प्रभु ! दीन दयाल हवे ढील करशो नहि ॥ १ ॥

पुद्गल ममता बहु छःख दे ठे, तेहनूं मूल खणीजे॥ उदासिन्नता प्रभु तुम धारी, केम मुज कारज सीजे॥ दरशन० ॥

॥ कुंथु० ॥ १ ॥

अर्थः—ताहरा दर्शन विना मने पुद्गल ममता अनंत दोष खडा करी चार गतिमां जमावी परतंत्रताए बहु दुःख दे ठे. माटे ताहरा दरशनरुप तिक्कण शस्त्रे ते ममतानुं मूल खणीये, उखेडी फेंकीए. पण प्रभुजी तमे तो उदासिन्नता आदरी चौदराज लोकांते एकांते जई वेग तो एम माहरुं काम शीरीते सिद्ध थाय ? ॥ २ ॥

सेवक ऊचो अरज करे ते, दिक्षमां किम न धरीजे ॥  
कारज माहरुं तुमविण प्रभुजी, क्यां जई कहीए बीजे ॥  
॥ दरशन० ॥ कुंथु० ॥ ३ ॥

अर्थः—हे प्रभु ! सेवक उचो हाथ जोडी अरज करेठे ते मनमां केम धरता नथी ? हमारु कारज तुम समान उपकारी विना बीजा कोना आगल जई कहीए ? ताहरा शासन सिवाय बीजा तो अर्थी अने पोतेज विषयना चीखारी तेनी पासे जई हुं शुं करुं ? माटे शेवकनी चिंता मोटा पुरुषोए जरुर टालवी जोईए ॥ ३ ॥

वाते वलगाफी जोलवतां, किम शेवक मन माने ॥ परम निवृत्ति हुं इच्छुं तुं, ते केम राखुं बाने ॥ दरशन० ॥ कुंथु० ॥ ४ ॥

अर्थः—वाते वलगाडी एटले जवस्थिति आदि कारण बतावी शेवकने जोलवो तेथी शेवकनुं मन केम माने ? पण हुंतो परम निवृत्ति पदने चाहुं तुं, ते बानुं केम राखुं ? एटले तमे तो सर्वे पुद्गल क्रियां त्यागी शुद्धात्म तत्वमांहे थिर उपयोग करी सिद्ध समान शुद्धात्म अनुभव लेवाथी परम निवृत्ति पामीए. एम कहुं ठे पण जगवासी जीवने तो ए वात पसंद नथी पण हुं केम बानुं राखुं ? ॥ ४ ॥

तुम समजाव्युं हुं नवि समज्यो, जोग प्रवृत्ति न त्यागी ॥  
लास करी दीधो ओखंचो, पण प्रभु परम विरागी ॥  
॥ दर० ॥ कुंथु० ॥ ५ ॥

अर्थः—हे प्रभु ! तमे सयोगी केवली अवस्थामां जविजीवोने सम-  
जाव्युं के जोग प्रवृत्ति ठोडी शुद्धात्म तत्वमां स्थिर उपयोग राखी  
अनुभव अन्व्यास करी अनुभवनी निर्मलता अने स्थिरता वधारो  
तेथी परमनिवृत्तिपद पामशो ते वाततो हुं पुरी समज्यो नहीं अने  
जोग प्रवृत्ति करी जोग चपलता ठोडी नहीं. वली लाड करी में प्रभुने  
ओलंजो (ठपको) दीधो पण प्रभुजी तुमेतो परम वैरागी ठो. तमोए  
चेताव्या ठतां हुं न चेत्यो तो तेमां मात्र माहरोज दोष रह्यो. ते  
माहरो अपराध क्षमा करजो ॥ ५ ॥

आणा रहस्य हवे में जाण्यो, आदरवा मति जागी ॥  
लब्धि वीरज फूरे ततखीण, ममता माया जागी ॥  
॥ दर० ॥ कुंथु० ॥ ६ ॥

अर्थः—तमारी आज्ञानो रहस्य एटले मिथ्यात्व अव्रत प्रमाद  
कषाय अने मन वचन कायानी योगप्रवृत्तिनी चपलता रूप शुद्धोप-  
योगने अप्रशस्त कारण प्रथमथी तजी, सद्गुरुनो विनय, वैयावच्च  
तथा वाचना, पृच्छना, परियटना, अनुप्रेक्षा, धर्मकथा अने धर्म  
शुक्लध्यान काउसग्ग विगेरे शुद्धोपयोगने प्रशस्त कारण प्रथमथी  
आदरी उपयोग थीर करवो अने थीर उपयोगे आत्मशुद्धता अनु-  
भववा जोगववानो अन्व्यास करवो. एवो गुढ अर्थ हवे में जाण्यो ते  
आदरवा माहरी मति जागी. जो माहरुं लब्धिवीर्य फोरुं तो  
तुरतज बाह्य क्रिया प्रवृत्ति एटले माया अने परद्रव्यनी ममता नाशी  
जाय ॥ ५ ॥

विण ममता अमकर्म न रहेवे, नहि जववन दव दाह ॥  
मोटो ए उपगार तमारो, जाण्यो अगम अगाह ॥ दर० ॥  
॥ कुंथु० ॥ ७ ॥

अर्थः—ममताविण ज्ञानावरणादि आठे कर्मनो बंध थाय नहीं अने जववनमां जटकतां कषायरूप दावानल सहेवो पडेठे ते पण निवर्त्ते. एवो उपदेश तमे आप्यो माटे हे प्रभुजी ! ए तमांरो उपकार बालजीवोने सहजे समजाय नहि एवो अगम अगाध ते में जाण्यो ॥ ७ ॥

विण ममता अविरति नहि आवे, नहि विष विषय कषाय ॥ दर्शन ज्ञान चरण होय निरमल, त्यागी प्रमाद अमाय ॥ दर० ॥ कुंथु० ॥ ७ ॥

अर्थः—देहादिक परद्रव्यनी ममता तजीए तो अविरति आवी शके नहीं, विषयरूप विष आतम अंगे लागे नहीं अने चारित्रमोहनीय कर्मनी प्रकृतिरूप पञ्चीश कषाय तथा दर्शन मोहनीयनी त्रण प्रकृति सुद्धांत मोहनीयनी अछावीशे प्रकृति उपजे नहीं. वली प्रमाद तजी कपट रहीत थाय अने दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल थाय एटले शुद्ध मोक्षमार्ग सधाय ॥ ७ ॥

जोगनी थिरता पूरण आवे, रमतां शुद्ध स्वप्नावे ॥ मनसुख घर शिवसुंदरी संगे, परम समाधि पावे ॥ दर० ॥ ॥ कुंथु० ॥ ए ॥

अर्थः—पुद्गलनी ममतार्थी थता शुद्धाशुद्ध संकल्प विकल्प तजी आत्माना शुद्ध स्वप्नावमां थिर उपयोगे रमण करतां जोगनी पूरण थिरता आवे, फरीथी कर्मबंधनुं कारण रहे नहीं. एम मनमां सुखे करी परमेश्वरनी आज्ञा आदरतां आत्म धेरे शिवसुंदरी साथे परम निवृत्तिरूप समाधी पामीए ॥ ए ॥

॥ संपूर्ण ॥

॥ अथ अष्टादशम श्री अरनाथजिन स्तवन ॥

( गरबी ) ॥ नेम प्रभु आवजो घेर वहेखारे ॥ एदेशी ॥

नमुं नित अरप्रभु शिवपद जोगीरे, तुंतो आत्म अनु-  
भव योगी वहालेसर वीनती अवधारोरे ॥ मुजने भवजल-  
धिधी तारो ॥ वहालेसर ० ॥ ए आंकणी ॥

जग परपरिणतिना दानीरे, ग्रहि मूढमति अजिमानिरे ॥  
प्रभु निज परिणति सन्मानिरे, ताहरी रीत रुमी हम जाणी ॥  
॥ वहालेसर ० ॥ १ ॥

अर्थः—अठारमा श्री अरनाथ स्वामी उपद्रव रहित ज्ञान दर्शन  
चारित्र अनंतवीर्यना जोगी तेमने उपशांतपदे एटले क्रोध, मान,  
माया, लोभ, हास्यादि ठ अने काम परिणामने अणआदरतो  
नमस्कार करुं तुं. हे जिनेश्वर ! तुं पुद्गल वर्णानो योगी नथी पण  
आत्मामां रहेला शुद्ध अनंत गुणपर्याय तेना अनुभव के० जोगनो योगी  
तुं. त्रण जगत्ना जीवो उपर हित करनार वहाला ईश्वर माहरी अरज  
सांजलो. अने आ जीम जयंकर भवसमुद्रथी पार उतारो, जगत्जीव  
परपरिणतिना दानी अई रखा ठे एटले परपरिणति के० पुद्गल शब्दनुं  
दान श्रोत्रेंद्रियने आपे ठे, पुद्गल रूपनुं दान चक्षुर्द्रियने आपे ठे,  
पुद्गल गंधनुं दान घ्राणेंद्रियने आपेठे, पुद्गल रसनुं दान रसे-  
न्द्रियने आपेठे अने पुद्गल स्पर्शनुं दान स्पर्शेंद्रियने आपेठे एटले  
पुद्गल वस्तु ते आत्माथी परपरिणति परवस्तु ठे, आत्माना घरनी वस्तु  
नथी. ते परनुं लेई परने आपवुं अथवा पुद्गल वस्तु लेई अन्य जीवे  
ग्रहेला पुद्गलोमां आपवी तेने अज्ञान दशाए अहंपणे में आप्युं  
एम माने ठे. एटले पंचेंद्रिय द्वारे जोगवाता विषयना पदार्थते पोताने

अने परने आपवा ते आत्म घरमां नहि उतां परक्षेत्रे रहेला पुद्गल्वो  
जोग वडे ग्रहण करी पोताने अने बीजाने आपे ठे पण आत्मा  
परवस्तु लेई परने आपी शकतो नथी पण ए काम उदयवशे पुद्-  
गल्वडे पुद्गलमां थाय ठे पण मूढमति ग्रहण करी जूतुं अजिमान  
करेठे. प्रभुजी तमे तो वीर्य गुणे करी ज्ञानने ज्ञानना, दर्शनने दर्शनना,  
चारित्रने चारित्रना, अव्याबाधने अव्याबाधना एम अनंता जे जे  
गुणो जे जे पर्यायना दान लेवा लायक पात्र होय तेने ते ते पर्यायनुं  
सर्वे समय अनंत अचिंत्य दान आपोठो एटले निजात्म परिणति  
सन्मानी आदरी ठे. ए ताहरी जली रीत कांश्क हमारा जाणवामां  
आवी ॥ १ ॥

पर लाजे मूढमति मातारे, निज लाजे तुं जग त्रातारे ॥  
पर जोगे रागी हीणारे, प्रभु निज जोगे लय लीना ॥  
॥ वहालेसरण ॥ २ ॥

अर्थ—मारा सरखा मूढमति धन स्त्री तन अने पुष्टि एटले लोही  
वीर्य मांसादिकनी पुष्टी, जमीन विगेरे पुद्गललाजमां लाज मानी मस्त  
थई रद्दाठे पण तुंतो ज्ञान दर्शनादि अनंत आत्मगुण पर्यायनो लाज  
लेतो जगतना जीवोने त्राता एटले अज्ञान मिथ्यात्व कषाय नर्का-  
दिक दुर्गति दुःखोथी बचावनारो शरणागतने राखनारो तुं. परक्षेत्रे  
रह्या जे पुद्गल शब्द वर्णादि तेनो जोग जीवक्षेत्रे अरुपी प्रदे-  
शमां आवी शकतो नथी पण तेना राग द्वेषने जोगवतो हीणमती  
एम जाणे ठे के ए शब्द स्पर्शादिकने हुं जोगवुं तुं. एम राग द्वेषने  
जोगवी दरसमय सात अथवा आठ कर्मने बांधे ठे. पण हे प्रभुजी !  
तमे तो स्वक्षेत्रे रहेला अनंत स्वगुण पर्यायमां अखंड समय लयलीन  
ठो. तेथी हमारा जेवा साथे वात करवानो के बीजो अवकाश त-  
मोने नथी ॥ २ ॥

पर उपजोगी रागी द्वेषीरे, तें तो पुद्गल मति सहु  
खेसीरे ॥ करण वीरज पर आवेशीरे, माहरो प्रजुजी  
अयोगी अलेशी ॥ वहा० ॥ ३ ॥

अर्थः—जे पर उपजोगी जगत्मांहे वारवार जोगवाय एवां स्त्री अश्व  
आचरणादिक तेना उपजोग माननारा ते परद्वेत्री वस्तुने जोगवी  
शकता नथी पण अज्ञानथी ते वस्तुना राग द्वेषने वारवार जोगवे  
ठे. तें तो परद्रव्य पुद्गलादिमां अहंपणानी मति कोई प्रकारे  
राखी नथी तेथी पर उपजोगपणाना मिथ्या विकार ताहरे अंगे  
लागता नथी पण सदाय ज्ञानादिक निजधर्मना उपजोगी ठो. जगत्-  
वासी जीवोए निजात्म वीर्य स्वतंत्रे स्वगुणोमांहे थीर राखी फोरव्युं  
नहि तेथी तेज वीर्यवडे करणलब्धि पामी पंचेंद्रिय तथा मन  
वचन काया रूप करणमां वीर्य चल थई तथा शुभाशुभ विकल्पमां  
तथा वचन आलापमां, कायचेष्टामां, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्शना  
विषय भोगववाना आवेशमां प्रवर्ती रह्युं एटले सहजानंद स्वभावमां  
स्वतंत्रताए थीर रही आत्मगुण भोगमां प्रवर्त्युं नहीं. पण माहरो  
प्रजुजी अरनाथ स्वामी मन वचन काया अने ए सिवाय बीजा पण  
पुद्गल द्रव्यनो योग करता नथी. अने परद्रव्यने जोगववा आदरवा  
राखवा वापरवा संचालवा प्रवर्त्ताववानी जेने लेश्या नथी एटले आत्म  
वीर्य सर्वे समय पोताना ज्ञान दर्शन चरणादि दान लाभ जोग उप-  
जोगादिकमां प्रवर्त्तावे ठे पण अन्य संबंधे चल करता नथी सर्वे समय  
पोताना स्वद्वेत्रमां थीर थोज राखे ठे. जगत्वासी जीवो पोतानुं शुद्ध  
स्वरूप तथा दान लाभ जोग उपजोगादिने अणजाणता चल वीर्य  
करेठे तेथी जवज्रमणनो अंत आवतो नथी ॥ ३ ॥

मूर्ख पर व्यापमां व्यापेरे, तुं निज व्यापे निज आपेरे ॥  
 वसु कर्मना बंधन कापेरे, निज ग्राहिने प्रभु शिव आपे ॥  
 ॥ वहा० ॥ ४ ॥

अर्थः—ताहरी आझाना अजाण पुद्गलना शब्द रूपरस गंध स्पर्श  
 अंधकार ठाया कान्ती आदिपर्याय पुद्गलव्यापमां अहंपणे राग द्वेषे  
 व्यापे ठे. कोई द्रव्यनो व्याप अन्य द्रव्यमां अन्य क्षेत्रमां होतो  
 नथी पण आत्मानी ज्ञायकता स्वक्षेत्रमां लोकालोकनुं जासन थायं ठे  
 तेथी ज्ञायकता लोकालोक प्रमाणना विस्तारे पण कहीए, ते ज्ञाय-  
 कतारूप स्वक्षेत्रमां जासता जे जे मनोज्ञ अमनोज्ञ ज्ञेयरूप परद्रव्य  
 तेमां मूढ राग रोष करी अहंपणे व्यापे माटे व्यवहार नयथी पर-  
 क्षेत्रे व्याप्यो कहीए. पण तें तो परज्ञेयनुं ममत्व तज्युं तेथी तुं पोताना  
 अनंत पर्यायरूप स्वव्याप ठोडी ज्ञेयरूप परव्यापमां अहंपणे व्यापतो  
 नथी. पण स्वव्यापमांज पोते थिर थोन्न रह्यो तुं. तुं नविजीवोना  
 ज्ञानावरणादि आठे कर्मना बंधने कापवाने कारण तुं एटले आठे  
 कर्मना बंधन कापवानी युक्ति तुं बतावुं तुं. माटे कारणमां कार्यनो  
 उपचार करी तुं आठ कर्मनां बंधन कापुं तुं एम कहुं पण हमोने  
 आठ कर्मना बंधनथी ठोडावी सुखी करवाने कारण तुं. जे जीव  
 पोताना ज्ञान दर्शनादि अने दान लाजादिक तथा कर्त्ता ग्राहकता  
 व्यापकता रमणतादि निज ग्राह्य पोते ग्रही राखे तेने मोक्षरूप शिव-  
 समाधीनो दातार तुं तुं. कोई ठेकाणे कारणमां कर्त्तापणानो, कोई  
 ठेकाणे कारणमां कार्यपणानो उपचार थाय पण नयज्ञाने कर्त्ता कारण  
 कार्य पोतानां पोतामां ठे एम जाणवुं. निज ग्राहीने के० पोतानाज  
 ज्ञान दर्शनादि गुणोना पर्यायरूप स्वग्राह्यने ग्रही राखे तेने तुं शिव-  
 सुख आपे एम कहुं ते कारणमां कर्त्तापणानो उपचार ठे. एम कोई



पण ठेकाणे उपत्ररित नयथी बोलवामां आवे तेनो विचार नय प्रमाणे  
यथार्थ समजी लेवो ॥ ४ ॥

पर रमण रमे मतिहीणारे, अरजिन निज रमणे लीनारे ॥  
पर रक्षणथी जग दुःखीयारे, निज रक्षणथी ठो सुखीया  
॥ वहा ० ॥ ५ ॥

अर्थः—जेनी पोताना सहजानंद स्वभावमां मति नथी ते पोताना  
रम्य स्वरूपने जाण्या विना अरम्य जे पुद्गल परिणति रस, रुधिर,  
मांस, मेद, अस्थि, मझझा, वीर्यरूप सात धातु अने साते मल, पीत  
कफ श्लेष्म, वान्ति, मूत्र, पुरिष, प्रसवेद, केश, नखादि क्रमी, कीट,  
जलोदर, जगंदर, सफोदर, कठोदर, प्लीहोदर, प्रमेह, पीटीका,  
कंठमाल, रुढमाल, शिरोव्यथा, ताव, नेत्ररोग, करणरोग, मुखरोग,  
नाशिका रोग, अकत कोड आदि अनेक रोगोतुं स्थानक दुर्गंधमयी  
क्षणचंगुर एवां स्त्री पुरुष पूत्रादिकनां शरीर तथा गज अश्वदि वाग  
वगीचा घर हाट धन आदि अथिर पर अरम्यमां मतिहीण रमण  
करे. पण प्रचुजी! तुं ज्ञानवीर्यादि निज रम्यरूपमां अखंड समय अनंत  
रमणवंत लीनहुं. परगुण पर्याय कोईना राख्या रहे नहीं. तो पण  
जगत्वासी जीव अज्ञानथी एम जाणे ठे के माहरुं शरीर, माहरो  
पुरुष, माहरी स्त्री, माहरा पूत्रादिक, माहरुं धन, माहरी शक्ति एम  
अनेक पुद्गल पर्यायने हुं सर्वे उद्यमे राखुं एवी विपर्यास वासनाए  
अनेक प्रकारे खोटो श्रम करे पण परवस्तु आपणी राखी रहे नहीं  
तेथी खोटो श्रमकरी दुःख मात्र जोगवे ठे. अने निज रम्य एटले  
आत्माना उपयोग वीर्यादि अनंत गुण पर्याय ते पोताने राखवा लायक  
तेने ज्ञानमां राख्या विना सुखनो अंश प्राप्तता नथी. हे प्रचुजी!  
तमे निज रम्यनुं रखोपु करी अखंड समये सुखीया ठो ॥ ५ ॥

ममता धरी थई परकर्तारै, ते तौ प्रवदरिये दुःख चरतारै  
प्रभु निज कर्ता लही थिरतारै, तुं तो पर हरता नहीं  
कर्ता ॥ वहा० ॥ ६ ॥

अर्थः—ममता के० शरीर, रूप, बल, पराक्रम, पुरुष, स्त्री, पुत्र,  
चाई, बेहेन, पीता, माता, सज्जन, मित्र, जाती, गाम, घर, अश्वादिक  
अनेक पुद्गल पदार्थने पोताना जाणे, माने, अनुभवने अने तेने  
पोतानी ईढाए राखवा प्रवर्त्ताववानुं ममत्व ते ममता कहीए. वही  
तेनो हुं कर्ता जोक्ता आदि हुं एम जाणी ममत्वे करी परद्रव्यनो  
कर्ता जोक्ता थायपण तेअथिर पदार्थों आपणी इच्छाप्रमाणे थायनहीं  
आपणी इच्छाए प्रवर्त्ते नहीं, आपणा राख्या रहे नहीं, तेथी सह-  
जानंद समाधि त्रिना प्रव दरियामां दुःख चरतो रहे. प्रभु स्वगुण  
पर्यायनुं कर्तापणुं जाणी अनंत थिरता पाम्या एटले पोते परतो नाश  
करवावाला अथवा उपजाववावाला नथी. कोई पण परने नाश करवा-  
वालो के उपजाववावालो नथी. वस्तु पोताना स्वत्तावे पूर्व  
पर्याये विणसे ठे, नवे नवे पर्याये उपजे ठे पण वस्तु वस्तुगते ध्रुव  
ठे. एवो हे जिनेश्वर ! ताहरो बोध जाणे नहीं त्यांसुधी जगत्वासी  
जीव दुःखिया रहेठे ॥ ६ ॥

पर अधिकारे अजिमान्नीरे, तेणे निजपर रीत न जाणीरे ॥  
रह्या तेह सदा दुःखदानीरे, सुखी निज अधिकारी अमान्नी ॥  
॥ वहा० ॥ ७ ॥

अर्थः—जगत्मां कोई जीव अन्य द्रव्यनो अधिकारी नथी. पण  
मिथ्यामती जीव परद्रव्यनुं अहंपणुं करी परना अधिकारी थई बेसे  
ठे. जेम स्त्री कहेके आ पुरुष माहरो ठे, हुं एनी अधिकारी हुं,  
तेम पुरुष कहे आ स्त्री उपर माहरो अधिकार ठे, आ माहरं राज्य,

माहरा हाथी, घोडा, माहरुं सैन्य, माहरुं शरीर, माहरुं रूप, माहरुं बल, माहरुं कुल, माहरी जाति एम अनेक पुद्गल पर्यायो उपर पोतानो अधिकार मानतां ते वस्तु पोतानी राखी रहेती चालती नथी. तेथी पोताना चिदानंद अधिकारने चूकी दुखिया रहेठे. तेणे आत्म अनात्म चाल जाणी नथी. एटळे ते सदाए पोतेज पोताने दुःख देवावाला रह्या. पण जेने चिदानंद आत्म अधिकार जाण्यो अने आत्म अधिकारे वतें, परद्रव्यनुं अजिमान ठोडे, ते सर्वे समय सुखीया जाणवा ॥ ७ ॥

एम सकल विज्ञावनो त्यागीरे, जोगी अनंत प्रजाय सोजागीरे ॥ तुज गुणगण थुणी सुख लहीयेरे, तुज आण सदा थिर वहीये ॥ वहा० ॥ ८ ॥

अर्थः—प्रजुजी एम श्यादिक सर्वे विज्ञावना त्यागी ठो. पोताना अनंत पर्यायने स्वतंत्रपणे अखंड समये जोगवता सोजागी ठो. ताहरा गुण समुदायनी स्तुति करतां हमे हमारा गुणनी व्यक्ति पामी सुखी थईए. ए माटे ताहरी आज्ञा मस्तके चढावी सदा आज्ञाए चालीए ॥ ८ ॥

जग ज्ञान चरण समकालेरे, एक रूपे तुंहीं निहालेरे ॥ समये समजावनी चालेरे, मनसुख शिवकमला जाले ॥ ॥ वहा० ॥ ९ ॥

अर्थः—तुं पोताना ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अनंत गुणने पोताना आत्माथी अज्ञेदपणे एक रूपे समकाले जाणुं देखुं तुं. समये के० ताहरा शासनमां कह्या प्रमाणे अथवा समय के० निजगुण पर्याय निजमय अज्ञेदपणे समजावे जोतां चालतां मनमां सुखे करी शिव एटळे उपद्रव रहित ज्ञान दर्शन चारित्रादि लक्ष्मी स्वतंत्र देखे ॥ ९ ॥

॥ संपूर्ण ॥

॥ अथ एकोनविंशति श्री मल्लिनाथजिन स्तवन ॥

॥ श्री श्रेयांसजिन अंतरजामी ॥ ए देशी ॥

मल्लिनाथ जिन अपर असंगी, अलेसी अनंगीरे ॥  
जे मिथ्यामति पुद्गल संगी, खोटो रंग पतंगीरे ॥ ए  
आंकणी ॥

निज आतम गुणमां नहि रंगी, ते रोगी दुःखी अंगीरे ॥  
अमला कमला प्रभु शिव संगी, सादि अनंत अजंगीरे ॥  
॥ मल्लि० ॥ १ ॥

अर्थः—ओगणीशमा श्री मल्लिनाथ स्वामी जेने कर्म शत्रु मल्लयो  
( मसल्यो ) चुर्यो ठे. जेने अपर एटले पोना सिवाय अन्य परद्र-  
व्यादिकनो संग संसर्ग परिचय नथी. परद्रव्य जोगववा आद-  
रवा राखवानी लेश्या नथी एटले कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म  
शुक्ल ए माहेली कोई पण लेश्या नथी अने औदारिक वैक्रिय आदि  
अंग नथी पण चिदानंदघन अरुपी अनंत पर्यायनो पिंड एक निर्वि-  
कारी आत्म अंग ठे. जे मिथ्यामती अनंत वर्गणाना पुद्गल पीडनो  
संग करी ते उपर रंग एटले राग राखे ठे ते खोटो रंग केण द्विण  
जंगुर पतंगना रंग समान खोटो जाणवो.

जेने शुद्धात्म अंगमाहे अने शुद्धात्म गुणमाहे रंग रीझ नथी  
ते पुद्गल वर्गणादि उपर रींऊ पामी सर्वे समय कर्मबंधन करी नवा  
नवा देहरूप पुद्गल पर्याय ग्रहण करी तेमाहे उपजता चूख, तृषा,  
ताप, शीत, ज्वर शीरो रोगादिक आत्म अंगे नहीं ठतां आत्म अंगे  
मानता दुःखी अंगी एटले अंगे दुःख जोगवता रहे. प्रभु तमे उपद्रव  
रहित स्वद्रव्यथी अचेदपणे एवी निर्मल ज्ञान दर्शनादि लक्ष्मीना

संगी अने स्वामी ठो. अने आदिथी अनंतकालसुधी अज्ञंगपणे स्वतंत्र लक्ष्मीना जोगी ठो ॥ १ ॥

मुख्य डव्य परजाय गौणथी, डव्यारथ ते कहीएरे ॥  
गौण डव्य परजायनी मुख्ये, पर्यायारथ लहीएरे ॥ मद्धि० ॥

अर्थः—मुख्यपणे डव्यने के० अस्तित्व, वस्तुत्व, डव्यत्व, प्रमेयत्व अगुरुत्वघुत्व अने सत्त्व एवा सामान्य स्वजावनी मुख्यताए डव्यने अगाडी करीने अने पर्यायने गौणपणे राखी जे अर्थ करवो तेने डव्यार्थनय कहीए. डव्यने गौणपणे राखी पर्यायनी मुख्यताए जे अर्थ करवो ते पर्यायार्थ नय कहीए. नय एटले पुरुषनी दृष्टिने वस्तु सन्मुख दोरनारुं अगर वस्तु स्वरूपने पमाडनारुं अथवा दर्शानारुं देखाडनारुं वचन जाणवुं ॥ २ ॥

डव्यथी हुं सामान्य स्वजावी, अक्षय एक अज्ञेदीरे ॥  
दर्शन ज्ञान प्रजाय अनंते, विशेष स्वजाव अखेदीरे ॥  
॥ मद्धि० ॥ ३ ॥

अर्थः—डव्यार्थ नये हुं सामान्य स्वजावी हुं, अक्षय हुं, एक हुं, जेद रहित अज्ञेदी हुं. पर्यायार्थ नये दर्शन ज्ञान चरण वीर्यादिकना चिन्न चिन्न पर्याये विशेष स्वजावे करीने हुं अनेक रुप अनेक जेद ठतो पण अखेदी हुं. जे समये जे जीव परडव्यना समत्व राग द्वेष अज्ञान मिथ्यात्व वशे विज्ञाव पर्यायने आदरे ते समय तथा ते विज्ञाव ज्यां सुधी रहे त्यांसुधी ते जीव खेदवंत ठे एटले खेदने जोगवे ठे. पण ज्यारे जे जीव स्वडव्यथी अज्ञेदपणे रहेला ज्ञान दर्शनादि अनंत पर्यायने जोगवे त्यारे ते तेवा सर्वे खेद रहित ठे ॥ ३ ॥

अंश आरोप संकल्प त्रिजेदे, नैगम नय ठे साररे । सामान्य विशेष सत्ताग्राही, संग्रह दोय प्रकाररे ॥ मद्धि० ॥ ४ ॥

अर्थः—हवे नैगमादि सातनयना जेद कहिए ठीए. तेमां अंश आरोप अने संकल्प एवा नैगमनयना त्रण जेद ठे. सामान्य अने विशेष सत्ता ग्रहण करनां वचन ए बे प्रकारे संग्रह नय जाणवो ॥४॥

शुद्धाशुद्ध व्यवहार द्वीजेदे, वहेचे ते व्यवहारोरे। शुद्ध सूक्ष्म रुजुसूत्र दोयठे, वरतती परिणति सारोरे ॥ मद्धि० ॥ ५ ॥

अर्थ—शुद्ध अने अशुद्ध ए बे प्रकारे व्यवहारनय ठे एटले शुद्ध अशुद्धने तथा वस्तुना जेदने तथा जुदा जुदा गुणठाणाना व्यवहारने, साधु साधवी श्रावक श्रावीकाना जिन जिन व्यवहारने वहेचतो ते व्यवहारनय कहीए. स्थूल अने सूक्ष्म वर्तमान परिणतिने वस्तुपणे बतावे, पूर्वापर समयनी अपेक्षा राखे नहीं एवा बे प्रकारे रुजुसूत्र नय ठे. सूक्ष्म एटले सूक्ष्म एक समयनी परिणति गवेखे. अने स्थूल एटले बहु समय रहेनारो जीव पुद्गलनो पर्याय तेनी गवेषणा करनारो नामादिक चार निक्षेपा सहित रुजुसूत्र नय ठे ॥ ५ ॥

शब्द प्रगट व्यक्तिने अंशे, संज्ञिरुद्ध उणांशेरोएवंभूते पूरण व्यक्ति, वस्तु प्रगट सर्वांशेरे ॥ मद्धि० ॥ ६ ॥

अर्थः—शब्दनय ते शब्दमां बोलाती जावनिक्षेपे वस्तुनी अंशे व्यक्ति एटले वस्तु स्वजावना थोडा अंश पण प्रगट पणे देखे तेने वस्तु माने एटले ए जावनय ठे. समञ्जिरुद्धनय शब्दमां बोलाता वस्तुना धर्म घणे अंशे प्रगट थया होय अने थोडा अंश प्रगट थवा बाकी रखा होय ते पण प्रगट थशे तेने वस्तुपणे माने ए पण जावनय ठे. एवंभूत नय शब्दमां बोलाता वस्तुना पूरण धर्म सर्व अंश प्रगट थया होय तेने वस्तु माने ए पण जावनय ठे ॥ ६ ॥

शब्द थकी त्रिय शब्द प्रजाय, व्यक्ति प्रगट एह देखेरो। पुरव अपर नय जे न उवेखे, मुख्य गौणता लेखेरे ॥ मद्धि० ॥ ७ ॥

अर्थः—शब्धी त्रिय एटले शब्द समञ्जिरुढ अने एवंचूत ए त्रणे शब्द नय ठे. एटले ए त्रणे शब्द नयनाज जेदठे, जाव नयठे. थोडा अंश व्यक्ति, बहु अंश व्यक्ति अने सर्व अंश व्यक्तिने अनुक्रमे ए त्रणे नय माननाराठे एटले प्रगट व्यक्तिने देखनाराठे. ए सात नयमांथी आगला पाठला कोई नयने उवेखे नहीं पण एक नयनी देशना आपतो बीजा नयना जावने सापेक्षपणे गौणताए राखे ते नय कहिए. पण सातमांथी एकने पण उथापे तथा एक एक नयनी स्वतंत्र एकांते वात करे तो ते कुनय अने मिथ्यात्व जाणवो. उक्तंच “एकांते होई मिथ्यत्तो” एटले एकांते मिथ्यात्वठे पण स्याद्वादे मिथ्यात्व नथी. नैगम, संग्रह, व्यवहार अने रुजुसुत्र ए चार द्रव्य नयठे ते द्रव्यार्थकना पेटाना जाणवा. अने पाठला त्रण शब्द, समञ्जिरुढ अने एवंचूत ए जावनयठे ते पर्यायार्थकना पेटाना जाणवा. एम सर्व मली सात नय ठे. पण देवसेन डिगंबरी नवनय बतावेठे ते यथार्थ नथी. तत्त्वार्थसूत्रमां उमास्वामीए ( उमास्वातीए ) सात नय कह्या ठे. उक्तंच “तत्त्वार्थसूत्रे” “मूल सप्तनयाः” ए नयना सातसें अथवा अनेक जेद पण ठे. उक्तंच “जावंता वयण पहा तावंता हुंतिचेव नय वाया” एटले जेटलो वचननो विस्तार फेले तेदला नयवाद जाणवा ॥ ७ ॥

सकल नय समजावे देखे, नय ज्ञाने एम लेखेरे ॥ अति गंज्नीर विषय नयज्ञाने, सकल धरम नय देखेरे ॥ मद्धिण ॥ ७ ॥

अर्थः—जे सकल नयने समजावे जुए ते वस्तुनुं यथार्थ स्वरूप जाणे. पण एकांते एकादि नयनी खेंच करे तेने वस्तु स्वरूप यथार्थ लक्षमां आवे नहीं. नैगम नयथी वस्तुना अंशादिक विचारमां आवे ठे. संग्रह नयथी वस्तुसत्ता विचारमां आवेठे. व्यवहार नयथी वस्तुना शुद्धाशुद्ध जेद जणाय ठे. रुजुसुत्र नयथी वस्तुना वर्तता

परिणाम जोवामां आवेठे. शब्दादिक त्रण नयथी वस्तुनी व्यक्ति जोवामां आवेठे. एम नयनो विषय अतिशय गंजीर ठे. अनेक नयथी एक वस्तुना अनेक जिन्न जिन्न धर्म उच्चार करवामां आवे एटले नयज्ञाने वस्तुना सकल धर्म जिन्न जिन्न एक वस्तुमां अज्ञेद-पणे जाणवामां आवे, एम नयज्ञाने वस्तु स्वरूप लक्ष्मां आणे ॥ ७ ॥

पुरव अपर नय जेह उवेखे, दूर्नय तेह कहावेरे ॥  
एकांते मिथ्यात कह्यो जिन, अनेकांत समजावेरे ॥ मद्धि०॥ए॥

अर्थः—पूर्वापर नयनी अपेक्षा न राखे ते दुर्नय कहीए- जिनेश्वरे एकांतने मिथ्यात्व कह्यो ठे. सर्व नयने पोतपोताने ठेकाणे समतुल्य राखे ते अनेकांत कहीए. जेम कोई बोलेके असंख्यात प्रदेशवंत होय तेज जीव, एम एकांते बोलनारे जीवनुं यथार्थ स्वरूप जाणुं नहीं. कोई बोलेके अरुपी अवर्णी, अगंधी, अस्पर्शी होय तेज जीव, एम एकांते कहेनारे पण वस्तु स्वरूप जाणुं नथी केमके असंख्यात प्रदेशी तथा अरुपी, अवर्णी बीजा अजीव द्रव्य पण ठे. कोई बोले के सत्तावंत होय ते जीव, एम एकांते बोलनारे वस्तु स्वरूप जाणुं नथी. जेम कोई सोनाना कडानो गोल आकार देखी एम बोले के गोल होय तेज सोनुं, वली कोई तेनी पीलास देखी कहेके पीलुं होय तेज सोनुं, कोई बोलेके वजनदार होय तेज सोनुं, कोई कहेके नरमाश एटले जेम वालीए तेम वले तेज सोनुं, कोई कहेके निर्मल वर्ण शोचा आपे तेज सोनुं, एम सोनाना अनेक स्वजावमांथी एकादि स्वजावने स्वतंत्रपणे सोनुं माने ते यथार्थ स्वरूप जाण्या विना मिथ्याती जाणवो. एटले ते मिथ्यादृष्टि सोनाना पूर्ण स्वरूपने जाणे नहि. तेम जीवादि वस्तुना एकादि धर्मने जाणी तेनेज वस्तु माने, तेने वस्तु स्वरूप यथार्थ ओलखुं नथी ॥ ए ॥



सत्ता अंश जेद परिणामो, व्यक्ति धरम जे जेनारे ॥  
कोईना कोईमां नवि आवे, कोई न होवे केनारे ॥मद्वि०॥१०॥

अर्थ:-जे जीवसत्ता ते अजीव सत्ता नहीं. जे एक जीवनी सत्ता ते अन्य जीवनी सत्ता नहीं. सर्वे जीवनी सत्ता सरखी होय तो पण एक जीवनी सत्ता ते बीजा जीवनी थाय नहीं. जे एक जीवना अंश ते अन्य जीवना तथा धर्मादिक अजीवना अंश नहि. एक जीवनो संकल्प ते अजीवनो के बीजा जीवनो नहि, एक जीवनो आरोप ते पण बीजा जीव तथा अजीवनो नहीं. एक जीवना जेद तेवाज बीजा जीवना जेद होय तो पण ते जेद बीजा जीवना के अजीवना नहीं एक जीवना वर्तता परिणाम ते बीजा जीवना के अजीवना नहीं. एक जीवनी थोडा अंश व्यक्ति तेवी बीजा जीवनी थोडा अंश व्यक्ति होय तो पण ते व्यक्ति बीजा जीव अजीवनी नहीं. एम बहु अंश व्यक्ति अने सर्वांश व्यक्तिमां पण जाणवुं. एम एक जीवनो एक नयधर्म ते बीजा जीव अजीवनो नहीं. एटले नयधर्म कोईनो केनामां जाय आवे नहीं. जे जेनो होय ते तेनोज रहे ॥ १० ॥

नय निक्षेप बहु जंग प्रमाणे, निज निज शक्ति देखेरे ॥  
उदासीनता सहु परजावे, निज दृढ धर्म विशेषेरे ॥मद्वि०॥११॥

अर्थ-एम नयधर्म जाणवा. वली एक जीवना जे चार निक्षेपा तेवा बीजा जीवादिकना पण होय पण एक जीवना जे निक्षेपा ते बीजा जीवादिकना नहीं. वली एक जीवना चांगा अने प्रमाण तेवाज बीजा जीवादिकना होय पण एक जीवना चांगा अने प्रमाण ते तेनाज जाणवा पण बीजाना नहीं. एक जीवनो जे पद स्वजाव तेवो बीजा जीवनो होय तो पण ते विवक्षित जीवनो पद स्वजाव

ते बीजानो नहीं. तेम एक जीवनो उदय निश्चय (नवीष्य) स्वकाल उद्यम अने पदस्वप्नाव सहित पांचे समवाय जे जेनां ते तेनां जाणवां. वली एक जीवना सामान्यस्वप्नाव उत्पाद् व्यय ध्रुवादिक अने विशेषस्वप्नाव जे जेहना होय ते तेहना रहे. कोई जीव के कोई परमाणु के कोई खंधना सामान्य विशेष उत्पाद् व्यय ध्रुवादिक तथा पंच समवाय आदि, अन्य जीव परमाणु के खंध के धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय आदि कोईना कोईमां जाय आवे नहीं. एक द्रव्यनी प्रवृत्ति ते अन्यनी नहीं. एक प्रदेश प्रवृत्ति ते अन्य प्रदेशनी नहीं. एक समयनी प्रवृत्ति ते अन्य समयनी नहीं. एक चावधर्म ते अन्य चावधर्म नहीं. एम सर्वे द्रव्यमां सर्वत्र जाणवुं. एम बहु जेदविज्ञाने पोतानी शक्ति पोतामां देखे एटले अन्य द्रव्यनुं ममत्व के कामना अंशमात्र रहे नहीं एटले सर्वे परचावथी उदासिन्नता आवे अने पोताना विशेष धर्ममां दृढता रहे एटले सहजे शुक्लध्यान आवे ॥ ११ ॥

मद्धी प्रचूनं शासन पामी, मिथ्या दुरमति वामीरे ॥ पर-  
पद काम तजी निज कामी, होय मनसुख शिव स्वामीरे ॥  
॥ मद्धिण ॥ १२ ॥

अर्थः—मद्धिनाथ प्रचूनं शासन पामी उपर कह्या प्रमाणे वस्तु स्वरूप जाणवाथी पहेलां जे मिथ्यामती अने दुर्मती हती ते गई. जे परपदनी कामना तजे ते निजकामी अई मनमां सुखे करी शिवपद स्वामी थाय ॥ १२ ॥

॥ संपूर्ण ॥

॥ अथ विंशतिम श्री मुनिसुव्रतजिन स्तवन ॥

हांरे मारे ठाम धरमना साडापचवीश देश जो ॥ ए देशी ॥

हांरे मारे जंगम सुरतरु मुनिसुव्रत मुज फलिया जो,  
केवल रविकर प्रसर्था मुज मन मंदिरेरे लोल ॥ ए आंकणी ॥

हांरे मारे जव वन जमतां रत्न चिंतामणी लाध्युं जो;  
प्रचु तुज दर्शन पामी, कोण परघर फरेरे लोल ॥ हांरे मारे  
अखुट खजानो आतम गुण थिर राखे जो ॥ चित्रावेली  
जिनवाणी गुण थिर करेरे लोल ॥ हांरे मारे जंगम ० ॥ १ ॥

अर्थः—वीशमा मुनिसुव्रत स्वामी पृथ्वीतल विहार करता जंगम सुरतरु देशदेशांतरमां जविजीवोने समकित अने शिवफल आपता ते आ पंचम आरामां मने सम्यक्त अने ज्ञान समाधि आदि शुचफलदायक थया. वली ते प्रचु केवलज्ञान रूप सूर्यनां वचनरूप किरण माहरा मन मंदिरमांहे प्रसर्था—फेड्यां. जे वडे में रुपी अरुपी आश्रव संवर जीव अजीवादि जावधर्म जाण्या एटले अनंत स्वतंत्र समाधिनो मार्ग जाण्यो.

मने अनंतकालथी जयंकर जव वनमांहे जमतां मुनिसुव्रत स्वामीना वचनरूप वंठित फलदायक रत्नचिंतामणी हाथ आव्युं. तेथी एवुं प्रचुनुं उत्तम दर्शन पामी आत्मघर ठोडी कोण मूर्ख लोकाकाश प्रदेश अने पुद्गल वर्णारूप परघरमां फरे ? ज्यां परतंत्रताए पोताना ज्ञान दर्शनादि विना जन्ममरण व्याधिनी अनेक उपाधि सहेवी पडे. धनधान्यादिमां चित्रावेली राखी होय तो ते धन्नधान्यादिक वापरतां पण खूटे नहीं. तेम माहरा चित्तरूप जंडारमां परमेश्वरनी वाणीरूप चित्रावेली राखुं तो माहरुं गुण रूप धन वापरता ठतां पण निर्मल अखूट रहे ए माटे परमेश्वरनी वाणी माहरा चित्तरथी समय मात्र पण अखगी राखुं नहीं ॥ १ ॥

हारे मारे तजी जमता निज जाणयो सिद्ध समानजो,  
ममता जागी जागी समता सहजनीरे लोला हारे मारे परद्रव्ये  
द्रव्यादिक जाय न आवे जो, निज क्षेत्रे निज रिद्धि अनंत  
अखंभ ठेरे लोला ॥ हां० ॥ जंगम० ॥ २ ॥

अर्थ:—में मने हाड, मांस, चर्म, वीर्यादिकनो पुद्गल पींड जाण्यो  
हतो ते जेदज्ञानविना जडता हती पण ताहरी वाणी जाणी एटले  
जडता गई. अने में पोताने सत्ताए सिद्ध समान जाण्यो एटले हुं  
सत्तास्थलमां द्रष्टि थिर राखी जोउं तो सिद्ध समान सर्वे शक्ति माहरी  
द्रष्टिगोचर थाय एटले पूरण व्यक्ति प्रगटे. अने देहादिकनुं ममत्व  
हतुं ते मटयुं. अने माहरा द्रव्य, क्षेत्र, काल, जावमां पोतापणानी  
मती थई एटले सहज स्वजावनी समता जागी एटले में जाण्युं के  
कोई द्रव्यादिक परक्षेत्रे परद्रव्यादिकमां जाय आवे नहीं तो माहरा  
स्वप्रदेशमां माहरी ज्ञान दर्शनादि रिद्धि माहरा अंगथी अटूटपणे  
अचेदपणे अक्षय अनंती ठे ॥ २ ॥

हारे मारे एकांतिक सुख सहज स्वतंत्र अनंतजो, माहरुं  
मुज पासे जाणी सुखीयो थयोरे लोला हारे मारे अमर अजर  
निज जाण्यो अव्याबाधजो, लब्धि वीरज पामी अवदव  
प्रय गयोरे लोला ॥ हां० जं० ॥ ३ ॥

अर्थ:—जगत्जीवोने विषयादिकनुं सुख ठे ते पूर्वापर अने वर्तमाने  
पण खेद रोगादि दोष जरेलुं अने कल्पित उपचारथी सुख मनाय ठे  
पण प्रभुए तो मने आत्म स्वजावमां दोष विना केवल सुखज ते एकां-  
तिक आनंद उपाधिविना सहज स्वजावनो परतंत्रताविना स्वतंत्र  
अनंत आणंद माहरो माहरी पासे बताव्यो ते जाणी सुखीयो थयो.  
वली में मने चेतना गुणे अमर अजर अबाधित जाण्यो. अने तमे

दब्धि वीर्य फोरववानी रीत बतावी ते में जाणी तेथी चार गति  
त्रवरूप दावानलनो त्रय माहरे गयो ॥ ३ ॥

हारे मारे परपद प्रीती तोमी तुमथी जोमीजो, खोमी न  
रही तुजथी मुज कोई वातनीरे लोल । हारे मारे कांत्यादिक  
धरी निजगुण निर्मल राखुंजो, डव्य जाव यतना राखुं निज  
जातनीरे लोल ॥ हां० ॥ जं० ॥ ४ ॥

अर्थः—अज्ञानदशाथी माहरे पुद्गलादि परद्रव्यमां प्रीति हती  
ते माहरी प्रीति चौदराजलोकमाहे रहेली पुद्गल परिणति साथे  
रोकाई—अवराई एटले प्रीति माहारा गुण पर्यायमां रही नहीं. अने  
चौदराजलोकनी परिणतिए तो माहरी प्रीतिना बदलामां पाठी  
माहारा उपर प्रीति करी नहीं एटले प्रीति मने पाठी आपी नहीं,  
तेथी फोगट गई. अने उलटुं खेदनुं निराशतानुं नाउमेदीनुं पर-  
तंत्रादि अनेक प्रकारनुं दुःख थयुं. हवे ताहरी वाणीथी में जाणुं के  
पुद्गल परिणति शब्द रूप रस गंध स्पर्श देखाडीने जीवना स्वतंत्र  
सुखने ठीनावे ठे एवी कुटील ठगणी ठे. तेथी में तेनाथी प्रीत  
तोडी तुमथी एटले ताहरी वाणीथी प्रीत जोडी तेथी हवे माहरे  
कोई वाते खामी रही नहीं. हवे हुं कांत्यादि दशविधे धर्म आदरी  
ज्ञानादि आत्मगुणो निर्मल अने थिर राखुं. डव्य अने भावथी एटले  
माहारा ज्ञानादि गुणोनी तथा अन्य जीवना पण ज्ञानादि गुणोनी  
एटले जीव जातनी डव्यथी जावथी यतना राखुं—संचाल राखुं के  
माहाराथी माहारा अने अन्यजीवना डव्य जाव प्राणनी हाणी  
थाय नहीं ॥ ४ ॥

हारे मारे विमल कमल तुम मुख लखी प्रगटी शांती जो,  
त्रांति नाठी स्याद्वाद सुणी देशनारे लोल ॥ हारे मारे

वर्णादि रागादिक विगत विकारजो, लखी निज बहु गुण  
शुद्धात्म स्वप्रदेशनारे लोख ॥ हां० जं० ॥ ५ ॥

अर्थः—तमारुं निर्मल कमल समान मुख देखी माहरा मनमां  
शांति प्रगट थई. तमारी स्याद्वाद देशना सांजलीने माहरी अनेक  
प्रकारनी त्रांति नाठी एटले अनात्ममां आत्मपणानी, विषया-  
दिक रोग उपचारमां सुखपणानी, कुगुरु कुदेव कुधर्ममां, सुगुरु  
सुदेव सुधर्मपणानी, सुगुरु सुदेव सुधर्ममां कुगुरु कुदेव कुधर्म-  
पणानी अथवा ए त्रणेमां सामान्यपणानी, मुक्तमां अमुक्तपणानी,  
अमुक्तमां मुक्तपणानी, बंधपरिणतिमां अबंधपणानी, अबंधपरिण-  
तिमां बंधपणानी, आश्रवमां संवरपणानी, संवरमां आश्रवपणानी,  
मित्रमां अमित्रपणानी, अमित्रमां मित्रपणानी, विवेकमां अविवेक-  
पणानी, अविवेकमां विवेकपणानी ए आदि घणाप्रकारे त्रांति हती  
ते नाठी. प्रजुजी तमने रागादिक, वर्णादिक, दोषो रहित देखीने  
माहरा शुद्धात्म स्वप्रदेशना बहु गुणो माहरा जाणवामां आव्या ॥ ५ ॥

हारे मारे पूष्ट हेतु प्रजुजी तुं मुजने साचो जो, दान  
अचिंतीत दीधुं मेहेर नजर करीरे लोख । हारे मारे मुजहित  
कारण तुम आणा सन्मानी जो, विषय कषाय वशे नवि  
चूकुं हुं फरीरे-लोख ॥ हां० जं० ॥ ५ ॥

अर्थः—ताहरा पसायथी में माहरा शुद्धात्म गुणो जाण्या तेथी  
संसारथी तरवाने तुं माहरे साचो पुष्टकारण हुं. हुंनहोतो जाणतो के  
एवुं परमसमाधिरुप अचिंत्य दान मेहेर नजर करीने तें मने आप्युं.  
में माहरुं हित थवा माटे ताहरी आज्ञानो आदर कर्यो ते हवे  
विषय कषायवशे फरीथी कदापि चूकुं नहीं. जे ताहरी आज्ञा

जाणता नथी अने जाण्या पढी ठोडेठे ते पण अने जाणीने आदरता नथी ते पण अनंतकाल संसारमां जमेठे. माटे हवे हुं ताहरी आझा आदरवा प्रमाद केम न तजुं ? ॥ ६ ॥

हारे मारे तुज आलंबन निरालंबता लहिशुं जो, रहिशुं शुद्ध गुणगणे दृढ थिरता करीरे लोल ॥ हारे मारे घनघाती क्लय जाशे शक्ति प्रकाशे जो, मनसुख शिवघरवासे शांतरसे ठरीरे लोल ॥ हां० जं० ॥ ७ ॥

अर्थ:-हे प्रभु ! ताहरा आलंबन थकी निरालंबता पामीशुं. चार प्रकारे पुद्गल परावर्तन करतां में खोटां खोटां आलंबन अनेक प्रकारे लीधां तेथी दुःखनो अंत आव्यो नहीं पण ताहरा आलंबनथी हवे निरालंबता पामीशुं. हवे शुद्ध गुणगणे दृढ थिरता करीने रहीशुं एटले आत्मगुण व्यक्ति पामीशुं. एम करतां घनघाती कर्मना क्लय थवाथी केवलज्ञानादिक शक्ति प्रकाश थशे. एम जिविजीवो मनमां सुखे करी ध्याननी थिरता लावी शिवघर वास करी शांति रसे ठरशे ॥ ७ ॥

॥ संपूर्ण ॥

॥ अथ एकविंशतिम श्री नमिनाथजिन स्तवन ॥

॥ श्री तीरथ पद पूजो जिविजन ॥ ए राह ॥

नमी जिन दर्शन ज्ञानानंदी, चरण रमण आनंदीरे ॥  
अक्षय वीरज परमानंदी, अव्यावाधानंदीरे । मुजमन मंदिर  
आवो जिनजी, समता रंग रमावोरे ॥ मुज० ॥ १ ॥

अर्थ:-हे श्री नमिजिनेश्वर ! तमे दर्शनगुणमां अने ज्ञानगुण मांहे परमानंदवंत ठे. ए आदि पोताना अरुपी अनंतगुणोना अनंत

पर्याय स्वतंत्र रम्यरूपमां रमणवंत एटले चरणानंदी ठो. तेमज पोताना स्वतंत्र थीर अक्षय वीर्यमां एटले पोताना सर्वे गुणपर्यायने शक्ति आपनारुं अने कायम राखनारुं वीर्य तेमां परमानंदीठो. तेम पोताना सर्वे प्रदेश गुण पर्याय अबाधीतमां आनंदवंत ठो. तमारे ज्ञाननो आनंद ठे पण संसारी जीव ज्ञानावरणना अनंत पर्यायने जोगवता अज्ञानवशे बेभान थया थका शुं थशे? केम थशे? आ दुःख केम थाय ठे ? ए दुःख केम मटे ? क्यारे मटशे? मने कोण राखे? कोण बचावे? आ जय केम टलशे ? सुख शार्थी थशे ? एम अज्ञान दशामां कही शकाय नहीं एवां अनंत प्रकारनां दुःख भोगवेठे. तमारे दर्शन गुणनो अनंत आनंद ठे पण संसारी जीव दर्शनावरणना अनंत पर्याय भोगवता वस्तु स्वरूप यथार्थ देख्याविना अनिर्धारपणे अनेक विकल्पोनुं दुःख जोगवेठे. तमारे ज्ञान दर्शन चरणादि निजगुण पर्यायनुं अनंत रमण ठे पण संसारी जीवने ज्ञानावरण दर्शनावरणना अनंत पर्यायनुं दुःख ठे एटले अथिर अरम्य पुद्गलोमां रमतां ते पुद्गलो विणस्त्री जाय तेथी तेने राखवा अनेक प्रकारनो प्रयास करता ठतां पण ते रहे नहीं तेथी अनंत श्रम अने क्लेशनुं दुःख ठे. संसारी जीवोनुं पुद्गलीक वीर्य क्षीणे क्षीणे क्षीण थाय ठे वली थोनुं नवुं वीर्य पण उपजे ठे पण आखर सर्वे वीर्यनो क्षय थाय ठे, स्वच्छाए वीर्य फोरवी शकता नथी. संसारी जीवोनुं वीर्य शत्रु तोडी शके ठे. मारे, ताडे, धन, वीर्यादिकलुंटे, क्षय करे तेथी महा खेदवंत थाय ठे संसारी जीवोनुं आनंद पुरो थतो नथी तेथी अपरम ठे अने ताहरेतो परमपूरण अनुत्तरानंद ठे. संसारी जीव अनेक प्रकारना रोगथी तथा ठेदन, ताडन, तर्जनादिथी तथा सिंह, रीठ, व्याघ्रादिथी तथा चोर अग्नि पाणी विजली आदि अनेक प्रकारनी पीडा पामे ठे तेथी अव्याबाधनो आनंदं नथी. पण ताहरे तो अव्याबाधनो पूर्णा-



नंद ठे. एवा नमीनाथ स्वामी तमारी सर्वे रिद्धि सहित माहरा मनरुप मंदिरमां आवो अने पोतानी समताने रंगे रमावो ते देखी हमारी समता पण रंगे रमशे ॥ १ ॥

अमर अजर निरधंधानंदी, नीर्जय सत्यानंदीरे ॥ अनाकुल थिरता आनंदी, सहज स्वतंत आनंदीरे ॥ मुज० ॥१॥

अर्थः—संसारी जीव चारगतिरुप नवा नवा देह पर्याय धारण करी वारवार मरेठे पण तमे तो पोतानी ज्ञायकता आदि अनंत रिद्धि सहित अमर ठे. जगत्वासी जीवोने जेम जरा आवेठे तेम तमारे नथी तेथी अजर ठे. दुकालना वरसमां अने दुर्भाग्य समयमां देहधारी जीवोने खावा पीवादिक चोगनी तंगी होय ठे ए आदि कारणोए अंधधुंध थाय ठे पण तमारे तो अनंत गुणपर्यायनो चोग सर्वे समय स्वतंत्र कायम ठे, सदा सुकाल ठे तेथी कोई प्रकारे धंधदशा आवती नथी तेथी निरधंधानंदी ठे. जगत्वासी जीवोने सर्वेकाल अनेक प्रकारना जय रहेठे पण तमारे तो कोई काले कोई प्रकारनो जय नथी तेथी तमारे निर्जयतानो आनंद ठे जगत्जीवो पर ड्रव्य, क्षेत्र, काल, चावमां पोतापणुं माने ठे. ते असत्यताए दुःखीया थायठे पण तमे तो स्वद्रव्यादिकमां सत्यता मानी आदरी तेथी तमारे तो सत्यतानो आनंद ठे. विज्ञावी जीवोने सर्वेकाले अनेक प्रकारनी आकुलता ठे. तमारे कोइ काले कोइ प्रकारनी आकुलता नथी तेथी तमारे अनाकुल आनंद ठे. संसारी जीवोए चढ पुद्गलोमां कार्य मान्युं तेथी पोताना वीर्यादि चलायमान थया तेथी अनेक प्रकारनी चपलता चोगवेठे. तमे तो चढ पुद्गलोथी वाजु रह्या पोतानुं कार्य अचढ चेतनतामां जाण्युं तेथी तमारे तो थीरतानो आनंद ठे. जगत्वासी जीवो उपाधि करी उपाधि चोगवी उपाधिनो आनंद माने ठे अने पाठी उपाधि वधती जाय ठे तेथी दुःखीया ठे. तमे तो रागादिक

उपाधि ठोडी सहज समाधिना जोगी थया अने फरीथी उपाधि आववानी नथी तेथी तमारे सर्वे समय उपाधि रहित सहज समाधिनी आनंद ठे कोई काले देह मननी याधि व्याधी थवानी नथी. संसारी जीवोंने अनेक प्रकारनी परतंत्रता ठे पण तमे शुद्ध स्वभाव जोगी थया तेथी स्वतंत्रतानो आनंद ठे ॥ १ ॥

द्रव्य क्षेत्र स्वकालानंदी, पञ्जव ज्ञानंदीरे । अन्वय रिद्धि समूहानंदी, दान ने लाज आनंदीरे ॥ मुज० ॥ ३ ॥

अर्थः—जगत्वासी जीवो पुद्गल खंधने पोतानो द्रव्य मानेठे अने ते द्रव्य नाश पामे ठे तेथी आनंद रहेतो नथी पण तमारे तो असंख्याता प्रदेश निज गुण पर्यायनो पिंड सदाकाल शाश्वतो ठे तेथी तमारे स्वद्रव्यानंद ठे. जगत्वासी जीवो परक्षेत्रे थिरता पामता नथी पण तमे तो स्वक्षेत्रमां स्वतंत्रपणे रहोठो स्वक्षेत्रथी कोई तमने वेगळुं करे तेवुं नथी तेथी तमारे स्वक्षेत्रानंद ठे. जगत्वासी जीवोने शनी, राहु, केतु आदिक ग्रहकाल दुःख दे ठे पण तमारा अरुपी आत्म अंगने तो रुपी ग्रह लागी शकतो नथी अने समय समय सर्वे द्रव्यनी रुपी अरुपी परिणति जाणवाने पोतानी नवी नवी ज्ञायकता परिणामे ते तमारे स्वकालानंद ठे. संसारी जीव आठ कर्मना अनंत विज्ञाव पर्यायने जोगवता दुःखी ठे तेमने स्वज्ञाव पर्यायनो पुरो आनंद नथी पण तमारा ज्ञान दर्शनादिक अनंत ज्ञावधर्म पर्याय निर्मल थया तेने सर्वे समय जोगवोठो तेथी तमारेतो अनंत पर्याय ज्ञानंद ठे. तमारी ज्ञान दर्शनादि रिद्धि वापरतां खूटे नहीं अने तमारा आत्म प्रदेश पण घसाय नहीं, व्यय थाय नहीं तेथी तमारे अन्वयपणानो अनंत आनंद ठे. संसारी जीवने तो धन शरिरादि व्यय पामे ठे तेथी तेमने अन्वयपणानो आनंद नथी. तमारी अन्वय अनंत रिद्धिनो समुदाय सर्वे

समय समकाले जोगवो ठो तेथी रिद्धिसमूहानंद ठे. संसारी जीवोने अनेक प्रकारनी रिद्धि होय पण एक समय एक जोगवाय तेथी तेने रिद्धिसमूहानंद नथी. तमे वीर्य शक्तिए करीने पोताना अनंतगुणो पात्रने पोतपोताना लायक अनंता पर्यायनुं दान आपोठो ते दाता, दान, अने देयनो अनंतो दानानंद तमारे ठे. तमे पोताना अनंत निर्मल पर्यायनो लाज व्योठो तेथी तमारे अनंत लाजानंदठे. संसारी जीवोने दान देवा माटे प्रयास करी परस्थानकथी वस्तु लावी परने देवी ते पोताने स्वतंत्र नथी तेम प्रयास करी पुद्गल वर्गणादिक मेलवी लाज लेवो ते पण पोताने स्वतंत्र नथी अने पोतानी ईच्छा प्रमाणे वंढित समये लाज थतो नथी तेथी संसारी जीवोने दान अने लाज ए बनेनो आनंद नथी.

जोगोपजोग अलेश्यानंदी, अयोगी निरोगानंदीरे। हांति महव अज्जव निस्पृह, तृप्त संयम आणंदीरे ॥ मुज० ॥ ४ ॥

अर्थः—संसारी जीवोने जोग उपजोगना पदार्थ प्रयास करी अन्य क्षेत्रेथी मेलववा पडे ठे ते पोताना वंढित पदार्थ पोतानी कामना प्रमाणे सर्वे समय पूरण मळी आवता नथी अने आवेला स्वतंत्र रहेता पण नथी अने रोगादि डरथी ईच्छा प्रमाणे पुरा जोगवी पण शकाता नथी, मागेला घरेणानी पेठे पाठा बोडी देवा पडे ठे एटले संसारी जीवोने जोग उपजोगनुं पण ईच्छा प्रमाणे सुख थतुं नथी अने साहामी तृष्णा अने दीनता परतंत्रता सहेवी पडेठे. पण प्रजुजी तमे तो अनंत पर्याय अने अनंत गुणो पोताना आत्मअंगथी अचेदपणे सर्वे समय स्वतंत्रताए निर्जयपणे जोगवो ठो तेथी जोग उपजोगनो परमानंद तमारे ठे. संसारी जीवोने परवस्तु राखवा जोगववानी लेश्या होय ठे ते अनित्य पर वस्तु पोतानी ईच्छाए बने नहीं अने बनेली रहे पण नहीं तेथी ते लेश्या वडे दुःख पामे ठे. पण तमे लेश्यावगर अने ईच्छाआतुरताविना अनंत स्वगुण पर्यायने

करो जाणो राखो जोगवो तेथी लेश्या रहित परमानंदी ठो. देहधारी जीवो मन वचन कायाना योगे वली अनेक अनिष्ट संयोगे अनेक तरे-हनां दुःख जोगवे ठे पण तमारे तो शुद्ध स्वतंत्र स्वगुण पर्यायनो आत्म अंगथी अचेदपणे समवायपणे शाश्वत योगठे तेथी मन वचन कायाना योग ठोडया ठे अने सर्वे पुद्गल वर्णानो पण योग ठोडयो ठे तेथी इष्टवियोग अने अनिष्टसंयोग विना पोतानुं इष्ट पोतानी पासे परयोग विना जोगवो तेथी अयोगीपणानो परमानंद ठे. देहधारी-ओ जन्म, जरा, मरण, कोड आदि शोल जयानक रोग अने ए शिवाय अनंत रोगोनी उपाधिए दुःखी ठे पण पन्नु ताहरे अरुपी आत्म अंग सडणपडण विध्वंसण विना अनंत आरोग्यतानी समाधि आनंद ठे. संसारी जीवो क्षमा विना जगत्जीवोथी विरुद्ध करी वैरनी परंपरा वधारता दुःखी ठे पण तमे निज प्राण अने पर प्राणने हणता नथी, हेम कुशल राखो ठो, पोताना अनंत पर्यायना अने जिविजीवोना हेमंकरठो तेथी तमारे क्षमापणानो परमानंद ठे. संसारी जीव कुल जाति आदि आठ प्रकारनां मान अने रिद्धिगारव रसगारव शातागारव एम बहु प्रकारना गर्व करता ते अधिर पदार्थो विणसी जाय अने ठेकाणे ठेकाणे अपमान पामे तेथी जगजंतु दुःखीयाठे पण तमेतो कोई प्रकारना मान अने गर्व विना सर्वे जीवने अणजेखता परम मार्दवता रुप समजावना आनंदी ठो. संसारी जीव कूड कपट करता वक्रता परिणामे बहु आर्त्तध्यान करी जवज्रमण करी दुःखीया थाय ठे पण तमे तो परम आर्यव के० सरलता परिणामे सम सुखानंदी ठो. संसारी जीवो देह, धन, स्त्री, पुरुष, देव, देवी पंचईद्रियना विषय मंत्र, जंत्र, अनेक करामत आदि परजीवनी अने परपुद्गलोनी कामनाए इच्छाए आकांक्षाए उमेदे अनेक प्रकारनी दीनता जोगवी अनेक प्रकारनी परतंत्रता जोगवे ठे पण प्रभुजी तमे तो धन रिद्धि जोग सर्वस्व पोतानुं

पोतामां- अक्षय स्वतंत्रपणे जाणुं तेथी परनी स्पृहा कामना विना निस्पृहता प्रशमरति निवृत्ति आदि निज घर, निज धन, निज प्रीय संगे अक्षय विलासी परमानंदी ठे एटले तमारे निस्पृहतानो परम आनंद ठे. संसारी जीव आहारादि पंचइंद्रियना विषय जोग-व्रता तृप्ती पामता नथी अने सर्वे समय ईच्छा आतुरता रूप अग्नि-ए करी बलता रहे ठे पण ताहरे तो ज्ञान दर्शन चरणादिकना अनंत स्वपर्यायमां परम तृप्ति रूप तप ठे ते तृप्तिनो परमाणंद ठे. तमे पोताना सहज स्वज्ञावे रहेला अनंत जावधर्मना संयम एटले पोताना अनंत गुण पर्यायने कोई समय पण चूको नहीं एटले चल अने मेला करो नहीं ते तमारे संयमनो शाश्वत आनंद ठे. संसारी जीवो पंच अत्रत, पंच विषय, चार कषाय अने मन, वचन, कायानी चपलताए आत्म गुण मलिन करेठे तेथी तेने ए आनंद शानो होय ? ॥ ४ ॥

सत्ता शुद्ध अमंदानंदी, निर्विकल्प आणंदीरे । ज्ञेय सकल निजज्ञान विलोकी, लोकालोक आणंदीरे ॥ मुज० ॥ ५ ॥

अर्थः—संसारी जीवनी सत्ता सिद्ध समान ठे पण परद्रव्यना ममत्वे राग, द्वेष, अज्ञान, मिथ्यात्व वडे पोतानी शक्ति मलिन अने मंद करेठे. पण तमारे तो परद्रव्यना ममत्व अने राग, द्वेष, मिथ्यात्व, अज्ञानविना सर्वे काल शुद्ध शक्ति व्यक्ति ठे अने अमंद ठे तेथी ते शुद्धतानो अने अमंदतानो परमानंद ठे. संसारी जीवोने पुद्गल द्रव्यना ममत्वे अनेक शुद्धाशुद्ध संकल्प विकल्पनुं दुःख ठे पण तमे तो परद्रव्यना ममत्वविना स्वतत्त्वमां पोतापणुं जाणुं तेथी शुद्धाशुद्ध संकल्प विकल्पो उपजवानो संभव नथी ते निर्विकल्पानंद ठे. तमारी ज्ञायकतामां लोकालोकरूप ज्ञेय जुओठो जाणोठो, ते तमारी लोकालोक विलोकी ज्ञायकता शक्तिमां तमे परमानंदी ठे. संसारी जीवो पोतानी पूरण शक्ति जाणता नथी तो तेने ए आनंद शानो होय ? ॥ ५ ॥

असंकुचीत सकल ज्ञेयथी, मोकल महेल आणंदीरे ॥  
नित्य शौच शिव ब्रह्मानंदी, सुमती प्रशमाणंदीरे ॥ मुजगा ॥ ६ ॥

अर्थ:—तमारी ज्ञायकता रूप चिद्आकाशमां लोक अने अलोक  
सर्वे समाय ठे. अने एवा अनंता लोकालोक होय तो पण तमारी  
ज्ञायकता असंकुचीत के० सांकडी थाय नहि, एवो तमारो सत्ता-  
ज्ञूमिरुप अटुट, अखंड, अलोकिक वज्रमय मोकलो महेल ते माहे  
ज्ञायकतारुप अलोकिक गुणपर्याय रूप मणिमय सिंघासण उपर बिरा-  
जमान रह्या थका महेलनी मोकलाशने जोगवता परमाणंदी ठो.  
कोई काले कोईथी एमाहे संकडाश कराय एवं नथी तेम अन्य  
कोईथी प्रवेश पण कराय एवो नथी एटले एकांते शिवसुख जोगी  
ठो. अने संसारी जीवो एक पुद्गल उपर अनंतानी लूंटालुंटे ते परम  
शंकडाश. वली एक राजानो मेहेल हजार माणस रही शके एवो  
होय अने तेमां जो सो माणस वधारे आवे तो जरूर संकडाश थया  
विना रहे नहीं तेथी संसारी जीवोने मोकलाशनुं सुख नथी. उपर  
लख्युं के अनंता लोकालोक होय तो पण तमारी ज्ञायकता सांकडी  
थाय नहीं पण कांई अनंता लोकालोक होता नथी, लोकालोक तो  
जे ठे तेज ठे पण असत् कल्पनाए अनंता लोकालोकनो दृष्टांत आप्यो  
ठे. संसारी जीवनां शरीर, धन, कारण, कार्य, सर्वे अनित्य ठे पण  
ताहरे तो ताहरां धनादिक सर्वे नित्य ठे तेथी नित्यतानो आनंद ठे.  
शौच के० मलरहित एटले ताहारा अंग स्वप्रदेशसां के गुण पर्या-  
यमां पर पुद्गल द्रव्य परमाणु मात्र अगर तेना गुणपर्यायो आवी  
मली जाय नहीं एटले ताहरुं आत्म अंग तथा गुणपर्याय अमल  
के० मेल रहित शौच रहे ते निर्मलतानो ताहरे आनंद ठे पण  
संसारी जीवो मिथ्यात, अज्ञान, राग, द्वेषे करी पोताना गुण मलिन  
करेठे अने पुद्गल वर्गणा अही आत्म अंगने पुद्गलोमां क्षीर नीर  
पेरे एकमेक करेठे तेथी महा मलीनता जोगवेठे. संसारी जीवोने

अनेक तरेहना उपद्रव होय ठे पण ताहारा अंग के गुणपर्यायमां उपद्रव आवी शके नहीं तेथी ताहारे शिवपणानो अनंत आणंदठे. संसारी जीव अठार हजार जेदे अब्रह्म सेवता दुःखी थायठे पण ताहारे परम निवृत्ति सकलपर्याय निरावर्ण शुद्ध सिद्ध ब्रह्मरूप प्रगट अयुं तेथी ताहारे पूर्ण ब्रह्मानंद ठे. संसारी जीवने परद्रव्यमां अहं-पणुं होयठे तेथी आत्म तत्वथी वेगळी मतिरूप कुमतिनुं दुःख ठे, वळी संसारी जीवो कषायमां व्यापी कलुषता जोगवेठे तेथी तेमने प्रशमतानो आनंद नथी. पण ताहारे तो पोताना द्रव्य क्षेत्र काल जावमांहे पोतापणानी मती थई ते सुमतितो आनंद ठे. कषायादि अनंता दोष क्षय गया तेथी ताहारे विशेषे शांती थई ते ताहारे प्रश-मतानो आनंदठे ॥ ५ ॥

अज्ञान तिमिर गयो सहु तेहथी, अखिल उद्योत  
आणंदीरे ॥ अवेद अज्ञेद अखेदानंदी, अखूट अटूट  
आणंदीरे ॥ मु० ॥ ७ ॥

अर्थः—संसारी जीवने अज्ञान अंधकारे करी अनेक प्रकारनुं दुःख ठे पण ताहारे अज्ञान तिमिर अयुं तेथी लोकालोक प्रमाणे ज्ञान उद्योत थयो तेथी ताहारे अखिल उद्योतनो परमानंद ठे. संसारी जीवने वेद उदयनी अग्नि बहु दुःख देठे पण तमे वेदनो सत्ताथी नाश कर्यो तेथी तमारे अवेद पणानो आनंद ठे. संसारी जीवोना तन मन घर आदि जेद पामे ठे एटले जेदाय ठे ( जागे टूटे ठे, जूदां पमे ठे ) अने ताहारे पोतानुं अंग अने ज्ञानादिक गुणो ठेदाता जेदाता नथी केमके ताहरुं अनंतपर्यायरूप धन अने ज्ञानादि गुणो, वल, सुख आत्म अंगथी जिन्न नथी, अज्ञेदपणे ठे, जुदा पडे नाहीं तेथी ताहारे अज्ञेदानंद ठे. संसारी जीवोना तन, मन, वचन, धन, स्त्रीआदिक खेद पामेठे एटले थाकी जायठे. पण ताहरुं अंग अने गुण पर्यायो

थाकता नथी तेथी अखेदपणानो आनंद ठे. संसारी जीवोनां धनादिक सुखनां कारण खूटी जायठे पण ताहरे ज्ञानादिक रिद्धि अने गुणोनो अद्दय खजानो खूटतो नथी तेथी अखूटानंद ठे. संसारी जीवोना हाथ, पग आदि अंग अने घर, घरेणादि वस्तु जागे टूटे ठे पण ताहरे तो पोतानुं अंग अने पोताना गुण पर्याय जागवा तुटवाना नथी तेथी ताहरे अटूटपणानो आनंद ठे ॥ ७ ॥

इत्यादिक बहु गूण अनंते, आणंद कंद आणंदीरे ।  
तुमचो आणंद तुमहीज जाणो, कीम जाणे मतिमंदीरे  
॥ मुज० ॥ ८ ॥

अर्थ:—इत्यादिक तुं अनंत गुणानंदनो कंद के० मूल तुं तेथी अनंत आणंद उपजावनारो तुं पोतेज आणंद तुं हे प्रभुजी ! तमारो आणंद तमे पोतेज पोताना केवलज्ञान दर्शने जाणो देखोठो पण माहरी मंदमति तमारा पूर्णानंदने शुं जाणे ? पण पोपटनी पेठे शीख्युं सांचव्युं ते में कह्युं. तमारो आणंद में अनुभवी जाणयो नथी पण में माहरो आणंद कांश्क अंशे अनुभव्यो तेथी तमारो साचो परमाणंद जाणवा मानवामां आव्यो ॥ ८ ॥

जाणो पण कही न शको निजगुण, तो हम किएविध कहीएरे । परम कृपा करी गुण गण दीजे, तो तुम गुण सवि लहियेरे ॥ मुज० ॥ ९ ॥

अर्थ:—हे प्रभुजी ! तमे तमारा पूर्ण गुणोना पूर्णानंदने जाणो ठो तो पण तमारा पूरा गुण तमे बीजा आगल कही शकता नथी. तो हुं शीरीते कहि शकुं ? वचन उच्चारमां आवे एवा वस्तुमां अनंत अजि-लाप्य धर्म ठे ते पण कोई पूरा कही शकतुं नथी. कदापी केवलीनुं केवलज्ञान देह अवस्थामां आठ वर्ष ओठा क्रोड पूर्व वरसनुं होय ते पूर्व क्रोडना असंख्याता समय थाय, ते असंख्याता समयमां अजि-



दाप्य धर्म अनंता ते पण एक जीच्याथी न कहेवाय. अने ते अजि-  
दाप्य धर्म करतां अनंतगुणा. अणअजिदाप्य धर्म ठे ते तो तमे पण  
वचनथी कही शको नहीं. तो तमारा गुणोनो आणंद हुं शीरीते कहि  
शकुं? पण परम कृपा करीने तमारा सरखा पूरण गुणो मने आपो तो  
तमारा सर्वे गुणो हुं जाणुं ॥ ए ॥

ठाने एकांते सुख जोगो, केम दयाल कहाशोरे । जो  
दयालता विरुद धरावो, मुज गुण दायक थाशोरे । मुज ० । १० ।

अर्थः—हे प्रभुजी ! तमे लोकांते एकांते ठानामाना पोते सुख जोग-  
वोठो. पण तेमांनो अंशमात्र हमने तो आपता नथी तो दयाल  
शी रीते कहेवाशोरे? तमे दयालतानुं विरुद धरावो ठो तो मने गुणना  
दातार थशो. आ वचन बाल लाडनुं ठे पण प्रभुजी तमे तो प्रथम-  
थीज मने समकितादि गुण दातार थया ठो एटले तमारो पूरण  
उपगार ठे. पण ते समकितादि सर्वे शुद्धात्म गुणो पूरण पामवाने हुं  
बाल लाडमां वोळुं हुं ॥ १० ॥

करुणागर करुणा करी मुजने, गुण देई जग जश वीजेरे ॥  
मनसुख शिवसंगे शिव जोगे, नमी जिनवर तुज रींजेरे ॥  
मुज ० ॥ ११ ॥

अर्थः—हे करुणाना जंडार ! करुणा करीने मने माहरा शुद्धात्म  
गुण आपी जगत्मां जश वयो. नमी जिनेश्वर ! तमारी रींजथी मनसुख  
शिवसंगे एटले उपद्रव रहित आत्मसत्ताचूमिमां रहेवी ज्ञान दर्शन  
चरणादि लक्ष्मी साथे शिव कल्याण जोगवे ॥ ११ ॥

॥ संपूर्ण ॥

॥ अथ द्वाविंशतिम श्री नेमिनाथजिन स्तवन ॥

परम पुरुष परमात्मा साहिबजी ॥ ए देशी ॥

नेम प्रभु सुणो वीनती साहेबजी, पावो पूरण प्रीत हो  
शिव सेज त्रमर थांसु विनती साहेबजी ॥ ए आंकणी ॥  
अष्ट पुरव त्रव प्रीतनो साहेबजी, क्षीणमां न दीजे बेह हो ॥  
॥ शिव० ॥ राजुल रागे विलपती साहेबजी, बहु विध दाखे  
स्नेह हो ॥ शिव० ॥ नेम० ॥ १ ॥

अर्थः—बावीशमा अरिहंत श्रीनेमनाथ स्वामी जदुकुलमां तिलक  
समान उग्रसेन राजाने घेर परणवा आव्या ते समय पशुओनो  
कारुण्य पोकार सांचली तेमनो बंध कापी रथ पावो फेरव्यो, ते  
जाणी राजुल मोटा पुरुषनो संयोग न थवार्थी विरहानलथी मूर्च्छा-  
गत थई. स्वच्छ थया पठी नेमनाथ अरिहंतने कहेबे के साहेब तमारे  
माहरी साथे आठ त्रवनी प्रीत बे ते प्रीती पूरण पावो. तमे माहरो  
कयो अवगुण देखी मने ठोडोठो? एक क्षणमां बेह केम आपोवो?  
तमारा विरह रूपी अग्नी ज्वाला हुं सही शकती नथी. माटे माहारा  
उपर करुणा करी पाणी ग्रहण करो. तमारी आझायी हुं अलगी  
नहि रहूं. तमारा सिवाय में स्वप्नमां पण बीजो कोई ईच्छयो नथी  
तो हवे मोटा पुरुषोए शेवकनी प्रतिपालना करवी जोईए. एम राग-  
त्रर विलाप करती बहु प्रकारे स्नेह देखाडती राजुल बोले बे के हे  
प्रभु! तमे माहरी अरज सांचलो. हे शिव सेजना जोगी त्रमर! माहरे  
ताहरायी ए अरज बे के माहरो हाथ ग्रहो ॥ १ ॥

नेम प्रभु कहे तुम सुणो चेतनजी, नहि थिर पुद्गल प्रीत  
हो मतिवंत राजुल सुणो शुभ नीती चेतनजी ॥ परपरि-

एति अपणी नहीं चेतनजी, ए जम अधिर अनित्य हो ॥  
॥ मतिवंत० ॥ १ ॥

अर्थः—नेमनाथ अरिहंत कहेठे के हे चेतना ! तुं साची प्रीतनी रीत जाण. हुं तने साची प्रीतनी रीत बतावुं तुं के जे प्रीतथी अनंताकाल परमानंद जोगी थईए. हे मतिवंत राजुल ! जे पुद्गल परिणतिठे. ते अनंत परमाणुथी थएली अनंत वर्णानो पींड ठे, परतंत्रठे. ए पुद्गल परिणतिनी प्रीत ते थिर नथी अने ज्ञान दर्शन चरण अनंत आनंदमय समजावामृत जोगने ए बगाडवावालीठे. ए रुडी नीती तुं सांजल अने जाण. ए परपरिणति आपणी नथी. ठतां आपणी मानीए तो नीती केम रहे ? एतो जड अधिर अनित्य ठे परदेत्री ठे. आत्म क्षेत्रे एनो संग रहे नहीं. ते ठतां पण रहेती होय तो पण ए मांहे जोगधर्म नथी. अने जोगधर्म तो आत्मा मांहे स्वक्षेत्रेठे. पुद्गल परिणति वडे आपणी कामना पूरण थती नथी तेथी पूर्णानंदने पामीए नहीं. माटे सुइ पुरुषोए एनुं ममत्व अने राग द्वेष करवो नहीं, अज्ञान अने मिथ्यात्वथी पुद्गल परिणतिने जली मानवी नहीं जगत्वासी जोला जीवोने स्पर्श, रस, गंध, रूप, शब्दनं मनोज्ञपणुं बतावी पठी पोताना परिणामे अमनोज्ञपणे परिणामी ज्ञानादिक थिर स्वतंत्र सुखने लुंटावावाली ठे एटले जग ठगणी ठे. एनाथी मतिमूढ होय ते चूके. एवी पुद्गल परिणतिमां शा माटे प्रीत ईच्छोठे ? पोतानी प्रीती पोताना स्वगुण पर्यायमां राखो पण पोताथी बाहिर करशो नहि. जो तुं मने पूरण हेतु जाणती होऊं अने माहरी पूरण प्रतित होय तो हुं तने अनुत्तर प्रीतनो मार्ग देखाडुं. एटले ताहरा उपर उत्कृष्टी प्रीत करुं ॥ १ ॥

निज ईच्छाए नवि चले ॥ चेत० ॥ ए तो जमचल एंठ हो ॥ मति० ॥ प्रीत रीत जम नवि लखे ॥ चेत० ॥  
फोक एकांते वेठ हो ॥ मति० ॥ ३ ॥

अर्थः—ए पुद्गल परिणति आपणी ईच्छाए प्रवर्त्ते नहि, आपणी राखी रहे नहि, आपणा सन्मुख प्रीत पण करे नहि, ए स्थावर अने त्रस जीवनी एंठ ठे. एटले सर्वे जीवोए लोही, मांस, हाड, चर्म, विष्टा, मूत्रपणे ए पुद्गलो अनंतीवार ग्रही परिणमावी ठोडे-ला ठे. जन्म, जरा, मरण, रोग, अनेक जयनुं कारण एज पुद्गल परिणति ठे, जे एने ठोडी शुद्धात्म तत्वमां रम्या तेज परम समाधिने पाम्या ठे. एने आपणे सेवीए ते बदलामां ए जड आपणा उपर प्रीत करी जाणती नथी. मूढ जीवो पोतेज राग द्वेष वडे एम माने ठे के हुं एनाथी सुखी थयो वली हुं सुखी रहिश. पण ए तो सुख देवामां के लेवामां जाणती नथी, जड प्रीतनी रीतने जाणे नहीं अने तेनी पाठी प्रीत विना ए साथे प्रीत करवानो श्रम करवो ते तो एकांते फोगट वेठ ठे ॥ ३ ॥

जेणे निज संपदा नविलखी ॥ चेत० ॥ ते मतिमूढ अजाण हो ॥ मति० ॥ पुद्गल परिणति आदरे ॥ चेत० ॥ दुःख-दानी दुःखखाण हो ॥ मति० ॥ ४ ॥

अर्थः—जेणे निजज्ञान वीर्यादि संपदा जाणी नथो ते जगमांहे मतिमूढ अजाण पुद्गल परिणति आदरे, पुद्गल परिणतिनो आदर करे एटले प्रीती करे. ते पुद्गल परिणति दुःखनी दातार अने दुःखनी खाण ठे ॥ ४ ॥

मूढ रम्य निज रूपमां ॥ चेत० ॥ रमण विना रह्या रंक हो ॥ मति० ॥ सहज स्वतंत्र स्वप्नावने ॥ चेत० ॥ चूक्या तेह निःशंक हो ॥ मति० ॥ ५ ॥

अर्थः—मूढ शुद्धात्म रम्यरूपमां रमण विना ज्ञान दर्शनादिक परमानंद विना रंक रह्या, भवरणमां रोलाया, ते पोताना सहज स्वतंत्र चिदानंद स्वप्नावने निःशंकपणे चूक्या. ज्ञानानंद रमण विना



प्रमाद अने कषायने पण हणी यथाख्यात चारित्रि पामी केवलज्ञाना-  
दिक चार अनंत प्रगट करी केवलज्ञान दर्शन थिरता अने अनंत  
वीर्य जोगी थई ठेवटे शैलेसीकरण करी सिद्धो, बुद्धो, परमनिवृत्ति  
पामो एटले अजंग सुख पामो ॥ ७ ॥

वचन सुण्यां श्री नेमनां ॥ चेत० ॥ प्रगट्यो बोध विनोद  
हो ॥ मति० ॥ परमानंद प्रगट थयो ॥ चेत० ॥ शुद्धातम  
अविरोध हो ॥ मति० ॥ ए ॥

अर्थः—एम परम करुणा अने परम प्रीति जरेलां श्री नेमनाथनां  
वचन सांजली ते वचन राजुलने सात धातुए परिणम्यां अने बोधरूप  
प्रमोद उपज्यो आत्म शुद्धतार्थी अविरोधपणे परमानंद प्रगट थयो.  
हवे मनमां विचारे ठेके हुं खोटी जगत् जीवनी एंठमां प्रीति चाहाती  
हती पण नेमप्रभुए माहरी साची प्रीती पाळी मने परतंत्रताना  
अनंत दुःखथी ठोडावी. एमनो हाथ माहरा हाथ उपर न थयो पण  
माहरा मस्तके थाथ्यो. एम मनमां संजम आदरवुं कबूल कर्युं ॥ ए ॥

पूरण प्रीती प्रभु करी ॥ सा० ॥ जाणीने निज दास  
हो ॥ शिव० ॥ तिम मूज पें प्रीती करो ॥ सा० ॥ जेम लहीए  
शिववास हो ॥ शिव० ॥ १० ॥

अर्थः—हे प्रभु ! तमे राजुलने पोतानी दास जाणी पूरण प्रीत करी  
तेम मने पण दास जाणी माहरा उपर पूरण प्रीती करो. जेम अमे  
उपद्रवनुं स्थानक देहादिकमांथी बूटी शुद्ध सत्ताचूमि उपद्रव रहित  
आनंदपुरीमां वास करीए ॥ १० ॥

मोटा संगे पामीए ॥ साहे० ॥ उत्तम लील विलास हो ॥  
॥ शिव० ॥ नेम प्रभु पूज्यां लहे ॥ सा० ॥ मनसुख शिवघर  
वास हो ॥ शिव० ॥ ११ ॥

अर्थः—तमारो पूर्वे राजुल साथे विषय संबंधी संबंध हतो पण राजुल मोटा पुरुषना संगे शुद्धात्म तत्व विलास पामी तेम जे कोई तमारा सरखा मोटा पुरुषनो संग करे ते उत्तम लील विलास पामे. नेमप्रचुनी आणा सेववाथी मनसुख उपद्रवरहित स्थानक शिवघर वास पामे ॥ ११ ॥

॥ संपूर्ण ॥

॥ अथ त्रयोविंशतिम श्री पार्श्वनाथजिन स्तवन ॥

मुरत दीठीरे मीठी पास जिणंदनीरे, सुरत लगी शुच  
ध्यान ॥ देखी पद्माशन नव वासन दुर गईरे, अक्षरथी अरथ  
विज्ञान ॥ मुरत० ॥ १ ॥

अर्थः—तेवीशमा श्री पार्श्वनाथ स्वामिनी मूरति आत्म अनुभव  
रूप अमृतनी मीठाशने आपनारी माटे मीठी. ते देखी हमारी सुरत  
धर्म शुक्ल शुच ध्यान तरफ पहोंची. जाणे परमेश्वर पद्मासने बेशी  
एम कहेता होय के जेम हुं परद्रव्य तरफथी द्रष्टि उठावी आत्मसत्ता  
मांहे द्रष्टि राखी परम समाधिने जोगवुं हुं तेम तमे पण परद्रव्य  
उपरथी द्रष्टि उठावी निज सत्ता स्थलमां द्रष्टि थिर करी धर्म शुक्ल  
ध्यान आदरशो तो परम समाधिने पामशो एटले पद्माशन देखीने  
हमारा पद्मासने बेशी ध्यान मुद्रा आदरवी ध्यानमां आवी. अक्षर  
देखीने जेम अर्थ याद आवे अने अर्थनो विशेषे बोध थाय तेमज  
तमारुं पद्माशन देखी मने थयुं. अने नव त्रमणनुं कारण जे मिथ्या  
वासना हती, देह इंद्रियादिकमां कार्य मान्युं हतुं ते नववासना  
दूर थई ॥ १ ॥

रागादिक जीते जिनवर परमात्मारे, जिन तनु तो जिन

नांहि ॥ जिन अरूपी रूपी मुरति तनुरे, अंतर वरु बेहु मांहि ॥

॥ मुरत० ॥ २ ॥

अर्थ:—जे पोतानी आत्म शुद्धताए करी रागादिक कर्मशत्रुने जीते तेज पोते अरूपी आत्मा जिन कहीए. अने अनंतज्ञान दर्शनादि परम ज्ञावने जोगवे माटे परमात्मा कहीए. जिन एज परमात्मा अने परमात्मा एज जिनेश्वर जाणवा. पण नामकर्मना उदये जे जिनेश्वरनुं शरीर ते पुद्गल वस्तु ठे ते शरीर शुद्धनये परमात्मा नहीं. जिनेश्वर तो अरूपी अमूर्त्ती परमात्मा ठे. पण शरीर ते तो रूपी अने मूर्तिवंत ठे. एटले शरीरमां अने परमात्मामां मोटो आंतरो ठे. शरीर तो अहिंयांज रहे अने परमात्मा तो लोकांते सादि अनंत सिद्धता जोगवे ॥ २ ॥

जिन तनु जिन कहिये उपचारथीरे, तेम जिन प्रतिमा सार ॥ नयण कचोलां समरस ज्ञर अमृत ठर्यीरे, जव दव ताप बुजावन हार ॥ मुरत० ॥ ३ ॥

अर्थ:—जिनेश्वरना परम औदारिक शरीरने उपचरित नयथी जेम जिनेश्वर कहीए तेम जिनेश्वरनी प्रतिमाने पण जिनेश्वर कहे-वाय. सार के० जेनां चहु समरसरूप अमृत रसे जरेलां कचोलां सरखां शांति वरसावतां ठर्या के० क्रोधाधिक विकार विना शांत अने थीर ठे. जाणे अमृत वरसावी जवदव ताप बुजावता होय एम देखाय ठे. अने जवदव ताप मटाववानुं कारण ठे. जेनी संगे स्त्री के हाथमां तलवार ढाल आदि कोई विकारनुं हथियार नथी. जेनुं मुख-कमल पुनमना चंद्रमानी पेठे शोची रह्युं ठे अने शितलता वरसावी रह्युं ठे. जेना हाथमां जपमाला नथी एटले जेने कोई वस्तुनी कामना नथी. जेने कांई पण कामना होय ते बीजा देवादिकने जपे पण परमेश्वरने तो सकल कामना सिद्ध थई ठे कोइ वाते अधुरापणुं नथो,



कोई दुःख टालवानुं नथी, सुखमां कोई प्रकारे उणता नथी तेथी. जपमालानुं काम नथी. जेने कोईनो ज्ञय होय ते ढाल राखे पण जिनेश्वरने तो सर्वे ज्ञय नाश थया ठे तेथी ढालनुं काम नथी. जेने माथे कोई शत्रु होय जेनुं कोई कांई ठीनी शके एवुं होय तो ते बाण, तलवार, भाला, सरीआ आदि हथियार राखे पण जिनेश्वरने तो सर्वे जीव मित्रसमान ठे जिनेश्वरनुं ज्ञानादिक तेमना आत्म अंगथी अटुट अजंग ठे ते कोईए पण लेवाय तेम नथी तो हथियार शा माटे राखे ? जेने कामादिक विकार होय ते स्त्रीआदिक पासे राखे पण कामादिक कोई विकार जिनेश्वरने नथी. माटे कोई पण पोतानी पासे राखवुं पडतुं नथी. एम अनेक दोषो गया तेने सोचवनारी अने अनेक गुणो प्रगट थया तेने पण सोचवनारी अने जिविजीवोने ध्यानरूप मोक्षमार्गने सोचवनारी, वली समद्रष्टि राखो एवुं सोचवनारी जिनेश्वरनी प्रतिमा निर्दोष ठे एम जाणवुं. अन्य देवो स्त्री हथियार आदि राखवाथी पोतेज पोतानी मेले जणावे ठे के अमे एवा दोषीला ठीए ॥ ३ ॥

जाती स्मरण जिन प्रतिमा देखी लहीरे, केइ तरीया संसार ॥ पापी तेह उथापी करी अंतरायनेरे, केम लहेशे जव पार ॥ मुरतण ॥ ४ ॥

अर्थः—कईक जीव जिनप्रतिमा देखी जिन दर्शन पामी, जाति-स्मरण पाम्या अने जवसमुद्रनो पार पाम्या. अने जिनेश्वरनी प्रतिमा उथापनारा, पूजताने अंतराय करी पोते अंतराय बांधी केम संसार पार पामशे ? अर्थात् अनंतकाल रखडशे ॥ ४ ॥

ज्व्यस्तव कारण ठे जावनुरे, जाव विना नहीं ज्व्य ॥ कारज सिद्धे कारणता नहीरे, स्यादवाद नहि गर्वा॥मुरतण॥५॥

अर्थः—ज्व्यस्तव ते भावनुं कारण कह्युंठे. पण भावविना ज्व्य

कहेवाय नहीं. जेथी ज्ञाव पामीए तेनेज द्रव्य कहीए. अने द्रव्यविना ज्ञाव पामीए नहीं. द्रव्य ज्ञाव अज्ञेद जाणवो. उक्तंच आचारांगे “जे आसव्वा ते परिसव्वा परिसव्वा ते आसव्वा” एटले जे द्रव्यथी आश्रवनां कारण होय तेज पलटीने संवरनां कारण थई शके ठे एटले संवरनो द्रव्य थाय ठे. अने जे द्रव्यथी संवरनां कारण होय ते संवरना परिणाम पलटीने आश्रवरूप परिणाम थवाथी तेज आश्रवनां कारण थई शके ठे एटले आश्रवनो द्रव्य थाय ठे. जिनेश्वरना मतमां कारण कार्य एक समय ठे तेम द्रव्य ज्ञाव पण एक समय ठे. ज्यारे मन विषय कषायमां कार्य मानतुं हतुं त्यारे ते मन आश्रवनुं कारण हतुं अने तेज मन शुक्लध्यानमां लाग्युं. त्यारे शुक्लध्याननुं कारण एटले संवरनुं कारण ठे. मन ज्यारे आश्रवनुं कारण हतुं त्यारे ते मन आश्रवनो द्रव्य हतो अने संवरनुं कारण थयुं त्यारे तेज मन संवरनो द्रव्य ठे. एमज श्रोत, चक्षु, जिज्यादि संवरनी वखते संवरनां द्रव्य ठे अने आश्रवनी वखते आश्रवनां द्रव्य ठे. पण श्रोत, चक्षु, जिज्यादि तो बने वखतमां तेनां तेज ठे एटले परमेश्वरनी प्रतिमा समकिली मोक्ष अचिलाषीने तो संवरनुं कारण थाय ठे अने प्रतिमा देखीने जेने द्वेष उपजे तेने तो बंधनुं कारण ठे एटले एकज वस्तु आश्रव अने बंध वनेनुं कारण थई शके ठे. माटे शुद्धात्म परिणामे जिनेश्वरनी प्रतिमा आगल चैत्य-वंदन, स्तवन करी जिनेश्वरना ज्ञान दर्शनादि गुणने जे स्तवेठे तेने संवरनुं कारण थाय ठे. ते जीवने धन्य ठे ! जे जीव ज्ञावधर्मने पाण्या अने ज्ञावस्तवमां ठे त्यारे तेने द्रव्यस्तवनी जरूर नथी एटले कार्य सिद्धया पठी कारणनी जरूर रहेती नथी. जेम घडो थया पठी तेज घडाने चक्रादिनी जरूर नथी. परमेश्वरनो स्याद्वाद मत ठे अहिंआं गर्वनी वात नथी माटे कोई जीवे गर्व करवो नहीं. जे स्याद्वाद मत कहो ते स्याद्वाद अजिप्राय ठे पण गर्व नथी ॥ ५ ॥

अर्थ लहे अक्षर लखी पंक्ति ध्यानमांरे, ध्यान मुंजा  
लखी तेम ॥ ध्यान उद्धास होय शुभ्र ऋव्यनेरे, ध्यानमां  
प्रगटे प्रेम ॥ मुरत० ॥ ६ ॥

अर्थ:—अक्षर ओलखी जेम पंडितजनो अर्थ ध्यानमां ले अने  
ध्यानमां प्रेम प्रगट थाय. तेम जिनेश्वरनी मूर्तिरूप ध्यान मुंजा देखीने  
ऋवि समकित्ती जीवोने शुभ्र ध्याननो उद्धास थाय अने आत्म शुद्ध-  
तानुं ध्यान करवामां प्रेम प्रगटे माटे प्रतिमा ते ध्याननुं कारणे ॥६॥

पास जिणंदनी प्रतिमा पारस रस समीरे, गुण फरसे  
गुण होय ॥ दर्शन ज्ञान चरण उद्धसे तुज गुणस्तवीरे, मन-  
सुख शिव मुख जोय ॥ मुरत० ॥ ७ ॥

अर्थ:—पार्श्वनाथ अरिहंतनी प्रतिमा पारस समान ठे. जेम लोढुं  
पारसने स्पर्शवार्थी कंचनरूप थायठे तेम ऋविजीव पार्श्वनाथनी  
प्रतिमा देखी पार्श्वनाथ अरिहंतना केवलज्ञानादि गुणो पोताना  
आत्म अंगे स्पर्शे तेना ज्ञानादिक गुणो निर्मल कंचनरूप थायठे.  
जिनेश्वरना ज्ञानादि गुणने स्तववार्थी पोताना दर्शन ज्ञान चारित्रादि  
गुणो उद्धसे के० सत्तामां रहेला गुणो निर्मल अई व्यक्तिपणे आवे  
एटले मनमां सुखे करी शिवमुख जोवे ॥ ७ ॥

॥ संपूर्ण ॥

॥ अथ चतुर्विंशतिम श्री महावीर जिन स्तवन ॥

प्रभु वीर वचन मनरंग, शुद्ध लब्धि सर्वीर्य उमंग ॥  
धरी दृढता ध्यान अचंग, निज आत्म गुण उबरंग ॥ सुहं-  
कर ऋव्य जिनपद सेवो, चखो गुण गण अनुभव मेवो ॥  
॥ सुहंकर० ॥ ए आंकणी ॥ १ ॥

अर्थः—चोवीशमा अरिहंत श्री महावीर स्वामीए उत्कृष्ट वीर्ये करी आठे कर्म विदार्या एहवा वीरस्वामिनां वचन मनरंगे आदरवां. उमंगथकी वीर्य फोरवीए तो आत्मानुं शुद्ध लब्धिवीर्ये उपर आवे एटले तीरोजावथी आवीरजावे आवे. प्रचुना वचनमां दृढता राखी ध्यानमां उमंग करे अथवा वीर्यनी दृढता राखी अखंड ध्यान करी आत्मगुण प्रगट करवानो उत्साह रंग राखीने हे ज्वीजीवो ! सुखने करवावालुं जिनपद सेवो एटले राग द्वेष अने ममत्व जीतवानो अज्यास करो. जेणे रागद्वेष अने ममत्व जीत्युं तेनेज जिनपद प्रगट थयुं माटे जिनपद सेवी ज्ञानादि आत्मगुण समुदायना अनुभव-रूप मेवो चाखो ॥ १ ॥

जवलग निज तत्त्व न जाण्युं, तव लग परमां सुख मान्युं ॥ हवे निज संपति मन आणो, निज शुद्धता शुद्ध पिठाणो ॥ सुहंकर ० ॥ २ ॥

अर्थः—ज्यांसुधी पोतानुं शुद्धस्वरूप जाण्युं नथी त्यांसुधी जीवो पुद्गल परिणतिमां सुख जाणी तेने राखवा आदरवा हिंसा, अलिक वचन, परद्रव्यहरण, अब्रह्म, परियह, आरंजादि अडारे पापस्थान तथा ए आदि अनेक दोषो खडा करी आठकर्मनो बंध करी ज्व च्रमणनुं दुःख उपजावेठे. हवे मनुष्य ज्व पाम्या, सुख साधवानो अवसर अने जोग मद्यो तेथी पोतानी स्वतंत्र सुखदायक संपदा मनमां आणो अने पोतानी शुद्धसत्ताने शुद्ध रीते ओलखो अने आदरो के ज्वदुःखनो अंत आवे ॥ २ ॥

तिरजक निज शक्ति विस्तारे, जिन जिन प्रदेश प्रकारे ॥ सहु समये उर्धता धारे, एम गुण परिणाम विचारे ॥ सुहंकर ० ॥ ३ ॥

अर्थः—आत्माना असंख्यात प्रदेशे ज्ञानादिक सर्वे गुणोना प्रति प्रदेशे अनंता अनंता अविज्ञागी ठतिपर्याय ठे. ते असंख्याता प्रदेशमां जेटला ज्ञानना ठतिपर्याय ठे ते सर्वे एकठा मलीने जाणवा रुप कार्य करे तेने ज्ञानगुण कहीए, ए ज्ञानगुणना पर्याय सर्वे प्रदेशे विस्तरेला फेलेला तेने तिरजक कहीए. अने ज्ञान गुण साथे ज्ञानना सर्वे पर्यायने परिचय ठे माटे तिर्यक परिचय कहीए. जिन जिन प्रदेशना ज्ञानना सर्वे पर्यायमांथी कोई प्रदेशथी ओठा अने कोई प्रदेशथी वधता एटले खट्गुणीहाणीवृद्धिपणे कार्य करवा सामर्थ्यपणे आवेठे ते ठतां ड्रव्य के गुण हलको चारे थतो नथी. ते अगुरुलघु गुण सर्वे प्रदेशे विस्तरेलो अने एक एक काम सरखी रीते करे माटे तिर्यक सामान्य पण कहीए. एम दर्शनादि अनंत गुणोना पर्याय क्षेत्र फेलावपणे विस्तरेला अने पोताना कार्यरुप गुण साथे परिचय अने पोताना कार्यमां सरखी रीते वर्ते माटे तिर्यक परिचय अने तिर्यक सामान्य पण कहीए एटले सर्वे गुणोनो तिर्यक सामान्य अने तिर्यक परिचय कहीए. जेम एक साटीनो घडो पेटु तलीयुं गळुंकाना आदि अनेक पर्याय सहित ठे. पण जे पेटानो प्रदेश ते तलीयानो नहि अने तलीयानो ते गळानो नहीं अने गळानो प्रदेश ते कानानो नहीं. पण घडाना सर्वे प्रदेशे घटपणुं विस्तरेलुं ते तिर्यक अने सर्वे प्रदेशे घटत्व सामान्य अने सर्व प्रदेशे घटत्वनो परिचय ठे अने जलधारणादि क्रिया एटले गुण तेनो पण सर्व प्रदेशे सामान्यपणे परिचय ठे माटे तेने परिचय अने तिर्यक सामान्य कहीए. मृदु ड्रव्यना सो घडा होय ते सोए घडा जिन जिन क्षेत्रे ठे पण मृदु ड्रव्यने जिन जिन प्रदेशे रहेला जिन जिन घना साथे परिचय ठे अने सर्वे घनामां घटत्व तथा मृदुत्व सामान्य ठे एटले क्षेत्र जेदे तिर्यक कहीए. अने सर्वे घनामां मृदुत्व तथा घटत्वपणुं सामान्य अने सर्वे घनाथी परिचय माटे तिर्यक सामान्य अने तिर्यक परिचय कहेवो. ए प्रमाणे जीव ड्रव्य अने ज्ञानादिगुणोनो

जिन्न जिन्न प्रदेशे विस्तार तेथी तिर्यक अने सामान्यपणे द्रव्यगुणने सर्वे प्रदेशानो संबंध माटे तिर्यक सामान्य अने तिर्यक परिचय पण कहीए. शक्तिनुं क्षेत्रे विस्तरवुं ते तिर्यक कहीए, शक्तिने पोताना सर्व क्षेत्र साथे संबंध तेथी परिचय कहीए. अने ते सर्वे क्षेत्रे शक्ति सामान्यपणे तेथी सामान्यपण कहीए. जिन्न जिन्न प्रदेश प्रकारे के० आत्म द्रव्यने असंख्यात प्रदेशे अगुरुलघुनुं खट्ट गुणी हाणीवृद्धिपणे ओठा वधतापणे परिणमवुं एटले एक प्रदेशे बीजा प्रदेश करतां अगुरुलघुनी संख्यातगुणी हाणी, तेथी बीजा प्रदेशे असंख्यातगुणी हाणी वली बीजा प्रदेशे अनंतगुण हाणी चोथा प्रदेशे संख्यातमे जागे हाणी पांचमा प्रदेशे असंख्यातमे जागे हाणी, षष्ठा प्रदेशे अनंतमे जागे हाणी एम ठ प्रकारे हाणी तेम ठ प्रकारे वृद्धि पण परिणमे ठे एम जाणवुं. ए हाणीवृद्धिए करी प्रदेशानी जिन्नता पडेठे अने अगुरुलघुना अखंड चक्रे करी द्रव्यनी जिन्नता पडेठे. जीव द्रव्यना सर्वे प्रदेशाना अनंत अनंत पर्यायमांथी खट्टगुणीहाणीवृद्धिपणे पर्याय तीरोजावथी आवीरजावमां आवेठे अने नवे नवे समय नवि नवि कार्य परिणति ते उर्धता कहीए. ते नवि नवि कार्य परिणतिने द्रव्य साथे अने गुण साथे परिचय सामान्यपणे ठे. जेम ज्ञानगुण नवे नवे समय नवा नवा ज्ञेयने जाणे पण ज्ञानरूपे रहे, अन्यरूपे थाय नहीं. ज्ञान गुणनो तथा स्वद्रव्यनो सामान्यपणे परिचय रहे तेथी उर्धता परिचय कहीए. तिर्यक-मांथी आवीरजावमां आवे ते उर्धता अने ज्ञानना पर्यायने ज्ञान गुण साथे अने जीवद्रव्य साथे परिचय ते परिचय कहीए अने ज्ञानना पर्याय जाणवा रूप कार्यपणे सर्वे समय सामान्य तेथी उर्धता सामान्य पण कहीए. जेम एक माटीनो घडो तेमांहे वस्तु जरी राखवाना तिरोजावे बती पर्याय रहेला ठे ते उर्धताए कोई समय धी ज्युं, बीजा समयमां तेल ज्युं, वली कोई समय मद ज्युं, एम

अनेक समय अनेक जुदा जुदा पदार्थ जरीए तो जराय, तिरजकजावे रहेली ठती पर्यायनी शक्ति नवे नवे समये नवी नवी आविरजावे उर्धतापणे आवें ठे ते सर्वे समयनी उर्धताने घटसाथे परिचय ठे. अने वस्तु जरी राखवानो गुण सर्वे समयनी उर्धतामां सामान्यपणे ठे ते उर्धता परिचय अने उर्धता सामान्य कहीए. वली सुवर्ण द्रव्यमां अनेक घाट थवानी तिर्यकपणे अनंत पर्यायनी ठती शक्ति ठे. नवे नवे समय नवा नवा घाटनी उर्धता थाय ठे. ते उर्धताने सोना साथे सर्वे समय परिचय ठे ते उर्धता परिचय जाणवो. घाट थवानो गुण सर्वे समयनी उर्धतामां सामान्यपणे ठे माटे उर्धतासामान्य पण कहीए. एम द्रव्यना परिणाम जाणवा विचारवा. कोई द्रव्यनुं तिर्यकपणुं अने उर्धतापणुं अन्य द्रव्यमां जतुं आवतुं नथी. माटे पोतानी तिर्यकपणानी अने उर्धतापणानी शक्ति व्यक्ति सर्वे समय स्वतंत्र पोतामां ठे. ॥ ३ ॥

ठती पज्जव सहु परदेशे, गुण गुणना अनंत विशेषे ॥  
प्रति गुणना पज्जव जेता, मली काज करे सहु तेता ॥  
सुहंकर० ॥ ४ ॥

अर्थः—द्रव्यना सर्वे प्रदेशे सर्वे विशेष गुणना अविजागी ठती पर्याय अनंता अनंता ठे. दरेक गुणना सर्वे प्रदेशना स्वजाती ठता अविजागी पर्याय जेगामलीने पोतपोतानुं कार्य सर्वे समय करे ठे॥४॥

निःप्रयासे कारज कारी, निजधर्मनो प्रभु अधिकारी,  
परपरिणति दूर निवारी, जिन्न जिन्न कारक गुणकारी ॥  
॥ सुहंकर० ॥ ५ ॥

अर्थः—पोताना स्वपर्याय वडे प्रयास विना सर्वे समय ज्ञान दर्शन चरणादिक स्वगुणकार्य थयां करेठे. ते कार्यरूप निजधर्मना प्रभुजी तमे पोतेज अधिकारी ठे एटवे तमारा कार्यनो बीजोकोई अधि-

कारी नथी तथा पर द्रव्यना गुण रूप कार्यना तमे पण अधिकारी नथी एटले कोई द्रव्य केना कार्यनो अधिकारी नथी. मिथ्यात्वी जीव पुद्गल द्रव्यना कार्यना पोताने अधिकारी मानी जवन्नमण करता दुःख जोगवेठे. पण तमे तो पर परिणति ठोडी तेथी सर्वे समय सहज स्वतंत्र परमानंदी ठो. जीवद्रव्यमांहे ज्ञानादिक अनंत गुणरूप जिन जिन कार्यनां जिन जिन कारक ठे ते कोई समय अप्रवर्त्या रहेतां नथी एटले सर्वे समय स्वतंत्र प्रयास विना सहजे निज निज कार्य थयां करेठे. तेमांहे एक ज्ञान गुणनां ठ कारक दखीए ठीए.

(१) जेम ज्ञान गुणनुं जाणवा रूपी कार्य ते कार्यनामा पहेलुं कारक.

(२) ते जाणवा रूपी कार्यनो कर्त्ता जाणनार ज्ञान पोते ते कर्त्ता नामा बीजुं कारक.

(३) करण नामा त्रीजा कारकना बे जेद (१) उपादान (२) निमित्त.

(१) स्वप्रदेशे रहेला पोताना ठती पर्याय ते उपादान कारण.

(२) स्वपर ज्ञेय ते निमित्त कारण.

(४) नवे नवे समये नवि नवि वर्त्तनानी ज्ञायकता ते संप्रदाननामा चोथुं कारक.

(५) पूर्व वर्त्तनानी ज्ञायकतानो व्यय ते अप्रदान नामा पांचमुं कारक.

(६) ज्ञानना स्वप्रदेशादि ते अधिकरणनामा ठहुं कारक.

एम आत्माणां जिन जिन अनंत गुणनां जिन जिन कारक सर्वे समय विना प्रयासे पोत पोतानुं कार्य सहजे करे ठे एवो परिणामीक धर्म अनंता ठे. तेथी कोई समय कोईए कार्यधर्म पोतानी परिणामिकताए स्वपरिणामे परिणम्या विना रहे नहीं ॥ ५ ॥

गुण गुणनां कारक जूदां, निःप्रयास प्रवृत्ते शुद्धां ॥  
दृढ वीरज परम सहाये, समये परिणति बदलाये ॥ सुदं-  
कर ॥ ६ ॥



अर्थः—उपर प्रमाणे गुण गुणनां कारक जुदां जुदां ठे. ते सर्वे सुधां पौत पोतानां स्वकार्यने करे ठे पण अन्य गुणना कार्यने करतां नथी. अने कोई गुणने कोई गुणनी सहाय के मदद जोईती नथी. पण वीर्य गुणनी सर्वे गुणोने परम सहाय छे ते वीर्य अति द्रढ अचल ठे कोई समय चलायमान थतुं नथी. कार्य परिणति समय समय बदलाय ठे, नवा नवा कार्यने करे ठे. ते दरेक कार्यना कारक मांहे सप्तजंग विचारी लेवा, ते नीचे प्रमाणे.

(१) ज्ञानगुणनां खट्कारक ज्ञान कार्य कारकपणे अस्ति ठे. ते स्याद्अस्तिनामा. पहेलो जांगो.

(२) ज्ञानगुणनां खट्कारक ते दर्शनादि, वर्णादि, रागादि परकार्य कारकपणे नास्ति ठे. ते स्याद्नास्ति नामा बीजो जांगो.

(३) अने ए अस्ति तथा नास्ति बने जांगा समकाले ठे माटे स्याद्अस्तिनास्ति नामा त्रीजो जांगो.

(४) अस्ति अने नास्ति बने जांगा समकाले ठे तो पण समकाले वचनथी कही शकाय नहीं तेथी स्याद् अवक्तव्य नामा चाथो जांगो.

एम स्याद् अस्ति, स्याद् नास्ति, स्याद् अस्ति नास्ति, स्याद् अवक्तव्य ए चार जांगा थया.

(५) ज्ञान कारकने ज्ञान कार्य कारकपणे अस्ति कह्युं पण ए कारकमां तेज वखत समकाले नास्तिपणुं, एकपणुं, अनेकपणुं, ज्ञव्यपणुं, अज्ञव्यपणुं आदि अनेक पर्यायो रहेलाठे पण स्याद् अस्ति कहेवाथी एक अस्ति पर्यायज कहेवाथो अने बाकीना एकपणुं, अनेकपणुं आदि पर्यायो न कहेवाया तेथी स्याद् अस्ति अवक्तव्यनामा पांचमो जांगो.

(६) नास्तिपणुं एक उच्चारे समकाले मुख्यपणे कहुं पण तेज समये अस्तिपणुं, एकपणुं, अनेकपणुं आदि बीजा धर्म पण ठे ते वचनमां कहेवाया नहि तेथी स्याद् नास्ति अवक्तव्य नामा ठो ज्ञांगो.

(७) अस्ति नास्तिनो तो कोईक प्रकारे समकाले उच्चार थाय पण एकपणुं, अनेकपणुं, ज्ञव्यपणुं, अज्ञव्यपणुं आदि अनेक धर्म समकाले वचनमां न आव्या तेथी स्याद् अस्ति नास्ति युगपद अवक्तव्य नामा सातमो ज्ञांगो.

एम दरेक कारकमां जिन जिन सप्त जंगनो विचार करतां जे जे कार्यनुं कारक ते तेज रूपे यथार्थ जाणवामां आवे. पण एक कार्यना कारके करी बीजुं कार्य थाय नहीं. एम अनंत द्रव्यमां, गुणमां पर्यायमां, प्रदेशमां, कालमां, जावमां सर्वेमां सप्तजंग विचारीए तो पूर्ण शुद्ध विज्ञानघन बोध प्रगट थाय ॥ ६ ॥

पूरव परिणति व्ययपंती, नवली परिणति उपजंती ॥  
ध्रुव शक्ति शुधातम चासे, शुद्ध दर्शन ज्ञान प्रकाशे ॥  
सुहंकर ० ॥ ७ ॥

अर्थः—पूर्व समयनी कार्यनी परिणति वर्त्तमाने व्यय थायठे अने नवे समय नवि थाय ठे एटले वर्त्तमानमां नवि कार्यपरिणति उपजे ठे. एम पूर्व कार्यपरिणतिनो व्यय, नवि कार्यपरिणतिनो उत्पाद् अने सर्वे समय कार्यपरिणति ध्रुव एटले एकज समयमां उत्पाद् व्यय ध्रुव अनंतो ठे. विवहित समयमां पूर्व अनंत कार्यपरिणतिनो व्यय थयो, नवि अनंत कार्यपरिणति उपजी अने सत्ताए अनंती कार्यपरिणति ध्रुव ठे एवी पोतानी ध्रुव शक्ति शुधात्मानी पोताना शुद्ध दर्शन ज्ञान उद्योते पूर्वापर अने वर्त्तमान एम त्रिकाल सर्वे समयनी शुद्धपणे तमने चासे ठे ॥ ७ ॥

पजाव अविजागी अनंता, ते वरते सहज स्वतंता ॥

आप आपणुं काज करंता, परिणामिक धर्म अनंता ॥ सुहं-  
कर० ॥ ७ ॥

अर्थः—एम ताहरे अविज्ञागी अनंता पर्याय निर्मल सहज स्वजावे  
स्वतंत्रपणे सर्वे समय वर्तता पोतपोतानुं कार्य करेठे. एम अनंता  
स्वपरिणामिक धर्मनो ताहरे अनंतो आनंद ठे ॥ ७ ॥

परजाय त्रिकालना जेता, सहु डव्यना जाणे तेता ॥ निज  
पजाव निज आवासे, निज पुरण प्रजाय विदासे ॥ सुहं-  
कर० ॥ ८ ॥

अर्थः—लोकालोकना त्रिकालवर्तीना सर्वे डव्यना सर्वे पर्यायने तमे  
पोताना पर्याय वके स्वस्थानके रह्या थका जाणो ठो. तमारा  
स्वपर्याय परक्षेत्रे जता नथी तेम अन्य रुपी अरुपी सर्वे डव्यना  
सर्वे पर्याय तमारा स्वक्षेत्रमां आवता नथी तो पण तमे ते सर्व  
पर्यायने जाणो ठो. एम ताहरे पोताना पूर्ण पर्यायनो सर्वे समय  
अखंड विदासठे ॥ ८ ॥

थिर वीरज ठे थिरजकनो, उर्धताए कहिये नवीनो ॥  
नवि नवि परिणतिथी नवलुं, सत्ता थल वीरज अचलुं ॥  
॥ सुहं० ॥ १० ॥

अर्थः—ताहरुं वीर्य पोताना स्वप्रदेशे तिर्यकपणे एटले स्वप्रदेशे  
फेलावपणे अनंतु अचल ठे. पण ते तिर्यकपणे रहेलुं वीर्य नवि नवि  
परिणतिए उर्धतामां आवे तेथी नवुं नवुं कहीए पण सत्तास्थलथी  
वीर्य चलायमान थलुं नथी तेथी अचल वीर्य ठे ॥ १० ॥

तुं वीरज परमां न फोरे, राखे निज गुण गण ठोरे ॥  
डव्यांतर विरज न जावे, थिर वीरज सहज स्वजावे ॥  
॥ सुहं० ॥ ११ ॥

अर्थः—तुं पोतानुं वीर्यपुद्गल अने अन्य जीवादिकमां फोरवतो नथी पण पोताना गुण समुदायने ठेकाणे राखुं तुं. कोई ड्रव्यनुं वीर्य कोई अन्य ड्रव्यमां जतुं आवतुं नथी सहज स्वभावे वस्तु तत्वमां वीर्य थिर रहेते ॥ ११ ॥

फोर्युं वीरज हम परघरमां, सुख आव्युं नहि निज करमां ॥  
हवे तुज आणा शिर धरशुं, गुण गणमां वीरज वापरशुं ॥  
॥ सुहं० ॥ १२ ॥

अर्थः—पण हमे अज्ञानदशाए आत्मवीर्य परपुद्गलादिक घरमां फोर्युं तेथी ज्ञानानंदादिक स्वतंत्र शाश्वतुं निज सत्ता घरमां रहेतुं आत्मीक सुख हमारा हाथमां आव्युं नहीं एटले डाष्ट गोचर थया विना निज गुण गण कार्यमां स्वतंत्रताए वापरी शक्या नहि. हवे हे प्रजुजी ! ताहरी आज्ञा माथे चढावीने एटले कबूल करीने आत्मवीर्य आत्म-गुण समुदायमां वापरीशुं पण निजगुणथी बाहिर जवा देखुं नहीं-चल करीशुं नहीं ॥१२ ॥

चल वीरज करी दल बंधे, परपरिणति अधिर संबंधे ॥  
जग लाग्यो जूठे धंधे, तुज आणा विना निज ठंढे ॥  
॥ सुहं० ॥ १३ ॥

अर्थः—हे प्रजुजी ! ताहरी आज्ञा जे जाणता आदरता नथी ते पोतानी मति कटपनाए स्वठंदपणे चाली परवस्तुमां कार्य मानी, वीर्य चलायमान करी ज्ञानावरणादिक अनंत पुद्गल वर्गणा वांधी देह, स्त्री, धनादिक अधिर पुद्गल परिणतिना संबंधे अजाण जीवो दुःखीया रहेते. एटले ताहरी आज्ञा आदर्याविना जगत् जूठे धंधे लाग्यो ठे ॥ १३ ॥

पूरण पज्जव आरामी, तुं तो परपदनो निःकामी ॥ एम  
काल अनंतानंत, प्रजु पूर्णानंदे संत ॥ सुहं० ॥ १४ ॥

अर्थः—पण हे प्रभुजी ! तुंतो पोताना निर्मल ज्ञान दर्शन चरण वीर्यना अव्याबाध पूर्ण पर्यायमां परमारामीबुं अने परद्व्यादिक एटले परगुण पर्यायनी ताहरे अंशमात्र कामना नथी तेथी स्वतंत्र पूर्ण मग्नतामां बुं. एम अनंतानंतकालसुधी तुं पूर्णानंदे शांतिवंत बुं ॥ १४ ॥

सेवी महावीर महंत, लढीशुं हमे सूख अत्यंत ॥ विदसे मनसूख स्वतंत, शिव संगे सादि अनंत ॥ सुहं० ॥ १५ ॥

अर्थः—अनंत ज्ञान वीर्यवंत एवा महामहंत श्री महावीर स्वामीने सेवीने एटले एमनी आझा शुद्ध नये जाणी आदरी एटले आझा प्रमाणे वर्त्तीने हमे अंत रहित शुद्ध स्वतंत्र शाश्वत आत्मीक सुख पामीशुं. जे पुरुष पोताना मनमां सुखे करीने बहु विनये बहु आदर सन्माने वीर स्वामिनी आझाए वर्त्ते ते स्वतंत्र शिवमय परमाणंद सुख पामे ॥ १५ ॥

॥ संपूर्ण ॥

॥ कलश ॥

गावो गावोरे एम चौवीश जिन गुण गावो ॥

मोह महामल शत्रु हणी अड, कर्म जीती शिव पावो,

दर्शन ज्ञान चरण करी निर्मल, लब्धि पंच प्रगटावोरे ॥ एम चौवीश० ॥

नरजव सफल करो श्रुत सेवी, जेम संसार न आवो,

धीर वीर पुरुषारथ करी निज, कुमत प्रमाद हठावोरे ॥ एम चौवीश० ॥

गुण गातां आत्म गुण प्रगटे, सुमति रंग रमावो,


परधर जमतां काल व्यतित अति, चेतो सहज स्वजावोरे ॥ एम चौवीश० ॥

कामकुंज सम कदपलता ए, जिन गुण चिंतामणि जावो,

अनुजव रंग तरंगे उद्वसे, केवल शुद्ध स्वजावोरे ॥ एम चौवीश० ॥ ३ ॥

त्यागो विज्ञाव रहो निज जावे, सम्यक बीज ए वावो,  
 दिन दिन समरस अमृत सींची, फल निर्वाण उपावोरे ॥ एम चोवीश ०४  
 दोहद संवत ओगणीश त्रेशठ, अश्विन रंग जमावो,  
 शुक्ल एकादशी गुरुगुण रंगे, हरखत रंग वधावोरे ॥ एम ० ॥ ५ ॥  
 कस्तूरां आदि बहु जविने, जिन गुण गान सुच्छावो,  
 शुभ अवसर लहि रचना कीधी, जिन स्तवी क्लेश नसावोरे ॥ एम ० ॥ ६ ॥  
 जिन गुण गण केम शुणी शकुं पूरा, मुज मति बाल स्वजावो,  
 पण गुण एक स्तवे जन कोई, नाशे सर्व विजावोरे ॥ एम ० ॥ ७ ॥  
 प्रभु गुण लहि शिव संपति साधो, गुणी गुण निज अंगे लावो,  
 तीर्थपती गुणशुरू स्तवीने, मनसुख शिवपद पावोरे ॥ एम ० ॥ ८ ॥

समाप्त.





॥ चतुर्विंशतिम जिन चैत्यवंदन चौबीशी अर्थ सहित प्रारंभ्यते ॥

अथ प्रथम श्री रुषज्जिन चैत्यवंदन ॥ मंदाक्रांता ठंद ॥

॥ बोधाधारं रिखवजिनजी, वंदिए आदिनाथं ॥

॥ दाता त्राता ऋविकजनने, मूक्तिना मूल साथं ॥

॥ वीना खेदे स्वगुण रमणे, शाश्वतां सूख आपे ॥

॥ डव्ये ऋवे निजपर दया, आपमां आप थापे ॥ १ ॥

अर्थः—ऋविजीवोने शुद्धात्म तत्त्वना अने मोक्षमार्गना बोधना आधार एवा प्रथम तीर्थंकर रुषज्जदेव अरिहंत मोक्षमार्गना धोरी, ऋविजीवोने मोक्षमार्गमां प्रेरनारा वली गणधर आचार्यादि मारफते सारण वारण चोयणादि करावनाराने परम आदर विनय सन्माने वंदीए. ऋविजीवोने मोक्षमार्गना दातार अने नरकादिक कुगति अज्ञान मिथ्यात्व अने क्लेश ऋवत्रमणथी बचावनारा, धर्मनो अठार कोडाकोडी सागरोपमनो विरह जेणे निवार्यो अने आ अवसर्पिणीमां प्रथम मोक्षमार्ग बताव्यो. माटे मूक्तिना मूलकारण अने मोक्षमार्गनो साथ चलाव्यो तेथी मोक्षना साथ. जगत्वासी जीवो पुद्गल परिणतिमां खेद करी करीने मन वचन कायानी प्रवृत्ति करी जे पुद्गल परिणति आपणी करी उपजती नथी, आपणी राखी रहेती नथी, आपणी ईच्छाए चालती नथी, आपणा क्षेत्रमां आवी शकती नथी, आपणे एना उपर हेत करीए, राग करीए पण ए आपणा उपर पाबुं हेत करी शकती नथी अने आपणे एने राखवा, भोगववा, सुख लेवा मोटा मोटा मनोरथ करी श्रम करीए ते फक्त वर्तमाने अने आगामी काले दुःखनुं कारण थायठे. ते दुःख मटाडवा करुणा निधान अरिहंत देवे आपणुं शुद्धात्म तत्त्व तेज शुद्ध ध्येयमां विना खेदे रमण करवुं बताव्युं तेथी स्वतंत्र शाश्वत आत्मीक ज्ञान वीर्यादिक



अनंत सुख प्रगटे माटे विना खेदे शाश्वत सुख आपे. वडी स्वपर  
जीवना द्रव्य प्राण अने जाव प्राणनी दया बतावी आत्माने आत्म  
जावमां थापे. जे जीव द्रव्यथी अने जावथी स्वपर प्राणनी रक्षा  
करता नथी अने हाणी करे ठे ते ज्ञानावरणादिक कर्म बांधी चौद-  
राज लोकमां चवत्रमण करी दुःख सहेता कोई स्थानके थिरता  
पामता नथी. पण हमारा आदिनाथ साहेब आत्माने आत्मशुद्धता  
बतावी पोतानी आत्म शुद्धतामां थापेठे ॥ १ ॥

॥ सारे वारे चवजलधिथी, पाप संताप कापे ॥

॥ में तो जेठ्यो त्रिचुवन गुरु, सिद्धिनां सुख आपे ॥

॥ तारी वाणी विमल मतिए, शुद्धता राखि साधे ॥

॥ पामे रिधी शिव मनसुखे, अंगमां रंग वाधे ॥ १ ॥

अर्थः—परमेश्वर चविजीवोने रागादि चवजलमां बुडतानी संजाल  
करी वारे. अने अठारे पापस्थानक सेववाथी जे पापनो ताप उपजे ठे  
तेथी ठोडावी आत्मशुद्धतामां रमण करावी पाप अने संतापने कापे  
ठे. एवो त्रण चुवननो गुरु पूर्व पुण्यपसाये में अंतर नयणे जेठ्यो.  
जे आत्म रिद्धि अने सिद्धिनां सुख आपनारो ठे. हे जिनेश्वर !  
ताहरी वाणी निर्मल मतिए चित्तनी शुद्धता राखीने जे साधे ते  
मनमां सुखे करी उपद्रव रहित आत्म सिद्धि पामे अने निज आत्म  
गुणोमां रंग वाधे ॥ १ ॥

अथ द्वितीय अजितजिन चैत्यवंदन ॥ मालिनीवृत्तम् ॥

॥ परम अजित वंदो, सिद्धिना सुखदाता ॥

॥ कुगति कुमति कापे, चव्यना हेतु त्राता ॥

॥ विमल वदन वाणी, चव्य जेणे पिठाणी ॥

॥ अतिशय हित आणी, साधिए सुखखाणी ॥ २ ॥

अर्थः—जे रागादिक शत्रुजं जगत्वासी अनंत जीवोने जीती पोताने तावे करी जवनाटक नचावे ठे. एवाने पण तें सहज लीलामां जीत्या माटे परम अजित एवा अजितनाथ स्वामी जविजीवोने आत्म सिद्धि सुखदाता ठे. जविजीवोने मोक्ष मार्ग बतावी कुमति अने कुगतिना. कापनार, जविजीवोने सुखना हेतु अने डुरित दुःखथी बचावनारा माटे ज्ञाताठे. जेना निर्मल वदन कमलथी स्याद्वादमय वाणी निकली ते वाणीने हे जविजीवो! जलखी अति-शय स्वपर हित आणीने साधिए तो अनंत सुखनी खाण ठे, अनंत सुखने उपजावनार ठे ॥ १ ॥

॥ नर जव लहि पूण्ये, सेविए सत्य देवा ॥

॥ मुगति सुगति हेते, साधिए नित्य सेवा ॥

॥ परम धरम जावे, शाश्वतां सुख आवे ॥

॥ मनसुख शिव पावे, आतमा आत्म जावे ॥ १ ॥

अर्थः—अनंतकाले प्रभुत्व पुण्ये उत्तम मनुष्य जव, आर्य क्षेत्र पाम्या. हवे अनंतज्ञान न्याय अने दयावंत एवा साचा देवने सेवीए षटले तेमनी आज्ञा सेवीए—सन्मानीए—कबुल करीए. जेनी आज्ञा आपणाज सुखना माटे ठे माटे ते आज्ञा सेववा—आदरवामां प्रमाद करीए नहि. ज्ञानावरणादिक कर्म थकी मुकाववा माटे अने मोक्ष हेतु उत्तम गति पामवा अर्थे ते उपकारीनी सेवा थिर जावे साधीए. जो आत्मा पोते परद्रव्यादिनुं ममत्व तजी आत्माना परमजाव रूप परमधर्मने जावे तो शाश्वतुं सिद्धिनुं सुख पामे. जे जीव मन-मांहे सुखे करी जिनेश्वरनी आज्ञा प्रमाणे मार्ग आराधे षटले आत्मा पोताना निर्मल जावने जावतो सिद्धि पामे ॥ १ ॥

॥ संपूर्ण ॥

શ્રી સંનવનાથ જિન ચૈત્યવંદન ॥ ડુતવિલંબિત ંદ ॥

સુમંત ઢાયક નાયક શાસનં, અખિલ આતમ ઢર્મ પ્રકાશનં ॥

પરમ શાશ્વત શર્મ વિલાસનં, કરમ આઠ હરે નવ વાસનં ॥ ૧ ॥

અર્થ:—શ્રી સંનવનાથ સ્વામી સુમત કેઠ અનાદિ અજ્ઞાનવશે જીવ પોતાનું શુદ્ધ સ્વરુપ અણજાણતો અથિર પુદ્ગલ પરિણતિમાં અહંપણાની મતિ કરી તે પુદ્ગલ પરિણતિને પોતાની અને સુખ સ્થાનક માની તેમાં કર્તા ંોક્તા ગ્રાહકતા વ્યાપકતા રમણ આદિ કરી ઢુઃખી થઈ રહ્યો ઢે ંવી અહંપણાની મતિને ઢુર્મતિ અથવા કુમતી કહીં, તે ઢુર્મતિ ઢૂર કરવા સંનવનાથ અરિહંત નવિજીવોને અનંત ઢર્શન જ્ઞાન ચરણ વીર્યમયી આત્માનું અવ્યાવાઢ સ્વરુપ વતાવી સ્વઢ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ જાવમાંઢે મતિ કરાવે ંટલે સુમતિના ઢાતાર. વલી જિન શાસનના નાયક, આત્માના જ્ઞાન ઢર્શન વીર્યાઢિક અનંત પર્યાચને તથા નવે તત્ત્વોના જાવને પ્રકાશ કરનારા ંટલે આત્માના પૂર્ણ ઢર્મને પ્રકાશ કરનારા ઢો. ઉત્કૃષ્ટી શાશ્વતી આત્મીક રિઢ્ઢિનો વિલાસ કરનાર ઢો. જગત્વાસી જીવોને નવવાસના વશે આઠે કર્મનું વંઢન ઢે. તે નવવાસના અને આઠે કર્મને ઢૂર કરવાવાલા ઢો ॥ ૧ ॥

મમત મોહ વિનાશનકારણો, ઢરમસંનવ નર્મ વિઢારણો ॥

સકલ ઢેવ સુરાસુર વંઢિતં, કરત સંનવ ઢેવ મહા હિતં ॥ ૨ ॥

અર્થ:—સંનવનાથે પોતે આઢરેલો અને નવિસુખ હેતે પ્રરુપેલો શુદ્ધાત્મ ઢર્મ તે પરઢ્રવ્યમાં મમતા અને મોહ કેઠ અજ્ઞાન વશે પર-પરિણતિમાં મુંજાઈ રહેવું ં વંને ઢોષ ઢૂર કરવાને કારણ ઢે તથા અજ્ઞાન મિથ્યાત્વાઢિ નર્મને તોઢવાવાલો ઢે ંટલે સંનવનાથ સ્વામી પોતાના વચને કરીને નવિજીવોના અજ્ઞાન મિથ્યાત્વાઢિ ઢર્મને પોતે વિઢારવાવાલા ઢે. જેને સુરાસુર ચારે નિકાયના ઢેવે વંઢ્યા પૂજ્યા અર્ચ્યા ઢે. તે સંનવનાથ સ્વામી પરમ હિતના કરવાવાલા ઢે ॥ ૨ ॥

सहज आतम वीर्य उदासितं, पुरण संपति नित्य विदासितं॥  
रमण केवल ज्ञान सुदर्शनं, मनसुखे शिवहेतु सदा जिनं ॥ ३॥

अर्थः—जेने सहजीक आत्मवीर्य परम उद्व्लास पास्युं ठे एटले पूर्ण व्यक्त थयुं ठे. पोतानी पूर्ण आत्म संपतिनो सर्वे समय अखंड विदास ठे. पोताना एक अने निर्मल केवलज्ञान दर्शनमयी स्वज्ञाव मांहे रमण ठे. एवा जिनेश्वरनी आज्ञा जे जिविजीव मनमांहे सुखे करी परम आदरे सेवे तेने जिनेश्वर ते पोताना जेवा परमानंदनो कारण ठे ॥ ३ ॥

### संपूर्ण.

॥अथ चतुर्थ अजिनंदन जिन चैत्यवंदन ॥वसंततिलका बंद ॥

तारी कृपा लहि हमे अजिनंदणंसी, लाधी महा सहजनी  
निज प्रीति ज्ञासी ॥ नाठी दुरे कुमत तो सुमती प्रकाशी,  
जेत्यो हमे जगगुरु मुगती विदासी ॥ १ ॥

अर्थः—श्री अजिनंदन स्वामी हमे तमारी कृपा पास्या के तमे परमकृपा करी तमारा सरखुं हमारुं नित्य शुद्धात्म स्वरूप बताव्युं. तेथी हमारुं परम सहज स्वरूप हमोने लाध्युं, हमारी द्रष्टि गोचर थयुं. एटले ज्ञानादिक अनंत आत्मिक रिद्धि हमारा शुद्धात्म स्वज्ञावमां जाणी. पोतानुं स्वरूप जाण्याविना हुं अनादिकालथी अथिर पुद्गलोमां प्रीति करतो हतो. तेमारो प्रीति स्वज्ञाव चौदराज-लोकना अनंत पुद्गलोमां वखेरायो. पण हवे माहरुं शुद्ध स्वरूप जाणवाथी माहरो प्रीति स्वज्ञाव ताहरी आज्ञाए माहरा शुद्ध स्वभावमां लाग्यो एटले परद्रव्यथी प्रीति तोनी स्वज्ञाव एकत्वमां प्रीति करवी तेज परमसमाधिनुं कारण ठे एम चास्युं. अने

परद्रव्यादिकमां आत्मबुद्धि हती अने कार्य बुद्धि पण हती ते कुमती नाठी अने माहरा द्रव्य क्षेत्र काल जाव अने गुण पर्यायमां माहरापणानी मति थई अने कार्य पण निज द्रव्यादिकमां जाण्युं तेथी सुमती प्रकाशवंत थई. सकल कर्मथी मुक्त शुद्ध स्वप्नाव विदासी त्रिजगगुरूनी माहरे जेट थई ॥ १ ॥

आणा रसे थिर रहे ज्ञवि सिद्धि पावे, नासे महा दुरित जो शुध शक्ति जावे ॥ जेने तुठो तुंहि सदा थिर पाप जावे, जेटी तुजे मनसुखे शिव संग लावे ॥ २ ॥

अर्थः—जे ज्ञवी जीवो ताहरी आणाना रसीआ थई ताहरी आणा प्रमाणे शुद्ध उपयोगे थिर रहे ते परम सिद्धि समाधि पामे. तमे बतावी जे शुद्धात्म शक्ति ते बहिरात्म जाव तजी अंतरआत्ममां थिर रही आत्मानी परम आत्मतारूप शुद्ध शक्ति जावे तो तेनां मोटां मोटां दुरित उतावलां नाश पामे. वली जेना उपर तुं तुष्टमान थयो अने जेने ताहरां वचन परम आदरे आदर्या अने सदा ताहरा वचन प्रमाणे शुद्ध साध्य साधनामां जे लाग्या तेनी परिणति परसंबंधथी बूटी पोताना स्वरूपमां लीन थाय. तेने थिर संचित पाप तत्क्षणे नाश पामे. जे प्रचुने मनमां सुखे आनंदे जेटे ते उपद्रव रहित आत्मानी परिणति पोताना साथे करे ॥ ३ ॥

संपूर्ण.

अथ श्री पंचम सुमतिजिन चैत्यवंदन ॥ राग हरिणी ठंड ॥

॥ सुमति जिनने पाये लागूं, महा ज्ञय वारणो ॥

॥ वर विमल में वाणी जाणी, लह्यो ज्ञव तारणो ॥

॥ सकल सुखनो दाता तुं ठे, मने शुद्ध ज्ञावनो ॥

॥ ज्ञविक तुजने सेवे ठे जे, शुधात्म पावनो ॥ १ ॥

अर्थः—अनंत सुमतिना धणी रागादिक कर्म शत्रुने जीत्या एवा श्री सुमतिनाथ स्वामी पांचमा तीर्थकरना पाये लागु के० ते सुमति जिनेश्वरनुं चरण स्वज्ञावाचरणमां प्रवर्त्यु तो हुं पण सुमतिनाथ जिनेश्वरना स्वज्ञावाचरणमांहे लागुं ( मंडु. ) अगर् सुमतिनाथना चरण कमलमां शिष नमावुं एटले सुमतिनाथनुं आचरेलुं स्वज्ञावाचरण मस्तके चढावुं. ते सुमतिनाथ अरिहंत जन्म, जरा, मरण, अज्ञान, मिथ्यात्व, क्लेश आदि महाजयथी बचाववावालो ठे. वर प्रधान निर्मल सुमतिनाथनी वाणी में जाणी. ते सर्व वस्तुने शुद्ध नये साक्षात्कार बतावनारी वली माहरा शुद्धात्म तत्वने बताववा वाली, तेथी में सुमतिनाथ अरिहंतने जवसिंधुथी तारवावालो जाण्यो. तुं सर्वे जीवने पूरण सुखनो दातारहुं. मने शुद्धात्म ज्ञावनो दातार हुं. जे जवि जीवो तमारी आज्ञा सेवे ते आत्म शुद्धता पामी पाप रहित थाय ठे एटले निर्मल थाय ठे ॥ १ ॥

॥ विमल मनमां धारे वाणी, लहे सुख खाणिते ॥

॥ अखिल दुःखने खोवे ठे ते, शुधात्म जाणिते ॥

॥ तुज समयमां ज्ञाप्या ठे जे, जिवादिक सारठे ॥

॥ शिव मनसुखे पामे ते तो, सदा सुखकार ठे ॥ २ ॥

अर्थः—ताहरी विमल के० मोहनीनी अष्टावीशे प्रकृति रहित अने अज्ञान रहित स्याद्वादमयी वाणीने सांजली मनन निदिध्यासन करे ते अनंत सुखनी आवदानी जेमां ठे एवी शुद्धात्म ज्ञावरुप सुख-खाण पामे. ते जीव आत्म शुद्धता जाणीने सर्वे प्रकारना दुःखनो दाय करे. तुज समय के० ताहरा प्ररुपेला सिद्धांतमां जीवादिक पदार्थो जरूर जाणवा लायक जे सार ठे ते पामीने मनमां सुखे समाधाने मोक्षमार्ग आराधि उपद्रव रहित आत्म समाधि पामे माटे ताहरी वाणी सदा सर्वेने सुखनुंज कारण ठे ॥ २ ॥

॥ संपूर्ण ॥

॥ अथ श्री षष्ठम पद्मप्रचु चैत्यवंदन ॥ शार्दूलविक्रीमित् बंद ॥

॥ जेव्या आज हमे महान प्रचुजी, आसुं सुखी तो हवे ॥

॥ राखो लाज हवे सदाय हमची, म्हारे तुं सिद्धी सवे ॥

॥ साचो ए जश ठे कदा न चुकिए, जूठोनि आशा टली ॥

॥ म्हारे नाथ तुं ठे चुळुं नहि हवे, जेला रहोने मली ॥ १ ॥

अर्थः—त्रण जगत्मां मोटा देवाधिदेव एवा पद्मप्रचु स्वामीने आज हमे जेव्या तो हवे सकल दोष रहित आत्म समाधि पामी सुखी थईशुं. ममता मोहादि मने क्षीणे क्षीणे ठले ठे तेथी चौदराज लोकमांहे हुं चटकी अनेक विधे अपमान पासुं हुं. हे प्रचु ! तमारा सरखो जगत्मां सर्वे काले सर्वे देशे परम दयाल बीजो कोई नथी. तो हवे हमारी लाज राखो एटले तमारा ज्ञानातिशय, वचनातिशय, अपायापगमनातिशय अने पूजातिशय पसाये हवे हुं मोहादिकथी खलना पासुं नहीं ए माहरी लाज राखो. मने तुं मढ्यो तो माहरे सर्वे सिद्धिज ठे. हे साहेब ! तमे अनेक जीवोने तार्या तेम माहारा सरखा रांकने पण तारो तो ए तमारो साचो जश ठे. ए जश हुं अनंतकालसुधी नहि चूकुं. जे परद्रव्यादिकमांहे कार्य, अर्थ, सुख आदि वतावे एहवा जूठाजनी आशा हवे मने नथी. माहरे माथे तुंज धणी हुं. हवे हुं तमने चुळुं नहि. माहारा मन मंदिरमांहे सदाए माहरी ज्ञायकता साथे रहो. माहरी ज्ञायकताथी समयमात्र पण अलगा थशो नहीं ॥ १ ॥

॥ ज्ञानानंदि जिणं नमो निरमलं, देवाधि देवं परं ॥

॥ नाशे मोह दुरे महेर प्रचुनी, साचो तुं शीवंकरं ॥

॥ जै जै जै जिन चंद पद्म वदनं, पद्म प्रजो जास्करं ॥

॥ मोटो एज उमेद ठे मनसुखे, आनंद होवे परं ॥ १ ॥

अर्थः—अनंत ज्ञानमां आनंदवंत सकल कर्म शत्रुने जीतेला  
सकल देवोमांहे परम देव परम निर्मलतावंत तेमने हुं उपशांत चावे  
वंदना करुं. ताहरी महेरथी दुष्ट मोह दूर नाशे एटले तुं साचो  
शिव कट्याण करवावालो तुं. सामान्य जिनोमांहे चंद्रमा समान  
रक्त पद्म सरखुं शोचायमान जेनुं मुख कमल एवा पद्मप्रभु रुप  
केवलज्ञान सूर्य सदा जयवंत थया, जयवंत ठो, जयवंत रहेशो. माहरा  
मनमां एज मोटो उमेद ठे के तमारा पसाये सुखे करि आत्मिक  
परमानंद पासुं ॥ २ ॥

॥ संपूर्ण ॥

॥अथ सप्तम श्री सुपार्श्वजिन चैत्यवंदन ॥ शिखरणी वृत्तम्॥

॥ सुपासं मुक्ती दं, सुर असुर सेवे विनयथी ॥

॥ सदा ध्यावे ध्याने, सुधिर मन योगे जय नथी ॥

॥ मने साचो स्वामी, मनुष जव पामी तुंहि मढ्यो ॥

॥ थयां सूखो साचां, जवज्रमणनो तो जय टढ्यो ॥ १ ॥

अर्थः—श्री सुपार्श्वनाथ अरिहंत मुक्ति दातारने चारे निकायना  
सुरासुर अने नरनारी किन्नर किन्नरीउण विविध प्रकारे बहुमान  
विनये करी सेव्या सेवे ठे अने सेवशे. हे जिनेश्वर ! तमारा शुद्ध  
स्वप्तावने जे सदाए ध्यानमां ध्याय अथवा शुद्ध स्वरूप मन थिर  
करी ध्यानमां सदा थिर राखे तेने जन्म, जरा, मरणादिक कोई  
प्रकारनो जय नथी. मने आ दूषम कालमां मनुष्य जव पामी साचो  
स्वामी तुंहिज मढ्यो तेथी माहरे माहरा हृदयमां साचुं सुख  
प्रगट थयुं. अने ताहरी आणा आंधारे हुं शिवमार्गे चालीश तो  
जवज्रमणनो जय गयो एम जाणवुं ॥ १ ॥



॥ धरुं ध्याने हुं तो, तुज गुण गणोने थिर मने ॥

॥ नहिं आर्त्ते रूडे, परिणति विगाडुं मुढपणे ॥

॥ खरी सत्ता जाणी, परिणति परायी दुर करुं ॥

॥ पुजी पूज्योने तो, शुभ मनसुखे हुं शिववरुं ॥ १ ॥

अर्थ:-ताहरा गुण समुदायने हुं थिर मने सदाय ध्यानमां राखुं. मूढपणे आर्त्त रौद्रध्यान अथवा अशुद्ध अध्यवसाय आदरी माहरी परिणति बगाडुं नहीं. माहरी आत्मसत्ता में साची जाणी. अनादिनो माहरे जे पुद्गल परिणतिनो आदर हतो अने कांश्क ठे ते ताहरा वचन आधारे जेदज्ञाननी शक्तिबडे पर परिणतिनो आदर सर्व दूर करुं. परम पूज्योने पूजी शुभ मने आणा अंगीकार करी सुखे करी शिव समाधि वरुं ॥ १ ॥

॥ संपूर्ण ॥

:o:

॥अथ अष्टम चंद्रप्रज्ञजिन चैत्यवंदन ॥ ईश्वरजा ठंदा॥

तुं तारु साचो जिनचंद्र देवा, कीजे हमे तो श्री जिणंद सेवा॥

आपे सदाए श्रुत ज्ञानमेवा, देख्या न एवा सुखशांति देवा ॥ १ ॥

अर्थ:-हे चंद्रप्रभु स्वामी ! जिविजीवोने संसार समुद्रथी तारनार एक तुंहीज साचो हुं. तो हमे श्री जिनेश्वरनी आणा सेवा आदरीए. चंद्रप्रभु पोते ध्यानानल धमी शुक्ल ध्याननी आंचे कर्मकाष्ठ प्रजाली निजात्म कंचन कयों अने चितमां परम करुणा आणी जिविजीवोने संसार समुद्र तरवा माटे पोतानी स्याद्वादमय श्रुती द्वाराए श्रुत ज्ञानरूप मेवो आप्यो. ते श्रुतज्ञान रूप मेवो चाखी जिविजीवो आत्मवीर्य उद्धासपामी केवलज्ञान दर्शनादि सिद्धि समाधि पामे. ताहरा समान सुखशांतिना दातार कोई क्षेत्रे अने कोई काले पण में देख्या नहि ॥ १ ॥

॥ मीथ्या मतीनो तजि संग दूरें, जेव्यो प्रचूने शुध तेज  
नूरे ॥ तारी सुआणा हृदये धरीने, पामुं सुखे हुं शिव  
सुंदरीने ॥ ९ ॥

अर्थ:-ताहरा वचनथी उलटा मिथ्या प्ररूपणा करनारा, विपरित वासना-  
वाला, मिथ्या आचरण करनारा, तमारा प्ररूपेला शुद्ध सममार्गथी उलटे  
मार्गे दोरनारा एवा मिथ्यात्वीओनो संग दुर करीने केवलज्ञान, केवल-  
दर्शन महातेज महानूरवंत, एहवा प्रचूने में जेव्यो.ताहरी रुडी आझा  
माहरा हृदयमां धारी आदरी सुखे करी हुं शिवसुंदरी पामुं ॥ ९ ॥

संपूर्ण.

:o:

॥ अथ श्री नवम सुविधिजिन चैत्यवंदन ॥ ललित बंद ॥

सुवधि देवने आज में लह्यो, सरव पापनो ताप तो गयो ॥

परम देवने सेविए ज्वी, अखय सूख ह्यो एहने स्तवी ॥१॥

अर्थ:-नवमा श्री पुष्पदंत स्वामीने में रुडी रीते आज जाण्यो के  
सकल दोष रहित अने ज्ञानादिक अनंत गुण सहित परम करुणावंत,  
संसार तारक, महागोप, महामाहण, महासथ्यवाह, महावैद्य, कर्म  
रोगने हरवावाला एम अनंत शांतिदाता जाण्यो. तेथी सर्वे पापनो  
ताप माहरा अंतरंगथी गयो एटवे ते पापनी जड जे मिथ्या चाव  
हतो ते अंतरंगथी दग्ध थयो. हे नविजीवो ! एहवा परम देवाधि-  
देवने सेवीने स्तवीने अक्षय अनाकुल अबाधित आत्मीक सुख पामो.  
जरम जागशे जागशे सदा, सुमति आपणी आवशे तदा ॥  
परम धर्मनुं मूल ए सही, सकल जंतुनी दो दया कही ॥२॥

अर्थ:-सुविधिनाथ स्वामीनी आझा सेववार्थी परद्रव्यमां अहं-  
पणानो जर्म, पुद्गलमांहे सुखनो जर्म ए आदि अनेक प्रकारना जर्म

मू  
मा  
ऊ  
क  
ए  
३

संन्यास योग

ज्या जागतो रहेसे त्तारे  
 कसे भरे सकस जंतुनी दो क्या  
 कसे काल प्राण गुजाशुज संकल्प  
 दुःखका के दोषीका करवा नहीं ते  
 जव क्या कही है तेमज पर जीवना एण जाव  
 कसे रह जव्य प्राणने हणवा नहीं, एज साची

३ ॥  
 करो, विमल संजमे उंधयी तरो ॥  
 मर ते छहे, मनसुखे सदा शांतिमां रहे ॥ ३॥  
 राखी जव्य जाव प्राणनी रक्षा करो एज सार  
 निमल संजम राखी संसार रूप समुद्रथी तरो, जे  
 करव पामी संजम रूप सार आदरे ते मनमां  
 सादि अनंत शुद्धात्म समाधि जोगी रहे ॥ ३॥  
 संपूर्ण

जिन चैत्यवंदन ॥ स्रग्धरा बंद ॥  
 भूत हर रवी प्रेम पूरे करीने ॥  
 शिव सुख करवा हेतु मोटी ठरी ते ॥  
 जवदधि रंग अंगो ने ॥  
 ॥१॥  
 नाथ

चेतना विदासने बतावनारा शितलनाथ स्वामी एज में मने सुखना कारण जाण्या. माटे सकल पुद्गल परिणति उपरथी प्रेम तोडी एकत्वपणे प्रचु साथे प्रेम जोमी प्रचु आझाए वक्तुं. तेमनी आझा सेववी एज मोटुं शिवसुखनुं कारण ठे. ए शिवाय बीजुं कोई मोक्ष सुखनुं कारण नथी. चार निकायना देवोए अने मनुष्य विद्याधरोए अंगमां रंग धरीने सदाए मोक्षने अर्थे एटले विष, गरल अने अन्योन्य अनुष्ठान आदि दोष तजी तद्हेतु अने अमृत जावे सेव्या. हुं एवा परम महंत देव प्रते पाम्यो. तेमना प्रतापथी मोह डुर नाशे, रुरी पाठो आवे नहीं. ॥ १ ॥

॥ शुद्ध सत्ता प्रकाशे, सकल दरवनी झूल नावे फरीने ॥

॥ नाशे चर्म उद्योते, चव तपत हरे सुख शांती चरीने ॥

॥ शाता आपे चवीने, शितलप्रचु नमो तारताने स्तवीजे ॥

॥ आज्ञे चेट्यो हमे तो, मनसुख शिवना हेतुथी जै लहीजे ॥

अर्थः—परमेश्वर सर्वे द्रव्यना धर्मनी शुद्ध सत्ता शुद्ध नये निक्षेपे अनेक प्रमाणे प्रकाशे तेथी सांचलनारने पाठी झूल नावे. जिनेश्वर केवलज्ञान रूप सूर्यना वचन रूप कीरणे जूठा चर्मरूप अंधकार नाशे. अने चवचरण करतां जीवोने जन्म, जरा, मरण, परतंत्रता, अज्ञान मिथ्यात्व, क्लेश आदि प्रयास ताप उपजे ठे ते पुष्कलावर्त्त मेघ सरखां अमृत वचन वरसावी चविजीवोना तापने हरे अने ज्ञान दर्शन चारित्र स्वतंत्र वीर्यादिनी सुख शांती चविजीवोना आत्म अंगमां पूरे. एम अनंती शाता शितलताना दातार शितलनाथ स्वामीने परम आदरे नमीए, चवीजीवोने तारनारने स्तवीए, एवा परम उपगारी शितलप्रचुनी आज माहरे चेट थई. मनसुख कहे ठे शिवसुखना हेतु जिनेश्वरथीज जय पामीए ॥ २ ॥

संपूर्ण

अथ श्री एकादशमं श्रेयांस जिन चैत्यवंदन ॥ हरिगितवन्द ॥

॥ श्रेयांस जिनवर दुरित दुखहर परम धर्म सुपावनो ॥

॥ शुद्ध ज्ञान दर्शन चरण रमणे परम सिद्धि उपावनो ॥

॥ जगं जंतु हितकर मोह तमहर विमल दिनमणि जावनो ॥

॥ मिथ्यात नाशे सुमति चासे मुक्ति मारग दावनो ॥ १ ॥

अर्थः—अगीआरमा श्रेयांस स्वामी विज्ञाव ग्रहणतानी दुरित अने तेथी उपजतां नवत्रमणादिकनां अनेक दुःख तेने दुर करवावाला ठे. निजात्म अनंत धर्म पूर्ण पर्याये प्रगट थयो तेथी सकल कर्म मल रहित पाप रहित निर्मल ठे. नविजीवोने शुद्ध ज्ञान दर्शन चरण रमण करावी परम सिद्धता उपजाववाना कारण ठे. जगत्ना जीवो उपर द्रव्य जावथी हित करवावाला ठे. पुद्गल परिणतिमां मुजाई रहेला जीवो पोतानुं स्वरूप जाण्याविना दुःख नोगवेठे ते मोहांधकारने नसाववा निर्मल दिनमणि (सूर्य) समान ठे. तमारा वचनथी नविजीवोने मिथ्यात नाशे. पोताना द्रव्य गुण पर्यायमां पोतापणानी मती थाय तेसुमती चासी कहीए. तेथी ताहराज पसाये नवी जीवो दाव राखी कर्म शत्रुने हरावी मुक्ति साधे ॥ १ ॥

॥ सुर इंद्र सेवे सूख लेवे सकल क्लेश नशावनो ॥

॥ निज रम्य रमणे रमण करता शुद्ध सिद्ध सुहावनो ॥

॥ विमल वदने वाणी वरसे देव इंद्रजि गरगमे ॥

॥ कुमति सय त्रय त्रेशठेना मान मीण परे गले ॥ २ ॥

अर्थः—प्रचुजीने देव अने देवोना इंद्रो तथा मनुष्य चक्रवर्त्यादिको सेवे तेथोना सकल क्लेश नशाववावाला ठे. ते जीवो तमारा चरण कमल सेवी शाश्वतां सुख लेठे, प्रचुजी पोताना शुद्ध गुण पर्याय रम्यरूपमां सर्वे शाश्वत समय रमण परिणामे रमण करता शुद्ध सिद्धतामां पूरण समाधिए शोभायमान ठे. प्रचुजी मणिमय

सिंघासन उपर बेसी निर्मल वदन कमलथी निर्मल स्याद्वादमय  
वचने वस्तु स्वरूप प्रकाशे. ते मेघ झडी पेठे शांती वरसावती वाणी  
वरसे ठे. ते समय आकाशमां देवडुंडुची गंजीर नादे गरगडे ठे. ते  
देखी त्रणसें त्रेसठ पाखंडीउं-उन्मार्गीउंनां मान अग्नि संजोगे जेम  
मीण गली वही जाय तेम गळे ठे ॥ २ ॥

॥ सुर अमरि नात्रे विनय साचे इंद्र चामर वींजता ॥

॥ परखदा बारै सेव सारे तत्व लहि मन रींऊता ॥

॥ उत्पाद व्यय ध्रुव त्रिपदि थापे पाप कापे त्रव्यनां ॥

॥ मनसूख रंगे शीव संगे जोग सूख अनंत ज्यां ॥ ३ ॥

अर्थ:-परम आदर साचा विनय सहित देव देवीओ जिनेश्वर  
आगल बत्रीश विधे अथवा अनेक विधे नाटक करे. अने इंद्रो  
चोवीश जोडा चामर वींजे, शिर उपर त्रण ठत्र धरे ए आदि अनेक  
शोजा होयठे. बार प्रकारनी पखंदा परमेश्वर पास मान मोडी हाथ  
जोडी सेवा सारेठे. अने परमेश्वरनां प्ररुपेलां तत्व पामी मनमां परम  
रींऊ पामेठे. पंचास्तिकाय अनंत द्रव्यना चिन्न चिन्न उत्पाद व्यय  
ध्रुवनी प्ररुपणा करी त्रिपदि थापे. तेथी स्वपर द्रव्यनी चिन्नता जाणी  
त्रविजीवो पोतानुं आत्मस्वरूप सिद्धसमान शुद्ध ध्येय ध्याई कर्म  
नाश करी सिद्धि समाधि पामे. माटे एज जिनेश्वर त्रव्योना सकल  
पापना कापनार दुर करनार जाणवा. एवा त्रिपदिना त्राव जाणीने  
मनमां सुखे रंगे करी मोक्षमार्ग आराधे ते सिद्धिस्थाने शिव-  
कमला संगे सादि अनंत जोगविलास पामे ॥ ३ ॥

॥ संपूर्ण ॥

॥ अथ श्री द्वादशम वासुपूज्य जिन चैत्यवंदन ॥ वंशस्थ ठंदा ॥

नमो सदा देव श्री वासुपूज्यने, दिए महाणंद हरंतु दुःखने ॥  
नमे खमे मूनि सवे शुद्धात्मथी, सुरी गणो आदर दे प्रमोदथी १

अर्थः—आत्माना निर्मल स्वप्रदेश रूप आणंदपुरी ज्यां आत्मानी अनंत खलङ्गी रहे ठे एवा शिवस्थानमां जेणे वास कर्यो एवा श्री वासुपूज्य स्वामीने सर्वे समय वंदणा करूं तुं. ते आत्मीक परमानंदना दातार अने सकल दुःखने दूर करवावाला ठे. जेने गणधर आचार्यो अने मुनिठ विगेरे सदा आत्म शुद्धताए नमे ठे, दोषो खमावेठे. अने आचार्योना समुदायो जेना वचनने परम प्रमोदे आदरे ठे ॥ १ ॥

दामा करो ध्यान धरो सुतानथी, दया समो धर्म कहीं कह्यो नथी ॥ तपे तरे ठे मुनिसं सुध्यानमां, करे क्रिया ज्ञान यथा समानमां ॥ २ ॥

अर्थः—ए माटे हे चवी जीवो ! तमे वासुपूज्य प्रभुनां वचन जाणी परम दामा धारण करो. ए प्रभुए जे शुद्धात्म ध्येय दर्शाव्यो तेनुं दृढ ध्यान धरो वली प्रभुना कहा प्रमाणे धर्म शुक्ल अथवा पदस्थादि आदरो. केमके जंतुनी दुविध दया समान कोई ठेकाणे बीजो धर्म कह्यो नथी. मुनिठ पोताना ज्ञान दर्शन चरणादि शुद्धात्म स्वभावमां तृप्तिवंत रही खद् खद् प्रकारे बाह्य अर्च्यंतर तप आदरे ठे ते संसार समुद्रथी तरेठे. अर्थात् मुनिओ निज शुद्ध स्वरूप ध्यानथीज तरेठे. ज्ञान अने क्रिया समजावे आदरे एटले जे ठेकाणे जे जाणी जे आदरवुं तजवुं पडे तेज प्रमाणे शुद्धात्म प्रशस्तताए हेय अने शुद्धात्म प्रशस्तताए उपादेय एटले आत्म शुद्धताथी अप्रशस्त जाव होय ते जाणी तजवा अने आत्म

शुद्धताथी प्रशस्त जावो जाणी आदरवा एटले एकांते क्रियानो के  
ज्ञाननो हठ नहीं एम समजवुं ॥ १ ॥

॥ संपूर्ण ॥

॥ अथ श्री त्रयोदशम विमलजिन चैत्यवंदना ॥ सुमुखी वंद ॥  
विमल जिनेश्वर वंदि नरो, करम खपावि सुज्ञान वरो ॥  
जगतजिवोनि दया करिए, सहज शुद्धतमता वरिए ॥ १ ॥

अर्थ:-हे नव्यजीवो ! जेणे पूर्ण आत्म गुण निर्मल कर्यो एहवा  
तेरमा श्रीविमलनाथ स्वामी तेमने वंदी के० तेमनी आज्ञा पोताना  
सर्वे उद्यमे परम पुरुषाकारे ( पुरुष पराक्रम वडे ) प्रमाद तजी आद-  
रवी ते वंधा कहीये. एम प्रचुने वंदी मिथ्यात, अविरति, प्रमाद  
अने कषाय सहीतनी क्रियाए उपजेलां ज्ञानावर्णादिक चार घन-  
घाती कर्म तेने क्य करी निर्मल ज्ञान पामो. जगत्मां रहेला जीव,  
चूत, सत्व, प्राणी स्वपर जंतुनी द्रव्य जाव दया करीए तो पोतानी  
सहज शुद्ध आत्म शुद्धता पामीए ॥ १ ॥

धरम हरे नव फंद सदा, नवि फरिए नवमांहि कदा ॥

परम स्वजाव सुथीर करो, विमल स आत्म लब्धि वरो ॥१॥

अर्थ:-विमलनाथ स्वामीए आदरेलो अने प्ररुपेलो ज्ञान चारित्र-  
रुप शुद्धात्मधर्म तेज नवफंदने के० आठे कर्मोना बंधनोने सदाए  
हरवावालो ठे. सर्वे काले ए शिवाय बीजी कोई रीते कर्म फंद कापी  
शकातो नथी. तो एवो उत्तम धर्म आदरी नवफंद कापी फरीथी  
दुःखदाइ नवकंतरमां न फरीए. पुद्गल संगे उपजेलो जे विजाव  
स्वजाव ते वडे पोताना ज्ञानादिक परमस्वजाव चल अने मलीन  
थया ठे माटे पर परिणतिनो ममत्व अने राग द्वेषादि तजीए  
तो पोताना ज्ञानादि परम स्वजाव स्थिर थाय. माटे जिनेश्वरनी



वाणी अवलंबने पोताना परम स्वभावने निर्मल अने स्थिर करो. तेथी परम निर्मल स्वध्यात्म लक्ष्मी एटले अनंत ज्ञान दर्शन सुख अने वीर्यादिक पामो ॥ २ ॥

॥ करम कलंक न को फरसे, सकल शुधातमता दरशे ॥  
शुकल शुधातम ध्यान धरो, मनसुख संग शिवं सुधरो ॥ ३ ॥

अर्थः—विमलनाथना वचनथी आत्माने पोतानी सकल शुद्धात्मता दरशे एटले करम कलंक मात्र तेने फरसे नहीं. माटे पूर्ण आत्म शुद्धता ध्यान धरो एटले मनमां सुखे करी आत्म शुद्धतानुं उपद्रव रहित सुख धारण करो ॥ ३ ॥

संपूर्ण.

—:—

अथ श्री चतुर्दशम अनंतनाथजिन चैत्यवंदना॥वैश्वदेवी वंद॥

दाता ते देवे ज्ञव्यने शुद्ध सिद्धि, तें तार्या प्राणी आपिने  
आत्मनिधि ॥ में ज्ञेट्या आज्ञे ज्ये अनंत जिणंदं, जे सेवे  
पामे ज्योति ज्ञानं दिणंदं ॥ १ ॥

अर्थः—चौदमा अनंतनाथ स्वामी ज्ञवीजीवोने शुद्ध सिद्धिना दातार ठे. जगत्मांहे लोको पंचइंद्रि विषय जोगना पदार्थो आपी दातार कहेवाय ठे पण ते पदार्थो अथिर अशुचि अने तन मनमां रोग उपजावनारा कर्मबंधना कारण ज्ञववनमां ज्ञमावनारा ठे. पण परमेश्वर तो अक्षयदान दातार ठे. अने एमनी सेवा करवावाला के टलाक नथी जाणता के जिनेश्वर तरफथी केटळुं दान मलशे पण जिनेश्वर तो अत्रित्य दान दे ठे. ते दान लई ज्ञविजीवो शाश्वता सुख वीलासी थाय ठे. माटे शुद्ध सिद्धिनो दातार होय तेनेज खरो दातार कहीए. तें ज्ञव्य प्राणीने आत्म निधान व्रतावी संसार समुद्रथी तार्या दुःख दालिअथी तारी स्वधने धनवंत कर्या, एवा अनंतनाथ

स्वामि के जे अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतसुख अने अनंत वीधिना धणी तथा अनंत जीवोनी सार संचाल करवा कराववावाला तैथी अनंतनाथ कहीए. तथा मोहनी कर्मना अनंत पर्यायरूप अनंत फोजने जीत्या माटे जिन कहीए एहवा अगीआरमा तथा बारमा गुणगणावाला उपशांतमोही अने हीणमोही जिन तथा चारे घनघाती कर्मनी अनंत फोजने जीत्या एहवा तेरमा गुणगणावाला सामान्यकेवली सजोगी जिन तेमांहे पण ईद्रसरिखा एटले जिन अने ईद्र ए बे शब्दनो समास ते जिनेंद्र कहीए. एहवा अनंतजिनेंद्र तेमनी आज माहरे भेट थई. ते साहेब जयवंता वर्त्तो. जे अनंतनाथ स्वामीने सेवे ते ज्ञानदिनकर ज्योती पामे ॥ १ ॥

सेवे जे एने मोह मारी खपावे, लेवे ते लाहो सिद्धिनां सौख्य पावे।ते ताजा साजा ध्यानमां धैर्य पावे, तारूनी जेते आणमां ल्ये लगावे ॥ २ ॥

अर्थ—जे ए प्रचुने सेवे ते मोहनीय कर्मने मारी ह्य करे. ते मनुष्यजवनो अने परमेश्वरना वचननो लाज ले अने सिद्धिनुं सुख पामे. तेनेज ताजा साजा कहीए के जे शुद्ध ध्येयमां धैर्य राखी द्रष्टी थीर करी अडोल ध्यान राखे. जे संसार तारक तीर्थकरोनी आज्ञामां लय लगावे तेनेज ध्याननी सिद्धि थाय ॥ २ ॥

सेवाना मेवा पामिये सेवि देवा, आज्ञा राखीशुं सिद्धिना सुख लेवा ॥ शोधी पाम्यो तुं पुण्यथी हाथ आव्यो, जेणे तुं जाण्यो पूजवा दाव फाव्यो ॥ ३ ॥

अर्थ:—देवाधिदेवने सेवीने ज्ञानदर्शनादि मीठा मेवा पामीए. सिद्धिनुं सुख लेवा माटे ए प्रचुनी आज्ञा सकल समय लक्ष्मां राखीशुं अर्थात् आज्ञा अतिक्रमीशुं नहीं. तारनारनी बहु शोध करवाथी

प्रच्युतव पुण्ये तारक हाथ आवी चड्यो ठे. जेणे ताहरुं शुद्ध स्वरुप जाण्युं तेज तने पूजी शके ठे एटवे शुद्ध स्वरुप जाण्युं तेनेज हाथ पूजवानो-दाव फाव्यो ॥ ३॥

संपूर्ण.

अथ श्री पंचदशम धर्मनाथ जिननुं चैत्यवंदन ॥ चंपकमाळा ॥

धर्म जिनेशं हे सुखदाई, शक्ति उपावे आत्म अमायी ॥  
केवल ज्ञानानंद उपावे, कर्म हणी ते तो सुख पावे ॥ ३ ॥

अर्थ:-ज्ञानादिक अनंत धर्मनो स्वामी अने शुद्धात्मधर्मनुं शासन चलावी जिवीजीवोने सुखदातार ठे. ते जिनेश्वरनो प्ररुपेळो धर्म संसार अटवीथी पार उतारनारो अने आत्मसिद्धतानो आपनारो माटे धर्म जिनेश्वर अने तेमनो प्ररुपेळो धर्म ए बनेनो जे आदर करे ते परम सुख पामे. ते आत्मा पोतानी अनंतशक्ति अमायीपणे रहि प्रगट व्यक्तिपणे उपजावे. केवलज्ञानादिकनो स्वतंत्र आनंद प्राप्त करी अष्टकर्मनो नाश करी पुरण सुख पामे ॥ १ ॥

धर्म करे शांती सहु साची, धर्मथि रिद्धी सिद्धि अवाची ॥  
धर्म सुध्याने ज्ञान निपावे, शुक्ल सुध्याने कर्म खपावे ॥ २ ॥

अर्थ:-धर्मनाथनो धर्म सर्वे साची शांती प्रगट करे. धर्मथी जीव, वचनथी न कहि शकाय एवी अमित रिद्धि सिद्धि पामे. वस्तु स्वत्ताव धर्म जाणवाथी जीवने पुरण ज्ञान उपजे अने रुमा शुक्ल ध्याने करीने कर्मनो दाय करे ॥ २ ॥

॥ धर्म करे जे ते जगशूरा, आत्म रिद्धी पाय सनूरा ॥  
सेवकने तुं तो शिव आपे, जो तुज आझामां मन थापे ॥ ३ ॥

अर्थ:-आत्मधर्म प्रगट करे तेज जगत्मां शूरा पूरा जाणवा एटवे

आत्मानां ज्ञान दर्शन थिरता आदि धर्म, अज्ञान, मिथ्यात्व अने कषायादिके दबेलो ठे ते अज्ञान मिथ्यात्व कषायादिने विज्ञान विवेके हणे अने दबाएलो आत्मधर्म प्रगट करे तेना समान शूरो अने पूरो पराक्रमी जगत्मां बीजो कोई नथी. धर्म कांई नवो करवो नथी. एटले धर्म ते कृत्रिम वस्तु नथी. अने कृत्रिम वस्तुनो तो नाश आय पण धर्म तो अकृत्रिम अक्षय अविनाशी ठे. ते आत्मसत्तामां रहेलो धर्म व्यक्तिपणे प्रगट करवो ते धर्म कयों कहेवाय. अने ए धर्म प्रगट करवा प्रशस्त कारण आदरवां ते पण कारणमां कार्यनो उपचार करी धर्म कयों कहेवाय. माटे द्रव्यथी अने ज्ञावथी जे धर्म करे ते शूरा कहेवाय. तेज तिदण बुद्धिवाला एटले सनूरा पुरुष शुद्ध निजात्म सिद्धि स्वतंत्रपणे पामे. हे जगवंत ! ताहरी आज्ञा सेवनारो सेवक ताहरी आज्ञामां चित्त थापीने जो अरहु परहु न करे तेने तुं शिवकव्याण आपे. पण जे ताहरी आज्ञा थिर चित्ते आदरता नथी ते तेनो पोतानोज दोष ठे पण ताहरी आज्ञा तो शिव आपनारी ठे ॥ ३ ॥

शांति सुधा ध्याने रह लावे, जे तुज ध्यावे ते शिव पावे ॥  
मो मन मानी ठे तुज सेवा, तो मुजने देशो शुभ मेवा ॥ ४ ॥

अर्थः—सकल क्लेशने अणआदरतो ताहरा शुद्ध स्वरूपमां लक्ष्मण दर्श शांत स्वज्ञावमां एटले समज्ञावरूप अमृत पीवामां जेने रह खागे अने ध्याननी थीरता राखी ताहरा शुद्ध स्वरूपने ध्यातो रहे ते उपद्रव रहित शुद्धात्म सिद्धता पामे. माहरा मनमां तो ताहरी सेवा आदरवी प्रसन्न ठे एटले में ताहरी आणा सेवा सन्मानी ठे. तो प्रभुजी तमे श्रुतज्ञान अने चारित्रनी थिरता अने केवलज्ञानादिक शुभ मेवा मने आपशोज एम जाणवुं ॥ ४ ॥

संपूर्ण.

अथ श्री षोडशम शांती जिन चैत्यवंदन ॥ शांतिनी वंद ॥

ध्यावो गावो गूण शांती प्रचूना, सत्ता जावो दुःख नाशे  
जवोना ॥ ध्याने ज्ञाने काज जव्यो सुधारे, नाशे कर्मो थीरता  
चित्त धारे ॥ १ ॥

अर्थः—अनंती शांतीना प्रचु एवा शांतीनाथ अरीहंतना ज्ञाना-  
दिक क्हांत्यादिक गुण गावो. एवा शांतीनाथ प्रचुना शुद्ध गुणपर्याय  
ते शुद्ध ध्येय, पोते धर्म शुक्ल ध्यान मांहे ध्यावो. अने एज प्रमाणे  
परद्रव्यना ममत्वविना अने राग द्वेषविना आपणो आत्मा शुद्ध  
ध्येय ठे अने जेनी सिद्धसमान सत्ता ठे ते पोतानी सत्ता शुक्ल  
ध्यानमां अचल उपयोग राखी जावो एटले आठेकर्मनो नाश थई  
जव जमणनुं दुःख मटे. परमेश्वरनी वाणीथी पंचास्तिकाय स्वरूप  
जाणी ते मांहे एक निज शुद्ध स्वरूपनुं ध्यान आदरी जवी जीवो  
निजात्म सिद्धि रूपी कार्य सुधारे ठे. पोताना शुद्ध स्वरूपमां चित्तनी  
थीरता करी सदा निज शुद्धता जावे तो सकल कर्म नाश थाया ॥ १ ॥

हिंसा त्यागे द्वीविधे खांति राखे, रंगे चंगे शुद्धता ज्ञान  
चाखे ॥ देवे सेव्या सिद्धिना सूख लेवा, सेवो जव्यो तारता  
शांति देवा ॥ २ ॥

अर्थः—मोक्षाच्छिलाषी जीव स्वपर जंतुनी द्रव्य जावथी दया  
आदरे अने द्रव्य जावथी बन्ने प्रकारे कृपा राखे. एम शुद्धात्म  
ध्येयमां जेनी परिणति रीज पामी ठे रंगाई ठे एवो पुरुष मनोहर  
शुद्धतानुं ज्ञान चाखे—अनुजवे. चार निकायना देवोए मुक्ति अर्थे  
शांतिनाथ अरिहंतने सेव्या ठे. तो हे भव्यो ! आपणे पण अन्य  
अर्थ त्यागी मोक्षअर्थे संसारथी तारनार शांतीनाथ प्रचुनी आज्ञा  
तन्मयताए सेववी ॥ २ ॥

हुं ते पाम्यो सेव साची प्रचूनी, जावे व्याधी एंठ माठा  
चवोनी ॥ जाणे माने आण जे तुज साची, सिधी पामे  
एहमां नांहि काची ॥ ३ ॥

अर्थ:—हुं शुद्ध ध्येयमां थीर उपयोग धरवा रूप शांतीनाथ  
अरिहंतनी साची सेवा पाम्यो. जेथी भवचव चमवानुं कारण  
मिथ्यात्वादिक अने जगत्जंतुनी एंठ पुद्गल परिणतिने ग्रहण करवी  
ते रूप व्याधि अने नरकादिक माठा चवोनी उपाधि सर्वे दूर  
जाय. जे ताहरी आज्ञा जाणे अने हृदयमां पोताना संवेदन ज्ञाने  
साची माने अने आदरे ते जीव सिद्धि पामे एमां कांई शंका नथी ।३।

॥ संपूर्ण ॥

—:—

अथ श्री षोडशम शांतीजिन चैत्यवंदन ॥ चुजंगी ठंद ॥

नमो शांति देवा करे देव सेवा, सदा सिद्धि आपे महानंद  
मेवा ॥ तु ध्यानं तु ज्ञानं तु सिद्धी निदानं, अनंतं स्वतंतं  
सुधा शुद्ध पानं ॥ १ ॥

अर्थ—अनंत शांतीना धणी एवा श्री शांतिनाथ देवने नमस्कार  
करुं हुं. चारे निकायना देवो जेनी आणा सेवे ठे. जे एमनी आज्ञा  
आराधे तेने सदा सिद्धि रुपी महा आनंद मीठो मेवो आपे ठे. हे  
प्रभु! ताहारा शुद्ध स्वरूपने जाणी ध्यानमां राखवुं एज हमारे ध्यान  
ठे. अने ताहरुं शुद्ध स्वरूप पूर्ण पर्याये जाणवुं एज उत्कृष्ट ज्ञान  
ठे. ताहरां वचन सिद्धि आपनारां माटे तुंज सिद्धिनुं निदान के  
जड ठे. तुं पोते पोतानी सिद्धि सहित अंत रहित हुं. ताहरी रिद्धि  
तथा ताहरी शक्ति ताहरे स्वतंत्र ठे. ताहरां वचन ते अमृत ठे अने  
जे पीए आदरे तेने अमृत पान ठे ॥ १ ॥

सर्वी प्रव्य पूजे महा प्रेम आणी; सुधा स्वाद आपे  
सदा जैन वाणी ॥ हरे पापने ताप संताप कापे, दिए ज्ञानने  
मुक्तिनां सुख आपे ॥ २ ॥

अर्थ:—मोक्षान्जिलाषी ज्वीजीवो हृदयमां पूरण प्रेम आणी तमने  
सेवे पूजे ठे. तमारी वाणी हमेशां सममार्गने बतावनारी अमृत पेठे  
अनेक प्रकारना रोगोने नाश करनारी परम पुरुषत्व आपनारी लब्धि  
वीर्य प्रगट करनारी एटले मोटा मोटा स्वाद आणंद आपनारी ठे.  
तमारी वाणी सर्वे पापने नाश करवावाली वली भवनो ताप अने  
संताप कापवावाली ठे. मोक्षान्जिलाषी जीवने तमारी वाणी ज्ञाननी  
दातार थई मुक्तिनुं सुख आपे ठे ॥ २ ॥

यथा बोध आपी करे दूख पारे, सुधे मार्ग वाली जवाब्धीथि  
तारे ॥ महाज्ञान जानू सुज्योती प्रकाशे, महामोह नाशे  
स्वशक्ती विकाशे ॥ ३ ॥

अर्थ:—तमे परखदाने यथार्थ बोध आपी तेमने दुःख पार उतारो  
ठो अने उन्मार्गेथी सुधे मार्गे वाली जवसमुद्रथी तारो ठो. तुं मोटो  
ज्ञान जानु तुं. ताहरी ज्ञान ज्योती चौदराजलोकमां रहेला रूपी  
अरूपी पदार्थ हेय ज्ञेय उपादेय आदिनी प्रकाश करवावाली ठे.  
ताहरा वचनथी मोटो मोह नाशी आत्मानी रुडी शुद्धात्म शक्ति  
प्रगट थाय ॥ ३ ॥

अक्रोधी अमानी अमायी अकामी, नमो देवना देवने  
शीर नामी ॥ तरे तेह जे शुध आज्ञा विचारे, तरे आप ते  
प्रव्यने शीघ्र तारे ॥ ४ ॥

अर्थ:—क्रोध मान माया काम लोभादि रहित देवाधिदेवने  
वे हाथ जोडी मस्तके चढावी नमस्कार करूं तुं. हे प्रभुजी ! ताहरी

शुद्ध आज्ञा विचारे धारे ते पोते संसार समुद्रथी तरे बीजा जव्योने  
पण उतावळो तारे ॥ ४ ॥

तजे कर्मने धर्म शुद्धात्म सेवी, नमे नाथने जावथी देव  
देवी ॥ अनंते जवे तुं लह्यो नाथ प्यारो नमुं तुं खरो नाथ  
तुंही हमारो ॥ ५ ॥

अर्थः—देव देवीज आदि जावथी प्रचुने नमस्कार करी मिथ्यात्व  
अविरति आदिए पुद्गलक्रिया करी कर्मबंध थाय ठे ते तजी  
शुद्धात्म धर्म सेववाना अजिलाषी थाय ठे. अने शक्ति प्रमाणे  
शुद्धात्म धर्म पण सेवे ठे. हे साहेब ! आ कंतार संसारमां अनंता  
जवत्रमण करतां ताहरा सरखो नाथ तुं पाम्यो तो माहरा मनमां  
तुं अतिशय प्यारो तुं तुं नमस्कार करुं तुं के माहरे खरो नाथ  
तुंहिज ठे ॥ ५ ॥

तुंही मात तुं तात तुं बंधु हेतू, करे पार संसारथी तुंहि  
सेतू ॥ लहे क्रोर कल्याण जे प्राणि सेवे, टले मोह मिथ्यात  
आनंद लेवे ॥ ६ ॥

अर्थः—ताहरी वाणी मोक्षाजिलाषी जीवने पुत्र पेठे पाले संजाळे  
ठे. अने तुं पिता पेरे संजमीने पाली संजम जीवनमां वधारुं तुं.  
अने सर्वे जीवोने मित्र समान जाई समान जाणुं तुं. वली आत्म  
सिद्धतानो तुं कारण तुं माटे मात तात बंधव अने हेतु तुंहिज तुं.  
संसारथी पार उतारवा माटे ताहरां वचननो आदर एटले ताहरी  
आज्ञा जे अतिक्रमे नहि पण आज्ञारूप पूल उपर चाले तेने संसार  
पार करवा तुं झड पाका पूल समान तुं. जे तने सेवे तेनो मोह  
मिथ्यात्व टले, क्रोर कल्याण होय अने अक्षय परमाणंद पामे ॥५॥

संपूर्ण.



॥ अथ श्री सप्तदशम कुंथुजिन चैत्यवंदन ॥ नाराच ठंड अ० १६

॥ महान कुंथु देव सेव साचि वाचि सूत्रमां ॥

॥ करो सदा सुध्यान ज्ञान ज्ञान राखि आणमा ॥

॥ प्रमाद त्यागि नित्य जागि राग द्वेष ठोमिए ॥

॥ सुदेव सेवि खोटि टेव टाळि मोह मोमिए ॥ १ ॥

अर्थः—महान परम पुरुष सत्तरमा श्री कुंथुनाथ अरिहंत देवनी सेवा परम सिद्धता पामवाने अर्थे सूत्रोमां साची कही ठे. ए माटे एमनी सेवानो स्नाचो अतिप्राय रुडी पेरे जाणीने हमेशां ध्यानमां राखी जिनेश्वरना कहा प्रमाणे हेय ज्ञेय उपादेय आदरो. परमेश्वरना आझाए अठारे पाषस्थानक तजी नित्य सचेत रहि पंचाचार पंच महाव्रत पंचसुमती त्रण गुप्ति अप्रमाद चावे आदरो. एवा परम हितकारी रुडा देवने सेवी मिथ्यात अव्रतादिक चवत्रमणनी खोटी टेव टाळी मोह मारी सुखी थईए ॥ १ ॥

॥ विज्ञाव जाय ज्ञान पाय जाय जर्म वासना ॥

॥ करो हमेश सार देव कुंथुनी उपासना ॥

॥ नराचतार पामि सार तार तार आप तुं ॥

॥ अज्ञान जाय सिद्धि थाय शीव संगमां रहुं ॥ २ ॥

अर्थः—कुंथुनाथ स्वामिनी सार उपासना सेवा हमेश अति आदर हरख सहित करीए तो रागादि सर्वे विज्ञाव जाय अने पुरण ज्ञान पामीए. परद्रव्यादिकमां माहरापणानो, कार्यपणानो, सुखपणानो अने कुंगुरुमां गुरुपणानो, कुदेवमां देवपणानो, कुशास्त्रमां शास्त्रपणानो, उन्मार्गमां मार्गपणानो, असुखमां सुखपणानो, क्रिया उपाधिमां निर-उपाधिनो ए आदि दुःखदायक अनेक जर्म नाश पामे. सार मनुष्य अवतार पुरुषपणानुं पराक्रम पामी तुं पोताने पोतेज तार तार. व्यवहारथी

तीर्थकरो अने आचार्यादिक, जवी जीवोने शुद्धतानो उपदेश देइ तार-  
नार कहेवाय ते तो कारण मात्र ठे पण तेमनो उपदेश लेई पोतेज  
पोताने शिव मार्गे वाळे तोज पोते तरे. माटे अवसर पामी तुं पोताने  
तार तार. एम तार तार बे वार कहेवाथी जरूरता जणावी ठे. जो तुं  
कुंथुनाथनां वचन आदरी पोतानी शुद्धता सेवुं तो ज्ञानावरणनां अनंत  
पर्याय क्षय थाय एटले अज्ञान जाय अने आत्म सिद्धि थाय अने  
सदा उपद्रव रहित सहजातम परिणति संगे थिर रहुं. एम आ चै-  
त्यवंदन करता कुंथुनाथ अरिहंतनी स्तवना करतां पोते पोताने कहे  
ठे. तेम बीजा मोक्षाजिवावी जीवोए पण जाववुं ॥ १ ॥

॥ संपूर्ण ॥

॥अथ श्री अष्टादशम अरनाथ जिन चैत्यवंदन॥किसलय माला॥

॥ अरजीन वंदि सदा रहुं, थिर शुद्ध ध्येयनो ध्याता रे ॥

॥ काल अनंत एले गयो, अब लह्यो तारक त्राता रे ॥

॥ समय वचन तूज जे ग्रहे, ते लहे अनुभव योग रे ॥

॥ परपरिणति ममता तजी, लहे निज पञ्चव जोग रे ॥ १ ॥

अर्थः—अठारमा श्री अरनाथ स्वामीने वंदी केण नमस्कार करी  
तेमना वचननो परम आदर करी सदा माहारा शुद्ध ध्येयनो ध्याता  
थई थिर रहुं शुद्ध ध्येयने जाण्या ध्याया विना मोह अज्ञान वशे  
चौदराजलोकमां जमतां परतंत्रताए अनंतां दुःख सहेतां ज्ञानादिक  
आत्मीक आनंदविना अनादि अनंतकाल फोकट खोयो. हवे आ  
अवसर्पीणी पांचमा आसमां संसारथी तारक अने जवदुःखथी  
बचाववावाला श्री अरनाथ स्वामी परमपूज्य प्रते हुं पाम्यो. ताहारा  
सिद्धांतमां आत्म परिणति आत्म प्रदेशथी अचेदपणे बतावी ठे.  
ते निजमद्य शुद्ध परिणति आदरवी ए वचन पोताना चित्तमां

ग्रहण करे अने आदरे ते शुद्धात्म अनुभव योग पामे. जे पुरुष पुद्गलादिक अन्यनी परिणतीनुं ममत्व तजे ते निज शुद्ध गुण पर्यायनो जोग पामे ॥ १ ॥

॥ शुद्ध नय समय लह्युं तुज, ठेदशे कर्मनो पासरे ॥

॥ समय अजाण जे जड रह्या, तस चव च्रमण नीवासरे ॥

॥ शुद्ध ध्येय नीज तुज सम, जे थीर शुक्लता ध्यावेरे ॥

॥ घनघाती घाती करि, चार अनंत ते पावेरे ॥ २ ॥

अर्थः—जेने ताहरुं प्ररुपेळुं सिद्धांत शुद्ध नये जाण्युं तेणे निजात्म स्वरूप पण शुद्ध नये जाण्युं, तेज कर्मना पासने ठेदशे. जे जरुताहरा सिद्धांतने शुद्ध नये जाणता नथी ते शुद्ध नये आत्म स्वरूप जाणता नथी त्यांसुधी तेने चवच्रमणमां विशेषे वास ठे. ताहरा सरखो पोतानो शुद्धात्म ध्येय जे थीर उज्वल ध्यानमां ध्याय ते चारे घनघाती कर्मनो नाश करी ज्ञानादिक चारे अनंता अप्रतिपाती गुण प्रगटावे ॥२

॥ मति कटिपत मारग ग्रहे, निजपर दूःखना दानीरे ॥

॥ शिव संपति सहजे लहे, तुज आणा सनमानीरे ॥

॥ प्रयास विना सूख ते लहे, आत्म रमणमां राता रे ॥

॥ मनसुख सादि अनंत ते पामशे, शिववर सातारे ॥ ३ ॥

अर्थः—जे कुमति पोतानी मतिकटपनाए मोह मार्गने नामे खोटो मार्ग ग्रहे आदरे ते पोताने अने पर जीवने चवच्रमण करावे माटे ते स्वपर जीवने दुःखदाता जाणवा. ताहरी शुद्ध आज्ञा सन्मानी आदरवावाला उपद्रव रहित सहजात्म संपदा पामे. जगत्वासी जीव मन वचन कायानो प्रयास करी पुद्गल क्रिया कर्म करता ठतां सांचुं सुख पामता नथी, उलटुं चवच्रमणादि दुःख वधारे ठे. पण जे शुद्धात्म रमणमां राता ठे ते विना प्रयासे शाश्वत सुख पामे ठे.

एटले जे शुद्धात्म रमणमां थीर उपयोगे मनमां सुखे करी रमणे  
ते सादि अनंतं वर (प्रधान) शिव समाधिनुं शाश्वत सुख पामणे ॥ ३

संपूर्ण.

—:—

॥ अथ एकोनविंशतिमश्रीमद्वीनाथजिनचैत्यवंदनात्रिजंगीबंद

॥ मद्वी जिन देवा, शिव सुख देवा, सारो सेवा एह खरी ॥

॥ क्रोधानल बूजे, मारग सूजे, जो नवि मूजे मोह करी ॥

॥ शुद्धतम ध्यावे, संपति पावे, जव दुःख जावे घेर रही ॥

॥ निज आत्म ध्याने, गुण बहु माने, अतिशय ताने थीर रही १

अर्थ:- मोहनं सुख देवा अर्थे मद्वीनाथ देवनी सेवा उपयोग  
राखी सेवो. शिव सुखने माटे एज साची सेवा ठे. एथी क्रोधादिक  
अग्नि बूजे, साचो शिवमार्ग सूजे. जो मोहे करीने पुद्गल परिण-  
तिमां मुंझाय नहीं तो मद्वीनाथनी सेवामां आदर आवे. एमनी  
आज्ञाए आत्म शुद्धता ध्यातो पुरुष आत्मीक शुद्ध ज्ञानादिक संपदा  
पामे अने निजात्म घरे रहेतां जवज्रमण दुःख टले. प्रजुना गुण  
बहुमान करतो, साधमीपणुं जाणतो निज आत्मगुण सन्माने अने  
निज आत्म ध्याने अतिशय तानमां तिहण उपयोगे थिर रहे ॥ १ ॥

॥ स्याद्वाद अबाधे, मारग साधे, अति सुख वाधे आत्मनुं ॥

॥ साचो मग जाणी, बहु सन्मानी, निज हित जाणी ध्याने हुं ॥

॥ दुःख दोहग हरवा, जवजल तरवा, शिव सुख करवा वाधीशुं ॥

॥ मनसुख सुख पावे, शिवघर आवे, शांत स्वप्नावे साधीशुं ॥ २

अर्थ:- जिनेश्वरे आत्मानी शुद्ध सत्ता स्याद्वाद नय अने  
प्रमाणे बतावी ठे. ते स्याद्वादादिकने बाधा न आवे ए प्रमाणे  
एटले अनेकांतताए वस्तु सत्ता जाणी जिनेश्वरनो प्ररूपेक्षो शुद्ध

संममार्म आराधे तो, आत्मीक अतिशय स्वतंत्र सुख वधे. ते माटे हे प्रचु ! ताहरो साचो मार्ग जाणी अतिशय सन्मानथी माहरुं हित जाणीने हुं ध्यानमां राखी आदरुं. दुःख अने दुःख आपनारा जे अशुद्ध जावो तेनो नाश करवा, जव समुद्र तरवा अने शिव सुख प्रगट करवा, ताहरी आझामार्गे वाधीशुं एटले आझा अतिक्रम्या विना चाळीशुं. एम जो जिनेश्वरनो प्ररुपेलो मार्ग मनमां सुखे आनंदे साधे तो आत्म घरे सुख पामे अने शिव आवे. माटे शांत स्वप्नाव राखी समप्नाव अमृत पीतां जाववीर्य पुष्ट करी प्रजए प्ररुपेलो मार्ग साधीशुं ॥ २ ॥

॥ संपूर्ण ॥

॥ विंशतिम श्री मुनिसुव्रत जिन चैत्यवंदन ॥ पंधरी ठंड ॥

जय जय जीणंद जगत दयाल, जय परम शांति परम कृपाल ॥ तुम क्रोध मोह मद दूर कीन, जवसिंधु तरी शिव संग लीन ॥ १ ॥

अर्थः—वीशमा श्री मुनिसुव्रत स्वामी जयवंता हो जयवंता हो. सामान्य केवलीजमां ईद्र समान जगत्ना जीवो उपर जाव दया करनार जयवंता हो. परम शांतिवंत, जगत्वासी जीवो उपर परम कृपा करी शुद्ध शिवमार्ग दातार, तमे क्रोध मोह मद आदि विकारा आत्म अंगथी वेगला कर्या अने जवसमुद्रथी तरी शिव कमला साथे परम जोगमां लयलीन ठो ॥ १ ॥

जग आता आता तुंहि जिणेश, जग ज्ञान चरण सुख गत कलेश ॥ जव जमतां में तुज दरश पाय, कीजे अब मेरी प्रचु सहाय ॥ २ ॥

अर्थः—हे जिनेश्वर ! तुं जगत् जीवोनो परम बंधव वली जगत्

जीवोने मिथ्यात्व अज्ञान आदि जन्म जरा मरण अने नरकादिथी बचावनार त्राता ठो. तमे अप्रतिहत वर प्रधान केवलज्ञान केवल दर्शन अने परमस्थिरता रूप चारित्र अने सुख तथा परम उत्कृष्ट अचलवीर्य स्वतंत्रतादि अनंत गुण शुद्धता प्रगटपणे पाम्या ठो. वली सकल क्लेशथी मुकाणा ठो. अनंतकाल भवत्रमण करतां हवे हुं ताहरूं दर्शन पाम्यो एटले ताहरा दर्शावेला जाव मने दर्श्या तो हवे माहरी पुरण सहाय करो ॥ २ ॥

पर परिणति बहु दुःख देत मोय, कीजे अब मुजथी दूर सोय ॥ श्री मुनिसूत्रत आनंद कंद, सेवत सुरनर वर इंद्र चंद्र ॥ ३ ॥

अर्थः—पुद्गल परिणतिनी ममता में असार जाणी ते ठतां सत्तागते रहेली पुद्गल परिणति मने बहु दुःख देठे. तेने हवे उतावली माहरी सत्तास्थलथी वेगली करो. श्री मुनिसूत्रत स्वामी तमे पोते अने तमारां वचन तथा तमारुं ध्यान ते परमानंदनो कंद ठे. तमने सर्वे देवताउं मनुष्या अने प्रधान पुरुष गणधरो अने इंद्र चंद्रादि नरनारीउंना थोके थोक मली सेवे ठे ॥ ३ ॥

तुहि शांत दांत केवल दिणंद, पूरण शुद्धतम पद मुण्णंद ॥ तुज सेवा दीजे आज मोय, मनसुख शिव संगे सुखित होय ॥ ४ ॥

अर्थः—तमे निजात्म शुद्धतामां परमशांति समाधिवंत ठो. तमे प्रथमथी इंद्रिउं अने मन आदि निज आत्म गुणने उपद्रव करता जाणी दम्यां अने ते तमारथी बुटा पडी दूर थयां. तमे अतिंद्रिय केवलज्ञान रूप सूर्य ठो एटले सकल मिथ्यात्व अज्ञानादि अंधकारना नाश करवावाला ठो. आत्सानी परम पुरण शुद्धताना जोगी ठो. अने गणधर आचार्यादि मुनिउंमां इंद्र समान ठो. हे

साहेव ! आज मने तमारी पुरण शुद्ध सेवा आपो. एटले हुं मनमां सुखे करी ताहरी आज्ञाए शुद्ध ध्येयमां उपयोग थापी थिर रहुं अने शिव सुंदरी साथे सादिअनंत विद्यासे सुखी थाउं ॥ ४ ॥

संपूर्ण.

॥अथ श्री एकविंशतिम नमिनाथ जिन चैत्यवन्दनादोधकठंदा॥

श्री नमिनाथ नमो शिव कामे, तुं नवसागर पार विरामे॥  
आत्म दर्शन ज्ञान चरित्तं, एक अबाधित गूण अनंतं ॥ १ ॥

अर्थः—एकवीशमा श्री नमिनाथ स्वामीने सकल कर्म ह्य अर्थे नमस्कार करुं तुं. प्रभुजी ! तमे नव सागरथी पार पामी एकांते अशेष आराम जोगी ठो. तुं पोते एक रूप ठतां ताहरा आत्म अंगमां दर्शन ज्ञान थिरता सुख रमण अनंतवीर्य अठ्याबाधादि अनंता गुणो अजेदपणे ठे ॥ १ ॥

शक्ति स्वतंत अमंद अमानं, जोग अनंत सुधारस पानं॥  
स्हेज अपार महासुख जोगी, वंडु अलेसि अरोगि अयोगी २

अर्थः—ताहरी सर्वे शक्ति व्यक्तिपणे अने स्वतंत्रपणे अंत रहित अमाप ठे. ते सर्वे व्यक्ति जाज्वल्यमान सूर्य पेठे दीपती अमंद ठे. ताहरे अनंत व्यक्तिनो सर्वे समय समकाले अनंतो जोग ठे. एहवा अलोकिक अमृत रस पानमां प्रभु मय्य ठो. तमारुं सहजातम स्वरूप सकल उपाधि रहित प्रगट थयुं ठे. जे सुखनो सुरगुरु आदि पण पार पामे नहि एवा परम अपार सुखना जोगी ठो. वली तमे देख्या रहित योग रहित अने अव्यजाव रोग रहित ठो एटले पुरण ब्रह्म-रूप ठो. हे प्रभुजी ! तमने हुं उपशांत जावे वंदना करुं तुं ॥ २ ॥

एक सुरंग करे तुज ध्यानं, ते नर पावत सिद्धि निदानं ॥  
तारक सारक वारक स्वामी, दर्शन पामि थयो शिवकामी॥३॥

अर्थः—अन्य स्थानकथी ध्यान उठावी जे पुरुष ताहरा शुद्ध एक स्वरूपमांहे ध्यान थापे, एकता करे अने रिद्धि पामे ते जरूर सिद्धिपद पामे. संसारमां पकेखाने तारनारो, अने संजम बोकी पाठा संसार जावमां पडताने सार संजाल करी वारनारो तुज हमारो स्वामीतुं. ताहरुं दर्शन पामी मने शिवपद पामवा कामना थई. माटे ताहरीज आझायी ते माहरुं कार्य सिद्ध थशे ॥ ३ ॥

॥ संपूर्ण ॥

॥अथ श्री द्वाविंशतिम नेमनाथ जिन चैत्यवंदन॥नाराचक वंद॥

॥ नमामि नेम सर्व रिद्धि सिद्धि धारणं ॥

॥ सदा सुज्ञान दाय प्रव्य जीव तारणं ॥

॥ तमे तिलोक सर्व सत्त्व शांति कारणं ॥

॥ प्रशांत पाप ताप सर्व दोष वारणं ॥ १ ॥

अर्थः—बावीशमा श्री नेमनाथ अरिहंतने नमस्कार करुं तुं. जे निजात्म पूरण रिद्धिनी सिद्धि धारण करी राखी तेनो सर्वे समय समकाले एकांतिक अत्यंतिकपणे जोग जोगवे ठे. वली स्वपरने निजात्म रिद्धि सिद्धिना आधार ठे. सदाए शुद्धात्म ज्ञान अने तत्त्व साधना रूप शुद्धज्ञान आपी भविजीवोने संसार समुद्रथी तारवावाला ठे. तमे त्रणे लोकना जीवोने माहणतानो उपदेश करी बचावनारा अने कषाय अज्ञान मिथ्यात्व आदिथी तथा जन्म जरा मरण नरकादिकना प्रयथी बचावनारा अने ज्ञान दर्शनादि आत्म गुणना दातार माटे शांतिना कारण ठे. सर्वे पाप ताप रहित परम शांतिना जोगी ठे. अने बीजा जीवोना पण पाप ताप सर्वे दोष वारनार ठे, कलुषथी उपशांत करनार ठे ॥ १ ॥



॥ अमंद चंद ज्ञानु ज्योति तुं प्रकाशनं ॥

॥ करे सुध्यान सूविलास तुज्ज शासनं ॥

॥ सेवे सुरिंद देववंद गावते नचे ॥

॥ करी सुतान सर्व देव सेवमें मचे ॥ ७ ॥

अर्थः—तुं परमशांति वरसावतो अमंद चंद्रमा तुं, वली केवल-ज्ञाननो सूर्य तुं, जविजीवोना हृदय कमल विकस्वर करी त्रणे लोकना सर्व कालना रूपी अरूपी सर्वे जावनो जणाववावालो प्रकाश-वावालो अखलित अक्षय ज्योतिवंत तुं. ताहरी आणा आदरनारा धर्म शुक्ल ध्यान करी आत्म शुद्धतामां परमानंद विलास करे ठे. ताहरा आगल सुर ईद्र अने सर्वे देव देवीजना वंद ताहरा उत्तम गुणनी स्तुति करता गीत गान करता नाचे माचे ठे. चित्तनुं अतिशय तान करीने ते देवादिक ताहरी आज्ञा सेवामां मचे ठे ॥ ७ ॥

तमो हरंत ज्ञानवंत मोह वारणो, करे उधार तुं जवोद  
धीधि तारणो ॥ प्रशांत दांत खांति मुक्ति गुक्ति आपजो,  
शुशतम जाव आपि नाथ शीव आपजो ॥ ३ ॥

अर्थः—प्रभु अनंत ज्ञानवंत, जविजीवोना अज्ञानरूप अंधकार अने मोहने वारवावाला ठे. संसार समुद्रमां राग अज्ञान मिथ्यात्वरूप पाणीमां वूडेला जविजीवोने उद्धार एटले उपर लावी तारवावाला ठे. एटले संसारने किनारे लावी आनंदपुरीमां प्होंचाडवावाला ठे. सर्वे कषायना उपशमजावरूप प्रशांतपणुं तथा इंद्रियो अने मनने सुखे दमी शकुं ते दांतपणुं तथा स्वपरजीवनी द्रव्य जाव परम दामा ते खांति तथा माहरी ज्ञायकता शिवाय अन्य पुद्गल जीवादियी निस्पृह निर्वोचतापणुं ते मुक्ति तथा मन वचन कथाना जोगो पुद्गलक्रियामां अने द्रव्यजाव हिंसामां न प्रेरतां संजम कार्यमां वाप-

रवा थिर करवा ते गुप्ति, ए आदि उत्तम गुणो जे तमने प्रसन्न पड्या ते मने आपजो. माहरी आत्म शुद्धता प्रगट मने आपी शिवस्थानकमां थापजो केमके तमारा सिवाय बीजो माहरे नाथ नथी तमेज माहरे शीर नाथ ठो माटे तमने कहुं. पण जे पोतेज पुद्गल एठना चीखारी ठे तेनी पासे तो शुं मागीए? ॥ ३ ॥ ॥ समाप्त ॥

॥अथ त्रयोविंशतिम श्री पार्श्वजिन चैत्यवंदना॥प्लवंगम ठंदा॥

पास जिणंद महंत जवोदधि तारणो, आपे ज्ञान अनंत महाजय वारणो ॥ कोनाकोनी देव सेवता होमथी, किन्नरि नाचे गाय नमे कर जोरती ॥ १ ॥

अर्थः—तेवीशमा पार्श्वनाथ अरिहंत पुरुषोमां प्रधान, त्रणे लोकने शीरे मुगट समान मोटा ते जविजीवोने जवदरियेथी तारवावाला ठे. अनंत ज्ञानना दातार ईहलोकादि सात महाजय तथा अनेक जयने वारवावाला ठे. जेने कोडाकोडी देवो एक बीजाथी चडता चरती होडाहोमे सेवे ठे अने किन्नरीओ नाचती प्रचुना गुण गाती मान मोडी हाथ जोडी नमस्कार करे ठे ॥ १ ॥

मूनि गणी तुज आण सदा मन धारता, पाली पंचाचार आप पर तारता ॥आतम शक्ति प्रकाशि सिद्ध सम ऊजली, संजावे मुनि ध्याय एकताए मली ॥ २ ॥

अर्थः—मुनिओ अने गणधरो ताहरी आज्ञा हमेशां मनमां परम आदरे स्वीकारे ठे अने तेज प्रमाणे वर्ते ठे वली पोते ज्ञानाचारादि पंचाचार पालीपलावी पोते तरे ठे अने अन्य जविजीवोने पण तारे ठे. तुं आत्मानी सिद्ध समान निर्मल शक्ति स्याद्वाद देशनाए प्रकाशुं तुं ते संजावी आदरी जविजीवो मोक्षमार्ग साधि सिद्धिपद पामे ठे अने मुनिओ राग द्वेष तजी समजावे रहि आत्मपरिणति आत्म

स्वरूपमां लीन करे ठे. एटले एक तान लगवी आत्म परिणति आत्म अंगथी एकताए राखे ठे, पोतानुं ध्यान पर परिणति तरफ जवा देता नथी अने स्वस्वरूपमांज थीर थोज राखे ठे ॥ २ ॥

॥ तें परपरिणति त्यागि वर्युं निरवाणने ॥

॥ छुष्ट कषाय विषेथी रह्यो दुःख खाणमें ॥

॥ त्हांरुं शासन पामि विरज डढ ऊद्धसे ॥

॥ मेरो मन अलि लीन प्रचू पदकज रसे ॥ ३ ॥

अर्थः—हे प्रचुजी ! तमे परपरिणतिनो आदर अहितकारी जाणी ठोड्यो एटले निश्चल परमात्मपणारूप निरवाण पाम्या अने हुं पु-  
द्गल विषयोमां लोत्ताणो तेथी कषायो आदरी दुःखनी खाण एवा  
चार गति कंतारमां रह्यो. जे जीव ताहरुं शासन पामे तेने आत्मिक  
जावलब्धिवीर्य डढ उद्धास पामे. तेथी माहरो मनरूप त्रमर प्रचुना  
पदकमलनी सुवासना रसमां लीन थई रह्यो ठे ॥ ३ ॥

॥ ध्यान धरुं नित तूज स्व तन मन थिर करी ॥

॥ ध्याउ शुधातम ध्येय वचन तुज मन धरी ॥

॥ तारो त्रिचुवन नाथ कहुं हुं एणिपरे ॥

॥ मोटि करुणा कीजे मनसुख शिव वरे ॥ ४ ॥

अर्थः—ए माटे माहरां तन मन वचन थीर योगे करी नित्य  
ताहरी शुद्धतानुं ध्यान धरुं. ताहरुं वचन माहरा हृदयमां थीर  
धारी माहरा शुद्धात्म ध्येयनुं ध्यान आदरुं. हे त्रिचुवन नाथ ! हुं  
एटलुंज कहुं हुं के छुष्टपरिणतिरूप संसार समुद्रथी पार उतारो. ए  
मोटी करुणा हुं वंदना करता मनसुख उपर करो के हुं शिवसंपदा वरुं ॥४

॥ अथ श्रीचतुर्विंशतिम महावीरजिन चैत्यवंदन ॥ किसलय माला ॥

॥ सुर नर मुनिवर गण स्तवे किन्नर वंदीयं शिरसा ॥

॥ घनघाति चारे विदारवा विरजिन वंदीए मनसा ॥

॥ मद मोह अज्ञान तिमिर हर रविकर कोई न हेवा ॥

॥ जवदधि पार उतारवा कोई नहीं तुंम जेवा ॥ १ ॥

अर्थः—जेने सुर नर मुनिवरो कोडाकोडीना समुदाय नित्य स्तवे ठे, आज्ञा अंगीकार करे ठे अने आकाशे विचरता किन्नर किन्नरीउ हाथ जोडी शिष नमावे ठे. जेने अनंत वीर्ये करी आठे कर्मना अनंत पर्याय विदार्या. चारे घनघाती कर्मना असंख्याता असंख्याता अध्यवसाय ठे. जेम मोहनीय कर्मवशे अनंता जीव ठे. तेना असंख्याता वर्गमां मोहनीय कर्मना अनंता पर्याय समाय ते अनंता पर्याय आत्माना अनंत पर्यायने चपल करी परद्रव्यादिकमां मुंजावे ठे एटले आत्मा थिर उपयोगे पोताना शुद्ध कर्ता, जोक्ता, ग्राहकता, व्यापकता आदिने आचरी शकतो नथी अने कर्तादि सर्वे पुद्गल अनुजाइ पणे करे ठे. मोहनीय कर्मना असंख्याता अध्यवसाय मांहेलो दरेक अध्यवसाय आत्माना चारित्र गुणना अनंता पर्यायने चल अने मलिन करे ठे. एम ज्ञानावरण, दर्शनावरण अने अंतराय ए त्रणे कर्मना पण अनंता अनंता पर्याय अने असंख्याता असंख्याता अध्यवसाय ठे ते ज्ञान, दर्शन अने वीर्यना अनंत पर्यायने आवरी रोकी राखे ठे एटले ते ज्ञानादिक शुद्ध रीते आप आपणुं काम करी शकता नथी. ए चारे घनघाती कर्मना अनंत पर्यायने वीर स्वामीए पोताना अनंत वीर्य वडे हएया अने पोतानां ज्ञानादिक चार. अनंत शुद्ध प्रगट कर्या माटे हुं पण चारे घनघाती कर्मने वीदारवा वीरस्वामीने शुद्ध मने करी वंडु बुं. के जे मद मोह

अज्ञान तिमिरने हरवाने वीरस्वामी जेवा अलौकीक सूर्य बीजा कोई नथी. आ जवदरियेथी पार उतारवाने ताहरुं वचन अने ताहरुं स्वप्नावाचरण दृढ ऊहाज ठे. बीजुं कोई एवुं झहाज नथी के जव दुःख पार पमाडे ॥ १ ॥

॥ द्रव्य सगुण परजायथी जे शुद्ध ध्यानमां ध्यावे ॥

॥ आत्म गुण अनुभव लही परम आत्म पद पावे ॥

॥ जे पर समयमां रींजीया बंधशे कर्म अनंत ॥

॥ शुद्ध समय मनसुख लहे शिवधर जोग स्वतंत ॥ २ ॥

अर्थः—ताहरा द्रव्य गुणपर्यायने शुद्ध नये जाणी जे शुद्ध ध्यानमां ध्याय ते द्रव्य सद्रव्य गुण पर्याय शुद्ध नये शुद्ध जाणीने शुद्ध थिर शुक्ल ध्यान करी आत्मगुण अनुभव लहि पोतानुं शुद्ध परमात्म पद प्रगटपणे पावे. जे शांख्यादि परना सिद्धांत के जेनी अंदर कोई द्रव्यनो गुण केमां कोई द्रव्यनो पर्याय केमां वली सामान्यथी विशेष अने विशेषथी सामान्य जेमां एकांते चिन्न बताव्युं ठे कोई एकांते नित्य एकांते अनित्य, एकांते एक एकांते अनेक, वली एकांते जेद एकांते अजेद, एहवा दोषवान दुषीलाओए रचेलां सिद्धांतो जेमां पंचास्तिकाय द्रव्यनी परिणति पंचास्तिकाय द्रव्यमय द्रव्यथी अजिन्नपणे बतावी नथी ते परसमय कहीए. एहवा परसमयमां जे रींझ्या ते आठे प्रकारे कर्मना अनंत बंध करी जवज्रमणादिनुं दुःख सहेशे. ताहरुं प्ररुपेलुं स्याद्वादमय शुद्ध समय के जेमां पंचास्तिकाय द्रव्यना गुण, पर्याय, क्रिया, कार्य, सामान्य, विशेष आदि पंचास्तिकाय द्रव्यथी अजेदपणे बतावेला ठे. तेमांथी सआत्मना गुणपर्याय सामान्य विशेष उत्पाद् व्यय ध्रुवादि जेने आत्माथी अजेदपणे जाण्यां ते मनमां सुखे करी शुद्धात्मता साधी शिवसुंदर घरे स्वतंत्र जोग विद्यासी सादि अनंतकाल रहेशे ॥ २ ॥

संपूर्ण.

॥ अथ श्री महावीरजिन चैत्यवंदन ॥ किरीट वंद ॥

॥ तुं शिव शंकर तुं परमेश्वर, तारक वारक तुंहि जिनेश्वर ॥  
 ॥ जे जन ध्यान धरे तुज निर्मल, सेव करे घसि केशर चंदन ॥  
 ॥ पाप हरे नव ताप मिटे दुःख, आत्म संपति शुद्ध लहे वर ॥  
 ॥ वीर महा नय सात हरे सब, दोष टले डुर ना किनको मर ॥ १ ॥

अर्थः—हे शासन नायक चरम जिनेश्वर ! तुं सदा उपद्रव रहित माटे शिव तुं अने अनंत गुण पर्यायने एकत्व अचेदपणे भोगवुं तुं माटे शुद्ध शंकर तुं. तुं ज्ञानादिक निज गुणनी परम ऐश्वर्यतावंत माटे परमेश्वर तुं. तुं नविजीवोने तारनारो माटे तारक तुं. तुं डुरित दुर्गतिथी वारनारो माटे वारक तुं. तुं सामान्य जिनोमां ईश्वर माटे जिनेश्वर तुं इत्यादिक अनेक उत्तम विशेषणवंत तुं तुं. जे जीव ताहरा शुद्ध स्वरूपना उत्तम ध्यान रूपी नाव पूजा आदरे अने केशर चंदन घसी ताहरा उत्तम अंगने पूजे तेना सकल पाप दूर जाय, नवतापनुं दुःख मटे अने ते जीव प्रधान शुद्धात्म संपदा पामे. ताहरा अनंत वीर्य पसाये, अपथापगमना अतिशय पसाये साते महा नय उतावला नाशे अने ताहरा पसायथी सर्वे दोष दूर टले अने चेतन अचेतन स्थावर जंगम अन्य कोई पण वस्तुनो कर रहे नहीं ॥ १ ॥

॥ दर्शन ज्ञान चरित्त तुं देवत, सेवत आण सदा तुमजेनर ॥  
 ॥ डुर्मति जे अजिमान न वंदत, आण प्रभूकिनधारतलेखर ॥  
 ॥ जे नवि शासन नायक पूजत, मारग सूजत ते नरने वर ॥  
 ॥ आत्म ज्ञान विना जन मूरख, बंधन कर्म अनेक करे पर ॥ १ ॥

अर्थः—जे ताहरी आणा सदा सेवे तेने तुं सम्यक् दर्शन सम्यक्



अर्थः—आत्म वस्तुना ज्ञानादि परम स्वभाव रूप धर्मने धारण करवावाला अने परद्रव्यमां अहंपणानो अने पुद्गल क्रियामां सुखनो ए आदि सर्वे जर्मने हरवावाला अने धर्म तीर्थ स्थापन करवावाला सर्व प्रकारनां विघ्न हरवावाला प्रभु त्रिजगत् शिरे तिलक अने मुगट समान एवा वीरस्वामी जगत्मां जय करवावाला ठो. जगत्मां त्रणसें त्रेसठ पाखंडीना तथा अनेक प्रकारना कुमतने हरवावाला परम सुमतिना करवावाला ज्ञानावरणादिक रागादिके जगत्ना अनंत जीवोने जीती पोताना पग तलीए दाब्या ठे एहवा रागादि ज्ञानावरणादिक अजितथी पण तमे जीत पास्या. अने तमारी आज्ञा सेवे तेने पण ज्ञानावरणादि रागादिथी जीत करावनारा, अनेक प्रकारना जर्म अंधकारने नाश करवावाला, ज्वररूप दावानल मांहे अंनता जीवो ताप पामे ठे ते जीवो उपर उपशम रस वरसावी सकल ताप नाश करवावाला, अज्ञानरूप अंधकारने मटाडवाने तमे केवलज्ञान रूप सूर्य ठो. तमारा स्याद्वाद रूप किरणे अज्ञान तिमिर नशावो ठो. घनघाती कर्म हरवा जेनुं तन थिर थोत्त अने जेनुं मन समजाव अमृतमां लीन रह्युं. त्रणे ज्ञानना जीवोने सुखना कारण वली जेहनुं ज्ञान वीर्यादि सहज धन अचल ठे ॥ १ ॥

द्व गुण परजव निज चिर अनुभव, अखय अचल सव परिणति नवनव ॥ विमल कमलमुख शुध वच निरमल, सुनत हरत मल करि अल निरमल ॥ लखि निज तजि पर परम चरणधर, जग जन थिरकर दरशन दुःखहर ॥ नमत अमर वर तरत जव अतर, अजर अमर विर परम प्रबल धिर ॥ २ ॥

अर्थः—ताहरे पोताना शुद्ध द्रव्य गुण पर्यायनो अखंड चिरकाल अनुभव ठे. ताहरूं अंग अने धनादि सर्वे अक्षय अने अचल ठे पण



ज्ञानादिक गुणोनी परिणति समय समय नवे नवे परिणामे परिणमे  
 ठे, पूर्व परिणति व्यग्र अने नवा नवा समय नवी नवी परिणतिनो  
 उत्पादू माटे सर्वे समय गुण परिणति परिणमे ठे ते ठतां सत्ता  
 ध्रुव ठे. ताहरा निर्मल वदन कमलनां स्याद्वादमय वचन परम निर्मल  
 अने परम शुद्धतानां दातार ठे. ते वचन सांजली मोक्षाजिलाषी  
 जीवो रागादिक भेदने दूर करे ठे अने पोतानी आत्म सत्ताभूमि  
 ज्ञानादि लक्ष्मी रहेवानुं स्थानक निर्मल अने अचल करे ठे. तमारां  
 वचन सांजली निजपर तत्वने चिन्न पिठाणी मुनि लोको परचावनुं  
 ममत्व तजी उदासिन्नता धारी परम चारित्र धारे ठे. हे प्रभु ! तुं  
 जगत्ना जीवोनी जय चपलता मटावी आत्म शुद्धतामां धिर  
 करवावालो तुं. ताहरूं दर्शन सकल दुःखने हरवावाळुं ठे. देव अने  
 इंद्रो तमारा चरण कमलमां हाथ जोकी माथे चढावी नमे ठे ते  
 दुस्तर एवो जवसमुद्र तरे ठे. तुं अजर अमर अने अनंत वीर्यवंत तुं.  
 परम प्रबलता प्रतापवंत तुं. वली ताहरा धैर्य आगल मेरू पर्वतादिनुं  
 धैर्य ते कांइ लेखामां नथी ॥ २ ॥

वच सफल फलत जवतु अमित हित, लखत सुमित हित  
 तुमरि अमित प्रित ॥ चरण शरण रहि तुम वच चित गहि,  
 शुध निज तत लहु पर ममत न गहु ॥ उपशम पद धरि चल  
 मन धिर करि, जववन जयहरि तुज वच जय तरि ॥ परम  
 विरज धरि अखय अकल पर, सुखजर निजघर मनसुख  
 शिवकर ॥ ३ ॥

अर्थः—ताहरां वचन उत्तम फलदायी थाय ठे. ताहरूं अमारा  
 उपर अमाप हित थाउं. जे तने उत्तम मित्र जाणे ठे ते ताहरूं हित  
 पण जाणे ठे षट्ठे तमारी मुज सरखा रांक उपर अमाप प्रीत ठे.  
 ताहरां वचन चित्तमां ग्रहीने ताहरा चरणे रहुं. माहरूं शुद्धात्म

तत्व जाणी परद्रव्यनुं ममत्व कदापी न ग्रहं. चपल मनने थिर करी  
 उपशम पद आदरुं. ताहरी वाणी नववनमां नटकवानो नय मटा-  
 डनारी अने नवसमुद्रथी तारनारी तरीकेण नाव समान ठे. तुं परम  
 वीर्येने धारण करी राखनार तुं वली अद्दय तुं. ताहरुं स्वरूप ठद्मस्थ  
 ज्ञानीओए कवी शकाय नहीं एहवो अकल तुं. चौदराजलोकना सर्वे  
 पदार्थोथी तुं परकेण न्यारो परम परमात्मा तुं. तुं मनसुखने सुखजर  
 शुद्धात्म घरे उपद्रव रहित शिवसंगे राखवावालो कट्याण करवावालो  
 तुं ॥ ३ ॥ संपूर्ण ॥

॥ कलश ॥

श्म सयल सुखकर दुरित दुःखहर, वंदि चोविश जिनवरू ॥

निज ज्ञान ध्यान सशक्ति सेवी, नीम नवदधि हुं तरुं ॥

अश्वीन ओगणिश त्रेसठे दिन, शुक्ल पक्ष एकादशी ॥

दाहोद रंगे मन उमंगे, प्रभु गुणे मति उद्वसी ॥ ३ ॥

तिर्थकरोनी नित्य सेवा, सूख मेवा आपशे ॥

पर ममत त्यागी जे सोजागी, आत्म बुद्धि आपशे ॥

पर समय त्यागि स समय जागी, शुद्ध ध्येय सु ध्यानमां ॥

मनसूख शिवघर शांति पामे, सहज अमृत पानमां ॥ २ ॥

॥ चैत्यवंदन चौवीशी अर्थ सहित संपूर्ण ॥



## ॥ स्तुति चोवीशी प्रारंभ ॥

॥ श्री आदिनाथनी थोय ॥ मदाक्रांता ठंद ॥ अक्षर १७ ॥

॥ शेवा तारी जवजयहरी, जव्यने सूखदाई ॥

॥ पूरे पुण्णे तुम लहि हमे, चूकिए ना कदाई ॥

॥ आदीनाथं शिवकर सदा, तीर्थना नाथ त्रातं ॥

॥ सेवे इंद्रो सवि मलि सदा, वंदिये मुक्ति साथं ॥

॥ श्री अजीतनाथनी थोय ॥ मालिनी ठंद ॥ अक्षर १५ ॥

॥ अजित अजित जीत्या, कर्मना बंध कापी ॥

॥ लहि दरशन ज्ञानं, सिद्धता शुद्ध थापी ॥

॥ वदन कमल चंदं, देखि होवे अणंदं ॥

॥ स्वगुण विमल होवे, सूख शांती अमंदं ॥

॥ श्री संचवनाथनी थोय ॥ चरणाकुल ठंद ॥ मात्रा १६ ॥

॥ संचव संचव समपद केरो, मोह मिथ्यात हरे जव फेरो ॥

॥ केवल दर्शन निरमल पामी, केवल ज्ञानी नमुं शिव स्वामी ॥

॥ श्री अजिनंदन जिननी थोय ॥

अजिनंदन वंदु, अक्षय ज्ञान अनंत ॥ मुख अमल कमल दल,

शोभे सारद चंद ॥ शिव कमला जोगी, त्रिचुवनमां जयवंत ॥

जवि जनने तारे, जय जंजन जगवंत ॥

॥ श्री सुमतिनाथनी थोय ॥

॥ सुमती सुमती सुख, दायक लायक देव ॥

॥ सुर नर मुनि जन जस, नित नित सारे सेव ॥

॥ सुमती मुज दीजे, नाशे जव जय टेव ॥

॥ पुण्णे हुं पाम्यो, परम पुरुषनी सेव ॥

॥ श्री पद्मप्रचुनी शोय ॥

- ॥ मुख पद्म कमलथी, पद्म प्रचू जिन वाण ॥  
 ॥ शुद्ध वस्तु प्रकाशे, तम हरे केवल जाण ॥  
 ॥ लहि ज्वि सुख पामे, शिव संपति सुख ठाण ॥  
 ॥ पर जाव तजीने, जीव लहे निरवाण ॥

॥ श्री सुपार्श्वप्रचुनी शोय ॥

- ॥ श्रिसुपार्श्व जिनेश्वर, केसर अर्चित देह ॥  
 ॥ गुण पांत्रीश वाणी, शुचि पुष्कलावृत मेह ॥  
 ॥ त्रम तिमिर विनाशे, टले सकल संदेह ॥  
 ॥ अतिशय चोत्रीश ठे, प्रातिहार्य गुण गेह ॥

॥ श्री चंद्रप्रचुनी शोय ॥ चोपाइ ठंड ॥

- चंद्रप्रचू मुख चंद्र पुनमनो, ज्वदव ताप हरे ज्वि जननो ॥  
 अमृत धारा वाणी वरसे, सिद्ध समो निज आतम दरशे ॥  
 कुमत तिमिर हर जिनवर जाण, आपे परम महोदय ठाण ॥  
 जिन सेव्यां होय निरमल नाण, मनसुख पामे परम कल्याण ॥

॥ श्री सुविधिनाथनी शोय ॥

- ॥ सुविधि सुविधे सेवो, ज्ञान दान सुखदाता ॥  
 ॥ ज्वदव दुःख नाशे, ज्वि जननो एह त्राता ॥  
 ॥ परमाणंद प्रकाशे, मोह महातम नाशे ॥  
 ॥ विमल सुमति चासे, ज्ञान सुज्योति प्रकाशे ॥

॥ श्री शीतलनाथनी शोय ॥

- शीतल जिन सवी क्लेश नशावे, ज्व दव दाह बुझावेजी ॥  
 शीतल जिन गुण जे ज्वि गावे, मोह अज्ञान नशावेजी ॥  
 आतम रम्य रमे जे ज्विजन, चार अनंत उपावेजी ॥  
 परपद ममता संग तजे तो, शिव लढी घर आवेजी ॥

॥ श्री श्रेयांसनाथनी थोय ॥ मंदाक्रांता ठंद ॥

॥ श्री श्रेयांसं चरण कमले, लळि तो थीर वासे ॥

॥ साची वाणी मुख कमलथी, शुद्ध सत्ता प्रकाशें ॥

॥ सेवे तेना नव नय हरे, शुद्धता शुद्ध आपे ॥

॥ ध्याने ज्ञाने परम थिरता, कर्मना बंध कापे ॥

॥ श्री वासुपूज्य प्रचुनी थोय ॥

॥ जिन वासुपूज्यनो, परम समाधि स्वजाव ॥

॥ निज अंतर नयणे, जोतां जाय विजाव ॥

॥ तुज दरशन फरसे, ज्ञानानंद जमाव ॥

॥ नवि आणा सेवो, आव्यो नर नव दाव ॥

॥ श्री विमलनाथनी थोय ॥

॥ विमल कमल दल नयणथी ए, वरसे शांती अनंत तो ॥

॥ सकल करममल दूर हरे ए, नय नंजन नगवंत तो ॥

॥ तमहर रविकर अजिनवो ए, शांतिकर मुनिचंद तो ॥

॥ धीर वीर मेरू परे ए, सहजानंद अनंत तो ॥ १ ॥

॥ श्री अनंतनाथनी थोय ॥ इंडवजा ठंद ॥

॥ देवाधि देवा श्रि अनंत नाणी, तारी सुसेवा शिव हेतु जाणी ॥

॥ सेवे सदा जे श्रि अनंत देवा, पामे महा ज्ञान सुनोग मेवा ॥

॥ श्री धर्मनाथनी थोय ॥

॥ धर्म जिनेसर परम धरमनी, नोमी अचल अवाध ठरी ॥

॥ दरशन ज्ञान चरणमय चेतन, विरज अखंरु अनंत नरी ॥

॥ परपद त्यागी ससमय जागी, धरम शुक्ल शुन ध्यान धरी ॥

॥ जे जन ध्यावे ते सुख पावे, व्यक्ति सहज समाधि नरी ॥

॥ श्री शांतीनाथनी थोय ॥ ईडवजा ठंद ॥

॥ शांती जिणंदा सुर ईड्र वंघा, कल्याण वेली महाणंद कंदा ॥

॥ संसार दावानल ताप हारी, वाणी प्रचूनी शिव शांतीकारी ॥

॥ श्री कुंथुनाथनी थोय ॥ वसंत तिलका ठंद ॥

कुंथू जिनेसर सदा दुख दोष हारी, सेवा जये करि महा शिव  
हेतु प्यारी ॥ सेव्यो हमे विनयथी तजि मोह मान, थासे सदा  
सफल तो सिध शुद्ध ध्यान ॥

॥ श्री अरनाथ जिन थोय ॥

॥ अरजिन वंदो ज्ञानानंदो, केवल कमला कंद खरो ॥

॥ पुद्गल परिणति प्रयास निवारी, निःप्रयासो निज ध्यान धरो ॥

॥ दरशन ज्ञान चरण गुण उलसे, एम जव सिंधु सहज तरो ॥

॥ ममता तजतां दोष सकल ह्य, समता समरस शांति वरो ॥

॥ श्री मद्धिनाथनी थोय ॥ मंदाक्रांता ठंद ॥

॥ मद्धी स्वामी तम हर रवी, ज्ञाननो तेज चारी ॥

॥ तार्या तारो जविक जनने, पाप संताप हारी ॥

॥ ड्रव्ये जावे जिन मग लही, सेविण मोहदाता ॥

॥ आवे शाता अचल विमली, सिद्धि शांती अबाधा ॥

॥ श्री मुनिसुव्रत जिननी थोय ॥ मालिनी ठंद ॥ अ०१५॥

॥ मुनिसुव्रत जिणंदा, आत्म आनंद कंदा ॥

॥ जर तिमिर नशावे, ज्ञान ज्योती दिणंदा ॥

॥ ससमय सुख आपे, मोह मार्गाधिकारी ॥

॥ सुख प्रशमरतीनुं, शांति द्यो निर्विकारी ॥

॥ श्री नमिनाथनी थोय ॥

॥ नमी जिनेसर चरणनी सेवा, अनुभव मेवा मीठा ठे ॥

॥ काल अनंते पूरव पुण्ये, में निज नयणे दीठा ठे ॥

॥ दरशन ज्ञान चरण सुखदायक, नायक हैमे ईछा ठे ॥

॥ सहज सतंत अनंतानंदे, प्रचुजी गुण गरिछा ठे ॥

॥ श्री नेमिनाथनी थोय ॥ हरिगीत ठंद ॥ मात्रा १८ ॥

॥ श्री नेमजिनवर परम प्रावल, त्यागि सर्व विजावनो ॥

॥ अरु कर्म चूरी शक्ति पूरी, जोगि सहज स्वजावनो ॥

॥ प्रचु ज्ञान दिनकर मोह तमहर, स्वगुण नंदनवन रमे ॥

॥ नर सूर कोनी हाथ जोनी, मान मोडी तुज नमे ॥

॥ श्री पार्श्वजिननी थोय ॥

॥ मूनि ब्रंद शेवे पाय, गाय गूण किन्नरी ॥

॥ आठ कर्म नाश जास, जोग शीव सुंदरी ॥

॥ पास देव सेव सार, ते उदार में लही ॥

॥ आत्म शक्ति व्यक्ति करुं, वाणि ध्यानमां रही ॥

॥ श्री वर्धमानजिननी थोय ॥ मालिनी ठंद ॥

॥ वीरं धीरं सकल श्रमणे, सेवियो मोहदाई ॥

॥ मोटो मेरू विमल सहिमा, शांतिदाता सदाई ॥

॥ साचे ज्ञाने परम धरमे, ध्यानमां जेह ध्यावे ॥

॥ आपा आपे शिव मनसुखे, शीघ्र कढ्याण पावे ॥

॥ चोवीश जिन स्तुति संपूर्ण ॥

श्री नवपदनी स्तुति लिख्यते

॥ श्री अरिहंत पदनी थोय ॥

॥ अनंत चतुक जोगी श्री जिनवर, वार गुणे गुणवंताजी ॥

॥ पांत्रीश गुणयुत वाणी जेहनी, चोत्रीश अतिशय संताजी ॥

॥ प्रातिहारज आठ विराजे, त्रिचुवन तेज दिणंदाजी ॥

॥ पखदा वारना संशय ठेदे, तारक धर्म धुरिंदाजी ॥

॥ श्री सिद्धपदनी थोय ॥ रुचिरा ठंद ॥ मात्रा ३० ॥

॥ अष्ट गुणातम व्यक्ति सतंती, पूर्ण निवृत्ति सिद्ध महं ॥

॥ लोकालोक प्रकाशक निर्मल, पञ्जव जोग अनंत जहं ॥

॥ सहज अखंड अनंत अबाधित, वीर्य सतंत सुलब्धि मुदा ॥

॥ पूरण परमाणंदित वंदू, त्रिजुवन मुकुट श्री सिद्ध सदा ॥

॥ श्री आचार्यपदनी थोय ॥

॥ पाले पंचाचार पलावे, युगप्रधान सुरिराज नमुं ॥

॥ गुण ठत्तीस ठत्तीस गुणधारी, नमि आतम मन इंद्रि दमुं ॥

॥ जे त्रीजे जव शिवपद पावे, कुमत हठावे न्यायधरू ॥

॥ विनय विवेक बहु सन्माने, आण ग्रही निज सिद्धि वरू ॥

॥ श्री उपाध्यायपदनी थोय ॥

॥ द्वादश अंग सद्गुण करे सम-जाणी श्री उवजाय नमुं ॥

॥ गण चिंतक युवराज परे लखो, ममत माय अज्ञान वमुं ॥

॥ जणत जणावत शासन प्रेरत, जे त्रीजे जव शिव पावे ॥

॥ सम पहोण गुणखाण मुनीसर, नमि मनसुख शिवघर आवे ॥

॥ श्री साधुपदनी थोय ॥

॥ राग रोष मद मोह रहित मुनि, तप संजम आतम जावे ॥

॥ शत्रु मित्र दुःख सुख तृण मणि सम, सिद्ध समो आतम ध्यावे ॥

॥ द्रव्य जाव खटकाय दयाधर, खांति मृडु रुजु मुक्ति धरे ॥

॥ सत्य शौच अकिंचन ब्रह्मचर, दोष टाळी महियल विचरे ॥

॥ श्री ज्ञानपदनी थोय ॥

॥ पंच ज्ञानमां शुद्ध सदागम, दायक लायक मुक्ति तणो ॥

॥ जाणी श्रुतधर पासे जविजन, अति सन्माने श्रुत जणो ॥



॥ टाली-अड अतिचार-विनययुत, श्रुतधरनी-आणा सेवो ॥

॥ दरशन ज्ञान चरण शिव कारण, मनसुख सेवो श्रुत मेवो ॥

॥ श्री दर्शनपदनी श्लोक ॥

॥ चरण कटपतरु मूल सुसमकित, मोह नशावी ज्ञान करे ॥

॥ नवदत्र ताप नशावी मेघ सम, गुण अंकुर करि शांति करे ॥

॥ विमल शुद्धात्म वाग फलावत, आत्म संपत् आवी मले ॥

॥ ए विण जूठी सब खल करणी, दरशनथी दुःख दोष टले ॥

॥ श्री चारित्र्यपदनी श्लोक ॥

॥ चरणे बहु विध लब्धी उपजे, जेह रंकको राय करे ॥

॥ जन्म जरा नव त्रमण मिटावे, तजी अशुच शुच ध्यान धरे ॥

॥ परपद समता राग रोष तजी, रम्य रूप निज रमण करे ॥

॥ कर्म आठको बंधन कापे, अष्ट गुणात्म सिद्धि वरे ॥

॥ श्री तपपदनी श्लोक ॥

॥ अष्ट करमनुं मूल उखेडे, तप कुंजर सम तेज धरे ॥

॥ चीर कालना संचित दलने, धीर वीर मुनि रिक्त करे ॥

॥ खट खट बाह अच्यंतर तप तपी, बहु मुनिवर निज सिद्धि लही ॥

॥ दरशन ज्ञान चरण शुद्धात्म, जोगत परम सतृप्त रही ॥

॥ श्री नवपदनी स्तुति संपूर्ण ॥

॥ अथ श्री महावीर जिन स्तवन ॥

॥ रामचंद्रके वाग चंपो मोरी रहोरी ॥ एदेशी ॥

वीर जिणोसर वदन वचन आदर नवि प्राणी, आत्म शक्ति अनंत लहो शाश्वत सूख खाणी ॥ निज शक्ति निज

मांहि धरी शिव कमला वरिए, परपरिणति रस त्यागी दुखद  
जव वन नव फरिए ॥ १ ॥

अर्थः—अनंत वीर्यवंत चोवीशमा वीरजिनेश्वरना वदन कमलनी  
परिमलरूप वाणी आत्माने अनंत स्वतंत्र सुखनुं कारण जाणी  
आदरीए. आत्मीक अनंत शक्तिने शाश्वत अनंत सुखनी खाण  
जाणी आदरीए. आत्म अज्ञान वडे अनादि जीव पोतानी आत्मीक  
शक्ति, अथीर पुद्गलोमां सुखस्वाद जाणी पुद्गलोमांज वापरे ठे  
पण अथीर अने परतंत्र पुद्गलोथी साचुं सुख पामतो नथी पण  
ज्यारे सर्वे निजात्म शक्ति आत्म धर्ममां फोरे ( वापरे ) तोज सहज  
परमानंद प्राप्ति आय. पुद्गल परिणतिमां आत्म शक्ति फोरववाथी  
( वापरवाथी ) अपार क्लेश जोगववो पडे ठे माटे हवे सचेत अई  
पुद्गल परिणतिनो रस बोडीए तो दुःखदाई गहन जव अटवीमां  
भमवुं पडे नहीं ॥ १ ॥

॥ जेम खल नर कर चरण वचन तन धन निज फोके ॥

॥ नयन श्रवण मन बुद्धि शक्ति पर काजमां रोके ॥

॥ ते लहे दूःख अपार रहे नहि सहज स्वतंत्र ॥

॥ ठती शक्ते निज काज विना नहि दूःखनो अंत ॥ १ ॥

अर्थः—जेम कोई खल ( मूर्ख ) पुरुष पोताना हाथ पग वचन तन  
धन मन आंख कान बुद्धि विचारादि सर्वे शक्ति पोताना काममां न  
वापरतां फोगट अन्य जरुना काममां वापरे तो ते बेहद दुःख पामे,  
सहज स्वतंत्र समाधि पामे नहीं. पोतानी ठती शक्तिए दुःख टालवा  
रूप अने सुख प्रगट करवा रूप निज कार्य न करे तो दुःखनो अंत  
आवे नहीं. जेम कोईना धरमां रत्नादि घणी. रिद्धि दाटेली होय ते  
प्रगट करी वापरे नहि तो केम सुख पामे ? आत्मीक ज्ञान दर्शन  
चरणादि रिद्धि, अज्ञान मिथ्यात्व अने कषायमां दबेली ते जेदज्ञान

रूप कोदाले करी अज्ञान मिथ्यात्व कषाय जड मूलथी उखेडी दूर करीए तोज ज्ञानादि रिद्धि पोताना चोगमां आवे पण अज्ञान मिथ्यात्व अने कषायो वडे ए रिद्धि परकार्यमां वापरीए तो केम सुखी थईए ? ॥ १ ॥

॥ परपद जाणवा काज रुक्यो निज ज्ञान सदाय ॥

॥ आत्म ज्ञान विना नर अंध महा दुःख पाय ॥

॥ देखत पुद्गल रूप अचल चिट्ठूप न देखे ॥

॥ आत्म स्वज्ञावाचरण विना पर रमण अलेखे ॥ ३ ॥

अर्थः—परपद पुद्गल वस्तु जाणवामांज ज्ञान वापर्युं तेमांज रोक्युं पण शुद्ध पूर्णात्म स्वज्ञाव जाणवामां वापर्युं नहीं एटके आत्मज्ञान विना अंध पुरुष सदाए अखंड समय परतंत्रपणे दुःखज चोगवे अने पोताना दर्शन गुण वडे पुद्गलीक रूपने देख्यां करे, तेमांज शुजाशुज निर्धार कर्यां करे तेथी अचल निज चिदात्मरूप देखे नहि, निश्चय करे नहीं. पुद्गलाचरण करी तेनेज रम्य जाणी तेनुंज रमण करे पण रम्य शुद्धात्म स्वज्ञावमां रमण कर्यां विना विषय कषाय रूप अलेखे पर रमण करे तेथी केम सुखी थाय ? ॥ ३ ॥

॥ पर परिणतिमां वीर्य धरी निज गुणमां न राख्युं ॥

॥ पुद्गलमां करी प्रीत विषय विष बहु विधि चाख्युं ॥

॥ नवि करी आत्म प्रीत परम थीर प्रेम न जाण्यो ॥

॥ पुद्गलमां सूख आश करी खोळी दुःख खाणो ॥ ४ ॥

अर्थः—आत्मीक अनंत वीर्य परपरिणतिमां वापर्युं त्वांज राख्युं, मन ईद्रिहाराए आत्म वीर्य बालबाधक जावे करी परपरिणतिमांज फोर्यां कर्युं पण ज्ञानादि निज गुणोमां वीर्य उठ राख्युं नहीं तेथी चल वीर्य करी अष्टकर्म बांधी चार गति कंतारमां जवत्रमण कर्यां कीधुं. प्रीती स्वज्ञावे करी सर्वे समये परद्रव्यादिकमां प्रीती करी अने पथी

सुखी थइशुं एम प्रतित आणी त्यांज प्रेम राख्यो पण परम प्रेमने  
उपजावनार शुद्धात्म तत्त्वमां प्रेम प्रतीत करी नहि अने पुद्गलोमां  
प्रीत करी वारंवार जन्म जरा मरणादि रोग अने कर्मबंधनं कारण एहवुं  
विषयरूप विष बहु प्रकारे जडण कर्युं. शुद्धात्म स्वजाव माहे उत्कृष्ट  
स्थिर स्वतंत्र प्रेम जाण्यो नहीं, त्यां प्रीति करी नहीं पण पुद्गलमां-  
थीज सुख थशे एवी आशा राखी कर्मचेतनापणे थई सर्वे समये  
पुद्गल क्रिया करी दुःख जरी लेवा दुःखनी खाणो खोदी ॥ ४ ॥

॥ थई जड जावनो कामी सहजातम काम विनास्यो ॥

॥ परघर उद्यम करत बहु श्रममां निज वास्यो ॥

॥ कर्ता परपरिणामी थई निज काज न सिध्यो ॥

॥ निज परिणामिक धर्म लह्या विण जवजय कीधो ॥ ५ ॥

अर्थः—शुद्धात्म जावनो कामी थयो नहीं पण जड जावनो कामी  
थई आत्म शुद्धतारूप कार्य विणसाव्युं. निजात्म घर ठोडी पुद्गल  
द्रव्यरूप पर घर के ज्यां तेना वर्णादि पूरण गलन सडण परण विध्वं-  
सन आदि अनेक धर्म रह्या ठे. मन वचन काय अने उपकरणादिनी  
क्रियावडे उद्यम करतो पोताने बहु श्रम खेदमां वसावी राख्यो. कोई  
द्रव्य कोई अन्य द्रव्यादिने निश्चयथी करी शकतो नथी ते ठतां  
अज्ञानवशे पोताने परद्रव्यादिनो कर्ता मान्यो तो परपरिणामी थयो  
तेथी निज कार्य सिद्ध थयुं नहीं अने आत्म शुद्ध परिणामीक धर्म  
जाण्याविना शुद्ध स्वपरिणामीकताए परिणम्यो नहीं तेथी अनेक  
जवजमणरूप जय खरा कर्या ॥ ५ ॥

॥ विषय वीषनो जोगी थई शिव जोग न पाम्यो ॥

॥ पररहक पर दानी रही ममतामां जाम्यो ॥

॥ इत्यादिक सवि शक्ति करी पुद्गल अनुयायी ॥

॥ परअधिकारी मानी महा निज रिद्धि न पाई ॥ ६ ॥

अर्थः—अनेक उपद्रववाळुं पंच इंद्रिता विषयरूप विष तेनो जोगी  
 थई उपद्रव रहित ज्ञान दर्शन चरण अठ्यावाधादिक शिवलक्ष्मीनो  
 जोग जाण्यो नहि तो तेनी समाधि शी रीते आवे? एटले शिव जोग  
 पाम्यो नहीं. अथिर पुद्गल परिणतिने थिर राखवा अनेक श्रम  
 प्रयत्न कर्यो अने पोताना घरमां नहीं एवी पुद्गल वस्तु पुद्गल जोग  
 वके ग्रहण करी अन्य पुद्गलोने अथवा पुद्गल ग्राही जीवोने आ-  
 पवानुं ममत्व कर्युं तेथी इंद्रियोने पौद्गलीक स्वादरूप दान आपवा  
 खेवानो ममत्व कर्यो तेथी परममता मांही परिणाम जमी रह्यो. इत्या-  
 दिक पोतानी सर्वे शक्ति पुद्गल पाठल पुद्गल आश्रित करी राखी  
 तेथी निज कार्य सिद्ध थयुं नहि. अने पोताने पुद्गल द्रव्यादिनो  
 अधिकारी मान्यो तेथी शुद्धात्म अधिकार जाण्याविना केवलज्ञा-  
 नादि शुद्ध अखंड स्वतंत्र निज रिद्धिनो अधिकारी थयो नहि ॥६॥

॥ चेतो चतुर सुजाण पुरण निज ज्ञायक जाणी ॥

॥ दर्शनथी निज देखी करो दुःख दोहग हाणी ॥

॥ विषय कषायाचरण रमण तजी निज गुण रमीए ॥

॥ निजगुण वीर्य अनंत राखी परमांहि न गमीए ॥ ७ ॥

अर्थः—हे चतुर पुरुषो ! चेतो. पोतानी पूर्ण ज्ञायकता शक्ति जाणी  
 ज्ञान गुण अखंड पूरण ज्ञानानंदमां वापरो. ज्ञान गुण अखंड समय  
 पुद्गल पर्याय जाणवामां वापरीए रोकिए तो ते ज्ञानगुण त्यांज  
 अवराय अने पोताने कांई हितकारी थाय नहीं पण ज्ञानगुण  
 अखंड शुद्धात्म शक्ति जाणवामां राखीए वापरीए तो अक्षय आनंद  
 उपजे. दर्शनगुणे करीने पुद्गल पदार्थने देखीए अने ते मांही  
 शुजाशुच निश्चय करीए तेमां कांई पोताने हितकारी नथी पण  
 अखंड स्वतंत्र परमानंदमय निज चिद्घन रूप देखीए निश्चय  
 करीए तो सकल दुःख क्लेशनो नाश थाय अने अक्षय अबाधित

सुख प्रगटे. विषय कषायनुं आचरण रमण तजी रम्य सहजात्म गुणनुं आचरण करीए अने परिणति रमावीए तो अन्वय एकांतीक आत्यंतिक परमशांति समाधि पामीए. अने आत्मीक अनंत वीर्य शुद्धात्म गुणोमां दृढ अचल राखीए पण असार पुद्गलिक क्रिया मांहि वीर्य फोकट खोश्ए गमावीए नहि ॥ ७ ॥

॥ ज्ञानादिक गुणमांहि सदा तृप्ति अति धारी ॥

॥ ईच्छा पुद्गल जोग तणी जन्मूलथीवारी ॥

॥ सुख आशा निज मांहि लहि पर आश न कीजे ॥

॥ निज कामी रहि नित्य कामना अवर तजीजे ॥ ० ॥

अर्थ:-शुद्ध निज ज्ञानदर्शन चरण रमण गुणमां अतिशय तृप्ति धारी रहीए षट्के जगजीवनी एंठ पुद्गल जोगनी ईच्छा आतुरता जडमूलमांथी उखेडी सदा शांत रहिए. सहज शुद्ध स्वतंत्र ज्ञानानंद स्वभावमांहिज सुख ठे एम जाणी पुद्गल द्रव्यमांथी सुख लेवानी आशा राखीए नहि. शुद्धात्म धर्मना कामी थई परद्रव्यादिकनी कामना बोडीए ॥ ७ ॥

॥ शुध उपयोग संज्ञाली सार परपदनी तजीए ॥

॥ निजगुण जोग आणंद धरी परजोग न जजीए ॥

॥ शुद्धात्ममां प्रेम प्रतीत करो स्व अखंडी ॥

॥ परपरिणति परदारीशुं प्रेमनी रीत विहंकी ॥ ए ॥

अर्थ:-सिद्ध समान निज सहज स्वरूपमां उपयोग स्थिर राखीए तो रागादिके उपयोग चल अजर मलीन थाय नहीं एम अखंड समय संज्ञाल एटके संजममां रहीए पण परधन कुटुंब शरीरादि अथीर पुद्गलनी संज्ञालथी कांई गुण नथी. पुद्गलो तो अनंतकालथी संज्ञाल्या कर्या पण ते आपणे वश रखा नहि

माटे परनी संजाल ठोकी दर्शए. कृमा निस्पृहता अने ज्ञान दर्शनादि  
निज गुण जोगमां आनंदे रहि अथिर पुद्गलोना जोग ठोकीए.  
निज आत्म संपदामां अखंड प्रेम प्रतित करो पुद्गल परिणति  
परदारा कृणे कृणे मनोज्ञ अमनोज्ञपणे परिणम्या करे ठे तेथी  
मिथ्याती जीव एमांहि पूर्ण आनंद मानी उगाय ठे पण सचेत थई  
एवी परपरिणति उगणीथी प्रेमनी रीत राखवी नहि, प्रतित  
करवी नहि ॥ ए ॥

॥ निज लाजे लय लीन थई परलाज न चाहो ॥

॥ पुद्गल हर्ष विषाद तजी निजगुणमां उमाहो ॥

॥ तजी परसंग अनंग रंग सुमताशुं रहीए ॥

॥ आत्म शक्ति अनंत फोरि सहजे सूख लहीए ॥ १० ॥

अर्थः—अनंत ज्ञान विर्यादिक निज लाजमां लयलीन थई जड  
पुद्गलोना लाज वंठो नहीं अने पुद्गलोमां हर्ष अने विषाद एटले  
स्नेह अने द्वेष तजी पुद्गलोथी उदासिन्न थई तेनो उमेद ठोडी  
पूरण उमंग निज गुणमां राखो. ज्ञायकता शिवाय अन्य पर वस्तुनो  
संग अने कामना विकार तजी सुमता संगे रंग रीझमां रहीए एम  
आत्म शक्ति अनंती आत्म स्वभावमां फोरी स्वतंत्र शाश्वत सुख  
पामीए ॥ १० ॥

॥ एम लहि निज अधिकार सार शुध संपति विदसो ॥

॥ वीर जिणेसर आणा नयन शिव मार्गे उदसो ॥

॥ तजी परनो अतिबंध सहज निज वीर्य संजालो ॥

॥ मनसुख सम्यक्प्राप्ति करि शिव मंदिर म्हालो ॥ ११ ॥

अर्थः—एम शुक पोचोते आत्म अधिकार पामी सार निजात्म

संपदानो अखंड समय विलास करो. अनंत वीर्यवंत एवा श्री  
वर्द्धमान स्वामीनी आज्ञा रूप नयण शिव सन्मुख करी उद्धास करी  
मोह मार्गे चालो. गाम घर कुटुंब अने शरीरादिक जे स्वध्यात्माथी  
परवस्तु तेनो प्रतिबंध तजी सहज निजात्म वीर्य संचाली सकल  
कर्मनो दाय करी सहजात्म संपदा संचाली सुखी थारुं. एम मनमां  
सुखे करी सम्यक्प्राक्रम आदरी उपद्रव रहित सहज ध्यात्म  
स्वभावमां केली करो ॥ ११ ॥

॥ संपूर्ण ॥







अ.

अकम्म-अकर्म, कर्म रहित, अक  
स्मात्

अकृत-वगर करेलुं

अकृत (यकृत)-पेटमां जमणी त  
रफ रुधिर धवानुं स्था  
नक, ते स्थानके यतो  
रोग

अचेलक-वस्त्र रहित, दिगम्बर

अजहु-आज सुधि, हजुपण

अचेत (अचित्त)-चेतना रहित  
पदार्थ जेवां के-सुवर्ण  
रुपु, मंदिर वस्त्रादिपुजल  
पदार्थ, धर्म्मास्तिकाय,  
अधर्म्मास्तिकाय, आका  
शास्तिकाय, अने काल.

अटवी-बिहामणुं जंगल

अड (अष्ट)-आठ

अरुप्रवचन-आठ प्रवचन माता  
पांच समिति, अने त्रण  
गुप्ति

अण-नहीं, वगर

अणउवेखतां-उवेख्या वगर, अपे  
हा राखीने, सापेह

अणगार-घर वास ठोकेलो साधु

अणावाह (अव्याबाध)-बाधा पीडा  
रहित; जेने बाधा थई  
शके नहि एवुं

अणलहतो-अणपामतो, अणजा  
णतो

अतिशय-अत्यंत आश्चर्यकारक श  
क्ति, अरिहंतना मुख्य  
अतिशय चार (१) अ  
पायापगमन अतिशय.  
(२) वचनातिशय. (३)  
ज्ञानातिशय, (४) पूजा  
तिशय. विशेषे चोत्रीश  
जेद. (१) घातिकर्म द्वाय  
थया पठी केश रोम नख  
न वधे. (२) रोग रहित  
निर्मल पुष्ट देह प्रस्वेद  
दुर्गंध रहित. (३) गो  
हीर समान उज्वल मांस  
रुधिर. (४) श्वासोश्वास  
सुगंधी कमल समान.  
(५) आहारनीहार चर्म  
चक्षुशी देखाय नहि.  
(६) विहार करती वखते

आकाशे धर्मचक्र आ  
गल चाले. (७) शीर  
उपर त्रण ठत्र आकाशमां  
रहे. (८) श्वेत चामर चो  
वीश जोडा विंजाय. (९)  
पादपीठ सहित स्फटीक-  
मणिमय सिंहासन होय  
( १० ) इंद्रध्वज आका  
शमां फरके. ( ११ ) अ  
शोकवृद्ध ठाया करे.  
(१२) हजार सूर्यना ते  
जवालुं शीतल चामंरुल  
प्रचु पीठे शोत्रे. (१३)  
ज्यां विहार करे त्यां बहु  
सम रमणिक चूमि जाग  
होय. (१४) जमीन उ  
पर पडेला सर्वे कांटा  
अधोमुखे थाय ( १५ )  
ठ ए रतु सुखदाई थाय  
(१६) शीतल सुगंधी  
पवन मंद मंद एक जो  
जनमां दशेदिशा वि  
स्तरे. (१७) प्रचु विहार  
करे त्यां दुर्गंधी टालता  
सुगंधी जलविंदु वरसे

(१८) जल स्थलना पंच  
वर्णी सुगंधी पुष्प पगरढीं  
चण सुधीपथराय. (१९)  
अमनोझ शब्द रूप रस  
गंध स्पर्शनो अज्ञाव होय  
अने मनोझ विषय प्र  
गटे. (२०) बंने बाजुए  
यद्द सुगंधी धूप उखेवे  
तथा चामर वीजे (२१)  
देशनानी दिव्यध्वनी जो  
जन प्रमाणमां गंजीर  
नादे गाजता मेघनी पेठे  
मधुर सर्वे परखदाने  
सरखी संजलाय. (२२)  
अर्ध मागधी चाषामां  
धर्मोपदेश करे. (२३) ते  
वाणी तिर्यच मनुष्य  
आर्य अनार्य देव आ  
दिने आप आपणी चा  
षामां परिणमे समजाय.  
(२४) परखदामां कोईने  
पण पूर्व वैर उदय न  
आवे न सांजरे एटले  
कोई कोईने विरुद्ध होय  
नहि. (२५) कपिलादि

अन्य तीर्थीओ पण आवे  
 मान ठोकी जगवंतने  
 वंदे. (२६) परमेश्वर ते  
 ओना वचननो मद तोमे  
 पण ते लोको प्रत्युत्तर  
 दर्श शके नहि. (२७)  
 ज्यां अरिहंत विचरे  
 त्यां पचीश योजन सुधी  
 धान्यने उपद्रवकारक  
 जीवो न होय. (२८)  
 मरकी आदि जारे उप  
 द्रव थाय नहि. (२९)  
 स्वचक्र स्वदेशी कटक  
 उपद्रव न करे. (३०)  
 परचक्र परदेशी कटकनो  
 जय न होय. (३१)  
 अतिवृष्टी न थाय ( ३२ )  
 अनावृष्टी न थाय ( ३३ )  
 दुर्जिह्व न होय ( ३४ )  
 पूर्वे उपजेला रोग तत्काल  
 उपशमे. एम श्री सम  
 वायांगमां तीर्थकरना  
 चोत्रीश अतिशय वर्ण  
 व्या ठे.

अतिव्याप्ति-लक्ष्यमां ठे तेम अल-

क्ष्यमां ठे एवं लक्षण  
 बताववुं. जेम जीवनुं  
 लक्षण अरूपी कहेवुं.  
 पण अरूपी गुण जीव  
 शिवाय बीजा आका  
 शादि द्रव्योमां पण ठे ते  
 थी जीवनुं अरूपी लक्षण  
 कहेवुं ते अतिव्याप्ति  
 दोष सहित कहेवाय.

अदिन्नादान ( अदत्तादान )-वगर  
 आपेलुं लेवुं ग्रहण करवुं.

अध्यवसाय-निर्णय करेलो अन्नि  
 प्राय,

अनर्थदंड-विना प्रयोजने पाप  
 करवुं ते.

अनुप्रेक्षा-ज्ञावना, अनुप्रेक्ष्य-चिंत  
 वन करवा योग्य, मनन  
 करवा योग्य, ज्ञाववा  
 योग्य ते वार ( १२ ) ठे  
 जुळ ज्ञावना.

अनुयोग-बोधनो प्रकार. द्रव्यानु  
 योग द्रव्य स्वरूप जा  
 एवानो प्रकार, साधन.

अनेषणी ( अनैषणिय )-अशो  
 धित, अप्राशुक, जीव

विराधना आदि दोषीत आहारादि वस्तुर्ज जे सं यमीने लेवाने अयोग्य.	अवगाहना-क्षेत्र अवगाढ, क्षेत्रे विस्तरवुं.
अनंत-अंत रहित, अनंत प्रजाय पर्याय, अंत रहित परि णमन.	अवधारवुं-समजवुं, मनन करी धारी राखवुं.
अनंता-अनंत, अंत रहित.	अविरति-विषयादिथी विरमवुं नहि ते, विषयोधी राग अने मन वचन कायानी प्रवृत्ति न ढोडवी ते.
अनंतानुबंधिआ-अनादिथी सम कीत यता सुधी जेनो अंत आव्यो नथी ते स मकीतने रोकनार कषाय.	अविसंवाद-विसंवाद वगरनुं, जेमां विसंवाद चाखी शके नहि एवुं.
अन्वयपणुं-अनेदपणुं, कोईकाले बूटुं नहि परवुं ते अ न्वयगुण, निरूपाधिक गुण, स्वयंसिद्धगुण.	अवेदपणुं-विषय वेदना रहित.
अपडिबंध (अप्रतिबद्ध)-पर ड्र व्यादिना अटकाव वगर संबंध वगर, परड्रव्या दिथी बंधाएला रहेवुं नहि ते.	अव्याप्ति-जे लक्षण लक्ष्यमां स वांगे अने सर्व काले न होय अर्थात् कोईक अंगे, कोईक काले होय एवुं ल क्षण बताववुं ते अव्याप्ति दोष सहित कहेवाय. जेम जीवने क्रोधी क हेवो ते अव्याप्ति दोष ठे कारणके सर्वे जीवो सर्वे काले क्रोधी होता नथी. जे लक्षण कोई कोई लक्ष्यमां ठे अने कोई कोई लक्ष्यमां नथी
अप्रतिपाती-पावुं न पडे एवुं.	
अप्रशस्त-अहितकारी, अलायक (आत्माने)	
अफुसमान-अणस्पर्शतो थको.	
अजिलाप्य-वचन गोचर.	
अरि-शत्रु (कर्म शत्रु)	

ए बताववुं ते. जेम आत्महृदयान-आहुं अवलुं दुष्ट ह  
त्माने रागादि सहित  
कहेवो ते.

ठीलुं ध्यान.

आ

अव्याबाध-अबाधित, बाधा पीडा  
रहित.

आणा-आज्ञा.

अव्रत-अविरति, हिंसा अने विष  
योधी विराम नहि पा  
मवो ते. बार (१२) ठे.  
पांच ईद्रियोना विषय,  
मनोजन्य संकल्प अने  
ठ क्वायना जीवोनी हिं  
सामां प्रवर्त्तवुं ते.

आणपाण ( आना पान )-श्वासो  
श्वास,

अद्भ्ययण ( अध्ययन )-सूत्रनो अ  
धिकार, अध्याय, ज्ञानमां  
उपयोग आवे एवुं अध्य  
यन, अन्यास.

आत्मगुण-जीवना गुण मुख्य आठ  
ठे. ज्ञान, दर्शन, चारित्र  
( स्थिर रमण ) अनंत  
लब्धिवीर्य, अटल अव  
गाहना ( अनंत स्थिति)  
अगुरुलघु, अमूर्तीपणुं,  
अव्याबाधपणुं, गर्जित  
पणे अनंत गुण ठे.

असंख्य-संख्या न थई शके एवुं,  
संख्यातीत.

आत्मपिंड-आत्म अंग, अनंत ल  
क्षणवालुं अने असंख्य  
प्रदेशवाहुं एक अखंरु  
आत्म अंग.

असंज्ञव-जे लक्षण प्रत्यक्ष तथा  
परोक्ष प्रमाणथी लक्ष्यमां  
बीलकुल कोई अंगे कोई  
काले न होय ठतां बता  
ववुं ते असंज्ञव दोष ठे.  
जेम पुद्गलमां चेतना  
गुण कहेवो. आत्माने ज  
डता युक्त कहेवो.

आदान-लेवुं, ग्रहण करवुं.

आधाकर्म-दोषीत, दोषवालो आ  
हार विगेरे.

आराधक-तीर्थकरनी आज्ञा प्र  
माणे शुद्ध साधना साध  
नार पुरुष.

आर्त्त-चिंता, अरति.

आर्त्तध्यान-इष्ट वियोगादिथी यती चिंता रूप ध्यान.	उत्सर्ग-त्याग उत्सर्गपवाद-कारण सेवी उपादा नने कार्यमां लाववुं ते
आर्यव-धर्मात्मा.	उदय-सत्तामांथी उपर आववुं ते, प्रगट थवुं ते
आवीरज्ञाव ( आविर्ज्ञाव )-प्रगट थएला ज्ञाव.	उद्देगता-जरमावुं, गंजरावुं ते उन्मग-( उन्मार्ग ) उलटो रस्तो, जूठो मार्ग
आशायण ( आशातना )-अरिहंत धर्माचार्यादिनी.	उपकरण-हथीआरो, साधनो (संय मना) ते चौद ठे.
आशंशा-विशेषे आशा.	उपचार-कोई वस्तुनो अन्य वस्तु मां आरोप, उपाय, प्र तिकार
आस्रव-शुजाशुज कर्मोनुं आगमन. ते सत्तावन प्रकारे थाय ठे. पांच मिथ्यात्व, बार अव्रत, पच्चीस कषाय अने पंदर योग.	उपध्यान-ध्यानने अर्थे तपस्यादि करी आहार विषयादि ठोरवां ते
इ	उपादान-जे कार्यरुपमां आवी शके ठे ते. जेम घटकार्यनुं उ पादान माटी
ईम-एम.	उपादेय-आदरवा लायक
ईर्यापथ-उपयोग चूक्या विना जीव यतना सहित चालवुं ते.	उपावे-उपजावे
इष्ट वियोग-व्हाली वस्तुनो वियोग इहवुं-इववुं	उवेखवुं-गणकारवुं नहि ते
उ	ए
उजमाल-उद्यम करवा उमंगी, तत्पर	एकांतिक-एकलुं, अन्य द्रव्य ज्ञा वना जेलविनानुं.
उत्सर्ग-उपादानने कार्य रूपमां लाववुं ते.	

ओ  
ओघ-समूह, समुच्चय.  
ओही-अवधि, ( ज्ञान )  
ओ  
औदारिक-शोचायमान, कल्याण  
कारी, एक जातनी स्थूल  
पुञ्जल वर्गणा. मनुष्य  
तिर्यचना शरीर विगेरे.  
अं  
अंग-जिन प्ररूपित समय(सिद्धांत)  
रूप पुरुषना अंग ते बार  
ठे. (१) आचारांग (२)  
सुयगरांग (३) गणांग  
(४) समवायांग (५) न  
गवती ( विवाहपन्नती )  
(६) ज्ञाताधर्मकथा( ७ )  
उपासक दसांग ( ८ )  
अंतगरु दशांग ( ९ ) अ  
नुत्तरोववाइ ( १० ) प्रश्न  
व्याकरण (११) विपाक  
(१२) द्रष्टीवाद.  
अंतक्रिया--चौदमागुण स्थाने ठेह्वी  
क्रिया.  
अंतमुहुत्त-( अंतर्मुहुत्त ) वे घनीना  
अंदरनो काल, मुहुत्त  
वे घनी.

अंतराय-रोकाण, अंतर पाऊनार,  
कार्यने सुखने रोकवुं ते.  
क  
करण-कार्य करवानां कारण, सा  
धन, मन, वचन, काया  
तथा पांच इंद्रियो  
करणरोग-काननो रोग  
करणलब्धि-इंद्रिय वीर्यनो लान्न  
कर्म-मिथ्यात्वादि हेतुवदे जीवे  
करेला ते आठ प्रकारे  
ज्ञानावरण, दर्शनावरण,  
मोहनीय, अंतराय, नाम,  
गोत्र, वेदनीय अने आयुष्य  
कलुष-कषाय-क्लेश. कषाय-१५  
ठे. क्रोध, मान, माया,  
लोभ, ए चारेना चार प्रकार  
अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्या  
नावरण, प्रत्याख्यानावरण  
अने संज्वलन मली १६अने  
ए बीजा हास्य, रति, अरति,  
शोक, जय, जुगुप्सा, स्त्री  
वेद, पुरुषवेद अने नपुंस  
कवेद.  
काजसर्ग-(कायोत्सर्ग)-देहादिकनुं  
ममत्व त्यागी स्थिर उ  
पयोगमां रहेवुं ते. का



यानो त्याग करी एटले  
 पथ्यरनी मुर्ति समान नि  
 ष्कंप, अचल रहीने सा-  
 माधिकमां स्थित रहेवुं ते  
 कारक—जे वडे कार्य साधी शकाय  
 ते (१) कर्ता (२) कार्य(३)  
 कारण (निमित्त, उपादान )  
 ( ४ ) संप्रदान ( ५ ) अपा  
 दान(६) अधिकरण.  
 कार्मण वर्गणा—बहु विधे कर्म परि  
 णामे परिणमवावाली वर्ग  
 णा सूक्ष्म चार स्पर्शवाली  
 किद्विसि—निच काम करनार (देव)  
 कुतुहल—कौतुहल, आश्चर्यकारक वि  
 विध चेष्टाओ  
 कोमाकोडी—क्रोरुथी क्रोरु गुणा  
 कंतार—अघोर जंगल सर्वे वाजुथी  
 कांटा खूचवा जेवुं जंगल  
 कृमि—नाना कीमा  
 ख  
 खट्काय—पृथ्वी आदि ठक्काय (ना  
 जीव )  
 खामणा—क्षमावना, अपराध क्षमा  
 ववो ते  
 खंति (क्षांति)—क्षमा  
 खंध ( स्कंध )—अनेक परमाणुनो

एकत्वपणे समूह पुद्गल  
 द्रव्य

ग

गणनाह--(गणनाथ)--साधुना समु  
 दायनो स्वामी, गणधर,  
 आचार्य  
 गय (गज)—हाथी  
 गर्हा—गुरु समीपे पोताना दोषोनी  
 विशेषे निंदा  
 गामीया--गामडीआ  
 गारव—गर्व. रिद्धि, रस अने शाता  
 दिनो गर्व  
 गुण--वर्याय समूह प्रवृत्तिथी थ  
 एलुं कार्य अरिहंतना  
 वार गुण (१) अनंतज्ञान  
 (२) अनंतदर्शन ( ३ )  
 अनंतचारित्र ( ४ ) अनं  
 त वीर्यलब्धि अने आठ  
 प्रातिहार्य अशोकवृक्ष,  
 सुरपुष्पवृष्टी, दिव्यद्वनि,  
 चामर, मणिमय सिंहा  
 सन, जामंरुळ, हुंदुजि  
 ठत्र  
 गुप्ति--मन वचन काया संयम का  
 र्यमां गुप्त राखवा, बहार  
 जवा देवी नहि ते

गुरुत्व-ज्ञारेपणुं, अधिकपणुं, (ज्ञानादिमां )

गोयम (गौतम)-गौतम गोत्रनो  
इंद्रचूति नामे महावीर  
स्वामीनो प्रथम गणधर

गौणताए-गुप्तपणे, गुप्त सापेक्ष  
गंठी-गांठ

घ

घहुंली-गुरु गुणावली  
घातिकर्म-ज्ञानादि गुणने घात क  
रनार चार कर्म ज्ञानाव  
रण, दर्शनावरण, मोह  
नीय अने अंतराय

च

चउनाणी ( चतुर्ज्ञानी )-मति,  
श्रुत, अवधि अने मनः  
पर्यव ज्ञानधारी.

चरण-आत्म स्वप्नावाचरण रूप  
चारित्र, जीवनो परिण  
मन रूप ज्ञाव.

चरित्तानुवाद-चारित्रनुं विशेषे व  
खाण-वर्णन.

चाउरंत-चार गतिनो अंत आणनार  
चाह-ईष्टा आतुरता.

चिदात्मरूप-ज्ञानमय रूप.

चोयणा-प्रेरणा.

चंमरूद्र-ए नामना एक आचार्य.

छ

छद्मस्थ-अपूर्ण ज्ञानी.

छेदोपस्थापनिय-दोषो छेदी फरी

चारित्र स्थापवुं ते.

छेत-आचडछेट, अचमामण.

ज

जख(यक्ष)-एक जातना व्यंतर  
निकायना देव.

जलहल-जाज्वल्यमान.

जाम-याम, पहोर, ज्यारे, महाव्रत.

जास-जेनुं.

जीपी-जीती.

जुगप्रधान ( युगप्रधान )-जग  
त्मां परम बोध दातार  
प्रधान आचार्य.

झ

झकजोल-तरवतर.

ठ

ठव्या-स्थाप्या.

त

तत्त ( तत्व )-शुरू एकपणुं.

तर्जन-तिरस्कार करवो, धिक्कारवुं.

तारुन-मारवुं, ठोकवुं, पीटवुं.

तिरि-तिर्यच, एकेन्द्रिय, बेईन्द्रिय,

त्रणईन्द्रिय, चारईन्द्रिय

तथा पंचेन्द्रिय तिर्यच

तेना जेद त्रण ठे. जल

चर, स्थलचर अने नन्न

चर, देव मनुष्य नारक

शिवायना सर्वे जीवो.

तिव्वाणुजाग ( तिव्रानुजाग )-आ

करो अनुभव रस.

तिय-त्रीजुं, स्त्रि.

तिरोजाव-गुप्त शक्ति.

त्रिकरण-मन, वचन अने काया.

त्रिपदी--उत्पाद व्यय ध्रौव्यनो

बोध.

थ

थावर ( स्थावर )-स्थिर रहेनार

केवल एक स्पर्श ईन्द्रिय

वाला एकेन्द्रिय जीवोने

स्थावर कहेवामां आवे

ठे. पृथ्वीकाय, अपकाय

अग्निकाय, वायुकाय,

अने वनस्पतिकायना

जीवो.

थिरथोज्ञ-स्थिर रहेला.

थोय-स्तुति, स्तवना.

द

दाक्षिण्यता-माहापण.

दाह-बळतरा, ज्वलन.

दिकूपट-दिगंबर.

दुहृद ध्यान-हठीलुं दुष्ट ध्यान.

दृग-दृष्टी, आंख, दर्शन.

दृष्टीविपर्यास-मिथ्यादर्शन, असत्य

निर्धारवुं ते.

दोष-दूषण, दुखवनार. सूत्रना व

त्रीश दोष विषे ढाल

पान ६३

दोहृग-दुःखदाई

दंरु-अर्थदंरु, अनर्थदंरु, हिंसा

दंरु, अकस्मात्दंरु अने

दृष्टीवक्रदंरु, एम पांच

प्रकारे ठे

द्रव्यादि चार-द्रव्य, क्षेत्र, काल

अने जाव

द्रव्यप्राण-पांच ईद्रि, त्रण चल,

श्वासोश्वास अने आयु

द्रव्यस्तव-ज्ञानादि जावधर्म प्रगट

थवानुं कारण जिनगुण

स्तुतिविगेरे

द्वादशावर्त्त-वार आवर्त्ते गुरु वंदन

ध

धर्म-दुर्गतिमां परुतां आधार आय,  
अने शुद्धोपयोगमय उ  
त्तम सुखमां स्थापन करे  
तथा जे वस्तु जे स्वज्ञा  
वने अज्ञेदपणे धारण  
करे ठे ते धर्म अथवा  
जेने आधारे वस्तुनुं  
वस्तुपणुं कायम रहे ठे  
ते धर्म. ते धर्म साधनानो  
व्यवहार अनेक प्रकारे  
ठे, तेमां द्वांत्यादि (द्व-  
मा, मार्दव, आर्यव,  
मुक्ति, तप, संजम, सत्य,  
शौच, अकिंचन ब्रह्म  
चर्य.) दश जेद मुख्य  
ठे. वळी चारित्र धर्म,  
श्रुतधर्म, आदि अनेक  
प्रकारे ठे.

धातु-आधाररूप. शरीरनी सात  
धातु रस, रुधिर, मांस,  
मेद, हाड, मज्जा अने  
वीर्य

धोरी-मार्गे दोरी जनार आगेवान  
न

नय-निति. वस्तुना यथार्थ स्वरूप

तरफ दोरी लई जनार  
-पमारुनार वचन. अनंत  
धर्मात्मक वस्तु ठे तेमांथी  
बीजा धर्मने गौणपणे  
वतावी श्रोतानी द्रष्टिने  
वस्तु तरफ दोरी वस्तु  
स्वरूप पमारुनार वचन  
तेना सात अथवा अनेक  
जेद ठे. (१) नैगम (२)  
संग्रह (३) व्यवहार (४)  
रुजुसूत्र (५) शब्द (६)  
समञ्जिरुढ (७) एवंचूत  
तेमां पहेला चार नय द्र  
व्यार्थिक ठे. केटलाक आ  
चार्यो पहेला त्रण नयने  
द्रव्यार्थिक अने पाठला  
चारने पर्यायार्थिक कहे  
ठे वली एना उत्तर जेद  
सातसो अजर अनंत ठे  
नयाज्ञास-वस्तुना अनंत धर्ममांथी  
एकज धर्मने ग्रही (बी  
जानी अपेक्षा विना )  
तेजरूपे वस्तुने कहेनार  
ते कुनय अथवा नया  
ज्ञास ठे.

नयर-नगर

नसाय-नशावे, नशावीने

निकाय-चार निकायना देव, जवन पतिनिकाय, व्यंतर नि काय, ज्योतिषी अने वैमानिक

निज्जरणा-कर्मरसनं झरवुं, वही जवुं. निर्जरा तेना बे प्रकार ( १ ) पूर्व सं चित कर्मनी स्थिति पूर्ण अयाथी तेनुं फल आपी कर्म ऊरी जाय ते अकाम निर्जरा (२) तपश्चर्या द्वारा कर्म स्थिति पूरी थया वगर कर्म ऊरी जाय ते सकाम निर्जरा

निर्यामक-वहाण चलावनार

निरतिचार-अखंरुं आझा प्रमाणे वर्त्तवुं-रहेवुं

निरय-नारकी (ज्यां बीलकुल रति नथी )

निर्विकल्प-विकल्प जेद वगरनुं, कल्पना वगरनुं

निवेद-पौद्गलीक विषय जोगथी अरुची

निस्पृह-निःकामी, पौद्गली जा वनो अणगरजु.

निक्षेप-नामादिक चार. वस्तुना वस्तुमां स्थापवा, निक्षे पवा, स्थापन करवा. (१) नाम (२) स्थापना (३) ड्रव्य ( ४ ) जाव. उप चारथी नामादि त्रण निक्षेप पर वस्तुमां पण कहेवाय ठे.

नेह-स्नेह, राग, चिकाश.

नोआगम-सिद्धांतना प्रमाणमां बीजा ग्रंथो, आगमनुं कारण.

प

पख्व ( पक्ष )-तरफपणुं तरफेण नित्यपक्ष, अनित्यपक्ष, एकपक्ष, अनेकपक्ष, ज व्यपक्ष, अजव्यपक्ष, व कव्यपक्ष, अवकव्यपक्ष, धर्मपक्ष, अधर्मपक्ष, मिश्रपक्ष, ए आदि अ नेक प्रकार ठे.

पञ्चखाण ( प्रत्याख्यान )-परवस्तु ना परिणामनो त्याग,

प्रत्याख्यान, त्याग, पंचे द्रिय विषय जोग तथा रागादि परजावनो त्याग.	ख्यादिनी पेठे ते नामनो एकत्रीशमो दोष जुध्थो आ पुस्तकनुं पा. ६५
संजोगपच्चख्खाण—साधु साधमां आहारादिकं न लेवुं ते. पजाव—पर्याय. द्रव्यमां क्रमवर्तीपणुं एटले अनुक्रमथी जे उत्पन्न थाय ठे ते.	परप्रतिबंध—अन्य द्रव्यादि साथे राग स्नेह पास वडे बं धाई संयमादिथी अट कवुं ते.
पजावठ—पर्यायार्थिक. पर्यायनी सू ख्यताए अने द्रव्यनी गौणता राखी अर्थ कहेवो ते.	परप्रत्यय—पर तरफनो, पर तरफथी परमाधामी ( परम अधर्मी )—परम अधर्मी.
पट्टधार—गादीधर. पाट गादी रा खनार.	परवमो—अति महान्. परावर्तन—जन्म मरण वडे द्रव्यादि चार प्रकारे संसारमां परिचमण.
परुठे—सरखामणी.	परिकर—परिवार, फौज.
परिचोयणा—वारंवार संयम मार्गनी प्रेरणा करवी कराववी ते	परिगल—घणीज, बेहद.
परिश्चुं—वारंवार श्चुं ते.	परिचय—संबंध, घणा लांबा का लनो संबंध.
परिबोहतो—प्रतिबोधतो, विशेषे बोध करतो.	परिणति—परिणाम.
पढम—प्रथम.	परिणामिकता—परिणमवापणुं, पर्या यांतर अवापणुं.
पदस्थ—शुद्धात्म स्वरूप चिंतवी तेमां स्थिर थवुं ते पदस्थ ध्यान.	परिअट्टना—पर्यटन करवुं, परावर्तन करवुं.
प्रयत्न दोष—अन्यथा प्ररूपणा सां	पलाल—पराल, डांगरादिनुं पराल. परखदा ( परिषद् )—सजा वार प्र

कारे ठे. देव देवी, साधुपुद्गल-वर्णादिके स्कंधादिके पूराय  
साधवी, तिर्यचादि वार गले ते.

प्रकारे तीर्थकरना समपुरिष-विष्टा.

वसरणमां देशना सांज्ञपुरुषाकार-पुरुषपणानुं पराक्रम, पुरू  
लवा चराय ठे. षनो आकार, पुरूषना

पागे-तद्धीन थाय.

पापस्थान-पापनां ठेकाणां ते अढारपुष्कलावर्त्त-महा मोटो गुणकारी  
ठे. हिंसा, मृषावाद घणा काल सुधी फल  
विगेरे. फूल आपनारो मेघ.

पासत्या-ज्ञान दर्शनादि आत्मपुष्पचूला-पुष्पचूला ए नामनी रा  
गुणने एक पासे राख जपुत्री साधवी

नार, एक बाजुए वेगला प्रतिरुप-जोईये तेवा रूपे, यथार्थ  
राखनार, कर्म पाशमां रूपे

पडेला जैन लिंग धारी कुप्रतिक्रमण-प्रमादथी थयेला पूर्व  
साधुओ. पासत्या, उ दोषोथी पाठा बलवुं ते

सन्ना, कुशिलीच्या, अहिप्रतिलेखना-द्रष्टी करी सारी रीते  
ठंदा, अने संसत्या एम जोई लेवुं, पुंजणी वने

पांच प्रकारे जैन लिंग पुंजी जीव न हणाय तेम  
धारी कुसाधुओ होय ठे. करवुं.

पीतत्व-पीळाश.

पिंडस्थ-मन वचन काया स्थिरप्रतिपन्न-पामेलो  
करी शुद्ध एकत्व निप्रतियो (प्रत्ययिक)-तरफनो

जात्म पिंडमांहे उपयोगप्रत्यय-संबंधनो, तरफनो

स्थिर करवो ते निश्चयप्रदेश-अविजागी जाग  
पिंडस्थ ध्यान. प्रमाद-गफलत वशे उपयोग चू  
कवो ते. प्रमाद पांच.

निद्रा, विकथा, कषाय, फोरववुं--फेलाववुं, जोर करवुं  
मद, विषय स्नेह व

प्रमेय--वस्तु स्वज्ञाव मर्यादा. प्रमा  
णमां आववा लायक

वीय-बीजुं, बीज

प्रयोगशा-जीव पुद्गल संयोगे  
शती क्रियाप्रयोग

बुद्धि-बोध पामी

प्रवचन--सिद्धांत

बुद्धि--चित्तनी गोठवण, युक्ति,  
मति ज्ञाननो चेद, ते विन  
यीकी आदि चार प्रकारे ठे.  
बीजी रीते बुद्धिना आठ  
गुण ठे.

प्रवर्ती--प्रवृत्ति-क्रिया-आचरण (मन  
वचन कायानुं )

प्रशमरति--कषायो दूर थवाथी उ  
पजती शांति ( आत्म  
स्वज्ञावमां ) रति

बंध-पुद्गल वर्गणा साथे आत्मा  
ए राग स्नेह चिकाशे बंधावुं  
ते चार प्रकारे ठे ( १ ) प्रकृ  
तिबंध ( २ ) स्थितिबंध ( ३ )  
अनुज्ञाग बंध ( ४ ) अने  
प्रदेश बंध.

प्रातिक-पाप.

प्रातिहारज--( प्रातिहार्य ) दोष  
गयेथी उपज्या एवा  
अत्यंत मनोहर गुणो

ब्रह्माणी--तीर्थकरोना मुखथी नि  
कलेली वाणी, शुद्ध चिदा  
नंद ब्रह्म स्वरूप बतावनार  
वाणी.

प्राह्लादता--उद्धास-परम प्रमोद  
प्लीहोदर--बरोलना रोगवाळुं पेट  
फ

फरस ( स्पर्श )--स्पर्शवुं ते, पुद्ग  
लनो गुण तेना आठ  
चेद ठे. स्निग्ध, रुक्ष, जय-बीक, डर, सात चेद ठे ( १ )  
शीत, उश्म, गुरु, लघु,  
मृडु, कर्कश

ज

फासु ( प्राशुक )--निर्दोष अचित आ  
हारादि

धन कुटुंबादि वियोगनो  
जय ते आ जव जय ( २ )  
दुर्गति गमन आदि पर ज  
वनो जय ( ३ ) प्राण नाश



थवानो जय ते मरण जय महर्षिक-महारिद्धि-शक्तिवंत  
 ( ४ ) रोगादि वडे यतो महागोप-मोटो गोवाल, जव्य जीव  
 जय ते वेदना जय ( ५ ) रूपी गौने जववनथीवाली  
 अनाथ, आश्रय विना यतो शिव नगरे पहोंचारुनार.  
 जय ते अनरक्षा जय ( ६ ) महाजय-महोटा जय  
 चोरादिनो जय ते अगुप्त महामाहण-द्रव्य ज्ञाव प्राण वचा  
 जय ( ७ ) विजली आदि वनार  
 अकस्मात् जय. महारिद्धि-मोटी रिद्धि-मोटी ल  
 विधि आठ प्रकारे ठे.

जडकता-कल्याणपणुं.

ज्ञाव-उदयिकादिक पांच प्रकारे ठे.

ज्ञावना-अनित्यादि बार प्रकारे ठे.

तथा मित्रादि चार प्रकारे

ज्ञावुं ते

जंग-जांगा, जेद, सप्तजंगी चौज

गी, त्रिजंगी आदि,

जेसज (जैषज)-औषध, दवा.

म

मग-मार्ग

मजा-बीज माहेलो मगज, हारु

कामांथी निकलतो चिकणो

पदार्थ.

मद-उन्मत्तपणुं-ते जाति लाजादि

आठ प्रकारे ठे.

मन्मथ-कामविकार-मन तनने म

थनार.

महासथ्यवाह ( महा सार्थवाह )-

जववनमां उन्मार्गे पडेला

साथने शिवमार्गे दोरी ज-

नार.

महियल-पृथ्वी उपर.

मान-अहंकार, अजिमान.

मानवत्ती-मान वडे थती कर्मव-

धनी क्रिया.

मायवत्ती-कपटवडे थती वंधनी

क्रिया.

माहण-द्रव्य ज्ञावप्राणना रक्षाक,

द्रव्यज्ञाव प्राणनी रक्षाना

उपदेशक.

मित्तदोहवत्ती-(मैत्रि द्रोहवृत्ति)

गुरुआदि मित्रो उपर द्रोह

प्रवृत्ति.

मिथ्यात्व-विपरित्वासना, विपरित्  
श्रद्धा, अयथार्थ निर्धारणं ते  
पांच ठे. एकांत, विपरित्,  
विनय, संशय अने अज्ञान  
मिथ्यात्व.

मुणंता-जाणता.

मुत्ति-निर्लोभता, निस्पृहता.

मुंदी-बंध करी, रुंधी.

मोसवत्ती-मृषावादनी क्रिया.

मोहनीय-जे वडे यथार्थ स्वरूप  
जाणवामां मुंझावुं ते, तेना  
अठावीस प्रकार ठे.

र

रढ-प्रीती.

रमण-चित्तनुं रमवुं.

रूचि-रूचवुं ते, पसंद पडवुं ते  
समकीतनी दश रूचि माटे  
जुळ पा. ३ ढाल २ जी.

रूजूता-सरलता, अवक्रता, मनो  
वचन कायनी क्रिया ने वांकी  
कुटिल न राखवी ते तथा  
कपटनो त्याग.

रूपस्थ-रूपस्थ ध्यान.

रूपातीत-रूपातीत ध्यान.

रौद्र-रोव्रा रूपाववा जेवा दुःख

उपजाववानुं ध्यान.

ल

लब्धि-शक्ति-रिद्धिनो लाज.

लब्धिवीर्य-ईद्रियो तथा अन्य का  
रण विना आत्म शक्तिनी  
प्रबल प्राप्ति.

लय-समाई जवुं.

लेश्या-पुद्गलादि वस्तु राखवा सं  
ग्रहवा जोगववा वधारवानी  
दानत.

लेश्याणी-स्नेहे बंधाई, लीपटाई.

लोकोत्तर-लोकथी बाजु-लोकथी  
अलग, अलौकिक.

लोयणा-लोचन-आंख.

लोकिक-लोकोमां वर्तती.

व

वदित्त-कहेलुं, प्ररूपेलुं.

वर्गणा-पुद्गल परमाणु मांहोमांहे  
स्निग्धता रूक्षताए वळगे  
लानो जथो. ते मुख्य उदारि  
कादि आठ प्रकारे ठे.

वर्तना-वर्तवुं चाल.

वांति-उलटी, वमन.

वारण-वारनार.

विकल्प-विशेषे कल्पना, जेद.

विगमवुं—व्यय थवुं.

विग्रह—बखेरो, जेद पारुवो.

विग्रहित—ठगायलुं, हराएलुं.

वित्ति संखेवण ( वृत्ति संक्षेपन )—

जोगववानी वस्तु टुंकाववी

ते अथवा वस्तु जोगववाने

चित्तनी वृत्ति घटारुवी ते.

विधिवाद—चारित्रादि विधिनुं कहेवुं

विनय—नमृता मृडुता युक्त विशेषे

आदर (१) अरिहंत ( २ )

सिद्ध (३) चैत्य जे देखी

शुद्ध स्वरूप चैतीये ते जिन

मंदिर प्रतिमादि (४) सूत्र

(५) द्वांत्यादि धर्म ( ६ )

द्वांत्यादि धर्मवंत साधु (७)

ज्ञानाचारादि पंचाचार दा

तार आचार्य ( ८ ) सिद्धांत

जणावनार उपाध्याय ( ९ )

प्रवचन सेववावाला संघ

(१०) समकीत. ए दशनो

विनय पांच प्रकारे करवो.

(१) बहु प्रकारे बाह्य जक्ति

नमन वंदन आदि ( २ )

हृदयमां बहु प्रेम सहित

आदर, सन्मान ( ३ ) गुण

स्तुति (४) अवगुण न बो

लवा (५) आशातना वर्जवी.

विज्ञाण—विज्ञान.

विपर्यास—उलटुं, अयथार्थ.

विप्पोसही—ए नामनी एक लब्धि

विज्ञाव—परवस्तु आदरवा जोग

ववादि परिणाम.

विज्ञावुत्पाद—रागादिकनुं उपजवुं.

विरक्त—विरक्त पुद्गलादि उपरथी

जेनी राग प्रवृत्ति उठी ठे

अने आत्म स्वरूपमां विराम

आवे ते.

विविक्त—विविक्त, योग्य विचारेदां

सय्या, वसति आसन आदि

जेम विविक्त शय्यासन

विषयी जीवोना संचार

रहित स्थानमां सूवुं वेसवुं ते

विश्रसा—सहज स्वजावे थावुं ते

वीरजवंत—वीर्यवंत, शक्तिवंत.

वीर्य—शक्ति, बल.

वेदोदय—स्त्री, पुरुष, नपुंसक वे

दनो विपाक आववो ते.

विक्रिय—अनेक प्रकारनी विशेषे

क्रिया करी शके एवुं.

विक्रिया—शरीरना रोग विकारो.

वैतरणी-नरक श्रंदर रूधिर परू  
रूपे खळखळता उष्ण प्रवा  
हवाली नदी.

वैयावच्च (वैय्यावृत्य)-विशेषे प्रीति  
सहित प्रतिपालन जेम गाय  
वाठरका उपर करे तेम. पूज्य  
पुरूषोनी सेवा चाकरी  
करवी ते.

वोदाण-तपथी प्रगट थतो गुण.

व्यपदान-जुळ वोदाण.

व्यवहारीळ-वाणीळ.

व्यसन-बुरी टेव, सात ठे जूआ  
(जुगार), मदिरा, मांस ज  
क्षण, वेश्या गमन, आहेडी  
आदि हिंसा, चोरी परस्त्री  
परपुरूष सेवन.

श

शक्य-साल, कपट, मिथ्यात्व, नि  
दान ए त्रण हृदयमां रहेलां  
होय ते.

शाल-साल, डांगर, शाल.

शुद्धोपयोग-निर्मल ज्ञान दर्शन  
रूप लक्ष.

सुश्रुषा-सुख शातानी संजाल.

श्लेषम-सलेखम, कफ, मगजनो

मेल.

स

समणोपासक (श्रमणोपासक)-  
श्रमण जगवंतनी सेवामां हा  
जर रहेनार, श्रावक.

सत्त्व-सार, शक्ति, ठत, धैर्य  
सत्ताचूमि-वस्तुनी शक्ति रहेवानुं  
स्थानक, ठती पर्याय रहे  
वानुं स्थानक.

सदागम-शुद्ध नये आगम.

सनुरो-तेजवंत.

सन्निवेश-शहेर बाहार मेदाननी  
वसति.

सफोदर-सोजावालुं पेट.

समकीत-सम्यक् प्रकारे नव तत्वनी  
प्रतिति श्रद्धा, जीवनो श्रद्धा  
न रूप जाव.

सम बोलतां-कूरु कपट वक्रता  
रहित सीधुं बोलवुं ते.

समय-द्रव्यनां लक्षणो द्रव्यमय अ  
जिन्न, अने एहवा शुद्ध  
जावने प्ररूपनार केवलीना  
वचन, जेम ज्ञान दर्शन  
चरणमय एक अत्तेद शु  
द्धात्म स्वरूप मांहे स्थिर

रहेवुं ते समय अने एनीज शुद्ध प्ररूपणा करनार जिनेश्वरनुं वचन ते पण समय.	सङ्ज्ञाय-शुद्धात्म स्वरूपमां ध्यान आवे एहवा आत्म अधि-कारनुं वाचना, पृष्ठना, पर्यटना अनुप्रेक्षा अने धर्म कथानुं करवुं ते.
समवसरण-सम अवसरे त्रणसो त्रैसठ पाखंकीजनुं तथा बार परिषदनुं तीर्थकर समिपे मलवुं.	सापेक्षपणे-उपादान कार्यरूपमां आवे एवी अपेक्षा सहित. जिनेश्वरनी आज्ञाना अधि कार सहित.
समवाय-वस्तुना स्वजाति अनंत लक्षणनुं वस्तुमां अनादि एकत्व पणे रहेवुं ते.	सामलीतरु-सीमलाना झारुने आकारे नरकमां ए जातनां वृद्ध सामान्यस्वभाव-घणां द्रव्योमां सरखी रीते जे स्वभाव होय ते. अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, अने सत्त्व.
समवाय-वस्तु स्वभाव, पूर्व कर्म, उदय, त्रवितव्यता, काल, अने उदयम ए पांचनुं एकठा पणुं ते समवाय.	सारण-संजाल राखवी ते.
समादान-पापनें सारी रीते ( जो शथी ) ग्रहण करनार परिणाम.	सावद्य-जीवना द्रव्य भाव प्राणनी हाणी थाय एवी (मन वचन कायनी प्रवृत्ति)
समाधारण-मन वचन कायाने सम स्थिर धारण करी राखवुं ते राग चपलता रहित.	सासय-शाश्वत सर्वे समये स्वतः रहेनार.
संमूर्तीम-गर्जविना उपजता मन संज्ञा वगरना जीवो.	शाश्वत-जुथो " सासय " शब्द सिद्धि-सिद्धिने.
सयोगी केवली-मन वचन कायाना योग सहितना केवलज्ञानी.	सिय-स्यात्--कथंचित् प्रकारे.
सय्यासन-वेसवानुं तथा सुवानुं आसन.	सुअप्पा-पोतानो आत्मस्वभाव.

सुई-सोय.

सुत-सूत्र.

सुमति (समिति) - यथार्थ समपणे प्रवृत्ति पांच प्रकारे ईरिया, ज्ञाषा, एषणा, आदान निक्षेपण, मलादि परिठवणा-एटले सावधानथी जवुं आवुं, हितरुप वचन, योग्य आहारनुं ग्रहण, यत्नापूर्वक देवुं मूकवुं ते, प्रांसुक चूमि उपर मलादि परिठवुं ते.

सुर- देव, सूर्य.

सेढी-श्रेणी निसरणी

सैलेशीकरण--मन वचन कायाना जोग शीलानी पेठे स्थिर करवा ते.

संज्वलन--क्रोधादिके चित्तनुं थोडुं थोडुं दाझवुं ते.

संस्थान--आकार.

संथारक--संथारो करनार

संपदा--रिद्धि.

संजोगपच्चखाण--अन्य साथे नहि जमवुं ते.

संलाप--बहुवार बोलवुं ते, वारंवार बोलवुं ते.

संपराय--कषाय.

संवर--कारणो वळे अंगर विना

कारणे आत्म उपयोगथी चलवुं नहि ते, राग द्वेषादि आत्म परिणाममां आववा देवा नहि अथवा न आवे एवी संजाले वर्त्तवुं ते.

संवेग--मोक्ष अजिद्वेषा

संसर्ग--परिचय.

स्वतंत--स्वतंत्र, पारका ताबा वगरनुं.

स्वसाध्य--सिद्ध सरखुं साधवा लायक पोतानुं स्वरुप.

स्वसंवेदन--पोताना ज्ञानवळे जाणवुं ते.

सामीवञ्जल--साधमीनी सुख शातानी संजालमां रहेवुं ते.

ह

हय--घोसो.

हीलवुं--निंदवुं, धिक्कारवुं.

हेय--तजवा लायक.

द

दायक ठगस्थ--केवलज्ञान विना ना दायक चारित्रवंत, बार मा गुणस्थानवाला जिन.

दायक समकित--मिथ्यात्व दाय थ यार्थी प्रगटेलो आत्मगुण.

इ

इय--जाणवाजोग वस्तुओ.

	पृष्ठ.	मी वच्चे प्रश्नोत्तर	३८—४८
अ		क्रोध अधिकार	१५८
अजीव अधिकार	१४५		पृष्ठ
अनार्थी मुनिनी सङ्गाय	३२—३७	ख	
अरति अधिकार	१६९	खामणांनी सङ्गाय	९७
अविनयी जीवनां चौद स्थानक	६६	ग	
आ		गर्हाफल ढाल ४ थी	१५
आत्म जावना पद ११ मुं	१०७	गुणावली	८१—९६
आरति पद ३६ मुं	१२५	गुरू विनय घडुंली ११ मी	९३
आवश्यकना जेद	२२२	गुरू शिक्षा पामवानां आठ	
आवश्यक पद १३ मुं	१०९	स्थानक	७०
आश्रव अधिकार	१५१	च	
उ		चारित्र जेद ढाल ३ जी	५
उत्तराध्ययन अध्ययन अठावी		चेतन होरी पद ५१ मुं	१३२
शमुं मोक्ष मार्ग	१—८	चैत्यवंदन परचुरण	१४०—१४२
उत्तराध्ययन अध्ययन उंगण		चैत्यवंदन चोवीश जिननां	
त्रीशमुं सम्यक् प्राक्रम	९—३१	अर्थ सहित	३११—३५३
क		चंद्र प्रचु स्तवन	१०२
कषाय विचार ढाल १४ मी	२९	ज	
काउसगगनुं फल ढाल ५ मी	१६	जिन वचन जे दोषथी रहित	
कामना आश्रव अधिकार	१७२	ढे ते वत्रीश दोष	६३—६५
कारक ठ, ज्ञान गुणनां	३०३	जिन वाणी घडुंली ३ जी,	
क्रिया तेर	४९—५८	४ थी तथा ६ठी	८३—८५—८७
केशी स्वामी अने गौतम स्वा-		जिन वाणी पद ३९ मुं	१२६

जिनेश्वर अठार दोषथी रहि		मर्म क्यारे खोलवो पद २० मुं	११५
तनुं स्तवन	१०१	महावीर स्वामीनुं स्तवन	१०१
जीव तत्त्व	१४४	मान अधिकार	१६१
त		माया अधिकार	१६१
तप बाह्य अन्तर बार जेदे		मुनि धर्म विचार	१०-१५
ढाल ४ थी	७	मोक्ष अधिकार	१००
द		मंगलीक कार्यनुं स्तवन	१०१
दर्शन अधिकार ढाल १ जी		मंगलीक दिवो	११५
सम्यक्तनी दश रूचि सहित	३	र	
डुगंठा आश्रव अधिकार	१७२	रति अधिकार	१६९
न		रस नव ( नव रस गर्जित	
निर्जरा तत्त्व अधिकार	१७४	स्तवन ) पद १० मुं	१०६
नवविधोपचार	पद ए मुं १०४	ल	
न्याय अधिकार	१४६	लब्धि अष्टावीश	७१-७२
प		लोच अधिकार	१६७
परचुरण स्तवन तथा पद ए७-१४२		व	
पर्युषण पर्व	पद ४० मुं १३१	विनय बावन प्रकारनो घहुंली	
पुण्य पाप अधिकार	१४५	१ ली	०१
प्रज्ञातीयां	११०-११२	विनय विचार ढाल ३ जी	१३
प्रक्षु देशना	१०३	विनय विचार घहुंली ५ मी	०३
ब		विनयी जीवनां पंदर स्था-	
बंध तत्त्व अधिकार	१००	नक	६७-६८
ज		विषयनी सइझाय	१३६
जय अधिकार	१६९	विषय विचार ढाल १३ मी	१७
म		श	



शुद्धोपयोग पद ए मुं	१०५	राखेला चोवीश बोल	५६-६३
शुद्ध चाव तोत्तेर ढाल १ ली	ए	सुबोध प्रकाशक ठंड	१४३-१८१
शोक अधिकार	१७२	संजम ढाल ७ मी	१८
श्रुत पद घहुंली २ जी	८२	संवर अधिकार	१५१
श्रुतज्ञान ढाल १ ली तथा		संवेग अर्थ ढाल २ जी	१२
बीजी	ए५-ए६	स्तवन	ए५
स		स्तवन चोवीश जिननां	
सद्बोध अष्टोत्तरी	७२-८१	अर्थ सहित	१८३-३०५
सद्ज्ञाय	ए८	स्तवन श्री महावीर स्वामीनुं	
साधु गुण घहुंली १४ मी	१३५	अर्थ सहित	३६०-३६७
साधुनुं आगमन घहुंली १२ मी		स्तुति चोवीश जिननी	३५४-३५८
तथा १३ मी	१३४	स्तुति नवपदनी	३५८-३६०
सुत्र रचतां गणधरे ध्यानमां			

## शुद्धि पत्र.

पृष्ठ	लीटी	अशुद्ध	शुद्ध
१०१	११	सुमती रंग	विमल सुरंग
१३१	१८	शर्म	सर्व
१६७	३	लोचको	लोचहि





